

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2018 (अग्रहायण 3, 1940)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2018

सं. ए.12012/1/सहायक निदेशक(बीजलेख)/2017-प्रशासन-II—इस निदेशालय के श्री सुख दास, संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) को दिनांक 19.09.2018 से सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (पूर्व संशोधित रु. 15600—39100/- वेतन बैंड-3, ग्रुप 'ए', ग्रेड वेतन रु. 5400/-) में नियमित रूप से पदोन्नति किया जाता है ।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

घन श्याम
उप-निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल
कोलकाता-700001, 24 अक्टूबर 2018

सं. PAGAEWB/02/02/97/2018-19/406—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के दिनांक 22.10.2018 के आदेशानुसार श्री कौशिक कुमार दत्त, सहायक लेखा अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 के पे मैट्रिक्स के स्तर 09 एवं सामान्य भत्तों सहित प्रभावी दिनांक 01.11.2018 (पूर्वाहन) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक जो भी बाद में हो, से लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

ह./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 1 नवम्बर 2018

सं. 5/1/2018-सी.पी.आई.—सितम्बर, 2018 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001-100) 301 (तीन सौ एक) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

अमृत लाल जांगिड़
उप निदेशक

संस्कृति मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700 016, दिनांक 31 अक्टूबर 2018

सं० 4-402/2018-स्था०—निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के मुख्यालय, कोलकाता में संलग्न श्री गौतम कुमार मल्लिक, अनुसंधान सहयोगी (सांस्कृतिक) को सहायक मानवविज्ञानी (सांस्कृतिक), ग्रुप-बी (राजपत्रित) वेतनमान पे बैंड पीबी-2 (9300—34800) (संशोधित) ग्रेड पे - ₹० 4600 (पूर्व संशोधित) तदनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल-07 (संशोधित) के पद पर उसी केन्द्र में पूर्वाहन 10.10.2018 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एम. शशिकुमार
कार्यालय अध्यक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

निम्न विवरण अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1) के अंतर्गत कम्पनी के नामों को हटा देने के मामले में।

कानपुर-208001, दिनांक 14 नवम्बर 2018

सं. एलसी/248(1)/553—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के तहत वो कम्पनियां जिनके नाम की सूचीसंलग्न है उनकी कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यसाय शुरू करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण को नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है। तदनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रार से उपरोक्त उल्लिखित कम्पनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

यदि किसी व्यक्ति को कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी अपत्ति भेज सकता है।

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
1	U24233UP2015PTC075339	एलाना केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2	U24233UP2015PTC075188	फुलवारी ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड
3	U24233UP2015PTC075006	सुबाला लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U24233UP2015PTC070830	स्काईलैक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
5	U24233UP2015PTC069368	ईश्वर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U24233UP2014PTC064578	बेलाक इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
7	U24233UP2011PTC044526	गामा मेडिकेम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
8	U24233UP2010PTC042884	डायपासोर मिरर टच प्राइवेट लिमिटेड
9	U24231UP1991PTC012978	नॉक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U24215UP1988PTC009473	कान्ती शान्ती डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U24139UP1985PTC007414	विर्नस रबर प्राइवेट लिमिटेड
12	U24123UP2001PTC025829	कन्हैया एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
13	U24110UP2016PTC087042	एसएमडीलाइफ साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
14	U22222UP2015PTC069527	अपना मीडिया फोक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U22222UP2013PTC059351	न्यूस फ्लैश मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	U22222UP2013PTC056442	डिलिजेण्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
17	U22222UP2012PTC053800	हस्तक्षेप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	U22219UP2018PTC104230	मॉनिंगसिटी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	U22211UP2013PTC060661	सॉसकी इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	U21098UP2010PTC041667	पेपिर्यस फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U19120UP2011PTC043835	वानपुर टेनरीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
22	U18209UP2016PTC087132	न्यूफ्लैग्ड ट्रेण्डस प्राइवेट लिमिटेड
23	U17299UP2017PTC091512	त्रिपाठिग क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड
24	U16003UP1997PTC022907	सिंहानिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U15400UP2014PTC061676	संगम एग्रीफूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
26	U15400UP2013PTC060813	क्षीर बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
27	U01110UP2016PTC084637	रतन प्रिया आरगैनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U01119UP2016PTC083322	रूद्राग्रिन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
29	U01120UP2016PTC082975	अभय आरगैनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U01400UP2014PLC061817	इंद्राणी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड
31	U01403UP2011PLC044895	रेसी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
32	U01403UP2011PTC046528	नंदिनी एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
33	U01403UP2011PTC047166	सुनहरा कल सुगंध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
34	U01403UP2012PTC053534	वर्षाटाइल एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
35	U10200UP2016PTC087201	एसएसआरडी माइनिंग एण्ड काप्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
36	U14220UP2016PTC075784	श्री नारायण माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
37	U15122UP2012PTC050656	अपुल फूडस प्राइवेट लिमिटेड
38	U15122UP2013PTC057640	इम्पायर इंडोफूडस प्राइवेट लिमिटेड
39	U15122UP2015PTC072664	फलेवरेवेन्यू फूडस प्राइवेट लिमिटेड
40	U15129UP2017PTC090714	वेंडी फूडस प्राइवेट लिमिटेड
41	U24233UP2016PTC075483	एक्सेनियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
42	U24296UP2016PTC082942	एनवीके फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U25190UP2014PTC063906	शीतलरामा प्लास्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
44	U26912UP1998PTC023535	संकल्प एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U26960UP1991PTC012883	पराशर ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U26960UP2015PTC069002	ए बी बाथफिट प्राइवेट लिमिटेड
47	U27100UP2014PTC062402	विश्वेश्वराय इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
48	U27104UP1988PTC009347	वैराइटी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U27104UP2006PTC031443	जय सैनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
50	U28112UP2011PTC043314	गोरखपुर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
51	U28112UP2014PTC063774	डोरलाइन लाक्स एण्ड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड
52	U29119UP2016PTC083561	एनिको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
53	U29211UP1999PTC024613	श्री कृष्णा डीजल्स इंजन प्राइवेट लिमिटेड
54	U29253UP2015PTC068746	इओले वाटर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
55	U29308UP1926PLC000316	अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाय कं० प्राइवेट लिमिटेड
56	U30005UP2010PTC039694	शिशिन टेक्नो एसोसियेटेड प्राइवेट लिमिटेड
57	U31101UP1973PLC003818	प्रिंटिंग मशीन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
58	U31900UP2016PTC085830	हाईटेक सोलर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U31908UP2015PTC071516	मैक पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
60	U31908UP2015PTC073028	शुभ स्वास्तिक होम एप्लायन्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U31908UP2016PTC075479	हमसिनी सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
62	U32109UP2014PTC062844	एबेनिको लाइट्स सिल्वरलीफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U33110UP2009PTC038797	सिल्वरलीफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U33111UP2015PTC072924	रेडेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U33201UP1972PTC003593	फैरिटस एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U36109UP2016PTC087704	कल्चर विण्डो प्राइवेट लिमिटेड
67	U36993UP2011PTC044691	एम्बिक रैमिडीस प्राइवेट लिमिटेड
68	U37100UP2009FTC037924	मैरिस एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
69	U40300UP2016PTC086333	व्हाट्सफेयर इर्नजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
70	U45101UP1996PTC019502	कार्बेट काउन्ट्री रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
71	U45201UP1990PTC011940	ट्रम्प सीमेंट एण्ड कान्सट्रक्शन कं० प्राइवेट लिमिटेड
72	U45201UP1992PTC014004	ओथ काम्बिन प्राइवेट लिमिटेड
73	U45201UP1996PTC020908	दशमेश कान्सट्रक्शन एण्ड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	U45201UP2005PTC029502	टोपेण्ड कान्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
75	U45201UP2005PTC030449	उमिला शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U45201UP2005PTC046485	ग्यानचंदानी हादसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
77	U45201UP2006PTC031305	श्री हरी सिविलटेक प्राइवेट लिमिटेड
78	U45201UP2006PTC032407	श्री सागर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड कान्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
79	U45201UP2014OPC064903	वी डीम कान्सट्रक्शन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
80	U45201UP2014PTC062189	विब्रान्त इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U45400UP2013PTC059442	कानफियेन्स हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
82	U45400UP2013PTC059631	एक्यूमेन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U45400UP2014PTC065233	कातिक बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
84	U45400UP2014PTC065814	मार्ग दाद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
85	U45400UP2014PTC066868	सी4एस कान्सटक्शन प्राइवेट लिमिटेड
86	U45400UP2014PTC067401	संतुष्टि इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U45400UP2016PTC084314	इमोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
88	U45401UP1993PLC015573	श्री श्याम इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
89	U45500UP2016PTC084691	आरुश एण्ड हर्षित कान्स्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U50102UP2004PTC028523	श्री रामबली मोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
91	U50500UP2017PTC091018	न्यू एबीएस सेल्युशन आटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U51101UP2012PTC052286	ओएके लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
93	U51101UP2012PTC053702	जीपी रिटेलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
94	U51101UP2013PTC054770	एसोसियेटेड फैंडस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
95	U51101UP2013PTC055323	वाइस मू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U51101UP2013PTC057802	बालाजी डिवाइन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U51101UP2015PTC073769	मिनडोस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
98	U51101UP2016PTC077078	तलन एकजम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
99	U45400UP2011PTC047517	महेश इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
100	U45400UP2011PTC047521	महेश इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U45400UP2012PTC050652	जीएस इन्फ्राइस्टेटप्राइवेट लिमिटेड
102	U45400UP2012PTC051882	एलएसआरएस रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
103	U45400UP2013PLC057632	सूर्यदर्शन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
104	U45400UP2013PTC055586	केआरएस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
105	U45400UP2013PTC055691	प्लाजाप्लस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
106	U45400UP2013PTC058501	विजय कुमार यादव कान्स्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड
107	U45400UP2013PTC059287	साई भगवान इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
108	U45202UP2014PTC063860	आकर्षकमल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
109	U45202UP2014PTC063996	एवीएस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
110	U45202UP2014PTC064411	ला-इम्प्राटेल पॅक्स एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड
111	U45203UP2016PTC086428	टीटीडी रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
112	U45204UP2013PTC060459	असरानी हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
113	U45309UP2016PTC083091	प्रतीक इन्फ्रासेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
114	U45400UP2009PLC038733	एलिएन्स टाउनप्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
115	U45400UP2009PTC038156	अमन इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड
116	U45400UP2010PTC040869	टेकरीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
117	U45400UP2011PTC043921	शंकर इन्फ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
118	U45201UP2014PTC062814	एमएसएस इन्फ्राटेक पावर प्राइवेट लिमिटेड
119	U45201UP2014PTC064776	स्वास्ति वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
120	U45202UP2013PTC061050	बालाजीशक्ति कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
121	U55204UP2016PTC076609	खण्डेलवाल हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
122	U63022UP2004PLC028576	सूरज शीतालय प्राइवेट लिमिटेड
123	U63030UP2017PLC094076	इण्डोस्पायर जर्नी प्राइवेट लिमिटेड
124	U63090UP2009PTC036727	दुर्जय इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
125	U63090UP2010PTC042514	इदीवेयर ट्रेवेल्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U63090UP2011PTC043675	फलकान एयरव्याजेस प्राइवेट लिमिटेड
127	U63090UP2014PTC067183	जीके ग्लोबल टूर प्लानर प्राइवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
128	U63090UP2015PTC070946	नोमैडिक हालीडे सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
129	U64204UP2012PTC050573	हैवी टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
130	U64204UP2013PTC058971	एडेप्टवीजन टेक्नोलॉजिस एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
131	U64204UP2015PTC071661	श्री नारायण कामटेक प्राइवेट लिमिटेड
132	U65110UP1993PTC015478	जेपी हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
133	U65921UP1925PTC000288	जैन एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
134	U65923UP2015PLC071061	आयुष एण्ड निधि लिमिटेड
135	U65991UP2014PLC066678	यूनिटी म्यूचुअल निधि लिमिटेड
136	U65991UP2014PLC066898	पंचमुखी निधि प्राइवेट लिमिटेड
137	U65991UP2015PLC073300	आंचल इण्डिया निधि लिमिटेड
138	U67190UP1995PTC018380	डेयरी फन फूडस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U55204UP2013PTC054524	तथागत होटल प्राइवेट लिमिटेड
140	U55204UP2014PTC065205	ग्रैनो इन्स एण्ड सूट्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U55204UP2015PTC070742	एनएमएस रिसार्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
142	U51102UP1998PLC023186	डायनामिक पब्लिकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
143	U51109UP1987PTC009203	सपना पैलेस टाकीज प्राइवेट लिमिटेड
144	U51226UP1997PTC022525	मां कात्यायिनी इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
145	U51397UP2005PTC030069	मैपेल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U51909UP2016PTC087936	केयरफुल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U51909UP2018PTC102480	इलूमाइन कार्समैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U52100UP2009PTC039058	कमला आहार सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
149	U52100UP2012PTC050699	हीरावाला ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
150	U52100UP2012PTC054230	अज्ञानयाकपा मार्केटिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
151	U52100UP2014PTC064893	लुनार ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U52100UP2014PTC066875	इलेक्ट्रिक काफेट्स प्राइवेट लिमिटेड
153	U52100UP2015PTC072908	किमिन् आनलाइन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
154	U52392UP2005PTC030211	पिक्सेल कन्सल्टिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
155	U52601UP2016PTC087965	आनलाइन सेल्यूनिक्शन प्राइवेट लिमिटेड
156	U52609UP2016PTC084834	लोकल मेडिकल स्टोर मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड
157	U52609UP2017PTC091367	चौधरी लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
158	U55101UP1992PTC014021	पुरुषोत्तम होटल प्राइवेट लिमिटेड
159	U55101UP2005PTC029433	अपना होटल एण्ड रेस्टोरांट प्राइवेट लिमिटेड
160	U55101UP2016PTC084569	अरुणविजय हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
161	U70100UP2013PTC061073	रुद्र शिवा इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
162	U70100UP2013PTC061384	आर के अमान इंफ्रा बिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
163	U70100UP2014PLC063175	रियल ग्रीन रियल स्टेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
164	U70100UP2014PTC062368	सेलीब्रस इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
165	U70100UP2014PTC062510	एसोटेक डीम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
166	U70100UP2014PTC062639	स्टार्क रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
167	U70100UP2014PTC062904	लक्समिडास इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
168	U70100UP2014PTC063462	वासुदेवकृष्णा इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड
169	U70100UP2014PTC063463	वासुदेवकृष्णा रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
170	U70100UP2014PTC063470	एसजेएन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
171	U70100UP2014PTC063542	द्विलाजी स्ट्रक्चरस प्राइवेट लिमिटेड
172	U70102UP2010PLC041926	वेकेएस इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड
173	U70102UP2010PTC041098	शिवमटेक कान्सट्रक्शन एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
174	U70102UP2011PLC046892	धेनु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
175	U70102UP2011PTC043714	आईपी ओमजा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
176	U70102UP2011PTC043897	ब्रह्मा इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
177	U70102UP2011PTC045800	श्री साई बाबा लैण्ड प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड
178	U70102UP2011PTC045873	प्रभू इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
179	U70102UP2011PTC046407	शुभी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
180	U70102UP2011PTC046572	यदूवंशी कोलोनाइर्जस प्राइवेट लिमिटेड
181	U70102UP2011PTC046589	यदूवंशी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
182	U70102UP2011PTC047875	प्रभू इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
183	U70102UP2012PTC049142	रियलिस्टिक लैण्डमार्क प्राइवेट लिमिटेड
184	U70102UP2012PTC049146	डान इण्टरप्रासेस प्राइवेट लिमिटेड
185	U70102UP2012PTC049198	रायल अवध लैण्डमार्क प्राइवेट लिमिटेड
186	U70102UP2012PTC050569	पीबीएडी इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
187	U70102UP2012PTC050853	स्पर्श इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
188	U70102UP2012PTC051661	राजधानी इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
189	U70102UP2012PTC051719	ओजे इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
190	U70102UP2012PTC051948	कामरेड रियलर्टस प्राइवेट लिमिटेड
191	U70102UP2012PTC052007	अर्थ इंफ्राटाउन प्राइवेट लिमिटेड
192	U70102UP2012PTC054391	सिनोयुम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
193	U70102UP2013PLC059506	सेवियर रियलस्टेट लिमिटेड
194	U70102UP2013PLC059670	देवाश्रेय इंफ्राबिल्ड लिमिटेड
195	U70102UP2013PTC054739	मिनरेटस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
196	U70102UP2013PTC057066	शामियाना रियलर्टस प्राइवेट लिमिटेड
197	U70102UP2013PTC057166	कैसेलप्रीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
198	U70102UP2013PTC057556	थ्रीक्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
199	U70102UP2013PTC057968	पीडीएम टेक प्राइवेट लिमिटेड
200	U70102UP2013PTC058034	अनिका रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
201	U70102UP2013PTC058216	बापू प्लानर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
202	U70102UP2014PLC065987	स्काईस्टार इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
203	U70102UP2014PTC065379	राहुलगोल्डेन इंफ्राटेक रियल प्राइवेट लिमिटेड
204	U70102UP2014PTC066240	जेनकान इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
205	U70102UP2014PTC066732	जेएसएसआर स्काईहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
206	U70102UP2014PTC067815	एसडीएस इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
207	U70102UP2014PTC067841	सुपरवीजन इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
208	U70102UP2015PLC075282	यूएस इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U70102UP2015PTC068127	आरिन्डम भूमि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
210	U70102UP2015PTC068410	अक्सरा बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड
211	U70102UP2015PTC070159	लाला मानसराम रीयल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
212	U70102UP2015PTC071732	परमहंस इंफ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
213	U70102UP2015PTC072399	प्रोपेक्स कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
214	U70102UP2015PTC072671	सनातन बिल्डजोन प्राईवेट लिमिटेड
215	U70102UP2015PTC072816	हनुमान क्रिपा इन्फ्राडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
216	U70102UP2015PTC073919	एसएसएच इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
217	U70102UP2015PTC073994	आकाशदीप इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
218	U70102UP2015PTC074369	ओजसविनलाईफ डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
219	U70102UP2015PTC074918	अहमद बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
220	U70102UP2016PTC075555	सिल्वर मैन रीयल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
221	U70102UP2016PTC077376	सम्बद्धी हाउसिंग एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
222	U70109UP2016PTC083390	सिद्धीद्रात्री अर्थ मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
223	U70109UP2016PTC084282	डायल 4 प्रापर्टी प्राईवेट लिमिटेड
224	U70109UP2016PTC088069	स्टोन विला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
225	U70200UP2017PTC095936	नित्यानन्द आश्रम प्राईवेट लिमिटेड
226	U72110UP1997PTC022096	नरेश कूरुगेटेड बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
227	U72200UP2016OPC082952	अरविन्दम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)
228	U72200UP2016PTC083645	बेस्टमबेस्ट इन्टरनेट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
229	U72300UP2006PTC031201	ओम हरी इन्फोसाल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
230	U72300UP2012PTC051112	एचक्यूवीएफएक्स कम्प्यूटिंग लैब प्राईवेट लिमिटेड
231	U72300UP2012PTC051905	क्वादरा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
232	U72300UP2013PTC058625	विबरान्त इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
233	U72300UP2013PTC059849	एकेएस टू रे टेली इन्फो प्राईवेट लिमिटेड
234	U72300UP2014PTC065272	टेक्नोकैटिक ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड
235	U72300UP2014PTC065763	गियरान आईटी साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
236	U72300UP2014PTC066533	वाईबे लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
237	U72300UP2014PTC066609	अदियूट्रिक्स आनलाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
238	U72300UP2014PTC066905	अपोगी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
239	U72300UP2015PTC068776	अडिक्टो टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
240	U72300UP2015PTC069726	डीजेपी टेक्नोलाजी प्राईवेट लिमिटेड
241	U70102UP2013PTC058216	काम्ब आई साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
242	U70102UP2014PLC065987	फेलिक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
243	U70102UP2014PTC065379	रामपाल सिंह मुख्तार अहमद साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
244	U70102UP2014PTC066240	आलरिक इन्फारमेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
245	U70102UP2014PTC066732	पिकजेट साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
246	U70102UP2014PTC067815	आईटिरियम ग्लोबल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
247	U70102UP2014PTC067841	स्वारलाईट टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
248	U70102UP2015PLC075282	बी 2 एम ग्लोबल साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
249	U70102UP2015PTC068127	निधि डिजिटैलिबी प्राईवेट लिमिटेड
250	U70102UP2015PTC068410	एसएनएम डिजिटल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
251	U70102UP2015PTC070159	रिच्युअल टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
252	U70102UP2015PTC071732	डोमैनसोपर्स (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड
253	U70102UP2015PTC072399	टेक्साउन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
254	U70102UP2015PTC072671	सिनापिया टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
255	U70102UP2015PTC072816	प्राविस बिजनेस साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
256	U70102UP2015PTC073919	एम वेब टेक प्राईवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
257	U70102UP2015PTC073994	अरजनएक्स साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
258	U70102UP2015PTC074369	सम्प्रीती इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
259	U70102UP2015PTC074918	मिस्टीरियस बिजनेस साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
260	U70102UP2016PTC075555	जिनीब्रैन प्राईवेट लिमिटेड
261	U70102UP2016PTC077376	स्टाइगसिस टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
262	U70109UP2016PTC083390	राईजिंग स्टार मल्टीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
263	U70109UP2016PTC084282	गोल्डेनमैचा टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
264	U70109UP2016PTC088069	अपना प्रोडक्शन एण्ड प्रिन्टमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
265	U70200UP2017PTC095936	लालचन्द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
266	U72110UP1997PTC022096	लार्डबुद्धा शेयर्स एण्ड सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
267	U72200UP2016OPC082952	एचपी मल्टीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
268	U72200UP2016PTC083645	जेट स्टार ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट आफ मर्चेंट नैवी प्राईवेट लिमिटेड
269	U72300UP2006PTC031201	समरिद्धी फिल्म को प्राईवेट लिमिटेड
270	U72300UP2012PTC051112	सैनटिनो बुक्स सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
271	U72300UP2012PTC051905	सीमीइन्डिया इन्टर प्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
272	U72300UP2013PTC058625	नेक्स्ट आरवित वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
273	U72300UP2013PTC059849	आक्सा टुबैको प्राईवेट लिमिटेड
274	U72300UP2014PTC065272	एमबीएससी प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
275	U72300UP2014PTC065763	सुपर बायोफ़ेश प्राईवेट लिमिटेड
276	U72300UP2014PTC066533	3एमबी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
277	U72300UP2014PTC066609	टरबोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
278	U72300UP2014PTC066905	सोशल ग्रीन इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
279	U72300UP2015PTC068776	गाईनियोलाईफ साईन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
280	U72300UP2015PTC069726	टियारा इन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
281	U74120UP2015OPC071312	नारायनसिंह सिक्योरिटी सर्विसेज (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड
282	U74120UP2015PTC068543	ट्रोल इण्डिया मल्टी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
283	U74120UP2015PTC068748	विजयालक्ष्मी सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
284	U74120UP2015PTC068956	कैपिज प्रीकास्ट साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
285	U74120UP2015PTC068964	मनीभूषण गेम्स एण्ड ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड
286	U74120UP2015PTC069378	आद्याशक्ति ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
287	U74120UP2015PTC069581	ईडलिनएक्स प्राईवेट लिमिटेड
288	U74120UP2015PTC069729	इंडोसेन्ट आनलाईन साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
289	U74120UP2015PTC070603	सेल्समार्ट सिकिल डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
290	U74120UP2015PTC071298	लेवीनेशन ई-टेक प्राईवेट लिमिटेड
291	U74120UP2015PTC071670	गुलमोहर इन्सेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
292	U74120UP2015PTC071812	खदर रिटेल एण्ड इक्पर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
293	U74120UP2015PTC072525	अरू एडवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
294	U74120UP2015PTC072857	रीयल अर्थ जियो टेक प्राईवेट लिमिटेड
295	U74120UP2015PTC075288	एडीएडी फिनवेस्ट कन्सल्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
296	U74120UP2016PTC075471	रोबोस्टार्ट टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
297	U74120UP2016PTC076139	रेनेवल इण्डिया इण्डस्ट्रीयल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
298	U74120UP2016PTC076369	बैली हू लैब्स साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
299	U74120UP2016PTC076697	मैकजोक्कू टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
300	U74120UP2016PTC077303	माईक्रेस्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
301	U74120UP2016PTC077346	जैसपर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
302	U74140UP1989PTC010726	इन्जटेक इन्जिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
303	U74200UP2010PTC041048	सिनर्जिक ग्रीजटेक प्राईवेट लिमिटेड
304	U74210UP2008PTC036305	श्री साईशिव इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
305	U74900UP2008PTC036117	सिल्वर स्पीयर साल्यूशन्स एण्ड मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
306	U74900UP2009PTC037983	न्यूमेरो यूएनओ रीयल स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
307	U74900UP2010PLC042040	बोन्ने फारच्यून इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्राईवेट लिमिटेड
308	U74900UP2010PTC039478	कोहिनूर वाइब्रीफाईड टाईल्स एण्ड श्रैमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
309	U74900UP2010PTC040482	वेक्टर कैपिटल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
310	U74900UP2010PTC041129	आवाज इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
311	U74900UP2010PTC041789	बैली हू लैब्स साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
312	U74900UP2010PTC042833	मैकजोक्कू टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
313	U74900UP2011PTC043318	माईक्रेस्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
314	U74900UP2011PTC046740	जैसपर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
315	U74900UP2013PTC058294	इन्जटेक इन्जिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
316	U74900UP2013PTC060381	सिनर्जिक ग्रीजटेक प्राईवेट लिमिटेड
317	U74900UP2014PTC063396	इवरग्रीनवैली एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
318	U74900UP2014PTC063397	विध यांत्रिक इजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
319	U74900UP2014PTC064131	टाईमग्लोबल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
320	U74990UP2007PTC033453	मोक्ष इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
321	U74992UP2009PTC039101	अवध बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
322	U74992UP2010PTC040103	एम.एस. टेक्नोसाल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
323	U74999UP2006PTC031296	अपना व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
324	U74999UP2008PLC035506	गुरु कृपा व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड
325	U74999UP2011PTC046973	इन्जीनियर्स इन्टेग्रेटी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
326	U74999UP2011PTC047236	श्री शुनियो जी एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
327	U74999UP2014PTC063487	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
328	U74999UP2015PTC074786	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
329	U74999UP2016OPC082867	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
330	U74999UP2016OPC087961	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
331	U74999UP2016PTC083166	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
332	U74999UP2016PTC083169	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
333	U74999UP2016PTC084064	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
334	U74999UP2016PTC084147	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
335	U74999UP2016PTC084882	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
336	U74999UP2016PTC085182	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
337	U74999UP2016PTC085823	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
338	U74999UP2016PTC085965	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
339	U74999UP2016PTC086545	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
340	U74999UP2016PTC086744	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
341	U74999UP2016PTC086772	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
342	U74999UP2016PTC087258	इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
343	U74999UP2016PTC087609	आईटेल कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
344	U74999UP2016PTC087647	स्मार्टहोम अप्लाइसेज एण्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
345	U74999UP2016PTC087912	सीआरआईओ सपोर्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
346	U74999UP2016PTC088702	यूएसएबी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
347	U74999UP2017OPC092156	पहला कदम इवेन्ट्स (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड
348	U74999UP2017PTC091667	वीराहत इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
349	U74999UP2017PTC091984	चिमनी हिल्स फूड एण्ड बेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड
350	U74999UP2017PTC092105	अल्वा सोलर लाईट प्राईवेट लिमिटेड
351	U74999UP2017PTC093311	श्रीसाईसमरिद्री एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
352	U74999UP2017PTC093372	स्काईलाईन रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
353	U74999UP2017PTC093483	टादविका4 आनलाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
354	U74999UP2017PTC093675	क्राफ्टोस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
355	U74999UP2017PTC094046	कोर्टयार्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
356	U74999UP2017PTC095322	बघेल वर्क्स एडीडीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
357	U74999UP2017PTC095630	अभावी वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
358	U74999UP2017PTC095661	मिनार ओवरसीज रिक्रूटमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
359	U74999UP2017PTC098188	इमरजेन्स लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
360	U74999UP2018PTC103691	आरएफ कैरियर प्वाइन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
361	U74999UP2018PTC103863	काशीनाथ आटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड
362	U80211UP2014PTC061991	एजीआरबी टेक्निकैलिट्स प्राईवेट लिमिटेड
363	U80211UP2014PTC062738	ए.पी.डी.आई.एजुसाल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
364	U80904UP2012PTC050487	लीडिंग इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल कोर्सज प्राईवेट लिमिटेड
365	U80904UP2012PTC052584	बालाजी गोपाल सर कोचिंग इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
366	U80904UP2014PTC065110	इडिकटेड एडवाइजरीज प्राईवेट लिमिटेड
367	U80904UP2014PTC067343	जागोया एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
368	U80904UP2017PTC090905	पोर्ट एजेकेशन प्राईवेट लिमिटेड
369	U85100UP2007PTC033735	पी. एम मेडिकल सिस्टम एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
370	U85110UP2017PTC092143	बास्कर लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
371	U85120UP2016PTC085982	इस्केवी बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
372	U85191UP2010PTC040027	अभीराजी हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
373	U85191UP2012PTC051333	पैन एजुकेशनल एकैडमी प्राईवेट लिमिटेड
374	U85191UP2015PTC068518	शुभआरुध्या बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
375	U85191UP2015PTC071438	अपसर्जलैब हेल्थकेयर साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
376	U85191UP2015PTC072533	आरवी क्वायनेज हेल्थकेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
377	U92100UP2014PTC061803	फस्ट स्टेप प्रस्तावना मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
378	U92111UP2003PTC027178	वेदांत विजन प्राईवेट लिमिटेड

सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
379	U93000UP2013PTC060892	सतीजा इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
380	U93000UP2017PTC091084	सार्प होम केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
381	U93030UP2004PTC029355	चरनजीत इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
382	U93030UP2011PTC045263	जेटस्टार ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आफ ऐयरोनाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
383	U93030UP2012PTC049071	ऐसटर्म साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
384	U93030UP2013PTC056394	जादौन इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
385	U93030UP2015OPC068922	उन्नती इण्डिया मल्टीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
386	U93030UP2015OPC069493	समर (इण्डिया) वाटर प्योरीफायर प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
387	U93030UP2015OPC070940	टरमिनलऐप्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
388	U93030UP2015OPC071328	एमपावर वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
389	U93030UP2017PTC097788	एटीसीआई ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
390	U93090UP2007PTC032952	ट्रेन्ड सेटर प्रोडक्ट चैन्स प्राइवेट लिमिटेड
391	U93090UP2016OPC083125	इन्फैबल मैगनेट प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
392	U93090UP2017OPC095731	श्री द्योमी महाकाली मल्टीसर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
393	U93090UP2017PTC095549	आत्मन अपारेल्स प्राइवेट लिमिटेड

सुधीर कपूर
कम्पनी पंजीयक
उत्तर प्रदेश

फार्म नंबर एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के उपधारा (2) और उप-धारा (4) के अनुसार और नियम कंपनियों में से 7 (कंपनियों के नाम से कंपनियों के नाम हटाने) नियम 2016]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनियों के नामों को हड़पने या हटाने के मामले में

बैंगलूर-560034, दिनांक 26 अक्टूबर 2018

सं. आरओसीबी/248(2)/ST-6/2018/2237 (सं. 01/एसटीके-6/2018)—कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 248(2) के तहत कंपनियों के नामों को हड़पने या हटाने के मामले में सूचना के अनुसार, रजिस्ट्रार कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत अपर्युक्त कंपनियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, ताकि वे अपने नामों को कंपनियों के रजिस्ट्रार से हटा दें, अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू करने में असफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी (ए) किसी वित्तीय या पिछले दो वर्षों की अवधि के लिए किसी भी व्यवसाय या संचालन नहीं ले रही है और/ने कोई आवेदन नहीं किया है) कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी (ए) की धारा 455 के तहत एक निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त की है, लेकिन यह/वे कंपनियों के रजिस्ट्रार से अपनी/अपने पंजीकरण जारी रखना चाहते हैं नहीं है और इसलिए कंपनियों के रजिस्ट्रार से अपने/उनके नामों को हटाने/स्ट्राइक बंद करने का अनुरोध किया है।

2. तदनुसार, कंपनियों के रजिस्ट्रार कंपनियों के रजिस्ट्रारों से उपर्युक्त कंपनियों के नाम को हटाने या रद्द करने का प्रस्ताव है।

3. कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित हटाने या कंपनियों के नाम से कंपनियों के नाम को बंद करने पर आपत्ति कर सकता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित कार्यालय के पते पर अपना आक्षेप भेज सकता है।

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
1	U74999KA2016PTC092699	टीचसिटी एड्सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2	U74900KA2016PTC085476	उदयती विहस्ता प्राइवेट लिमिटेड
3	U74999KA2016PTC095096	66 हॉस्पिटालिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
4	U74900KA2012PTC064893	कॅलरशॉट्स कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	U80902KA2016PTC092595	कोल्लेजिसनिपेर प्राइवेट लिमिटेड
6	U74120KA2012PTC067470	टीम ग्लोबल वेकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
7	U74900KA2015PTC081910	गॉबस्मॅकड टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
8	U72900KA2013PTC071003	कोगनीब्लूम वेब टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
9	U72200KA2005PTC037597	मॅजिक लॉम्प सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
10	U74900KA2015PTC081932	उवोईएम यं करियर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U74900KA2015PTC081811	उवोईएम मीडिया सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U74999KA2016PTC096112	ईआरपीजीक्स टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
13	U74900KA2013PTC069885	वेडिक वास्तु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	U63013KA2008PTC044885	एयरओन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
15	U72200KA2012FTC064706	कॉन्ट्रैडल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	U74900KA2013PTC072584	एस.एम.स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	U72900KA1999PTC025644	श्रीनाथ इन्फर्मेसन एण्ड कम्प्युनिकेशन्स रिसर्च सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U70109KA2017PTC100319	सेलेक्टिवईयर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U72200KA2015PTC079267	रआईओ टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
20	U51909KA2016PTC093599	अव्वानत एलेक्ट्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
21	U74900KA2013PTC067549	ए.डब्ल्यू. ट्रेडिंग अण्ड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U70102KA2014PTC076345	समन्विटा शेलटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	U72200KA2010PTC055766	इदं वेब प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200KA2017FTC102896	मील्विक टेक्नालजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	U74900KA2008PTC048139	इनक्रेडिबल इन्स्पेरेशन्स फीनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
26	U22210KA1975PTC002879	दि जया कर्नाटका न्यूज़ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U63040KA2014PTC075412	पीजीएस लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U51109KA1996PTC020737	पंचा रत्ना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
29	U01403KA2012PTC066300	रस्दशण अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
30	U72200KA2013PTC072186	परेनथेसीज़ टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
31	U80300KA2009PTC050891	रेड्डी'स एजुकेशनल कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
32	U74990KA2010PTC053236	नाटोन एनर्जी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U26957KA1973PTC002315	सर्वो कॉर्पोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U45202KA2008PTC048579	सेक प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
35	U72200KA2009PTC050739	एकंडोर आईटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U15500KA2000PTC026391	जूनिपर फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U72200KA2017PTC100681	फीडजियल टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
38	U72200KA2008PTC045291	क्ले-टोकन्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
39	U72200KA2013PTC068509	प्रोथॉट्स सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U29299KA1999PTC026129	प्रोटेक फॅब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
41	U74900KA2009PTC051607	धी टेकनो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U73200KA2013PTC070787	पीसीलॉवूड डिज़ाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U02001KA1995PTC017658	चेलवारा प्लॅनटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	U72501KA2017PTC100992	एमएस इन्फर्मेसन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U85110KA1991PTC012418	पूर्णमा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U45205KA2016PTC085814	इंफ्लिमेंटिंग थॉट्स कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
47	U29140KA2010PTC054875	स्ट्रीममक्ष इंजिनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
48	U72200KA2013PTC070918	सॉफ्टवेयरबोक्ष आईटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U01118KA2007PTC043831	सेल्लेंट बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
50	U74900KA2015PTC081405	चेककू टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
51	U18101KA2006PTC038177	वी5 फैशान्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U45205KA2015PTC081407	अंद्री इंफ्रा सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U72200KA2011PTC059415	फिनायना सॉफ्टवेयर & सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
54	U74999KA2007PTC044745	रोभाट: रोबाटिक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U72200KA2011PTC056545	डिजिटलियन ई-क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U15122KA2011PTC057959	ओंकार शुगर्स अण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
57	U67000KA1995PTC019321	मधुमीलन फ्रीनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
58	U40101KA2006PTC038494	शकुंतलाम पावर प्राइवेट लिमिटेड पावर
59	U72900KA2015PTC079307	ट्रपोट टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
60	U74900KA2014PTC077514	सेवाऑनडिमैन्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
61	U85110KA1996PLC019620	कल्याणी हॉबिटेंट लिमिटेड
62	U85110KA1996PLC019624	कल्याणी हाइवे डेवलपर्स लिमिटेड
63	U51909KA2017PTC100870	आर्चीटा ग्लोबल रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
64	U85110KA1997PTC022082	विष्णु हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U67120KA2008PTC048734	के नारायणा स्टॉक्स अण्ड शेर्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U72200KA2014PTC077792	इंस्टाशोप्पी टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
67	U72400KA2007PTC043808	एन्जिनिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U72400KA2014PTC076483	ग्लेडेल टेक प्राइवेट लिमिटेड
69	U63040KA2012PTC063678	मै हॉलिडेज़ मै वे प्राइवेट लिमिटेड
70	U74900KA2012PTC062574	ग्रीनफिन इम्पेक्ष ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
71	U45200KA2012PTC064253	मेकर्सबेस्ट बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
72	U74140KA2014PTC073066	अवीघ्ना क्रेयटिव्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
73	U93090KA2017PTC100998	वल्टेक कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	U63022KA1971PTC002043	बिनगा आइस अण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
75	U72200KA2015PTC081415	अलटीयर डिजिटल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U45200KA2015PTC084990	प्लाटिनमफेतेर्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
77	U74999KA2017PTC101962	कल्यटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
78	U70100KA2014PTC076285	प्रोपमॉक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
79	U72200KA2015PTC078196	न्योबोर्ग टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
80	U45309KA2016PTC092750	भारत प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U72200KA2003PTC031971	क्लाउड 9 हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड
82	U72200KA2012PTC064343	एडज़िल्ला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
83	U72200KA2015PTC081226	क्यूरियेटिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
84	U45200KA2014PTC074617	आर्या तेजस डेवलपर्स अण्ड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U22300KA2005PTC036188	स्क्रिप्ट अण्ड डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U74900KA2014OPC076063	जी-मार्टेक टेक्निकल कन्सल्टेन्सीस अण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
87	U26933KA2013PTC068612	सन्फा पीयेरा प्राइवेट लिमिटेड
88	U02001KA2008PTC046113	यामिनी अगॉ-टेक प्राइवेट लिमिटेड
89	U73100KA2012FTC067065	नॉवेल क्लिनिकल रिसर्च (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
90	U74140KA2005PTC037485	अक्कुदॉट कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
91	U72200KA2015PTC083098	अर्थओरा टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
92	U01010KA2005PTC035816	ट्रैन्सिट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
93	U24248KA2007PTC043115	फ्लॉरिबंडा फ्रेगरेन्सस प्राइवेट लिमिटेड
94	U80903KA2008PTC047771	कॉलेज फॉर लैंग्वेज अण्ड वेकेशनल ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
95	U45205KA2014PTC076422	रिशा कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U72200KA2013PTC069571	साक्शिण टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
97	U74900KA2011PTC058320	सिरी लक्ष्मी प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
98	U74999KA2016PTC096546	मेट्रिक्सवीकी प्राइवेट लिमिटेड
99	U72900KA2016PTC092303	मीतूफ्रिट प्राइवेट लिमिटेड
100	U17221KA2009PTC050252	दोहबलापुर इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड
101	U72200KA2014PTC074623	फेयरकेट टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
102	U72900KA2015PTC083513	हॉकनबिड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
103	U45205KA2016PTC087110	टीमासाप प्रॉजेक्ट मॅनेज्मेंट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
104	U74900KA2014OPC075147	भवानी ई-सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
105	U74999KA2016PTC096879	उनिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
106	U70102KA2007PTC043938	लिमिटेड्स प्रॉजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
107	U72200KA2013PTC068039	ओनपॉवर क्लाउड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
108	U51109KA2013PTC072261	सिस्ट्रा वेस्ट मॅनेज्मेंट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
109	U14101KA2000PLC027947	रॉकलाइन्स नेचर स्टोर लिमिटेड
110	U52100KA2012PTC065979	सी2बी ज्यूवेल्स रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
111	U74900KA2016PTC087062	रोल्लिंगील स्टूडियोस प्राइवेट लिमिटेड
112	U85120KA2010PTC053792	प्राणामा प्लेक्स्युस प्राइवेट लिमिटेड
113	U72900KA1988PTC009476	बृंदावर्न सॉफ्टलंड प्राइवेट लिमिटेड
114	U55101KA1999PTC025174	ज़ैनब फ़ातिमा फास्ट फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
115	U72200KA2016OPC086056	ब्रिडलएड्ज सोल्युशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
116	U65992KA2006PTC039138	श्री औस्टलक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
117	U72200KA2013PTC071312	लोटस सेमिकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड
118	U67100KA2017PTC108469	टेस्जॉर्प ए&बी फाइनान्सियल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U67190KA2006PTC040429	पिसीआर कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U74999KA2016PTC092845	मॅगनेट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U74900KA2015PTC084496	डि फ़ाब्रिस्टोरि प्राइवेट लिमिटेड
122	U74900KA2015PTC080496	मुड्ट्री ऑनलाइन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
123	U74900KA2016OPC086926	इंटेग्रेटेड बीज़कॉरप (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
124	U45202KA2014PTC076263	साई सिरी वैचर्स डि-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
125	U64200KA2014PTC074835	एनरग्रीन दास नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U72200KA2011PTC056660	हाव्या टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
127	U80904KA2009PTC049580	सक्सेसनेक्स्ट लाइफ अकॅडमी प्राइवेट लिमिटेड
128	U70101KA2005PTC037106	प्रकृति बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
129	U72900KA2016PTC092519	मातृ आईटी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
130	U72200KA2013PTC072613	भाव्य इन्फोसिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड
131	U45400KA2013PTC070226	4वेस्कोयर डेवेलपर्स अण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
132	U74900KA2015PTC081432	एस वी फोरटुनेर्स इफ्रा प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
133	U74999KA2016PTC097122	एट्ज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
134	U72200KA2013FTC069482	इंटालीओ सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
135	U72200KA2014PTC074793	फिल्गुड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
136	U24119KA1986PTC008008	ई.पी. लॅक्स प्राइवेट लिमिटेड
137	U74999KA2016OPC094899	स्पासिया इंटेरिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
138	U72400KA2014PTC074578	लेवेनिटी सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U18101KA2003PTC032845	एन.नरसम्पा टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
140	U63090KA2010PTC052212	मिल्लीनीयम पार्किंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
141	U72200KA2012PTC066285	ईटाशा सॉफ्टवेयर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
142	U74999KA2016PTC092516	नाम अल्यूमिनियम एक्सट्रूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
143	U22130KA2013PTC070854	मोबसरकिल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
144	U72200KA2006PTC040577	ओपन कंट्री टेक्नोलॉजिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
145	U51109KA2014PTC077461	सपूर्ती एर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U72900KA2009PTC050122	बोनिडिया टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
147	U21023KA2015PTC078390	विठोभा कारटन्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U72200KA2015PTC083622	ज़ोक्रेट सॉफ्टवेयर लॅक्स प्राइवेट लिमिटेड
149	U72200KA2008PTC047402	3जी लॅक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
150	U60200KA2013PTC071571	डकोट्रान्स सदरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
151	U60231KA2008PTC047730	कार्तिकेयास लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U14200KA2008PTC048144	संदूर मिनरल्स & लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
153	U72200KA2010PTC055248	अल्टीसोल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
154	U24232KA2014PTC076002	मेडकोर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
155	U74900KA2013PTC067865	कल्मेश्वर बिज़नेस सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
156	U92412KA2010PTC054481	गॉल्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
157	U99999KA1994PTC016074	विनायका स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
158	U72900KA2011PTC061142	कलौडस्पन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
159	U72900KA2007PTC042322	विल्यम्स चीस्मान सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
160	U74900KA2015PTC084938	पानोमिक्स डायग्नोस्टिक्स अण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
161	U14292KA2012PTC066473	श्री सलासर ग्रानैट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
162	U17222KA2010PTC055958	स्कार्लेट क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
163	U74999KA2016PTC093040	ई-मेडोक्र हेल्थकेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
164	U80301KA2012FTC064572	जीकेटीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
165	U29248KA2016PTC086304	अवागमा टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
166	U72200KA2013PTC072478	निसाकी टेक्नालजी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
167	U72900KA2016PTC097875	ब्रिडजबिज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
168	U72900KA2017PTC100905	टैचून सॉफ्टवेयर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
169	U26949KA2007PTC043594	जेआर नॉनओवेंस अण्ड वॉटरपूफिंग प्राइवेट लिमिटेड
170	U29244KA2014PTC076315	केस वेर्ज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
171	U67120KA1995PTC019303	स्वर्ना पुष्प फिलीस प्राइवेट लिमिटेड
172	U72200KA2009PTC050628	इब्सो टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
173	U74900KA2015PTC084927	क्लाउड वॉटर प्यूरिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
174	U30007KA1994PTC015669	सीपीडि कंप्यूटर पेरिफेरल्स डिवाइसस प्राइवेट लिमिटेड
175	U74900KA2014PTC077875	अका बिज़नेस प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
176	U01407KA2015PTC079788	प्रत्यागा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
177	U72200KA2012PTC062176	आइसोमेट्रिक टेक्नालजी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
178	U15122KA2015PTC083312	फूडस्टर किचन प्राइवेट लिमिटेड
179	U74900KA2015PTC080879	आक्सिम मेप इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
180	U80211KA2001PTC029076	जीनी किड्स लर्निंग रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
181	U01130KA2011PTC060370	सोसैटी अग्रा कर्मोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड
182	U72200KA2015PTC082601	सेलिब्रेट मूकॉमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
183	U45200KA2007PTC044157	मातृश्री प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
184	U85120KA2008PTC045166	गार्डियन मेडिकल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
185	U74110KA2007PTC043443	सीएन प्रोफेशनल & लीगल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
186	U27101KA2012PTC064261	अरिगो स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
187	U74999KA2017PTC106685	सिटो टेक्नोक्रॉट्स बिब्रेजस प्राइवेट लिमिटेड
188	U73100KA2003PTC033091	बयोवेल लाइफ साइन्सस प्राइवेट लिमिटेड
189	U74900KA2015PTC078087	आईड्रोपण वॉटर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
190	U45205KA2015PTC080133	कोरात इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
191	U72200KA2012PTC065430	अस्टेरिक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
192	U17214KA2014OPC075562	बिजुयलिटिक्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
193	U80301KA2012PTC066272	जीनियस ब्रेन्स एडुकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
194	U74999KA2017OPC106470	डॉसीटूड फिटनेस सर्वीसेस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
195	U45205KA2014PTC075549	बीवीएल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
196	U45205KA2014PTC075565	बीवीएल विलास प्राइवेट लिमिटेड
197	U72200KA2012PTC065806	नेक्स्ट टैलेंट ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
198	U15209KA2017PTC101460	मंगलोर अग्रा प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
199	U28999KA2017PTC108247	मंगलोर मेटल्लिक्स प्राइवेट लिमिटेड
200	U35113KA2014PTC077113	वेलोस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
201	U74999KA2016PTC093515	ईका जैसेट प्राइवेट लिमिटेड
202	U72200KA2004PTC034473	अडप्स सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
203	U72300KA2010PTC054456	बीइसटॉक टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
204	U72200KA2011PTC060239	3एस इनोवेशन अण्ड टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
205	U70101KA1999PTC024864	डूराफलेक्स प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
206	U22190KA2012PTC065620	टाल्लूर्स इंफ्रेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
207	U74999KA2016PTC097910	प्रिमिरो टीचर-इंटरफेस प्राइवेट लिमिटेड
208	U72200KA2016PTC095276	एजीआर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U74999KA2017PTC103589	नितेर्स टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
210	U74900KA2014FTC076332	ब्रिजपार्क टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
211	U24100KA2010PTC054068	गीटोन ईको सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
212	U40104KA2014PTC077583	जस्ट पॉवर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
213	U74900KA2009FTC051447	वियांज़ा सर्वीसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
214	U72300KA2014PTC074608	लूकक्नोव टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
215	U74900KA2015PTC082638	केना फुड अण्ड वेल्नेस प्राइवेट लिमिटेड
216	U72200KA2015PTC082949	प्रोआंस टेक्नालजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
217	U72900KA2010PTC055925	प्रोबेचमार्क आउटसिंग सोल्युशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
218	U45201KA1994PTC015891	नवरस हेवी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
219	U72200KA2015PTC081617	लेबू सॉफ्टवेक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U74999KA2010PTC052972	गैस्ट्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
221	U74999KA2016PTC094569	अलोकैट सोल्युशन्स अण्ड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
222	U52590KA2015OPC078425	गलायेरा ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
223	U05190KA2005PTC035630	अक्षया लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
224	U18101KA2015OPC080834	स्थवी डिज़ाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
225	U24232KA2015PTC078697	ग्लोबयोस्येज़ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
226	U74140KA2015PTC079716	नाश कॅपिटल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
227	U51909KA1995PTC018794	माक्वेल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
228	U67100KA2014PTC073882	एस2एस फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
229	U52590KA2015PTC078902	सिरका इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
230	U13201KA2014PTC077769	अंजनाद्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
231	U72200KA2011PTC060582	जाग्रत टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
232	U72200KA2013PTC071331	अरेरा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
233	U80301KA2012PTC064804	अल्फा अकॅडमी प्राइवेट लिमिटेड
234	U74140KA2008FTC046349	क्नौरा टेक्नालजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
235	U18101KA2013PTC069313	कहूट्स गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
236	U65999KA2009PTC050488	एनपीओ फाइनान्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
237	U72900KA2012PTC066356	श्री चकरिनी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
238	U60200KA2014PTC074784	नीडो रिलोकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
239	U51909KA2016PTC094537	है ह्यूडस प्राइवेट लिमिटेड
240	U70100KA2015PTC080889	ईवी लैंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
241	U40106KA2016PTC098823	गीनफीच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
242	U72200KA2012PTC062676	स्टंप कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
243	U51900KA2013PTC069774	याप्शा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
244	U40109KA2009PTC050997	मिल्लिनीयम सिनर्जी (कर्नाटका) प्राइवेट लिमिटेड
245	U80300KA2014PTC073834	विश एजुकेशनल प्रॉडक्ट्स & सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
246	U51909KA2008PTC045232	सिलिकॉन हाइव् एलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
247	U52100KA2010PTC054862	हाइपीरियन ग्रीन टेक्नोलॉजिस् प्राइवेट लिमिटेड
248	U72200KA2012PTC064687	जिंगचाक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
249	U01711KA2005PTC036915	बोस्सा नोवा टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
250	U45400KA2014PTC076526	संकेश्वरा असेट्स प्राइवेट लिमिटेड
251	U74900KA2015PTC081602	डिजिलीन मैनेजमेंट कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
252	U74999KA2016PTC097770	वीब्रांडो डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
253	U74900KA2016PTC085243	ऑर्ब8 बिज़नेस इंक्यूबेशन प्राइवेट लिमिटेड
254	U29112KA2001PTC029713	एयरक्रॉफ्ट ब्रेक पेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
255	U74900KA2015OPC083883	स्वॉशबैकलर वेंचर्स इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
256	U72200KA2010PTC053199	अस्तु इन्फर्मेंशन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
257	U74900KA2014PTC074677	सिग्नेट सेक्यूरिटी सोल्युशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
258	U72501KA2016PTC097630	बबल टेक्नोलॉजिस् प्राइवेट लिमिटेड
259	U63030KA2016PLC094333	अक्वाट्रांस शिपिंग लिमिटेड
260	U65993KA1996PTC021034	कॅलिफॉर्निया इनवेस्टमेंट अण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
261	U74999KA2016PTC098584	स्प्रिंगाल्ड टेक्नोलॉजिस् प्राइवेट लिमिटेड
262	U72900KA2011PTC061117	कीराज़ टेक्नालजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
263	U15490KA2010PTC054199	डिलाइटो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
264	U74999KA2009PTC050254	ट्रान्सवेलट लॅग्वेज सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
265	U74900KA2014PTC075304	किंग्स & प्रिन्स ट्रेनिंग अकॅडमी प्राइवेट लिमिटेड
266	U74999KA2011PTC061528	जे & जे इंटेग्रेटेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
267	U72200KA2011FTC059293	टीएफओ मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
268	U92400KA2015PTC083326	एक्सआरटी फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड
269	U74900KA2015PTC084297	सम्बिद ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
270	U51909KA2013PTC070582	बयो-इंडिया फार्मा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
271	U01810KA2008PLC047596	एल्टेकॉन अप्परेल्स लिमिटेड
272	U74140KA2004PTC033697	इंस्टोर डिज़ाइन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
273	U74994KA2006PTC039717	स्पेस फिट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
274	U45201KA2008PTC046657	एमान एस्टेट्स & प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
275	U65993KA2008PTC048647	अनंता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
276	U45209KA2015PTC079562	रिवेरा कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
277	U74900KA2016PTC085201	ओम स्वास्थोभावा इन्स्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
278	U72901KA2016PTC094997	सिनियो टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
279	U85110KA2015PTC079928	प्लक्सा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
280	U74900KA2013PTC067696	कनीन बिज़नेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
281	U72200KA2015PTC084099	कमियोमेट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
282	U45205KA2013PTC072374	युनिवा बिल्डर्स & डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
283	U72900KA2011PTC059542	लुंसिस टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
284	U31401KA2016PTC086651	न्यूवो एलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
285	U15209KA2011PTC060240	करी स्पिंग फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
286	U74200KA2008PTC047986	शैंक कॉर्टेक्स & इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
287	U70100KA2015PTC081419	एस के पी सिविल टेक प्राइवेट लिमिटेड
288	U67110KA2013PTC068873	एल जी & एस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
289	U74994KA2006PTC040105	स्टाइल पक्स (बंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड
290	U74900KA2015PTC079813	ओफिसपज़िओ सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
291	U72200KA2009PTC050168	आल्टीया सिस्टम्स & सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
292	U74900KA2014PTC075828	4टैप्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
293	U72900KA2016OPC096820	डाटमेट्रीक्स सिस्टम्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
294	U36991KA2013PTC071297	रेड जास्पर रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
295	U45200KA2011PTC060765	प्रगति इनफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
296	U74999KA2016PTC095607	निष्ठा होटल्स अण्ड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
297	U74900KA2015PTC078795	जोन रीटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
298	U45203KA2005PTC036107	नीटेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
299	U85191KA2015PTC078916	वनाका हेल्थ केयर & रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
300	U85110KA2007PTC044021	इन्स्टिट्यूट डि'एक्सपर्टीस क्लिनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
301	U72200KA2014PTC077400	जीडीओ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
302	U74900KA2014PTC077095	स्कोयरबूज्ज़ अप्स प्राइवेट लिमिटेड
303	U63090KA2012PTC067212	लेस वायेजस ट्रैवल एक्सपीरियेन्सस प्राइवेट लिमिटेड
304	U24100KA2013PTC070297	ब्लू वेल बयोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
305	U74900KA2013PTC071798	शॉप्ट्री ऑनलाइन रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
306	U74900KA2013PTC069898	एनपीजी अनालिटिकल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
307	U74140KA2012PTC062208	मारबेल स्ट्रैटेजिक कनसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
308	U72200KA2007PTC042656	प्लक्सा इनोवेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
309	U70109KA2016PTC096006	ताओ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
310	U74210KA1999PTC042119	अंकित फॉजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
311	U32208KA1994PTC016078	प्रोलाइन पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
312	U72200KA2008PTC048115	ई-मार्गा टेक्नालजी सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
313	U72200KA2010PTC052357	एंटेलिकि टेक्नालजी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
314	U74900KA2013PTC071316	कराशिल्प क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
315	U72300KA2012PTC065927	प्रशास्ते टेकनो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
316	U92140KA2014PTC076484	एपिक्यूरस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड
317	U72900KA2016PTC098404	ग्राफीटी एक्सवोर्डेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
318	U14200KA2014PTC076920	सीधिविनायक ईयर्थजियो सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
319	U72200KA2015PTC082941	वेबिलीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
320	U74999KA2016PTC095154	गलियम रीटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
321	U55102KA1990PTC011177	सुमिदित्या होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
322	U73100KA2010PTC054379	अबक्ष फार्म सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
323	U80903KA2009PTC049506	एसस्कोयर ट्रेनिंग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
324	U74140KA2002PTC030130	फ्लोरेडसन इंडिया कॉप्लाइयेन्स प्राइवेट लिमिटेड
325	U72200KA2013PTC071641	उल्टे टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
326	U29299KA2005PTC036047	टीबीएक्स रिसोर्स अण्ड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
327	U85110KA1997PTC021894	बी.एस.एम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
328	U72200KA2013PTC072183	इंग्राफेर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
329	U52590KA2015PTC082211	फॉक्सी डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
330	U72900KA2016PTC094459	डॉमिनेन्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
331	U72900KA2014PTC074566	इंटरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
332	U36912KA2010PTC053818	इनोवेटिव थॉट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
333	U36990KA2013PTC072323	हैटेक आनोडेस प्राइवेट लिमिटेड
334	U72200KA2013PTC069388	भावित्वा डिजिटल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
335	U52390KA2014PTC073336	प्रेसको रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
336	U22120KA2009PTC051889	एक्स8मेंट मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
337	U52100KA2016PTC086053	दुफफल फैशन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
338	U74900KA2015PTC084606	कंपेयर लैंब प्राइवेट लिमिटेड
339	U74900KA2015PTC078174	शिया टेक्निकल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
340	U63040KA2015PTC083462	शस्फ लाजिस्टिक्स अप्टिमिज़ेशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
341	U72900KA2016PTC092372	जन्मी डिजिटल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
342	U93090KA2013PTC071692	अरियान लॉ सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
343	U72900KA2015PTC084732	फ्लाइयिंग व्हील एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
344	U72200KA2014PTC076963	अंजना टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
345	U72900KA2004PTC035062	आमत्रा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
346	U18105KA2016PTC093473	ब्लूमार्क फैशन प्राइवेट लिमिटेड
347	U18109KA2016PTC093529	ईवॉलवी अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
348	U72200KA2014PTC075670	केम्पामी सिस्टम्स अण्ड टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
349	U45201KA2007PTC043321	रोसमोंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
350	U72900KA2003PTC031775	टार्टन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
351	U72200KA2013PTC070867	तीक्षर कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
352	U67190KA2008PTC045259	राजिवम् फाइनान्शियल कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
353	U74300KA2008PTC047490	अजग मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
354	U85110KA2004PTC034720	स्वस्तिक जनरल अण्ड हेल्थ केयर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
355	U72200KA2015OPC081084	डेनिबर्की मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
356	U74300KA1993PTC014502	फ़चलूटी ट्रेडिंग अण्ड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
357	U52300KA2011PTC060421	पीक-ए-वैंगन.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
358	U72200KA2011PTC060553	प्रोआप्सिस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
359	U55101KA2011PTC060364	नंधना बजट होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
360	U55101KA2012PTC061971	नंधना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
361	U55101KA2007PTC042464	श्री नंदिनी पॅलेस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
362	U65910KA1982PTC004999	प्रिमियर सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
363	U74900KA2014PTC077535	हॉक आइ सीसीटीवी प्राइवेट लिमिटेड
364	U85110KA2000PTC028217	हॉकी इन्स्टिट्यूट फॉर बेटर विषन प्राइवेट लिमिटेड
365	U74999KA2017PTC105435	पेप्पा वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
366	U72200KA2012PTC066954	अदितियाँ टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
367	U72200KA2013PTC071630	आईसीडिया टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
368	U22219KA2013PTC069699	जग्गलेर & कीपर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
369	U73100KA2012PTC066906	इन्नोवेटिव सन टेक प्राइवेट लिमिटेड
370	U72200KA2005PTC037731	इंसाईट टेक्नालजी पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
371	U74900KA2015PTC078534	परिस्कक टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
372	U51109KA2014PTC076540	वोर्कप्लेस फर्निचर प्राइवेट लिमिटेड
373	U74920KA2012PTC065819	कन्नेक्श टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
374	U36999KA2011PTC059792	अदिति हारनेस अण्ड अलाइड आक्सेसरीस प्राइवेट लिमिटेड
375	U55101KA2012PTC064396	सोस्सीगो हॉस्पिटालिटी अण्ड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
376	U80301KA2013PTC072304	स्किल्टिप्लै लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
377	U20101KA1976PTC003020	इंडियन वुड्स अण्ड मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
378	U72200KA2014OPC074843	फेबीटेक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
379	U21000KA2012PTC065224	प्रिज़म पेपर प्राइवेट लिमिटेड
380	U72900KA2005PTC036363	स्किल्लप्रॉफिलेर अनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
381	U72200KA2011PTC058436	शेस्ट्रा आईटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
382	U31100KA2015PTC082529	इसीरैड टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
383	U74999KA2016PTC094289	केआरएल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
384	U00093KA1993PTC015040	मैसूर मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
385	U74140KA2003PTC032021	सिविल सोसाईटी इन्फर्मेशन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
386	U72200KA2002PTC031106	सॉफ्टप्रो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
387	U52590KA2012PTC061964	त्रिका रीटेल वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
388	U85190KA2013PTC068317	सुनेत्रा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
389	U72200KA2011PTC057391	अटट्रीबो टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
390	U72200KA2008PTC047790	मिडिलवेयर कन्सल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
391	U34106KA2007PTC041607	अशोक खेनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
392	U52339KA2007PTC044416	यूरोबेस एक्वि प्राइवेट लिमिटेड
393	U74999KA2016PTC097150	ओमीकॉन टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
394	U85100KA2008PTC045872	साई रंगा हेल्थकेयर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
395	U74900KA2014PTC077257	गेटबेटर सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
396	U52590KA2015PTC078904	बुडशेरिक रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
397	U72400KA2011PTC056882	रेवू क्लाउड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
398	U92190KA2015PTC079816	स्पार्स एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
399	U85110KA1997PTC021679	6एस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
400	U24239KA2008PTC046320	धाम ही फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
401	U74900KA2015PTC084894	लैफोसिस बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
402	U51909KA1995PTC018300	अस्वती प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
403	U72900KA2016PTC093846	सेटिरी टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
404	U72200KA2014PTC073937	इयंत्रम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
405	U74999KA2017PTC098973	हस्क ग्रीन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
406	U72300KA2010PTC054334	आईमेनेज टेक्नालजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
407	U93000KA2012PTC066944	डिग्लिवुड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
408	U70101KA2009PTC050882	वायलेट अक्टोबर इंजिनियर्स अण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
409	U72200KA2015PTC081988	विकान इन्फो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
410	U51909KA2015PTC083503	एडवॉर्डियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
411	U45205KA2013PTC072415	व्हिंलाइन्स डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
412	U72200KA2013PTC071415	एथनोटेक आईटी अण्ड हार्डवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
413	U85100KA2010PTC054750	मरीगोल्ड मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
414	U74900KA2015PTC082586	प्रोटेक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
415	U35301KA2012PTC066719	यंत्रा एमआरओ अण्ड एवियेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
416	U74999KA2017OPC102585	जे&के ट्रिप मेकर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
417	U70200KA2016OPC094828	जस्टकॉमर्शियल.इन प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
418	U80301KA2010PTC052448	कौटिल्या विद्यालया प्राइवेट लिमिटेड
419	U29307KA2009PTC050551	ग्लोबल मेटल एंटरप्राइजस प्राइवेट लिमिटेड
420	U74999KA2017PTC101963	सिचो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
421	U74140KA2015PTC080785	बीकैपिटलफैनान्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
422	U74900KA2015PTC081379	बीकापिटल्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
423	U13205KA2015OPC078461	ट्रापेज़ा बिज़नेस कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
424	U74900KA2008PLC045740	वॉलुंटास फुड पार्क्स (इंडिया) लिमिटेड
425	U13100KA1981PTC004509	विशाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
426	U72400KA2008PTC048086	वर्टिकल लर्निंग कन्सल्टेंट्स & सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
427	U45202KA1993PTC014015	गुडागुंटी प्रॉजेक्ट्स इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
428	U85110KA2000PLC027819	आक्रोपेटल अनीमेडिया लिमिटेड
429	U74999KA2013PTC068558	कायका मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
430	U55101KA2012PTC067268	अरियना एफएनबी प्राइवेट लिमिटेड
431	U65991KA1992PTC013333	हाइ पॉइंट इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
432	U45203KA2015PLC082367	ग्रास्मूटीन इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड
433	U11100KA2012PTC063712	ग्रीन पॉलिमर एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड
434	U74900KA2011PTC057694	स्पॉन्सरशिप मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
435	U85110KA2013PTC070019	लुमिटेक्ष सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
436	U51399KA2003PTC033046	नवजेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
437	U72900KA2017PTC102817	कार्टिफी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
438	U51505KA2003PTC032006	सिराट्रान ट्रेड अण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
439	U74999KA2017PTC099360	एवलॉगिया प्राइवेट लिमिटेड
440	U72300KA2004PTC033628	टार्लेटसर्व सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
441	U74999KA2016PTC098697	सीक्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
442	U92490KA1994PTC016204	अन्लीला कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
443	U29308KA2013PTC072730	मकरोस इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
444	U70102KA2007PTC043965	निविस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
445	U80302KA2000PTC028291	इंडियन स्कूल ऑफ अप्लाइड टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
446	U01403KA2015PTC083889	आईसीएफ अग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
447	U70109KA2007PTC041766	फेतरलाइट डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
448	U36103KA2011PTC058733	मर्मो फेतरलाइट रीटेल फिकचस्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
449	U72400KA2000PTC028049	एसएमडब्ल्यू टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
450	U72200KA2000PTC026787	टारगेट बिज़नेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड
451	U74994KA2005PTC036155	वेल्लाल इंटरआर्क प्राइवेट लिमिटेड
452	U74900KA2014PTC075579	डीलयुवरसेल्फ इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
453	U74900KA2015PTC084949	क्लीनकार्ट सप्लाईस प्राइवेट लिमिटेड
454	U72200KA2007PTC042672	टेलीबेस कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
455	U85110KA2005PTC037134	कदम्बी सुपरगाम्मा काँसरकेयर प्राइवेट लिमिटेड
456	U72200KA2012PTC065850	राइयल चीज़ प्राइवेट लिमिटेड
457	U72200KA2015PTC082081	ऊर्जात आईटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
458	U72900KA2017OPC100892	सियोन टेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
459	U29120KA2007PTC043530	रिमोट कंट्रोल मैक्रोफ़िनिश आक्ट्यूयेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
460	U55101KA2010PTC055502	विन्कीनिटी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
461	U01549KA1984PTC006438	एसएस फुड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
462	U72200KA2015PTC078993	पीप्पलब्रिटज़ टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
463	U93090KA2014OPC076602	जीस्कोयर्स सिग्नेचर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
464	U85110KA1991PLC012654	चेम्बरा ऑर्चर्ड प्रोड्यूस लिमिटेड
465	U74900KA2014OPC076780	ब्रिकॉल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
466	U92410KA2015PTC080491	आरएसपी स्पोर्ट्स मॅनेज्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
467	U74900KA2016PTC086922	स्पिडज़ फाइन फुड प्राइवेट लिमिटेड
468	U74900KA2015PTC079577	परपिलपात सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
469	U15400KA2010PTC054233	पेस अग्रोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
470	U01300KA2010PTC054249	पेस ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
471	U72300KA2011PTC058609	प्रॅगमॅटिक साइबर्नेटिक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
472	U74900KA2010PTC054681	ज्ञान मंत्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
473	U32107KA2008PTC047346	साइबर्नेटिक रिसर्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
474	U26990KA2013PTC068998	करिज़्मा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
475	U72900KA2016PTC095260	हेल्लोटाप्स इन्फर्मेशन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
476	U31909KA1993PTC014235	देवी मूविंग स्पेर्स प्राइवेट लिमिटेड
477	U31907KA2007PTC043305	प्रोटेक्ट भारत सेक्यूरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
478	U72200KA2006PTC038503	मेट्रिका सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
479	U72200KA2016PTC085095	बीज़र टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
480	U65100KA2008PTC045405	वीवियेनदा फाइनान्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
481	U74900KA2013PTC069235	टीपी&एस मॅनेज्मेंट कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
482	U45205KA2013PTC072041	मा सेफ रेसिडेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
483	U31909KA2007PTC043671	मंथन सेमिकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
484	U72200KA2007PTC044586	टीआरसी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
485	U45202KA2013PTC068198	कॅटलिस्ट अफोर्डबल हाउसिंग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
486	U29248KA2015PTC082115	प्रो-सर्व इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
487	U72900KA2009PTC051069	मेड तारा सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सिन नम्बर	कम्पनी नाम
488	U45202KA2009PTC049105	एमएनजी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
489	U74900KA2015PTC078535	नुकलियो हँडीमन सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
490	U72200KA2014PTC073974	प्रोसेस्कॉम टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
491	U25200KA2013PTC072367	मैनी प्लास्टिक्स अण्ड आठोकोम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
492	U40109KA2012PTC064458	आइलेक्स पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
493	U74900KA2008PTC045803	क्रोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
494	U55101KA2010PTC055761	वेस्टवुड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
495	U74999KA2016PTC092592	अनितरा कन्सल्टेन्सी सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
496	U72200KA2013PTC071751	जोमोसॉफ्ट कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
497	U55101KA2016PTC093572	कृष्णा पॅरडाइस प्राइवेट लिमिटेड
498	U45205KA2011PTC059963	एमिरेट्स इंडिया प्रिकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
499	U74900KA2015PTC082510	ग्रीनस्पेस फेसिलिटीस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
500	U72200KA2016PTC085342	टिक्सकेल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

सी.वी. सजीवन
कम्पनी पंजीयक
कर्नाटक

प्ररूप सं. एसटीके-5

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7(1) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के अधीन नीचे दिए गए ब्योरो के अनुसार कंपनियों के नाम काटने के विषय में
हैदराबाद-500068, दिनांक 2 नवम्बर 2018

सं. ROC/HYDERABAD/STK-5/TABLE-4365—(1) यह सूचना दी जाती है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण है:—

- निम्नलिखित कंपनियों ने विगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार प्रारंभ नहीं किया है।
- निम्नलिखित कंपनियों ने "टेबल-1 में ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई कारोबार या प्रचालन नहीं कर रही है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन प्रसूत कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है।

और, इसलिए, कंपनी रजिस्ट्रार से उपर्युक्त कंपनियों के नाम हटाने/काटने का और जब तक ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर इसके विरुद्ध कोई कारण बताया जाता है, उन्हें विधित्त करने का प्रस्ताव करता है।

- कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों के नाम हटाने/काटने का प्रस्ताव पर आक्षेप करने व्यक्ति इस सूचना प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपना आक्षेप भेज सकता है।

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1	U28113AP1948PLC000011	वैरियर (इंवेस्टमेंट) लिमिटेड
2	U15312AP1904PLC000014	श्री कृष्णा जूट मिल्स लिमिटेड
3	U01403AP1920PTC000039	श्री रामानुजा गिनिंग एंड राइस फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
4	U16000AP1927PLC000053	सिलेमानखान एंड महबूब खान टोबैकोज पब्लिक लिमिटेड
5	U85310AP1925PLC000054	डोरनाकल डिसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन
6	U52520AP1928PTC000058	मोटर्स एंड जेनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U65110AP1929PLC000062	एग्रीकल्चरल एंड मर्सेटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	U99999TG1982PTC000065	आरबी पैप्स एंड प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U99999AP1934PLC000078	श्री रामा सुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
10	U60100AP1935PTC000080	चित्तूर मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
11	U45200TG1934PLC000081	हैदराबाद कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
12	U92100AP1935PTC000086	सरस्वती टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड
13	U99999TG1937PLC000108	इंडिया फ्रूट्स लिमिटेड
14	U99999AP1940PLC000137	श्री साधना प्रिंटिंग लिमिटेड
15	U99999AP1940PTC000144	नित्यकल्याणी सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
16	U99999AP1940PTC000145	यूनिवर्सल माइका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
17	U99999TG1941PTC000160	जयंती रामा चंद्रप्पा शेटी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U60100AP1941PTC000166	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
19	U01401AP1942PTC000174	गोनासापुडी लिफ्ट इरिगेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
20	U24219AP1942PTC000182	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड बोन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U52520AP1943PTC000189	अद्विली दयालबाग स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U52520AP1943PTC000193	पेटा दयालबाग स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U99999AP1943PTC000197	काकीनाडा राधासोमी फाइनांस कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
24	U11200TG1943PLC000202	हैदराबाद ऑयल एंड पेंट कंपनी लिमिटेड
25	U74900TG1944PTC000205	पिंगल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
26	U99999TG1944PTC000218	हैदराबाद इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
27	U92100AP1944PTC000220	श्री राजगोपाल फिल्म प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U01401AP1945PTC000226	कलानु कोंडा लिफ्ट इरिगेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
29	U01403AP1945PLC000261	वटलुर लिफ्ट इरिगेशन कंपनी लिमिटेड
30	U99999AP1946PTC000263	जुपिटर मैन्यूर एंड बोन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U99999AP1946PTC000268	प्रीमियर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U99999AP1946PLC000282	एल्लोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
33	U74999AP1946PTC000286	श्री हरिकोटा फायरवुड एक्सपोर्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
34	U99999AP1946PTC000287	गोपाल कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड
35	U55101AP1947PLC000301	ग्रीनलैंड्स होटल्स लिमिटेड
36	U99999AP1947PTC000310	चक्रधर टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड
37	U74999AP1947PTC000312	मोहन माइका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U74900TG1947PTC000328	ईस्टर्न ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U15143AP1947PTC000333	पकनाडु ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U80220AP1949PTC000380	एजुकेशनल सप्लाइज प्राइवेट लिमिटेड
41	U99999AP1949PTC000381	ईस्टर्न मर्सेनटाइल एंड इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
42	U99999AP1949PTC000402	श्रीमंत इंडस्ट्रियल्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U27109TG1940PLC000404	श्री सुवर्चला अंजनेया स्टील एंड आयरन एसोसिएशन लिमिटेड
44	U92111AP1950PTC000416	प्रभात पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U99999AP1950PLC000425	भारत माइनिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
46	U99999AP1950PLC000429	मार्स इंडिया लिमिटेड
47	U74999AP1951PTC000450	श्री श्रीनिवास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
48	U65992AP1951PTC000459	लॉर्ड वैकटेश्वरा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
49	U45201TG1953PTC000497	नवयुग कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U01119TG1954PTC000526	दि कृष्णा यपालेम लिफ्ट इरिगेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
51	U92111TG1954PTC000532	बसंत पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U93000TG1954PTC000533	आंध्रा लॉ टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U74999AP1955PTC000537	प्रसाद इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
54	U24100TG1955PTC000547	टेक्स केम कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
55	U74999TG1955PTC000549	डी.के.वी. शर्मा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
56	U74999AP1956PTC000553	जी एस मूर्ति एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
57	U13209AP1956PTC000554	श्री कनकम्बा माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
58	U74999AP1943PTC000562	श्री महावीर लिथोस प्राइवेट लिमिटेड
59	U51200AP1956PTC000567	नोवेल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U93000TG1930PTC000574	कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
61	U74999AP1930PLC000577	लम्मासिंग कंपनी लिमिटेड
62	U52300TG1938PTC000588	जॉन बर्टन प्राइवेट लिमिटेड
63	U74900TG1940PTC000597	सिल केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
64	U24110TG1942PLC000613	हैदराबाद केमिकल सैंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
65	U74999TG1943PTC000619	हैदराबाद बुलेटिन प्राइवेट लिमिटेड
66	U63013TG1945PTC000646	पैटनी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
67	U22110TG1948PLC000678	गोलकोंडा एंड पब्लिकेशन्स लिमिटेड
68	U93000TG1950PLC000694	मोहन एजेंसीज लिमिटेड
69	U65993TG1951PTC000703	डुंडू पैटियाह इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U15143TG1951PLC000708	दि हैदराबाद ऑयल्स एंड सीड्स एक्सचेंज लिमिटेड
71	U74210AP1953PTC000714	मिनिमैक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U74999TG1952PTC000721	मॉडर्न टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड
73	U74999TG1954PTC000739	हैदराबाद डेक्कन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
74	U01403AP1954PLC000740	कृष्णा यपालेम लिफ्ट इरिगेशन कंपनी लिमिटेड
75	U92100TG1957PTC000775	नागार्जुना फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U11200AP1958PTC000794	आंध्रा अभ्युदय ग्रोमोर फुड एग्रीकल्चरल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
77	U93000TG1958PTC000804	बी शंकर लाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
78	U74999TG1958PTC000805	मलानी कॉमर्शियल कंपनी सिकंदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
79	U15424AP1959PTC000809	श्री साई बाबा खंडेसरी सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U74999TG1959PTC000811	आंध्र प्रदेश बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
81	U22210AP1959PTC000813	आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड
82	U74999AP1959PTC000818	वूमेन होमली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
83	U15424AP1959PTC000821	वेंकटेश्वर गुड एंड खांडसारी सुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
84	U74999TG1959PTC000834	एलाइड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U15424AP1959PTC000836	श्री थागरामपुडी सितानागरम गुड एंड खांडसारी सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U74999AP1961PTC000869	क्लाउडशॉ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
87	U01210AP1961PTC000873	यूनिवर्सल सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U01403AP1961PTC000880	दक्षिण भारत मैन्यूर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
89	U65992AP1961PTC000881	एम.एल.आर. चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U26101AP1961PTC000884	गौरी शंकर ग्लास सिडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
91	U99999TG1961PLC000891	आंध्रा फाउंड्री एंड मशीन कंपनी लिमिटेड
92	U40102AP1961PLC000897	एशियाटिक थर्मिक लिमिटेड
93	U99999TG1962PTC000901	हैदराबाद ऑक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U19200AP1962PTC000909	ग्राम सेवा लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
95	U35911TG1962PLC000912	मोपेड्स इंडिया लिमिटेड
96	U92111AP1962PTC000921	श्री निलयन पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U18101AP1962PLC000928	वेंकट लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
98	U65992AP1962PTC000930	शास्त्री फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
99	U99999AP1962PTC000933	अबिरामी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
100	U18101AP1962PLC000936	आंध्रा कॉटन मिल्स लिमिटेड
101	U99999TG1962PTC000940	टेलीटोन- इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
102	U74900AP1963PTC000946	महोदय एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
103	U99999TG1963PTC000955	जर्निकोव रियोडा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
104	U99999AP1963PTC000957	गौतमी ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
105	U15312AP1963PLC000961	श्री पद्मावती मिल्स लिमिटेड
106	U05004AP1963PLC000963	फिश प्रोडक्ट्स लिमिटेड
107	U21012TG1963PTC000965	वैकटराम पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
108	U24100TG1963PTC000977	ऑर्गेनिक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
109	U99999AP1963PTC000978	साई श्रीनिवास एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
110	U74999TG1964PTC000980	जयंती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
111	U16003AP1964PTC000982	कोस्टल टोबैको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
112	U99999AP1964ULT000983	अग्रिमकोर प्राइवेट लिमिटेड
113	U31100TG1964PTC000986	अमित कैपेसिटर्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U31100TG1964PTC000988	अर्जुन इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
115	U29210TG1964PTC000991	मेकलेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
116	U65920TG1964PTC000993	शमशाद ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
117	U99999TG1964PTC000994	कांटेनेन्टल ओर कंपनी प्राइवेट (इंडिया) लिमिटेड
118	U74210TG1954PTC001000	रिकेम प्राइवेट लिमिटेड
119	U99999TG1964PLC001001	सदर्न मूवी टोन लिमिटेड
120	U99999AP1964PTC001006	अरोरा फुड एंड फ्रूट इंडस्ट्रीज
121	U99999AP1964PTC001012	श्री सीता राम चंद्र माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
122	U17111AP1964PTC001013	वैकट रेड्डी संस प्राइवेट लिमिटेड
123	U74999TG1964PTC001017	श्री गिरिराज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
124	U99999TG1964PTC001019	पेल्लेटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U70100AP1964PTC001020	लैंड मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U99999AP1964PTC001021	नरहरि एंड चौधरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
127	U01210TG1965PTC001031	श्री वैकटेश्वरा डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
128	U15312AP1965PTC001032	नांदयाल राइस मर्चेंट्स सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
129	U01119TG1965PTC001035	हैदराबाद फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
130	U99999TG1965ULT001040	यूनेवे- मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
131	U65992AP1965PTC001041	सरोजा बेनेफिट चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
132	U24230TG1965PTC001046	दि आर्गेरोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
133	U16003TG1965PTC001050	निजामाबाद बीडी मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
134	U99999TG1965PTC001052	समन ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
135	U45200TG1965PTC001053	रिडनफोर्स कंस्ट्रक्शन एंड लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
136	U99999AP1965PTC001054	रवि प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
137	U25209TG1965PTC001058	अपोलो जिपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
138	U99999TG1965PTC001059	वेरिकोन प्राइवेट लिमिटेड
139	U65992TG1965PTC001062	श्री कनक दुर्गा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U74999TG1965PTC001063	पम्प्स एंड मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
141	U74999AP1965PTC001066	श्री विग्नान मंजूषा प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
142	U21022TG1965PTC001068	कार्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
143	U15424AP1965PTC001075	श्री विजय दुर्गा खांडसारी सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
144	U74999AP1965PTC001077	होटल्स (आंध्रा) प्राइवेट लिमिटेड
145	U74999TG1965PTC001080	शांति ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
146	U74999AP1965PTC001088	हैदराबाद स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U74999TG1965PTC001091	रवि प्रकाश इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
148	U25190AP1965PTC001092	श्री लालबाबा रोलिंग एंड शीट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
149	U27109TG1966PTC001107	हैदराबाद एलॉय फाउंड्रीज प्राइवेट लिमिटेड
150	U65992AP1966PTC001115	श्री विष्णु चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
151	U17119TG1966PTC001116	कल्पना फाइबर फोम प्राइवेट लिमिटेड
152	U28111TG1966PTC001117	मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (आंध्रा)
153	U01118TG1966PTC001118	हॉट स्टील प्राइवेट लिमिटेड
154	U25209TG1966PTC001121	एन.एम. प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
155	U74999TG1966PTC001123	नीता इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
156	U24110TG1966PTC001125	कंडक्टर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
157	U74300TG1966PTC001128	सिल्वर एडवरटाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
158	U65992TG1966PTC001133	श्री विग्नेश्वरा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
159	U74999TG1967PTC001142	एल्टेक प्राइवेट लिमिटेड
160	U93000TG1967PTC001145	फिंटास सेल्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
161	U99999AP1967PTC001146	प्लांटर्स युनाइटेड कॉमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
162	U92111AP1967PTC001150	श्री सेरी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
163	U74999TG1967PTC001153	इंडिस्केफगेसेलस्काकिचंडेल्सरीऑस्ट- प्राइवेट लिमिटेड
164	U24239AP1967PTC001163	एस्मार्क फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
165	U74999TG1967PTC001171	शिकर एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
166	U25199AP1967PTC001172	बिटॉन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
167	U13209TG1967PTC001173	मोती मिनरल ग्राइंडर्स प्राइवेट लिमिटेड
168	U92111TG1967PLC001177	विद्योदय फिल्म्स लिमिटेड
169	U99999TG1967PTC001179	जयप्रकाश एगो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
170	U40109TG1968PTC001188	डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड
171	U93000AP1968PTC001192	सेफायर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
172	U01119AP1968PTC001193	कोरोमंडल कैनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
173	U70102TG1968PTC001198	रियल इस्टेट हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
174	U51390TG1968PTC001201	इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
175	U65993AP1968PTC001203	श्रीनिवास मोटर एंड जेनरल फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
176	U74999AP1968PTC001205	एनसिलरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
177	U74999TG1968PTC001209	शैलेन्द्र नूमिसमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
178	U74999TG1968PLC001210	हैदराबाद पब्लिक वेल्फेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड
179	U18100AP1968PLC001213	जेमनी टेक्सटाइल्स लिमिटेड
180	U51909TG1968PTC001216	कटरागडा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
181	U65992TG1968PTC001221	दया चिट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
182	U65993TG1968PTC001224	इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
183	U65993AP1968PTC001225	अभ्युदय फाइनांस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
184	U24110TG1968PLC001226	एस्सार केमिकल्स लिमिटेड
185	U45202TG1968PTC001227	आंध्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
186	U93000TG1968PTC001228	बाला मिनरल्स ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
187	U60210AP1917PLC001237	रायलसीमा पैसैंजर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड
188	U74999TG1969PTC001248	इंडो कैनेडियन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
189	U15421AP1969PTC001257	श्री कृष्णा खांडसारी सुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
190	U25200TG1969PTC001259	एडमार्क प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
191	U99999TG1969PTC001260	पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
192	U65992TG1969PTC001261	विनय इंवेस्टमेंट्स एंड चिट्स फंड प्राइवेट लिमिटेड
193	U01119TG1969PTC001267	सेवन हिल्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U99999TG1969PTC001271	अनबशाही- वाइन्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड
195	U70100TG1969PTC001275	सॉल्वेंट्स एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
196	U99999AP1967PLC001277	हिंद कंटेनर्स लिमिटेड
197	U99999TG1970PTC001279	फ्ल्यूड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
198	U65992TG1969PTC001285	चिट फॉर मनी प्राइवेट लिमिटेड
199	U65990TG1969PTC001288	कानोडिया फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
200	U65920AP1969PTC001289	अशोक कॉमर्शियल फाइनांस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
201	U65992AP1969PTC001291	रीना ट्रेडिंग चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
202	U99999TG1969PLC001297	कोरोमंडल मिल्स लिमिटेड
203	U65921TG1969PTC001299	के एस ऑटो हायर प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
204	U65992TG1969PTC001302	भास्कर फाइनांसियल एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
205	U11202AP1969PLC001304	त्रिलिंगा ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
206	U31109TG1969PLC001307	इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर एंड इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
207	U99999TG1969PTC001308	क्रूशिक एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
208	U52520AP1969PTC001309	जय शंकर ट्रेडिंग एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U65992AP1970PTC001310	साई श्री निवासा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
210	U22110TG1970PTC001314	हैदराबाद पब्लिकेशन एंड न्यूज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
211	U01119TG1970PTC001317	एग्गी एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
212	U31504AP1970PTC001321	एवेरेस्ट लाइटिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
213	U50102TG1970PTC001326	ऑटो ट्रेक्टर प्राइवेट लिमिटेड
214	U74210TG1970PTC001328	हाईटोन इंशुलेशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
215	U65910AP1970PTC001329	जवाहर फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
216	U28999TG1970PTC001330	श्री वैकटेश्वरा क्राउन्स प्राइवेट लिमिटेड
217	U05001AP1970PTC001336	ईस्ट कोस्ट मेरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
218	U74900TG1970PTC001345	पर्ल लाइन पेरिस प्राइवेट लिमिटेड (आंध्र)
219	U32105TG1970PTC001346	डेक्कन कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U15140AP1970PTC001347	के टी आर ब्रान ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
221	U15541AP1970PTC001355	अभ्युदय सॉफ्ट ड्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
222	U27109TG1970PTC001356	मीनाक्षी स्टील रॉलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
223	U99999AP1991PTC001360	विशाखा व्हील एंड वाटर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
224	U17119AP1970PTC001365	श्रीनिवासा फाइबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
225	U21098TG1970PLC001372	स्टैंसिल्स एंड स्टैंसिल्स लिमिटेड
226	U01122TG1970PLC001376	अशोका एग्गीकल्चरल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
227	U65992TG1970PTC001378	ताज फाइनांसर्स एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
228	U99999AP1971PLC001380	रेजोल तालुक बर्मा रिपार्टिमेंट्स डेवलपमेंट एंड कोकोनट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
229	U50100TG1971PTC001382	केमल ट्रैक्टर इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
230	U51909TG1971PTC001387	साइरेस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
231	U65992TG1971PTC001388	मित्रा चिट फंड एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
232	U27310TG1971PLC001389	डक्ट्रान कास्टिंग्स लिमिटेड
233	U74300TG1971PTC001391	रितिका ऐड्स प्राइवेट लिमिटेड
234	U74210AP1971PTC001396	सोहन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
235	U29100TG1977PTC001398	एक्स एल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
236	U52605TG1971PTC001400	युनिवर्सल साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड
237	U74999TG1971PTC001407	बालानगर इंडस्ट्रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
238	U24110AP1971PTC001411	रायलसीमा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
239	U24110AP1971PTC001412	श्री भद्री केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
240	U25209TG1971PTC001413	अपर्णा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
241	U99999AP1971PTC001415	प्लास्टिफेन्स प्राइवेट लिमिटेड
242	U65992AP1971PTC001416	श्री कनक दुर्गा माता चिट फंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
243	U51909AP1971PTC001426	आदित्या कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
244	U99999TG1971PTC001433	साइंटिफिक इक्विपमेंट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U17119TG1971PLC001441	डेल्टा फाइबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
246	U74999AP1971PTC001447	विशाखापट्टनम बर्मा रिपैट्रिएट्स सिने एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज प्रा.लि.
247	U28910TG1971PTC001457	प्रेसिसन प्रेसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
248	U26914TG1971PLC001458	सिलिकॉन सेरेमिक्स लिमिटेड
249	U55101TG1972PTC001462	त्रिवेणी ट्रिस्ट होटल प्राइवेट लिमिटेड
250	U65992AP1972PTC001464	रवि भारत फाइनांस एंड चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
251	U51909AP1972PTC001470	बत्तु सुब्बा रो जेनरल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
252	U15490AP1972PTC001473	शक्ति फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
253	U63020AP1972PTC001477	बोबिली वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
254	U99999TG1972PLC001479	इलेक्ट्रोलाइटिक फॉयल्स लिमिटेड
255	U74999TG1972PTC001480	टेरेस्ट्रिकल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
256	U52520TG1972PTC001484	सिस्मू ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
257	U31300TG1972PTC001485	गोलकोंडा वायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
258	U31200TG1994PTC001489	त्रिवेण एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
259	U25209TG1972PTC001495	अपोलो चैन जिप्स प्राइवेट लिमिटेड
260	U55101AP1972PTC001499	होटल गोविंद प्राइवेट लिमिटेड
261	U25209AP1972PTC001503	केशव प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
262	U65992TG1972PTC001505	भानु चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
263	U01122TG1972PTC001508	पद्मा एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
264	U55101AP1972PTC001509	होटल संध्या प्राइवेट लिमिटेड
265	U62100TG1972PTC001510	त्रिवेण एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
266	U55101TG1972PTC001512	शिववर्षा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
267	U65992TG1972PTC001514	सिकंदराबाद चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
268	U55101TG1972PLC001516	होटल श्री कृष्णा लिमिटेड
269	U25110TG1972PLC001520	आंध्र प्रदेश ऑटोमोबाइल्स टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड
270	U29220TG1972PTC001521	युनिवर्सल प्रेसिसन बॉल मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
271	U65993TG1972PTC001526	स्नेहा फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
272	U34300TG1972PTC001528	ऑटो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
273	U19200AP1972PTC001529	ज्योति फुटवियर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
274	U32101TG1972PLC001530	भारत टेलिविजन लिमिटेड
275	U17300TG1972PTC001541	फोम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
276	U31900TG1972PTC001542	साइंटिफिक इलेक्ट्रिकल्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
277	U92114TG1972PTC001546	हार्विन फोटोकार्वे प्राइवेट लिमिटेड
278	U65992TG1972PTC001557	सहायता चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
279	U13209TG1973PTC001566	इकवान माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
280	U55101AP1973PTC001568	होटल अपलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
281	U74210TG1973PTC001578	उदानी इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद)
282	U99999AP1973PLC001584	कोस्टल एस्बेस्टस सरसेन्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड
283	U55101TG1973PTC001585	विक्रांति होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
284	U15140TG1973PLC001587	तेलुगुनाडु ऑयल्स लिमिटेड
285	U11202AP1973PLC001591	सेवाय सॉल्वेंट ऑयल एक्सट्रैक्शन लिमिटेड
286	U17214TG1973PTC001595	जय फोम प्राइवेट लिमिटेड
287	U99999TG1973PTC001599	कृष विमान सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
288	U27109AP1973PLC001600	श्री बजरंग आयरन एंड स्टील लिमिटेड
289	U27109TG1973PTC001603	सिकंदराबाद मेटलाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
290	U65992TG1973PTC001604	प्रतिभा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
291	U45200TG1973PLC001608	आंध्र प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कांफरिशन लिमिटेड
292	U25199AP1973PTC001615	प्रोलाया रबबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
293	U31100TG1973PLC001626	चंद्रिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
294	U24110TG1973PLC001627	एमाइड केमिकल्स लिमिटेड
295	U92111TG1973PTC001628	कृषि वाला फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
296	U20200TG1973PTC001633	अलफिन्स वुड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
297	U65992AP1973PTC001641	श्री लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
298	U28939TG1973PTC001647	कंसोलिडेटेड मेटल फिनिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
299	U27109TG1973PTC001648	विद्यो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
300	U15101AP1973PTC001651	प्रगति एगो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
301	U21015TG1973PTC001659	वेदवती स्ट्रॉ बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
302	U24110TG1973PTC001667	सुल्तान केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
303	U29110AP1973PTC001672	लेरिव एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (वेडसस्टी)
304	U13209AP1974PTC001679	ग्रेफाइट माइनिंग एंड रिफाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
305	U15310AP1974PTC001685	रायलसीमा रॉलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
306	U99999TG1974PLC001689	जर्नलिस्ट्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड
307	U65992TG1974PTC001691	मधु चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
308	U65992TG1974PTC001696	भाग्यनगर चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
309	U21015TG1974PLC001698	श्रीरामा स्टॉ बोर्ड्स लिमिटेड
310	U17111AP1974PTC001700	बंदरूपल्ली कॉटन एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
311	U24100AP1974PTC001705	बी आर एगो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
312	U14294AP1974PTC001708	श्री कृष्णा ग्रेफाइट्स एंड क्रूसिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
313	U65992AP1974PTC001709	नांदयाल चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
314	U24110TG1974PTC001710	फॉल्कन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
315	U01222TG1974PTC001712	वेदा एग्रीकल्चरल इस्टेट्स एंड डेयरी फार्म्स अ
316	U24110TG1974PTC001718	श्री मेहरबाबू केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
317	U31402AP1974PTC001722	गाइड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड अ
318	U15420AP1974PTC001726	वैकटरमणा सुगर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
319	U74210AP1974PTC001727	मेरिन एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
320	U99999TG1974PTC001736	श्रीनिवास कार्बोनिक् गैस प्राइवेट लिमिटेड
321	U74999TG1974PTC001737	इंडो पैन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
322	U24200AP1974PTC001740	कवाली केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
323	U24200TG1974PTC001741	जे एन के केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
324	U24200AP1974PLC001745	अप्पाराया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
325	U99999TG1974PTC001746	यूरेका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
326	U65992TG1974PTC001749	आदर्श बेनिफिट्स एंड सहायक चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
327	U29309AP1974PTC001757	बोबिली इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
328	U01119TG1974PTC001758	शक्ति एगो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
329	U27109TG1974PLC001765	डी.जी. स्टील्स एंड एलॉयज लिमिटेड
330	U15424AP1974PTC001776	रंगराया खांडसारी सुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
331	U15424AP1974PTC001777	गोपालकृष्णा खांडसारिज प्राइवेट लिमिटेड
332	U01403AP1974PTC001778	कल्पतरु हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
333	U15143AP1974PTC001779	उप्पलपति सॉल्वेंट ऑयल प्राइवेट लिमिटेड
334	U65992TG1974PTC001780	श्री प्रगति फाइनांस एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
335	U24110TG1974PLC001781	हैदराबाद कार्बन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
336	U65993TG1974PTC001784	डेक्कन वैध्या फाइनांस एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
337	U74900AP1974PLC001785	मॉडर्न प्रोटीन्स लिमिटेड
338	U14102TG1974PTC001786	सात नाला फाइन स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
339	U27109TG1974PTC001787	सूरित मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
340	U25200AP1974PTC001788	जयलक्ष्मी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
341	U55101AP1974PTC001791	होटल सरोवर प्राइवेट लिमिटेड
342	U15541TG1974PTC001793	युनाइटेड वाइन मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
343	U67190TG1974PTC001797	हैदराबाद टूर्स एंड ट्रेवल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
344	U27109TG1974PTC001800	जॉली स्टीलाइट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
345	U24110AP1974PTC001801	भूषण केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
346	U74999TG1974PTC001803	एक्सपोर्ट कंसोर्टियम ऑफ आंध्र प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड
347	U15143AP1974PTC001805	खम्मम सॉल्वेंट ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
348	U74999AP1974PTC001810	श्री राम सेल्यूलोज प्राइवेट लिमिटेड
349	U99999TG1974PTC001811	पर्सनल एंड इंडस्ट्रीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
350	U15541AP1974PTC001816	वीरांजनेय वाइन्स एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
351	U.....TG1974PTC001818	यूनिवर्सल फोम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
352	U01119TG1974PTC001821	वैकटरामा स्ट्रा बोर्ड्स एंड एगो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
353	U51909TG1974PTC001825	शजाक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
354	U24110TG1974PTC001828	तिरुमला केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
355	U74999AP1974PTC001829	बर्मा रिपैट्रिएट्स बेकरी एंड कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
356	U34102AP1974PTC001831	सोविन ऑटो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
357	U70102TG1975PTC001835	मातृश्री इंजीनियरिंग एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
358	U24110TG1975PTC001838	श्री फार्म केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
359	U24309AP1975PTC001839	नागार्जुना पेस्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
360	U24299AP1975PTC001841	गोल्ड बाँड रबर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
361	U74210AP1975PTC001842	इनागंती इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
362	U16009AP1975PTC001848	आंध्र लीफ टोबैको इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
363	U67190TG1975PTC001850	वाई एम सी ए इंटरनेशनल टूरिस्ट होम प्राइवेट लिमिटेड
364	U65992AP1975PTC001855	देवी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
365	U65993TG1975PTC001859	मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
366	U31300AP1975PTC001862	पोलीटेक केबल्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
367	U15311TG1979PTC001877	अनंतपुर रॉलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
368	U45200TG1975PTC001879	ऑटो बिल्डर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
369	U65992TG1975PTC001894	मातेश्वरी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
370	U99999AP1975PTC001898	किसान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (आंध्र)
371	U21010TG1975PTC001903	कृष्णा पेपर्स एंड माचीस प्राइवेट लिमिटेड
372	U74999AP1975PTC001905	महालक्ष्मी मैच इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
373	U18100AP1975PTC001906	राजम जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
374	U29309TG1975PTC001908	मैंगनेटोमिन सिस्टम्स एंड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
375	U65992TG1975PTC001910	सहेली चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
376	U52520AP1975PTC001912	स्पेस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
377	U24110TG1975PTC001913	हैदराबाद पल्प प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
378	U65993AP1975PTC001918	आंध्र प्रदेश सेविंग एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
379	U24110TG1975PTC001922	मेट्रो मार्केटिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
380	U65993TG1975PTC001923	हूसेन इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
381	U24110TG1975PTC001924	जयसन्स केमिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
382	U74300TG1975PTC001927	सेल्को मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
383	U65992AP1975PTC001928	फलप्रदा चिट्स एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
384	U65993AP1975PTC001937	कृष्णवेणी फाइनांसर्स प्राइवेट लिमिटेड
385	U74210AP1975PTC001943	सिकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
386	U52520AP1975PTC001946	श्रीनिवास इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
387	U21012TG1975PTC001947	डेली न्यूज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
388	U29219TG1975PTC001948	टूल्स एंड टूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
389	U29309TG1975PTC001952	बेल्लो रेगुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
390	U92111AP1975PTC001954	कदरेश्वरा आर्ट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
391	U65992TG1975PTC001955	मैकन चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
392	U92110TG1975PLC001959	संगीत टेप्स लिमिटेड
393	U65910TG1975PTC001972	सम्राट सेविंग्स एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
394	U51101AP1975PTC001974	बालाजी एगो एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
395	U24232TG1976PLC001977	आंध्र सिंथेटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
396	U52520TG1976PTC001981	बलराम कृष्ण ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
397	U99999TG1976PTC001982	विक्रम रेट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
398	U16001TG1976PTC001990	स्वर्ण वर्जिनिया टोबैको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
399	U74999TG1976PTC001993	सिवास इन्स्ट्रूमेंट्स एंड गंगेस प्राइवेट लिमिटेड
400	U15435TG1976PTC001997	प्रशांति टी एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
401	U30008TG1976PTC001998	के.बी. स्टांपिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
402	U74999TG1976PTC002000	माइक्रो वेव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
403	U65993TG1976PTC002004	मिलन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद)
404	U01112AP1976PTC002009	आंध्र प्रदेश हाइब्रिड सीड्स एंड एगो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
405	U24292TG1976PTC002011	आंध्र जिलेटिन्स एंड ग्लूज प्राइवेट लिमिटेड
406	U61100TG1976PTC002012	त्रिमूर्ति शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
407	U52520TG1976PTC002018	प्राइज ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
408	U65910AP1976PTC002020	गुडिवाडा फाइनांस एंड चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
409	U99999TG1976PTC002021	श्री धनलक्ष्मी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
410	U27100AP1976PTC002029	स्वामी जयेन्द्र नट्सबोल्ड्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
411	U74900TG1976PTC002030	त्रिमूर्ति ओवरसीज ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
412	U31100TG1976PLC002032	नेशनल कैपेसिटर्स लिमिटेड
413	U29309TG1976PTC002035	प्रियदर्शिनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
414	U52520TG1976PTC002037	सिथोपैक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
415	U65910AP1976PTC002038	गौतमी सेविंग्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
416	U24110TG1976PTC002047	डॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
417	U01119TG1976PTC002053	एक्सेल एगो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
418	U24110TG1976PTC002057	नेक्टर केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
419	U15420AP1976PTC002060	हनुमान खांडसारी सुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
420	U74999TG1976PTC002061	ट्रिलिंग रेफ्रिजेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
421	U24110TG1976PLC002063	साउथ सी केमिकल्स लिमिटेड
422	U15420AP1976PTC002068	श्री शांति सुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
423	U65992TG1976PTC002073	श्रीनिध चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
424	U29195TG1976PTC002074	के.बी. बोटलर्स प्राइवेट लिमिटेड
425	U74210TG1976PTC002077	ड्रिल रॉक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
426	U45200TG1976PTC002079	सर्वसुखी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
427	U45200TG1976PTC002082	रयाला सेविंग्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
428	U24246AP1976PTC002085	रेविन हर्बल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
429	U51909TG1976PTC002095	हैदराबाद एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
430	U34100TG1976PTC002097	हंगालागि ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
431	U99999TG1976PTC002098	मार्क मैन इंडस्ट्रियल कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
432	U14293TG1976PTC002101	आंध्र प्रदेश माइकाफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
433	U34102AP1976PTC002108	इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
434	U65993AP1976PTC002111	श्री सौजन्या सेविंग्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
435	U74999TG1977PTC002114	युरेनटाइम प्राइवेट लिमिटेड
436	U24110AP1977PTC002116	रम्या केमिकल्स कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
437	U29309AP1977PTC002118	जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
438	U26942TG1977PTC002120	राघवेंद्र सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
439	U65992TG1977PTC002125	वीरभद्र चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
440	U24111TG1977PTC002128	तूजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड
441	U65992TG1977PTC002131	रागिनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
442	U65910AP1977PTC002132	नायडू सेविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
443	U15420AP1977PTC002133	जया खांडसारी सुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
444	U74999TG1977PTC002139	ऋषिराज रेफिजेशनस प्राइवेट लिमिटेड
445	U24239TG1977PTC002140	यूनिसान फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
446	U85195AP1977PTC002143	फारिकेम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
447	U65910AP1977PTC002148	रघु सेविंग्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
448	U24220TG1977PTC002154	श्रेष्ठ प्रिंट पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
449	U74999TG1977PTC002156	हैदराबाद डायस्टफ्स प्राइवेट लिमिटेड
450	U01112AP1977PTC002160	गुरुराज सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
451	U74999AP1977PTC002161	तिरुमला प्रेसिजन फास्टरनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
452	U24200TG1977PTC002162	ईस्टर्न बायोलॉजिकल सैंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
453	U74999TG1977PTC002172	ट्विन सिटीज लैपीडेयरीज प्राइवेट लिमिटेड
454	U52520TG1977PTC002178	रंगास मार्केटिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
455	U99999TG1977PTC002179	सतीश ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
456	U15143AP1977PLC002182	रायलसीमा एगो प्रोडक्ट्स एंड ऑयल्स लिमिटेड
457	U20100TG1977PTC002184	स्वामी रेड सैंडर एंड सैंडल वुड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
458	U24232TG1977PTC002185	स्पीगेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
459	U65992TG1977PTC002188	गौतम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
460	U11200TG1977PTC002191	इंटीग्रेटेड फ्यूल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
461	U65993AP1977PTC002195	विजयवाड़ा सेविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
462	U65992AP1977PTC002203	न्यू प्रगति चिट सैंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
463	U74999TG1977PTC002204	आंध्र प्रदेश यार्न कम्बाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
464	U74210TG1977PTC002212	नवेगा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
465	U27109AP1977PTC002216	बी एम सी स्टील फर्निचर प्राइवेट लिमिटेड
466	U74900AP1977PTC002221	राजू टेमरिंड सीड स्टार्च इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
467	U74210TG1977PTC002223	हर्ट्ज एंड वेक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
468	U74210TG1977PTC002224	हस्टन इंजीनियर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
469	U01119TG1977PTC002232	साइटोजाइम एगो प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद)
470	U29248TG1977PLC002233	क्लेमैन पोर्कलैन्स लिमिटेड
471	U65910AP1977PTC002237	लक्ष्मी सेविंग्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
472	U65992AP1977PTC002241	मूल्याला चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
473	U74999AP1978PTC002243	ए वी भनोजी रो मेरिटाइम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
474	U72200TG1978PTC002249	कुमुद टेक्नो एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
475	U01119TG1974PTC002256	ग्रीन फील्ड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
476	U29219TG1978PLC002257	अनम मशीनरी फैब्रिकेटर्स लिमिटेड
477	U99999AP1978PTC002263	इकोनॉमिक रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
478	U65992TG1978PTC002264	शुभालया चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
479	U92111AP1978PTC002265	अन्नापूर्णा थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड (नमविशाखापट्ट)
480	U99999TG1978PTC002267	आंध्र प्रदेश कार्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
481	U74140TG1978PTC002270	टिम्स कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
482	U45200TG1978PTC002273	भाग्यनगर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
483	U05005TG1978PTC002277	मेरिन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
484	U65992TG1978PTC002279	भाग्यदर्शी चिट फंड्स फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
485	U24239TG1978PTC002282	रोफेल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
486	U72200TG1978PTC002283	डिजिटल कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
487	U24110TG1978PTC002284	इंडस्ट्रियल केमिकल अण्ड सिलिकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद)
488	U51909TG1978PTC002286	बूबालस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
489	U24110TG1978PTC002287	चारमिनार केमिकल्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
490	U65992AP1978PTC002289	नवोदय चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
491	U15143TG1978PTC002292	रजतगिरी ऑयल्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
492	U52110TG1978PTC002295	द्रुवा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
493	U65992AP1978PTC002303	गम्यनिधि चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
494	U65992TG1978PTC002307	श्रावती चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
495	U65992TG1978PTC002316	मुक्ता चिट्स सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
496	U65992AP1978PTC002321	उषोदय चिट प्राइवेट लिमिटेड
497	U65992AP1978PTC002327	कीर्ति चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
498	U74210AP1978PTC002329	विजयवाड़ा सट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
499	U55101AP1978PTC002331	कोस्टल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
500	U51909TG1978PTC002342	इंडस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
501	U51909TG1978PTC002343	विजेता इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
502	U74140TG1978PTC002354	एगीकल्चरल कंसलटेंसी सप्लाइ एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
503	U24110TG1978PTC002359	डेक्कन फुड्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
504	U31909TG1978PTC002367	एल्केलाइन एक्ज्यूमेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
505	U65993TG1978PTC002371	नव चेतना सेविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
506	U15142TG1978PTC002377	बी के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड
507	U13209TG1978PTC002380	आंध्रा माइका माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
508	U29309TG1978PTC002385	श्री सिद्धेश्वरी इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
509	U15209TG1978PTC002386	पैरामाउंट एग्री केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
510	U65992TG1978PTC002392	ऐश्वर्या चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
511	U31300TG1979PTC002397	आदित्या केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
512	U45200TG1979PTC002403	पोलावारापु हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपलेक्स प्राइवेट लिमिटेड
513	U28999TG1979PTC002404	कल्पना टेक्नो एंड इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
514	U92111AP1979PTC002411	हिमगिरि फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
515	U65993TG1979PTC002412	कनकधारा इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
516	U52520AP1979PTC002414	आंध्रा लैम्प्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
517	U65992TG1979PTC002415	लोकुला चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
518	U21012TG1994PLC002416	तेलंगाना पेपर मिल्स लिमिटेड
519	U22212TG1979PTC002418	कॉस्मोस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
520	U21011TG1979PTC002419	ट्विन सिटी टूल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
521	U24110TG1979PLC002425	गीलान केमिकल्स लिमिटेड
522	U65992TG1979PTC002426	गोपती चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
523	U24110TG1979PTC002429	सोफारिम केमिकल्स प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
524	U16000TG1979PLC002430	डंकन टोबैको कंपनी लिमिटेड
525	U65993TG1979PTC002431	वर लक्ष्मी ट्रेडिंग इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
526	U52520TG1979PTC002432	शांतिदूत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
527	U15499TG1979PTC002434	अल्टिमा फुड मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
528	U52110TG1979PTC002436	भाग्यनगर एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
529	U29219TG1979PTC002440	गोपती मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
530	U24110TG1979PLC002442	डेक्कन एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
531	U74140AP1979PTC002443	वाणी फिशरी कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
532	U74140TG1979PTC002446	वेन्ट्रा इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
533	U21012AP1979PLC002449	वासवी पेपर मिल्स लिमिटेड
534	U16001AP1979PTC002453	वर्जिनिया टोबैको एक्सपोर्ट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
535	U65992TG1979PLC002461	हेलापुरी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
536	U15499AP1979PTC002462	सैलेम फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
537	U45200TG1979PTC002464	विजया चांदी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
538	U31909TG1979PTC002466	ट्रेड वेल्ड हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
539	U74140TG1979PTC002467	नोवोकेम कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
540	U63040TG1979PTC002470	विहार ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
541	U28129TG1979PTC002472	हाइटिका कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
542	U74999TG1979PTC002479	झे ड्रिलिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
543	U65992TG1979PTC002484	विश्व शांति चिट फंड्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
544	U24110AP1979PTC002489	नौपदा मेरीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
545	U65992AP1979PTC002491	जनरंजनी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
546	U24110TG1979PTC002492	वाणी ड्रग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
547	U24239TG1979PLC002493	प्राशा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
548	U24110TG1979PTC002494	आंध्रा एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड
549	U05005AP1979PTC002505	वरुण सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
550	U65991AP1979PTC002508	पार्थसारथी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
551	U74900TG1979PTC002518	अम्बर बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड
552	U17299TG1979PTC002523	जियाउद्दीन अहमद कॉयर रोप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
553	U18101AP1979PTC002528	गोमती स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
554	U45200TG1979PTC002530	शारदा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
555	U31300AP1979PLC002533	रॉयलसीमा कार्बाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
556	U13209AP1979PTC002534	श्री केशव ग्रे बैरिट्स माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
557	U28931TG1979PTC002537	प्रताप क्लैडेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
558	U24230TG1979PTC002538	फिमैक्स-इंटरनेशनल (ड्रग्स एंड डायटिक्स) प्राइवेट लिमिटेड
559	U27109AP1979PTC002539	श्रीवत्स स्टील एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
560	U72200TG1979PTC002540	क्वाद डेटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
561	U25199TG1979PTC002547	जोबल रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
562	U52110TG1979PTC002552	मीनार एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
563	U51909TG1979PTC002554	हैदराबाद लेटेक्स फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
564	U52520TG1979PTC002560	सेसिला मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
565	U28992TG1979PTC002562	चारमीनार रिम्स प्राइवेट लिमिटेड
566	U45200AP1979PTC002563	कोरोमंडल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
567	U65992TG1979PTC002567	वैकट साई बाबा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
568	U65992TG1979PLC002568	सुदर्शन चिट्स लिमिटेड (आंध्र प्रदेश)
569	U55101AP1979PTC002569	अंजनेय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
570	U65993TG1979PTC002570	हैदराबाद इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनांसियल कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
571	U31300AP1979PTC002574	रूस्टर केबल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
572	U15499TG1979PTC002583	बेस्ट फुड प्राइवेट लिमिटेड
573	U65992TG1979PTC002584	श्री पाद चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
574	U70109TG1979PTC002589	तुलसी नारायण प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
575	U65992TG1979PTC002590	निरूपमा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
576	U92111TG1979PTC002591	प्रमोद पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
577	U15499AP1979PTC002592	कडप्पा केक एंड ब्रान प्राइवेट लिमिटेड
578	U29309AP1979PTC002594	सेफायर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
579	U24124TG1979PTC002596	इंडोमेक्स एग्रीकेम प्राइवेट लिमिटेड
580	U27310AP1979PTC002598	सतलज कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
581	U74210AP1980PTC002599	कुम्भा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
582	U65992TG1980PTC002600	सुरक्षा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
583	U16001AP1980PTC002601	लक्ष्मी टोबैकोज प्राइवेट लिमिटेड
584	U01222TG1980PTC002609	राज राजेश्वरा हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड
585	U16001AP1980PTC002610	सत्य ज्योति टोबैको इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
586	U92111TG1980PTC002614	वैट्रा प्राइम मूर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
587	U24239TG1980PTC002618	स्वाति फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
588	U31909TG1980PTC002620	हाइसेक हीटिंग इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
589	U72200TG1980PTC002622	लोटस कम्प्यूटर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
590	U65992TG1980PTC002624	मंजीरा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
591	U45200TG1980PTC002625	रेणुका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
592	U16001AP1980PTC002627	मिल्लापल्ली आदीनारायणा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
593	U92111TG1980PTC002628	यूरेका थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
594	U31909TG1980PTC002631	पैपीरस एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
595	U65992TG1980PTC002632	संघमित्रा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
596	U24110TG1980PLC002640	सवेरा मेरीन साल्ट एंड केमिकल्स लिमिटेड
597	U18101TG1980PTC002642	ऑरियो एम्पेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
598	U24230AP1980PTC002643	त्रावर डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड
599	U29309TG1980PTC002645	डायना इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड-
600	U55101TG1980PTC002646	मिरालम लेक रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
601	U24239AP1980PTC002647	मोनीज फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
602	U24111TG1980PTC002648	जी एस इंडस्ट्रियल गैसेज प्राइवेट लिमिटेड
603	U19112AP1980PTC002650	क्यूरेक्स टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड
604	U17119AP1980PTC002651	श्री श्रीनिवास जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
605	U01119TG1980PTC002652	श्रीराम सिस्टम्स एंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
606	U14102TG1980PTC002658	लियो स्टोइन (टेक्सटायर्ड कोटिंग्स) प्राइवेट लिमिटेड
607	U28932TG1980PTC002660	इन्नोवेटिव टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
608	U92111TG1980PLC002661	प्रजा पिकचर्स लिमिटेड
609	U74140TG1980PTC002662	मीनार टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
610	U74140TG1980PTC002669	रूरल इंडस्ट्रियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
611	U05005AP1980PLC002670	आंध्रा साल्ट एंड मेरीन केमिकल्स लिमिटेड
612	U17230AP1980PTC002673	गोदावरी बोटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
613	U65992TG1980PTC002682	संध्या चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
614	U31400TG1980PTC002683	डेक्कन बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड
615	U25200TG1980PLC002684	डेक्कन रेजिन्स लिमिटेड
616	U65992AP1980PTC002687	मीनाका फाइनांस एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
617	U05005AP1980PTC002688	युनाइटेड कोस्टल फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
618	U99999TG1980PLC002692	रॉयलसीमा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
619	U65992AP1980PTC002695	सुधारा चिट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
620	U45200AP1980PTC002700	जयसिम्हाया थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
621	U45200TG1980PTC002701	रेड्डी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
622	U29309TG1980PTC002704	अनुष्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
623	U65921AP1980PTC002705	चेरुबिक क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
624	U01122TG1980PTC002712	वसंत एगो एंड एलॉइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
625	U45200TG1980PTC002716	आहूरा इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
626	U52520TG1980PTC002720	कैस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
627	U26942TG1980PTC002721	दत्तात्रेय सीमेंट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
628	U22210TG1980PTC002722	इंस्टाप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
629	U31909TG1980PTC002723	नागार्जुना इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
630	U52520TG1980PTC002724	एनलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
631	U29219TG1980PLC002725	यूनिफॉर्म मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड
632	U65992TG1980PTC002728	वर्धनी चिट फंड एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
633	U55101TG1980PTC002729	आभा होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड
634	U22210TG1980PTC002730	आवारा प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड
635	U67120TG1980PTC002739	रायलोन्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
636	U65992TG1980PTC002741	शुभोदया चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
637	U92111TG1980PTC002747	मनोहर चित्र प्राइवेट लिमिटेड
638	U67120TG1980PTC002748	एल्जी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
639	U92111TG1980PTC002755	प्रामरचना पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
640	U15499TG1980PTC002756	सागर बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड
641	U63040TG1980PTC002759	गोदावरी ट्रिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
642	U29219TG1980PTC002762	टी बी एल फार्म इंप्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
643	U31909TG1980PTC002768	सेंट्रीफ्यूगल एंड डायकास्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
644	U55101AP1980PTC002770	नवोदय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
645	U99999TG1980PTC002777	जीवन ज्योति प्रेस एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन
646	U29219TG1980PTC002778	यार्लांगडा मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
647	U26100TG1980PTC002784	पॉटर्न ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
648	U22120TG1980PTC002785	प्रिज्म प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
649	U65992TG1980PTC002787	पायनियर चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
650	U52520TG1980PTC002788	वज्र मिनरल्स एंड सिलिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड
651	U24239TG1980PTC002794	रोशक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
652	U24239TG1980PTC002797	डेक्सो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
653	U15499TG1980PTC002799	एन एस आर फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
654	U65992TG1980PTC002801	समैमीस चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
655	U52520AP1980PTC002802	विजासी एंड म्यांसा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
656	U45200TG1980PTC002806	एवेयर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
657	U24230TG1980PTC002807	एरलिक रिमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
658	U31400TG1980PTC002808	माइटी बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड
659	U17230AP1980PTC002810	विजियनगरम जूट मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
660	U21000AP1980PTC002813	इंप्रेसिव इंप्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
661	U27109TG1980PTC002814	पाउडर स्टील स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड
662	U17100TG1980PTC002815	ए पी ग्वालियर डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
663	U65992TG1980PTC002817	फनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
664	U65992TG1980PTC002822	श्रेयोगिलासी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
665	U24134TG1980PTC002823	किसान पॉली पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
666	U65992AP1980PTC002824	ओरूगल्लू चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
667	U74140TG1980PTC002826	पि आर वै एम कंप्यूटर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
668	U74140TG1980PTC002828	सरस्वती इंडस्ट्रियल एंड जेनरल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
669	U31909TG1980PTC002829	अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
670	U18100AP1980PTC002830	साउथ इंडिया जूट फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
671	U24110TG1980PLC002836	पोसीडॉन केमिकल्स लिमिटेड
672	U30004TG1980PTC002838	कॉपीयर्स सेल्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
673	U26942TG1980PTC002847	श्रावती मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
674	U21012TG1980PTC002854	गोलकोंडा पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
675	U65992TG1980PTC002855	टी सी जी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
676	U31300TG1980PTC002857	प्रोपोल एकोनस्टिक एंड झुरमाह इंसुलेशन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
677	U55101TG1980PTC002859	गेट मुगल्स इंटरनेशनल (इन्निंस) प्राइवेट लिमिटेड
678	U65993TG1980PTC002863	पोला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
679	U65992TG1980PTC002864	समदर्शी चिट फंड एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
680	U15499TG1980PTC002867	न्यूबिक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
681	U65993TG1980PTC002868	कन्वेनिएंटिक फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
682	U29219TG1980PTC002871	कॉमड्री टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
683	U29267TG1980PTC002873	यूरेका वाशिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
684	U14220TG1980PLC002875	आर्डी साल्ट्स केमिकल्स लिमिटेड
685	U01222AP1980PTC002876	नांदयाल एगोवेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
686	U29140AP1980PTC002878	ईस्ट कोस्ट फर्नसेस एंड फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
687	U74210TG1981PTC002879	मिजोनी कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
688	U45200TG1981PTC002882	प्रीमियर कांट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
689	U27109TG1981PTC002883	श्री साई बाबा स्टील रॉलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
690	U65992AP1981PTC002884	प्रोमोटिव फाइनांस एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
691	U60100AP1981PTC002893	वाइजाग लॉरी ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
692	U52100TG1981PTC002894	जय सारथी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
693	U24221AP1981PTC002896	विशाखा सेरेमिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
694	U25209TG1981PTC002900	रश्मी लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
695	U15541TG1981PTC002901	आंध्रा बेवरेजेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
696	U36100TG1981PTC002903	एसफाम्स फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड
697	U74200TG1981PTC002905	गजानन इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
698	U27109AP1981PTC002906	कोस्टल स्टेनलेस स्टील फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड
699	U25209TG1981PTC002907	दुर्गा देवी प्लास्टिक केम प्राइवेट लिमिटेड
700	U65992TG1981PTC002908	बसवेश्वरा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
701	U34100TG1981PTC002909	हुम्नाबदकर व्हेकिल्स प्राइवेट लिमिटेड
702	U15143AP1981PTC002911	एरोमस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
703	U27300TG1981PTC002912	बिल्वा प्रेशर डाई कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
704	U13100TG1981PTC002913	कोस्टल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
705	U45200TG1981PTC002917	आर्क हाउस बिल्डर्स एंड कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
706	U26100TG1981PTC002919	जाला मल्लेश कंटेनर्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
707	U51909TG1981PTC002921	कृषाणु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
708	U27109TG1981PTC002922	अलेरा एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड
709	U65992AP1981PTC002923	कोणार्क चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
710	U01122TG1981PTC002924	शादनगर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
711	U01222AP1981PTC002928	मैजेस्टिक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
712	U15143TG1981PTC002932	किरण ऑयल सीड्स प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
713	U29219TG1981PTC002933	वेनिटा स्पेशल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
714	U15311TG1981PTC002935	सिकंदराबाद रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
715	U24110TG1981PTC002938	गोड्रीमुक्काला केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
716	U65992TG1981PTC002939	आदिलाबाद चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
717	U67120AP1981PTC002941	जयलक्ष्मी सिक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
718	U31909TG1981PTC002943	ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
719	U55101TG1981PTC002944	अमृता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
720	U21012AP1981PLC002946	श्री पद्मावती पेपर मिल्स लिमिटेड
721	U51909TG1981PTC002947	सेंट पायम एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
722	U23201TG1981PTC002948	साई मान गैस एपलाइंस प्राइवेट लिमिटेड
723	U15312AP1981PTC002954	श्री अन्नापूर्णा मॉडर्न पारा बायलंड राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
724	U52520TG1981PTC002956	प्रिया साल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
725	U74210AP1981PTC002958	कल्याण चालुक्या इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
726	U24110AP1981PTC002961	नोवेल्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
727	U16001AP1981PTC002967	नवज्योति टोबैको इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
728	U65992TG1981PTC002970	प्रनीति चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
729	U74140TG1981PTC002972	स्पलैंडनर्स मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
730	U65992TG1981PTC002976	अभिनंदन चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
731	U25209TG1981PTC002978	माइक्रान पॉली पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
732	U99999TG1981PTC002981	सम्राट स्पून पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
733	U34300TG1981PLC002983	केन्नारा ऑटो गियर एंड गियर बॉक्सेस लिमिटेड
734	U27109TG1981PTC002984	तेलंगाना मेटेलिक कंप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
735	U24239TG1981PTC002985	अलमैक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
736	U17299TG1981PLC002986	टी टी इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड
737	U74210TG1981PTC002987	देवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
738	U74140TG1981PTC002988	मौर्या इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
739	U25199TG1981PLC002989	स्टील कॉर्ड रबर्स लिमिटेड
740	U31909TG1981PTC002991	ऑस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
741	U05005TG1981PTC002994	केतकी फोश शिनिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
742	U24100TG1981PTC002997	नवजीवन एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
743	U65992TG1981PLC003001	करीमनगर चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
744	U24210AP1981PLC003002	अपीजे केमिकल्स लिमिटेड
745	U65992TG1981PTC003003	निर्माता चिट फंड एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
746	U74210TG1981PLC003006	विनर्मण इंजीनियर्स एंड कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
747	U65993AP1981PTC003008	अनंत लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
748	U65993AP1981PTC003009	श्री रंगराया इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
749	U26102AP1981PTC003010	सिम्हा सुभय इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
750	U65993TG1981PTC003014	कांटीनैटल इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
751	U21098TG1981PTC003019	पिनाकिनी स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड
752	U74999AP1981PTC003067	विजय कृष्णा फैब्रिकेटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
753	U65993TG1981PTC003138	अबाद फैनान्सीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
754	U65993TG1981PLC003154	टोबैको डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
755	U24220AP1981PTC003176	कोरोमंडल पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
756	U45200TG1981PTC003219	साईराम कंस्ट्रक्शन्स (प्रा.) लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
757	U18100TG1981PTC003232	प्रोग्रेसिव सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड
758	U22110TG1981PTC003243	नागार्जुना पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
759	U28992TG1981PTC003294	साउथ इंडिया बैरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
760	U25209TG1982PTC003354	श्री विजयलक्ष्मी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
761	U16001TG1982PTC003461	कोरोमंडल सिगरेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
762	U29295TG1983PLC003813	हैदराबाद मौलडिंग्स लिमिटेड
763	U74140TG1983PTC003861	प्रोफेशनल्स कम्बाइन प्राइवेट लिमिटेड
764	U85110TG1983PTC003885	ट्विन सिटीज मेडिकल एंड कार्डिअक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
765	U21022TG1983PTC003909	चारमीनार पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
766	U45200TG1983PTC003932	सप्तगिरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
767	U45200TG1983PTC003954	प्रोकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
768	U74300TG1983PTC004016	क्रिएटिव डायमैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
769	U92111TG1983PTC004039	साईकृष्णा पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
770	U74210TG1983PTC004163	चैतन्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
771	U72200TG1983PTC004187	अक्षरा इंफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
772	U22219TG1983PTC004196	महालक्ष्मी श्रीनता फॉर्म्स एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
773	U24299TG1983PLC004228	श्री श्रीनिवास स्टार्च कंप्लेक्स लिमिटेड
774	U74210TG1983PTC004366	अर्चना इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
775	U74140TG1984PTC004369	श्री शारदा कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड
776	U65910TG1984PLC004392	प्रोग्रेसिव लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड
777	U52520TG1984PTC004403	हैदराबाद मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
778	U15312AP1984PTC004408	कोरोमंडल रवांडपारा बॉयल्ड राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
779	U15499TG1984PTC004464	आंध्र प्रदेश प्रोटीन फुड्स एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
780	U65993TG1984PLC004491	विजयनगर फाइनांस लिमिटेड
781	U74140TG1984PTC004496	कोरोमंडल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
782	U27100AP1984PTC004555	श्री आदित्या शिपिंग एंड मेटल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
783	U85110TG1984PLC004580	इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीच्यूट लिमिटेड
784	U27109TG1984PLC004630	प्रियदर्शिनी कास्टिंग्स लिमिटेड
785	U65993TG1984PTC004640	सेवन हिल्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
786	U74999TG1984PTC004670	सरवर्य सिगरेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
787	U74210AP1984PTC004708	चंद्रा इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
788	U65993TG1984PLC004810	जय भवानी लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
789	U25209AP1984PTC004816	गुरुदत्ता पैकेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
790	U16001AP1984PTC004822	सत्य श्री टोबैको ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
791	U18100TG1984PLC004840	श्री लक्ष्मीदुर्गा गिनिंग एंड ऑयल्स लिमिटेड
792	U23209AP1984PTC004881	श्री राघवेन्द्र सॉलिड फ्यूल कंप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
793	U31909TG1984PLC004885	आंध्र प्रदेश फ्लोरोसेंट्स लिमिटेड
794	U65993TG1984PTC004908	गोपीकृष्णा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
795	U55101TG1984PTC004958	भानु होटल्स एंड प्रोपराइटीस प्राइवेट लिमिटेड
796	U65992TG1984PTC004987	लक्ष्मी प्रसन्ना चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
797	U72200TG1984PLC004989	इंटरनेशनल मशीन इंटेलीजेंस लिमिटेड
798	U45200TG1984PTC005099	रावुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
799	U51109AP1984PTC005143	कोस्टल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
800	U52599TG1984PTC005170	गायत्री देवी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
801	U74999TG1985PTC005287	आंध्र प्रदेश डेक्सट्रिन मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
802	U63022TG1985PTC005322	विजय मेटलर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
803	U74999AP1985PTC005326	विशाखा पोलीपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
804	U45200TG1984PTC005463	माहेश्वरी बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
805	U30009TG1985PTC005479	कांटीनैटल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
806	U35922TG1985PTC005498	श्री त्रिशुल कार्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
807	U74140TG1985PTC005756	वैनटेक कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
808	U33112TG1985PTC005934	रामकृष्णा सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
809	U15541TG1985PLC005957	कोरोमंडल बेवरेजेज लिमिटेड
810	U14297AP1986PTC006340	वीनस मिनरल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
811	U24230TG1986PTC006392	यूरेका लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
812	U24230TG1986PTC006399	हाईटेक- मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
813	U65990TG1986PTC006411	प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
814	U65990TG1986PTC006425	हैदराबाद इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
815	U45200TG1986PTC006450	21स्ट सेंचुरी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
816	U99999AP1986PTC006468	श्री चक्र ग्रैनाइट्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
817	U45200AP1986PTC006510	अश्विनी कंस्ट्रक्शन एंड कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
818	U65993AP1986PTC006549	श्री लक्ष्मी विग्नेश्वरा फाइनांस एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
819	U24292AP1986PTC006570	श्री कृष्णा एक्सप्लोसिव्स एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
820	U45200TG1986PTC006678	एसोसिएटेड बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
821	U74140TG1986PTC006759	कोस्टल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
822	U05004AP1986PTC006760	कोरोमंडल फिशिंग नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
823	U21012TG1986PTC006920	श्री वेंकटेश मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
824	U74999TG1986PTC006962	पेंगुइन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
825	U05004AP1987PTC007297	सेवन हिल्स फिशरिज प्राइवेट लिमिटेड
826	U27203TG1987PTC007363	हैदराबाद मेटलुमीन प्राइवेट लिमिटेड
827	U24230TG1987PLC007542	पैरामाउंट इंप्रूजन्स लिमिटेड
828	U74300TG1987PTC007549	चैतन्या कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
829	U28933TG1987PTC007634	मैत्री आर्नामेंटल फोरगिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
830	U55101AP1987PTC007713	वेंकट लक्ष्मी श्रीनिवास रेस्टूरेंट प्राइवेट लिमिटेड
831	U24239TG1987PTC007723	ओटिरा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
832	U65993TG1987PTC007762	सौभाग्य इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
833	U15209TG1987PTC007859	श्री वेंकटेश्वरा मौलडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
834	U29120TG1987PTC007896	प्रीमियर सबमर्शिबल पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड
835	U65910TG1987PTC007935	रामांजनेय फाइनांस एंड हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
836	U65993TG1987PTC007968	स्वर्णमुखी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
837	U63011TG1987PTC008019	कोरोमंडल ट्रांसपोर्ट कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
838	U74210TG1987PTC008103	चंदना इंजीनियरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
839	U65993TG1987PTC008117	सदर्न इंटीग्रेटेड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
840	U20221TG1988PTC008177	कोस्टल वुड क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
841	U74999AP1988PLC008226	श्री श्रीनिवास एल्युमिनियम क्राफ्ट्स लिमिटेड
842	U52520AP1988PTC008290	अमरावती मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
843	U65992TG1988PTC008341	रजनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
844	U65992AP1988PTC008460	श्री मारुति महेश्वरा फाइनांस एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
845	U99999TG1988PTC008471	वैक्टरमणा स्टोन प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
846	U31909AP1988PTC008545	श्री वैकटेश्वरा इलेक्ट्रिकल कांटेक्टर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
847	U65992AP1988PTC008728	विश्वविजेता फाइनांस एंड चिट फंड्स लिमिटेड
848	U45200TG1988PTC008734	सप्तगिरी इंजीनियरिंग कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
849	U65991TG1988PTC008740	ट्विन सिटीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
850	U24219TG1988PTC008769	भाग्यनगर फ्लोकेम प्राइवेट लिमिटेड
851	U31909TG1988PTC008982	तुंगभद्रा इलेक्ट्रोडस प्राइवेट लिमिटेड
852	U65993TG1988PTC009063	थोडुपुनुरी पुष्पम्मा सम्बय्या जेनरल इन्वेस्ट एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
853	U80300TG1988PTC009337	नालंदा एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
854	U65910TG1988PLC009398	प्राजय फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
855	U65992TG1988PTC009418	श्राव्या चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
856	U65993TG1989PTC009461	श्री एचमैट्स प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्ट .बी.
857	U52520TG1989PTC009498	संतोष मार्केटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (मैट्स)
858	U72200TG1989PTC009519	एसोसिएटेड इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
859	U65993TG1989PTC009524	विश्वास इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
860	U45200TG1989PTC009638	भाग्यनगर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
861	U52392TG1989PTC009731	धनलक्ष्मी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
862	U27109AP1989PTC009747	डायनामिक इन्वेस्टमेंट्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
863	U18209AP1989PTC009774	श्री लक्ष्मी लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
864	U70102TG1989PLC009832	नागार्जुना कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
865	U45200TG1989PLC009833	सदर्न इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
866	U65992AP1989PTC009944	शशिधारा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
867	U27204TG1989PTC009967	श्री राघवेंद्र ऑक्साइड्स प्राइवेट लिमिटेड
868	U45200TG1989PTC010006	श्री लक्ष्मी गणपति कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
869	U85110TG1989PTC010035	रामकृष्णा नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
870	U51909AP1989PTC010207	श्री अरुणा एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
871	U65993TG1989PTC010254	त्रिपुरा सुंदरी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
872	U65993AP1989PTC010352	शिरडी साई इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
873	U67120TG1989PTC010355	शिरडी साई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
874	U65910TG1989PTC010476	परमेश्वरी लीजिंग एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
875	U45200TG1989PTC010575	गोदावरी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
876	U31909TG1989PTC010738	प्रगति एपलाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
877	U65993TG1990PTC010974	वैंटेज इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
878	U65910TG1990PTC010987	श्री वैकटेश्वरा ऑटो फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
879	U74140AP1990PTC011033	विजयवाड़ा मैनेजमेंट कंसलटेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
880	U67120TG1990PLC011045	मिलेनियम सिक्यूरिटीज लिमिटेड
881	U45200AP1990PTC011109	गुडविल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
882	U67120AP1990PTC011143	विजयलक्ष्मी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
883	U72900TG1990PTC011254	डेक्कन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
884	U65993TG1990PTC011376	कनकधारा मर्सैन्टाइल एंड फाइनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
885	U01222TG1990PTC011389	माधुरी पॉल्ट्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
886	U15143TG1990PTC011394	श्री वैकटेश्वरा कोकोनट फुड प्राइवेट लिमिटेड
887	U24110TG1990PTC011445	चैतन्या लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
888	U99999TG1990PTC011501	अन्नपूर्णा एक्सप्लोसिव केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
889	U65993TG1990PTC011524	तिरुमला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
890	U45200TG1990PTC011528	श्री गोपालकृष्णा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
891	U65992AP1990PTC011541	श्री शिवज्योति चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
892	U24110TG1990PTC011609	श्री सत्य साई केमिकल्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
893	U74999TG1990PTC011655	सोमेश्वरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
894	U18209TG1990PTC011690	एसोसिएटेड फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
895	U29309TG1990PTC011751	सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
896	U23201TG1990PTC011811	हैदराबाद ल्यूब्रिकेंट्स एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड
897	U26921TG1990PLC011826	नागार्जुना लिटेक्रीट लिमिटेड
898	U13209AP1990PTC011829	श्री वेंकटेश्वरा ग्राफिक एंड माइका माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
899	U01122AP1990PTC011830	श्री वेंकटेश्वरा हॉर्टिकल्चर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
900	U63011AP1990PTC011833	श्री वासवी ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
901	U92111AP1990PTC011839	श्री ललिता प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
902	U74300AP1990PTC011841	सिम्हागिरि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
903	U85110AP1990PTC011842	दत्तात्रेय हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
904	U70102TG1990PTC011852	हरिहर इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
905	U05005AP1990PTC011938	श्री साई राम फ्रिजर्स प्राइवेट लिमिटेड
906	U31909TG1990PTC011984	अयप्पा इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
907	U64203TG1990PTC012044	डेक्कन टेलिकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
908	U15312TG1990PTC012049	विजयवाड़ा पारा बायल्ड प्राइवेट लिमिटेड
909	U65993TG1990PTC012062	स्ला लीजिंग एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
910	U65993TG1990PTC012063	स्ला लीजिंग एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
911	U63011AP1991PTC012163	मुरलीकृष्णा ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
912	U29303TG1991PTC012172	लक्ष्मी नरसिंहा फैन्स प्राइवेट लिमिटेड
913	U15209TG1991PTC012248	इंटरनेशनल डेयरी फुड प्राइवेट लिमिटेड
914	U30001TG1991PTC012258	अश्विनी ऑटोमीटियस प्राइवेट लिमिटेड
915	U74999AP1991PTC012263	श्री वेंकटेश्वरा चित्रमंदिर प्राइवेट लिमिटेड
916	U65910AP1991PTC012331	विरमाचन्नेनी फाइनांस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
917	U27203TG1991PTC012403	श्री वेंकटेश्वरा एल्यूमिनियम बॉइस प्राइवेट लिमिटेड
918	U65922AP1991PLC012516	गृहलक्ष्मी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
919	U65992AP1991PTC012546	दूरदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
920	U74210TG1991PTC012553	श्री वेंकटरमन्ना इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
921	U45200AP1991PTC012558	मुरलीकृष्णा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
922	U65920TG1991PTC012640	धनवर्षा कॉमर्शियल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
923	U24239TG1991PTC012661	परमेश्वरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
924	U21029TG1991PTC012727	मनोहर एजुकेशनल इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड
925	U24110TG1991PTC012744	श्री लक्ष्मी देवी पॉचेज एंड कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
926	U72200TG1991PTC012746	श्री वेंकटेश्वरा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
927	U65910AP1991PTC012964	बविता कॉमर्शियल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
928	U65993TG1991PTC012975	श्री ध्रुव फाइनांस एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
929	U74999AP1991PTC013025	श्री कृष्णा लिमग्रॉस प्राइवेट लिमिटेड
930	U17116AP1991PTC013034	प्रसन्ना सेरीकल्चर ग्रेनेज प्राइवेट लिमिटेड
931	U45200TG1991PTC013110	तिरुपति प्रोमोटर्स एंड कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
932	U17116AP1991PTC013221	सप्तगिरी ग्रेनेजेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
933	U15520TG1991PTC013238	वैक्टरमणा वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
934	U18100TG1991PTC013251	टिवन सिटीज इंटरकांटीनेन्टल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
935	U99999AP1991PTC013361	श्री वैकट साई पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
936	U99999TG1991PTC013395	मल्टीटेक इक्विपमेंट एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
937	U45200TG1991PTC013426	भद्राचलम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
938	U65993TG1991PTC013496	भाग्यलक्ष्मी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
939	U65993TG1991PTC013532	क्ले0न एंड मार्शलस् फाउंडेशन्स (इंडिया)
940	U74140TG1992PTC013690	प्रोफेशनल ऑफिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
941	U65993TG1992PTC013693	अंडाल फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
942	U55101TG1992PTC013713	श्री पद्मावती वैकटेश होटल्स एंड केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड
943	U34300TG1992PTC013746	चारमीनार ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
944	U74999TG1992PTC013824	शन्मुख थर्मोपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
945	U15499TG1995PTC013834	मशीनो फैब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
946	U67120TG1992PTC013852	भगवती बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
947	U85110TG1992PTC013869	चामुंडेश्वरी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
948	U45201TG1992PTC013878	ईस्ट वेस्ट कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
949	U70102TG1992PTC013889	श्री द्वारकामय इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
950	U70102TG1992PTC013901	वसुंधरा देवी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
951	U92111TG1992PTC013913	श्री सच्चिदानंद क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
952	U65993TG1992PTC013915	श्री द्वारकामय वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
953	U65993TG1992PTC013937	अभ्युदय फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
954	U29309TG1992PTC013954	श्री लक्ष्मी एपलाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
955	U24110AP1992PTC014083	वैकटलक्ष्मी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
956	U65992TG1992PTC014134	नवचैतन्या चिट फंड एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
957	U45200TG1992PLC014259	आंध्र प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनांस कार्पोरेशन लिमिटेड
958	U24110TG1992PTC014272	प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
959	U14102TG1992PTC014338	वसुंधरा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
960	U65993TG1992PTC014391	जाह्नवी इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
961	U29309TG1992PLC014432	नागार्जुना इंडरपेजिंग लिमिटेड
962	U67120AP1992PLC014480	कनक वर्षा सिक्यूरिटीज लिमिटेड
963	U73100AP1992PTC014526	रायलसीमा डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
964	U74210TG1992PTC014548	विजयलक्ष्मी ह्यूमन नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
965	U70102AP1992PTC014556	श्री श्रीनिवासा मुरलीकृष्णा रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
966	U65993TG1992PTC014565	सुरक्षा फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
967	U21010TG1992PTC014568	श्री वैकट सत्यनारायणा फ्रूट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
968	U24230TG1992PTC014621	स्टैंडर्ड थरेपेटिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
969	U45200TG1992PLC014701	सेवन हिल्स कंस्ट्रक्शन्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
970	U65993TG1992PTC014712	श्रीनिधि कॉमर्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
971	U74300TG1992PTC014749	तेलंगाना एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
972	U73100AP1992PTC014785	राजमुंद्री डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
973	U74140TG1992PTC014861	ओरिएंटल मैनेजमेंट कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
974	U74210TG1992PTC014864	श्रीनिधि इंजीनियर्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
975	U05005AP1992PTC014900	आंध्र प्रदेश एक्वाकल्चर कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
976	U51909TG1992PLC014917	प्रीमियर इंटरनेशनल लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
977	U74140TG1992PTC014988	प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल फाइनांस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
978	U15520TG1992PLC015066	पायनियर डिस्टिलरीज लिमिटेड
979	U01122AP1992PLC015078	भद्राचलम प्लांटेशन एंड होलिडे रिसोर्ट्स लिमिटेड
980	U27109TG1992PTC015130	इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
981	U65910TG1993PLC015227	इंडवेल लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
982	U31909TG1993PTC015317	अश्विनी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
983	U70102TG1993PTC015338	प्राइड होम्स प्राइवेट लिमिटेड
984	U45200TG1993PTC015374	श्रीचक्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
985	U65921TG1993PTC015523	पर्वतानेनी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
986	U01122TG1993PTC015569	आर ई एस एगोटैक प्राइवेट लिमिटेड
987	U01122TG1993PTC015615	विजया फाइटो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
988	U55101TG1993PTC015675	वीके हॉस्पिटलटिज एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
989	U99999TG1993PTC015864	स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
990	U65921AP1993PTC015911	श्री लक्ष्मी परमात्मा फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
991	U74210TG1993PTC016050	प्रियंका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
992	U99999AP1993PLC016076	रामा कृष्णा फाइनांस लिमिटेड
993	U67120TG1993PTC016095	श्री रामचंद्र इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
994	U51909TG1993PTC016226	श्री साई सूर्या मशरूम्स प्राइवेट लिमिटेड
995	U65992AP1993PTC016327	दंदामुडी चिट फंड एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
996	U74300AP1993PTC016341	विशाखा एडवरटाइजर प्राइवेट लिमिटेड
997	U45200TG1993PTC016353	साई लक्ष्मी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
998	U67120TG1993PTC016378	प्रगति सिक्कूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
999	U65993TG1993PTC016383	एक्यूमेन फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1000	U65992TG1993PTC016469	श्री चक्र श्रावण चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1001	U65920TG1993PTC016470	श्री चक्र श्रावण फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1002	U65921TG1993PTC016567	मेटपल्लीवेमुलावड़ा- हायर परचेज फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1003	U45200TG1993PLC016694	स्नेहलता इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1004	U67120TG1993PTC016716	सूर्या शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1005	U29309TG1993PTC016808	पायनियर स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1006	U45200TG1993PTC016809	मल्लिकार्जुना इंजीनियर्स एंड कांस्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1007	U40109TG1994PLC017388	डंकन मैकनील पॉवर एंड यूटिलिटीज लिमिटेड
1008	U70102TG1994PLC017393	डंकन मैकनील इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
1009	U31402TG1994PTC017503	श्री राघवेन्द्र एक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1010	U45200TG1994PTC017540	मा साई दत्ता होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1011	U92110TG1994PTC017638	सिम्फनी ब्रोडकास्ट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1012	U27209TG1994PLC017652	कीर्ति कॉपर लिमिटेड
1013	U65992TG1994PTC017780	श्री साई नागार्जुना चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1014	U65992AP1994PTC017930	श्री पद्मावती वेंकटेश्वरा चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1015	U45201TG1994PTC018065	अश्विनी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1016	U65999TG1994PLC018099	चारमीनार फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
1017	U70102AP1994PTC018105	श्री वेंकट सास्ता वेंचर्स एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
1018	U65993AP1994PTC018108	साई लक्ष्मी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1019	U65920TG1994PTC018143	सेवल हिल्स फानांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1020	U99999AP1994PTC018200	श्री भवानी मेरीन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1021	U65992AP1994PTC018336	श्री विग्नेश्वरा फाइनांस एंड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1022	U74999AP1994PLC018457	प्रगति इनआर्गेनिक्स लिमिटेड
1023	U65993TG1994PTC018478	श्रीनिधि करीमनगर फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1024	U22110TG1994PTC018483	आंध्र भूमि पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1025	U74120TG1994PTC018604	श्री साई कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1026	U65992TG1994PTC018607	श्री साई संवृद्धि चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1027	U05005TG1994PLC018708	रिसोर्स एक्वा लिमिटेड
1028	U99999TG1994PLC018824	काकतिया सिक्यूरिटीज लिमिटेड
1029	U65922AP1994PTC018856	अवधानी हाउसिंग एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1030	U65910TG1994PLC018983	श्री महालक्ष्मी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
1031	U65992AP1994PTC019062	श्री गणपति सच्चिदानंद फाइनांस एंड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1032	U65923TG1995PTC019150	वैष्णवी फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1033	U67120TG1995PTC019204	राज्यलक्ष्मी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
1034	U92199TG1995PTC019257	श्री रामानुजा थिएटर्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1035	U65910TG1995PTC019429	श्री केशव फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1036	U67120AP1995PTC019433	प्रोग्रेसिव सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1037	U65993TG1995PTC019515	वसुंधरा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1038	U65993AP1995PTC019787	कोलोनियल इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1039	U65992AP1995PTC019861	राज राजेश्वरी चिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1040	U65993TG1995PTC019876	कामारेड्डी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1041	U65992TG1995PTC019935	मेटपल्ली करीमनगर चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1042	U24219TG1995PTC019967	ग्रीन गोल्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1043	U24219TG1995PLC019981	ग्रीन गोल्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड
1044	U67120TG1995PLC019995	बर्कशायर सिक्यूरिटीज लिमिटेड
1045	U74999TG1995PTC020296	जनप्रिया कॉमर्शियल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1046	U24110TG1995PTC020311	श्री वेवेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1047	U92111AP1995PTC020374	चिराला कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1048	U40109TG1995PLC020401	कुमार्स एनर्जी कांफरिशन लिमिटेड
1049	U74999AP1995PTC020423	बालाजी लॉकर्स प्राइवेट लिमिटेड
1050	U65992TG1995PTC020580	कमलापुर भद्रकाली चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1051	U65920TG1995PLC020796	श्री गुरुदत्ता कैपिटल्स लिमिटेड
1052	U18100TG1995PTC021112	विनटेक्स कॉटगिन प्राइवेट लिमिटेड
1053	U65993AP1995PTC021151	राधा कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1054	U45200TG1995PTC021189	नार्थईस्ट- कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1055	U90009TG1995PTC021202	माइक्रो कंटेमिनेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
1056	U92111AP1995PTC021316	चित्तरू कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1057	U65992TG1995PLC021609	करीमनगर जयंती चिट फंड्स लिमिटेड
1058	U65910TG1995PTC021613	स्नेहा शक्ति फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1059	U45200TG1995PTC021956	विनायक कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1060	U65992AP1995PTC021978	विशाखा कल्पवृक्ष चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1061	U65922TG1995PLC022218	डंकन मैकनील हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लिमिटेड
1062	U27109TG1995PLC022219	इंडो अमेरिकन स्टील्स लिमिटेड
1063	U14102TG1995PTC022318	श्री वैकट सत्यनारायणा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1064	U65992AP1995PTC022320	श्री साई संपत चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1065	U29309TG1995PTC022355	श्री सत्य साई सेमिकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1066	U65992AP1995PLC022379	श्री साई सिरि फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड
1067	U93090TG1995PTC022420	श्री वैकटेश्वरा मैरिज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1068	U45200TG1995PTC022426	श्री गुरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1069	U70100TG1995PTC022427	श्री सद्गुरु दत्तासाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1070	U70102TG1995PTC022431	हजुराबाद सूर्या रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1071	U65992AP1995PTC022452	टुल्लुरी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1072	U65992AP1995PTC022524	स्वीया दर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1073	U99999TG1995PLC022537	श्री शिवा साई सिक्यूरिटीज लिमिटेड
1074	U65990AP1995PLC022566	पी.जी. फॉर्चून सिक्यूरिटीज लिमिटेड
1075	U29309AP1995PTC022589	रॉयलसीमा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1076	U92111TG1995PTC022711	सेवेन हिल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
1077	U18100TG1996PTC022805	श्री बालाजी वैकटेश्वरा टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1078	U65921TG1996PLC022837	श्री वैकट पद्मावती फाइनांस लिमिटेड
1079	U65921TG1996PLC023027	कमलापुर भद्रकाली कॉमर्शियल फाइनांस लिमिटेड
1080	U70102TG1996PLC023035	लीला कृष्णा इस्टेट्स लिमिटेड
1081	U65910TG1996PTC023082	धन वर्षा लीफिन एंड हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
1082	U65910TG1996PLC023083	श्री देवी अन्नपूर्णा एसोसिएट्स लीजिंग हायर परचेज 7
1083	U65990TG1996PLC023195	वैष्णवी सिक्यूरिटीज लिमिटेड
1084	U80220TG1996PTC023299	यूरेका टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1085	U24290TG1996PLC023357	रायलसीमा कैल्सियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1086	U63023TG1996PTC023454	हेरिटेज पोलीपैक प्राइवेट लिमिटेड
1087	U65910TG1996PLC023493	प्रियदर्शिनी इंवेस्टमेंट लिमिटेड
1088	U65920TG1996PTC023525	श्री साई प्रिया फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1089	U25202TG1996PTC023558	श्री साई विनायक पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1090	U72200TG1996PTC023576	श्री सत्य साई सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1091	U17120AP1996PLC023597	स्वर्णमुखी टेक्सटाइल्स लिमिटेड
1092	U70100TG1996PTC023651	श्री साई राम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
1093	U70100AP1996PTC023717	कृष्णवेणी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1094	U65992AP1996PTC023720	श्री दत्ता साई चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1095	U74140AP1996PTC023802	ईस्ट कोस्ट ओवरसीज एम्प्लायमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1096	U45200AP1996PTC023850	साई चरण कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1097	U65921AP1996PTC023904	श्री ललिता फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1098	U65992AP1996PTC023925	श्री वैकट महालक्ष्मी चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1099	U65992TG1996PTC023940	ओम श्री गणेश नीला चिट्स एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1100	U65990TG1996PTC024092	वसुंधरा सिक्यूरिटीज एंड फाइनांस करीमनगर प्राइवेट लिमिटेड
1101	U21010TG1996PTC024257	भाग्यनगर कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
1102	U74999AP1996PTC024263	श्री बाला चामुंडेश्वरी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1103	U65910TG1996PTC024333	कृष्णा पांचजन्य फाइनांस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1104	U65910TG1996PTC024358	श्री लक्ष्मी नरसिंहा लीफिन प्राइवेट लिमिटेड
1105	U72200TG1996PLC024359	व्हाइट फील्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स लिमिटेड
1106	U65992AP1996PTC024389	श्री सुब्रमण्येश्वरा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1107	U01110AP1996PTC024427	संपदा एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1108	U74300TG1996PTC024447	मरक्युरी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1109	U74999TG1996PTC024454	श्रेष्ठ रेफ्रिजेशन प्राइवेट लिमिटेड
1110	U72200TG1996PTC024455	गुडे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1111	U45203TG1996PTC024460	श्रेष्ठ स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1112	U80900AP1996PTC024465	प्रगति प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1113	U74990TG1996PTC024540	बेस्ट च्वाइस हॉस्पिटलेटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1114	U70100TG1996PTC024563	विजेता कांट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1115	U01212TG1996PTC024653	एन्नाराई लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड
1116	U51496TG1996PLC024874	पायनियर मल्टी5विजन्स (इंडिया) लिमिटेड
1117	U72200TG1996PTC024878	हॉरिजन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1118	U65910AP1996PLC024920	गुरु राघवेन्द्र फाइनांस लिमिटेड
1119	U36911AP1996PTC024974	पेगासुस प्रेसियस स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
1120	U65992TG1996PTC025036	श्री साई ममता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1121	U74210TG1996PTC025045	विजयलक्ष्मी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
1122	U72200TG1996PTC025273	फर्स्ट इंडियन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
1123	U65992AP1996PTC025368	कांची कामाक्षी चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1124	U65992TG1996PTC025416	गोल्डन थ्रशोल्ड चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1125	U99999TG1996PLC025492	हर्ट एनिमेशन स्टूडियोज लिमिटेड
1126	U65992AP1996PTC025631	विजया लीफिन एंड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1127	U65992TG1996PTC025650	सिद्धि गणेश चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1128	U74999TG1996PTC025715	श्रीचक्र हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड
1129	U65921TG1996PLC025789	वारंगल एसोसिएट्स फाइनांस एंड हायर परचेज लिमिटेड
1130	U74950TG1996PTC025861	मणिकंटा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1131	U01119TG1996PTC025925	ग्रीन अर्थ प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1132	U40109TG1996PLC025996	डी सी पॉवर लिमिटेड
1133	U65992TG1996PTC026065	दिव्या विजयदुर्गा चिटफिन प्राइवेट लिमिटेड
1134	U65992TG1996PTC026066	श्री वेणुगोपालस्वामी चिट फंड एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1135	U72200AP1997PTC026183	मचिलीपटनम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1136	U14102TG1997PTC026210	तुंगभद्रा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1137	U65991TG1997PTC026281	संकीर्तना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1138	U99999TG1997PLC026324	वेंकट साई जेनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
1139	U65992TG1997PTC026363	श्री लक्ष्मी भवानी चिट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड
1140	U27109AP1997PTC026370	श्री कनकमहा लक्ष्मी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1141	U65992TG1997PTC026381	श्री साई विष्णुवर्द्धन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1142	U24230TG1997PTC026415	हॉलमैक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1143	U99999TG1997PLC026460	क्रिएटिव इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड
1144	U22110TG1997PTC026461	शिवरंजनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
1145	U65910AP1997PLC026481	गोल्डन रॉक इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनांस लिमिटेड
1146	U70102TG1997PTC026493	मेगासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1147	U45200AP1997PTC026632	श्री सत्य साई वसुंधरा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1148	U24230TG1997PTC026679	हैदराबाद एंटीबायोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1149	U65992AP1997PTC026698	बालाजी लॉकर्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1150	U51493AP1997PTC026764	श्री श्रीनिवास ग्रिनेज प्राइवेट लिमिटेड
1151	U74300AP1997PTC026797	सूर्य भास्कर पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1152	U45200TG1997PTC026837	ज्योतिमयी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1153	U73100TG1997PLC026868	फोर्थ डायमेंशन कोआर्डिनेटर्स लिमिटेड
1154	U15510TG1997PLC026942	सर्गा डिस्टलरीज लिमिटेड
1155	U65992TG1997PTC027004	साई मणिकंटा चिटफिन प्राइवेट लिमिटेड
1156	U65992AP1997PTC027146	श्री वेंकट भवानी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1157	U65910AP1997PLC027301	श्री वासवी महालक्ष्मी फाइनांस लिमिटेड
1158	U72200TG1997PTC027356	यूनिवर्सल इंफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1159	U72200TG1997PLC027432	पैराडिगम इंफारमेशन सिस्टम्स लिमिटेड
1160	U65993TG1997PTC027445	श्री तिरुमला श्रीनिवास ऑटो फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1161	U45200TG1997PLC027456	प्रदेश विकास बिल्डर्स लिमिटेड
1162	U65921TG1997PLC027472	कृष्णा साई जयचक्र हायर परचेज लिमिटेड
1163	U72200TG1997PTC027499	श्री रमणा इंफारमेशन रिसर्च एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1164	U65992TG1997PLC027533	लक्ष्मी प्रसन्ना क्रेडिट एंड कॉमर्शियल इंडिया लिमिटेड
1165	U65993AP1997PTC027625	श्री ब्रह्मालिंगेश्वरा फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
1166	U67120AP1997PTC027687	विजयवाड़ा सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1167	U64204TG1997PTC027722	सिकंदराबाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1168	U85110AP1997PLC027727	कृष्णवेणी हॉस्पिटल्स लिमिटेड
1169	U85110TG1997PTC027829	भाग्यनगर ऑर्थोपेडिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
1170	U67120TG1997PLC027927	साई प्रसन्ना एसोसिएट्स सिक्यूरिटीज लिमिटेड
1171	U72200TG1997PTC027961	ब्रिलिएंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1172	U17232AP1997PTC027991	कॉस्मो बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1173	U52393AP1997PTC028161	कनक दुर्गा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
1174	U24220TG1997PTC028267	नंदी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
1175	U70100AP1997PTC028330	श्री वेंकटेश्वरा एपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1176	U14102AP1997PTC028369	रायलसीमा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1177	U92120TG1997PTC028370	श्री श्रीनिवास थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1178	U45201TG1997PTC028585	वेंकट पद्मावती इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1179	U27201TG1997PTC028611	भाग्यनगर इंसुलेटेड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
1180	U28939TG1998PTC028763	विजेता इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1181	U92111AP1998PTC028778	वाइजाग कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1182	U45201TG1998PTC028793	सिकंदराबाद प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1183	U22121TG1998PTC028803	मिडरैम पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1184	U74140TG1998PTC028841	शिवप्रिया कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1185	U65992AP1998PTC028880	श्री साई बालाजी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1186	U65992TG1998PTC028883	श्री विजयदुर्गा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1187	U80301TG1998PLC028888	त्रिवेणी एजुकेशनल एकेडमी लिमिटेड
1188	U65993TG1998PTC029037	कौन्डिन्या फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1189	U51909TG1998PTC029123	ब्रह्म तेजा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1190	U85100TG1998PTC029158	सिद्धार्थ मोजमजाही हेल्थ केयर स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1191	U27104TG1998PTC029213	पेन्नार एल्यूमिनियम कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1192	U40108TG1998PLC029347	आंध्र प्रदेश विंड फार्म्स लिमिटेड
1193	U70100TG1998PTC029393	हरिप्रिया टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1194	U70100AP1998PTC029460	श्री धनलक्ष्मी मैंगियम इवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
1195	U80301TG1998PTC029484	कॉस्मिक कंसियसनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
1196	U63022TG1998PTC029564	श्री वेंकट साई कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1197	U65992TG1998PLC029642	श्री हरिता कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
1198	U65992TG1998PTC029741	श्री साई प्रियदर्शिनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1199	U74200TG1998PTC030048	बर्नहार्ड कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1200	U70102TG1998PTC030138	राघवेन्द्र शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1201	U01224AP1998PTC030154	श्री धनलक्ष्मी सेरीटेक सीड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
1202	U52334TG1998PTC030380	एलिट मैग्नेटिक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
1203	U85110AP1998PTC030387	सिबार वूमैन्स हेल्थ केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
1204	U31300TG1998PTC030403	ओवर सोलर केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
1205	U15541TG1998PTC030494	श्री साई लक्ष्मी बोटलिंग प्राइवेट लिमिटेड
1206	U24110TG1998PTC030515	नव दुर्गा फुलर्स अर्थ प्राइवेट लिमिटेड
1207	U24130TG1998PTC030559	वी एस एन प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1208	U65992AP1998PTC030637	श्री अंजली एस.एन. पुरम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1209	U45200TG1998PTC030696	माधव हाइटैक जयलक्ष्मी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1210	U17110TG1998PTC030788	वरलक्ष्मी निटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1211	U63022AP1998PTC030813	श्री पुजीता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1212	U65992AP1998PTC030823	श्री सत्य साई वसुंधरा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1213	U74140TG1999PTC030922	गोवेल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
1214	U01119TG1999PTC030927	चैतन्या कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड
1215	U72200TG1999PTC030935	कामारेड्डी इंस्टीच्यूट एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
1216	U72200TG1999PTC031035	प्रोलिफिक इंफारमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1217	U72900TG1999PTC031064	इंटरफेस साइबर टेक प्राइवेट लिमिटेड
1218	U63011TG1999PTC031131	श्री ललिता ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1219	U74999TG1999PTC031132	प्रतिभा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1220	U45200AP1999PTC031138	श्री पद्मावती श्रीनिवास सन्निधी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1221	U80100TG1999PTC031215	वैष्णवी एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन्स एंड कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1222	U18101TG1999PLC031266	श्री वासवी पोली इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1223	U99999TG1999PTC031280	श्री राजेश्वरा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1224	U74140TG1999PTC031475	मेरिटन कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1225	U51909TG1999PTC031515	मेशेनी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1226	U51909TG1999PTC031586	सुपर सरफेस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1227	U74140TG1999PTC031589	कैप्सटोन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1228	U72200AP1999PTC031620	हरिता इंफारमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1229	U14102TG1999PTC031758	शताब्दी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1230	U40109TG1999PTC031789	स्वर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1231	U45200TG1999PTC031861	शिव शक्ति टाउनशिप प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1232	U24230TG1999PTC032147	वैष्णवी इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
1233	U92111TG1999PTC032211	राधाकृष्णा सिनेमा थिएटर प्राइवेट लिमिटेड
1234	U29305AP1999PTC032221	श्री साई एलिंगट्रानिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1235	U51500TG1999PTC032333	धनंजय इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1236	U72200TG1999PTC032344	कांटेनैटल इफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1237	U72200TG1999PLC032390	विंडा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
1238	U74140AP1999PTC032549	कार्तिकेय कंसलटेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1239	U15209AP1999PTC032558	पालनाडु डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
1240	U72200AP1999PTC032584	विजेता कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1241	U91990TG1999PTC032719	हैदराबाद रेसिडेंसी क्लब प्राइवेट लिमिटेड
1242	U72200TG1999PTC032807	सिरि साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
1243	U72200TG1999PTC032867	श्री विनायक इंस्टीच्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1244	U24110TG1999PTC033123	मिलेनियम फार्मूलेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1245	U32204TG1999PTC033132	चारमीनार कम्प्युनिकेशनस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1246	U72200TG1999PLC033181	फर्स्ट च्वाइस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स लिमिटेड
1247	U72200TG1999PLC033196	आदर्श टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
1248	U45201TG2000PTC033216	स्वर्णाधरा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1249	U31909TG2000PTC033228	साना कांटीनेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1250	U72200TG2000PTC033271	लार्वेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1251	U45201AP2000PTC033272	श्री विजय दुर्गा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1252	U72200TG2000PTC033297	ट्विन सिटीज कम्प्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1253	U74999AP2000PTC033322	वेलागापुडी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1254	U30007AP2000PTC033421	श्री साई राम इंफारमेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1255	U72200TG2000PLC033539	विंडसर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
1256	U72200AP2000PTC033673	विरासी कारेसपॉण्डेंस डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
1257	U24110AP2000PTC033795	एसोसिएटेड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1258	U67120AP2000PTC033801	अनंतपुर सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1259	U85110TG2000PTC033813	श्री वेंकटेश्वरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1260	U72200TG2000PTC033900	एरुडिट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1261	U72200TG2000PLC034008	विवेकानंद भारती हाई टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1262	U72200TG2000PTC034161	मिलेनियम मेडिट्रांस प्राइवेट लिमिटेड
1263	U70102TG2000PTC034166	विश्वकर्मा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1264	U72200TG2000PTC034218	इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1265	U45200TG2000PTC034298	श्रीराला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1266	U72200TG2000PTC034434	नॉर्ड इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1267	U72200AP2000PTC034542	अमृताकृष्णा टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1268	U72200TG2000PTC034649	जी एस एस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1269	U45200TG2000PTC034674	साई तेजा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1270	U72200TG2000PLC034689	ओपन डोर्स लिमिटेड
1271	U65992AP2000PTC034958	चिंतापल्ली चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1272	U45200AP2000PTC035119	दिग्विजय डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1273	U70102TG2000PTC035149	गिरिधर प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1274	U72200TG2000PLC035176	मैपवर्ल्ड टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
1275	U74210AP2000PTC035407	श्री जयलक्ष्मी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1276	U74140TG2000PTC035417	टोपाज डिटेक्टिव्स एंड सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1277	U72200TG2000PTC035490	यूनिग्लो इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1278	U67120TG2000PTC035625	विजयकृष्णा सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1279	U65191AP2000PTC035644	जीवन जयोति डिस्काउंट कार्ड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1280	U72200TG2000PTC035815	बटलर टेक्निकल सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1281	U70101TG2000PTC035913	स्नोफील्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1282	U35204TG2000PTC035917	वायथ टर्बो रेल प्राइवेट लिमिटेड
1283	U72400TG2001PTC035963	एस पी एन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1284	U92113AP2001PTC036195	श्री बालाजी राघवेंद्र इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1285	U27203TG2001PLC036201	विनायक एल्यूमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड
1286	U85100TG2001PTC036261	राजागिरी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1287	U99999TG2001PLC036315	प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
1288	U72200TG2001PTC036534	एडवांस्ड कंप्यूटर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1289	U91110AP2001PTC036673	चैतन्या ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
1290	U85110TG2001PTC036717	मिलेनियम हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1291	U65992AP2001PTC036729	लक्ष्मी नारायणा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1292	U52393TG2001PTC036754	जीतू ज्वेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1293	U72200TG2001PTC036860	श्री साई कृपा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1294	U72200TG2001PTC036880	जाह्नवी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1295	U45200AP2001PTC036938	परमेश्वरी स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1296	U92190TG2001PTC037022	कुंदन इंटरटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
1297	U92132TG2001PTC037126	वम्शी कृष्णा फिल्मस एंड डीवीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1298	U72200TG2001PTC037137	श्री भवानी इंफार्मेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1299	U72200TG2001PTC037152	स्टालवार्ट स्ट्रेटेजीस इंटरैक्टिंग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1300	U52520TG2001PTC037804	स्वर्णाधरा मार्केटिंग एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
1301	U70102TG2001PTC037856	साई गायत्री टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1302	U67190AP2001PTC037865	अमृतकृष्णा स्ट्रेटेजीस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1303	U63023TG2001PTC037969	श्री लक्ष्मी गायत्री फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
1304	U72200TG2001PTC038049	प्रोक्टर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1305	U52520TG2001PTC038061	श्रीचक्र टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1306	U45201AP2001PTC038108	श्री मंजुनधा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1307	U34300TG2001PTC038112	हैदराबाद बॉडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1308	U13209TG2001PTC038168	श्री वैष्णवी माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
1309	U92112TG2001PTC038182	राइजिंग सन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1310	U24134TG2001PTC038211	रामप्पा पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1311	U72200AP2002PTC038330	मनस्विनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1312	U21012TG2002PLC038558	इंडो अमेरिकन पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1313	U72900TG2002PTC038585	श्राव्या टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1314	U52599TG2002PTC038605	विरिंची इंनोवेटिव नेटवर्क सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1315	U72900TG2002PTC038723	गैंड्सलाम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1316	U72900AP2002PTC038737	श्री कोडानडरामा साई इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1317	U24239TG2002PTC038784	गामा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1318	U65992AP2002PTC038836	जेलिवी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1319	U72900TG2002PTC038875	ट्रांसमाइंड्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1320	U70102TG2002PTC038983	भागयनगर इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1321	U92114TG2002PTC038987	श्री वेंकटरमणा प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1322	U72900TG2002PTC039061	लैबकैल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1323	U90009TG2002PTC039062	मिडास टच फैसिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1324	U92199TG2002PTC039168	श्री गायत्री टेलीविजन एंड टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1325	U74910TG2002PTC039197	फास्ट ट्रैक प्लेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1326	U52520TG2002PTC039214	पूर्णोदय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1327	U92199AP2002PTC039221	लक्ष्म होलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1328	U80302TG2002PTC039337	काकतिया साइरमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1329	U34200TG2002PTC039362	अभिषेक एकडूशनस प्राइवेट लिमिटेड
1330	U74140TG2002PTC039530	सुकुकी जेनसिस प्राइवेट लिमिटेड
1331	U85110TG2002PTC039597	डॉक्टर्स एंड डेक्कन डॉक्टर्स क्वालिटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
1332	U74999TG2002PTC039657	मेघना प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1333	U99999TG2002PLC039658	कार्यक्षेत्रम टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
1334	U51398TG2002PTC039665	ए.पी. जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्राइवेट लिमिटेड
1335	U14101TG2002PTC039885	श्री वैकटेश्वरा मार्बल एंड ग्रेनाइट्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1336	U45209AP2002PTC039994	श्री वैकट चैतन्या हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1337	U22210TG2002PTC040119	कोरोमंडल प्रिंटिंग एंड मेलिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1338	U72200TG2003PTC040203	एनलाइटन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1339	U92111TG2003PTC040374	श्री लक्ष्मी वैकटेश्वरा आर्ट क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1340	U18101TG2003PTC040389	डिजाइन ऑपरेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1341	U70102AP2003PLC040407	श्री कनकमहालक्ष्मी रियल इस्टेट्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड
1342	U14102TG2003PTC040449	वीर वैष्णवी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1343	U24239TG2003PTC040459	रॉन्टस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1344	U29112TG2003PTC040570	इंडोअमेरिकन- बैलेंसिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1345	U45200TG2003PTC040580	हेमलता कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1346	U63040TG2003PTC040670	राघवेंद्र ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1347	U70102AP2003PTC040676	रायलसीमा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1348	U72900AP2003PTC040722	स्पाक कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1349	U74140TG2003PTC040755	जयभेरी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1350	U74300AP2003PTC040762	भवानी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1351	U92111TG2003PTC041108	कार्तिकेय इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1352	U52520AP2003PTC041191	श्री वैकट राघवेंद्र मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1353	U72200AP2003PTC041217	मदर इंडिया टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1354	U24239TG2003PTC041218	जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1355	U27109AP2003PTC041314	एस वी आर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1356	U63011TG2003PTC041390	राज राजेश्वरी कार्गो कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1357	U92131AP2003PTC041437	चंदना ब्रोडकास्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
1358	U70102TG2003PTC041443	श्री दत्तात्रेय बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1359	U25112TG2003PTC041547	प्रोफेशनल रबर स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1360	U34102TG2003PTC041621	श्री लक्ष्मी भवानी ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
1361	U24243TG2003PTC041712	स्वर्णाधरा डिटर्जेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1362	U72200TG2003PTC041844	सेराफिक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1363	U80220TG2003PTC041854	सनशाइन एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1364	U45200TG2003PTC041862	ऑटोबहन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1365	U72200TG2003PTC041904	रॉड्री इंफारमेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1366	U72200AP2003PTC041955	जी एस सॉफ्टकॉम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1367	U80903TG2003PTC041970	ब्रिलिएंट इंजीनियरिंग कैरियर इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड
1368	U74140TG2003PTC042047	जी पी ए ब्रिज कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
1369	U45200TG2003PTC042105	आर.के. इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1370	U74210TG2003PTC042213	स्वे एनर्जी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1371	U15499TG2003PLC042291	हाइ वॉन फुड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1372	U63040TG2004PTC042595	होलिडे डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1373	U45200TG2004PTC042667	चापाराला प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1374	U24239TG2004PTC042768	वैसा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
1375	U40109TG2004PTC043260	चटारी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड
1376	U45200AP2004PTC043333	साई प्रियंका हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1377	U45200TG2004PTC043383	वैकट शिव लक्ष्मी नरसिंहा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1378	U24239TG2004PTC043478	ए.एस.वी. लेबोरेटरीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1379	U72200TG2004PTC043539	ओराबेल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1380	U72200TG2004PTC043663	सिप सॉफ्टलॉजिक प्राइवेट लिमिटेड
1381	U72200TG2004PTC043780	किनबेन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1382	U74140TG2004PTC043848	ल्यूपैक एकाउंटिंग एंड रिलेटेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1383	U92132TG2004PTC043935	टी.वी. चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
1384	U31200TG2004PTC044045	इराड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1385	U24239TG2004PTC044077	चैनेले फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1386	U72900TG2004PTC044236	सी पी आई इंटेलेक्स्क्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
1387	U72200TG2004PTC044290	आई क्यू इंटेलीजेंट ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
1388	U15499TG2004PTC044322	महाती फुड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1389	U74200TG2001PTC044428	क्विलिस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1390	U01119TG2004PTC044567	हार्न्स एगो प्राइवेट लिमिटेड
1391	U45200TG2004PTC044569	एलिएन्स ग्रुप इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
1392	U45200TG2004PTC044599	व्हाइट फील्ड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1393	U74200TG2004PTC044731	फोर्सिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1394	U74210AP2005PTC045064	विश्वेश्वरा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1395	U72200TG2005PTC045199	रूबी इफेक्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1396	U24231AP2005PLC045354	रैंक बायो फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
1397	U45200TG2005PTC045431	विशाला टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1398	U72400TG2005PTC045454	ओडा इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1399	U72200TG2005PTC045757	एलर्ट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड-
1400	U74200TG2005PTC045799	सिवेन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1401	U28930TG2005PTC045803	वैचुरा एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1402	U74200TG2005PTC045856	लैंडकॉम (इंडिया) टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1403	U72200TG2005PTC046111	कैडसी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1404	U01409TG2005PTC046176	नेनोटेक लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
1405	U29309TG2005PTC046243	जगनमाता इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1406	U52520TG2005PTC046633	तिरुमला सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1407	U01119TG2005PTC046636	श्रीन्सकॉ- इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1408	U72200TG2005PTC046640	ट्रिडेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1409	U45200TG2005PTC046710	आर9 कंस्ट्रक्शन्स एंड लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1410	U74910TG2005PTC046757	पैरामाउंट सर्विलांस प्राइवेट लिमिटेड
1411	U60210TG2005PTC046766	आईबेज मोटरसाइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1412	U45200TG2005PTC046865	सलीम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1413	U74140TG2005PTC046922	रेलेवेंटे कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1414	U72200TG2005PTC046976	फ्रूशन सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
1415	U45200AP2005PTC046980	अर्नव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1416	U70102TG2005PTC047132	चेल्स रेसिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1417	U05004TG2005PTC047202	फोएनिकस सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1418	U67120AP2005PTC047393	वैकट सुब्रमण्यम कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
1419	U72200TG2005PTC047409	टेक्स सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड
1420	U92190TG2005PTC047439	मिक डिजिटल मीडिया वाइजाग प्राइवेट लिमिटेड
1421	U85110TG2005PTC047448	भरानी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
1422	U24239TG2005PTC047473	वक्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
1423	U72200TG2005PTC047527	वेलोडायन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1424	U74140TG2005PTC047639	फ्यूचर बाउंड माइंड एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड
1425	U72200TG2005PTC047791	क्यूरोसिस सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1426	U21010TG2005PTC047877	ग्लोबल सैनिक ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
1427	U55101TG2005PTC047999	मीर हैदर होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1428	U22120TG2005PTC048039	नंदी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
1429	U10102TG2005PTC048108	अलशाइन एल्यूमिनियम कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1430	U72200TG2005PTC048223	सीक्वेंट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1431	U72200AP2005PTC048349	इकोमनेट्स टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1432	U62100TG2005PLC048498	मीर एयरवेज लिमिटेड
1433	U92111TG2005PTC048504	बैड मंकी इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1434	U45100TG2005PTC048516	रागा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1435	U72200TG2005PTC048538	फिलंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1436	U70102TG2005PTC048609	व्हाइट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स ट लिमिटेडप्राइवेट (इंडिया)
1437	U72200TG2006PTC048827	ए एम एस सेमीकंडक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1438	U45200TG2006PTC048866	सेशा साई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1439	U63022TG2006PTC048867	ग्राम स्वराज कोल्ड स्टोरेज एंड फुड प्रोसेसिंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड
1440	U52520TG2006PTC049135	इराड इनक्यूबेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1441	U01222TG2006PTC049238	अक्षरा पॉल्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
1442	U70102AP2006PTC049291	जूपूडी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1443	U61100TG2006PTC049572	फिलक्सिस् डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1444	U01119TG2006PTC049737	एस्पायर एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1445	U72200TG2006PTC049956	श्री वैकटेश्वरा माइक्रोस्टफ टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1446	U45201TG2006PTC050166	एस बी वी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1447	U72900TG2006PTC050296	शालीवाहन डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1448	U15511AP2006PTC050316	श्री विजया हनुमान डेलिटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1449	U92111TG2006PTC050406	श्री ललितकालांजलि सिनेमा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1450	U74950AP2006PTC050412	फोर्थ डाइमेंशन इंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1451	U70109TG2006PTC050431	सामा वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1452	U40109TG2006PTC050495	श्री साई प्रियदर्शिनी पावर प्राइवेट लिमिटेड
1453	U52599AP2006PTC050551	पर्वतानेनी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1454	U45101TG2006PTC050672	श्री लक्ष्मीप साई कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1455	U74999AP2006PTC050675	श्री श्रीनिवास सेफ्टी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
1456	U17122TG2006PTC050712	श्री अम्बिका एपेरल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1457	U65992TG2006PTC050719	श्री सिद्धिअष्टलक्ष्मी चिट फंड्स आंध्र प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड
1458	U40102AP2006PTC050835	वैष्णवनी बायोएनर्जी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1459	U85120TG2006PTC051007	आकाश गंगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1460	U72200TG2006PTC051035	श्री साई सूर्या टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1461	U52520TG2006PTC051082	भाग्यनगर कंज्यूमर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1462	U01119TG2006PTC051103	धनलक्ष्मी एगो एंड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1463	U45201TG2006PTC051144	साई दुर्गा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1464	U72300TG2006PTC051270	बिग इंडियन अर्म सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1465	U70101TG2006PTC051305	डोनपुडी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1466	U45200TG2006PLC051505	नव भारत शेल्टर्स लिमिटेड
1467	U45200TG2006PTC051514	श्री साई विजया रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1468	U72300TG2006PTC051584	रोक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1469	U65992TG2006PTC051600	श्री लक्ष्मी दंडोत्कर बालाजी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1470	U52520TG2006PTC051818	विनविन ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1471	U65999TG2006PTC051869	स्टारलेट लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1472	U74999TG2006PTC051870	स्टैंडर्ड मैकेनिकल सील्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1473	U72900TG2006PTC052120	रेससिनेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1474	U70102TG2006PTC052150	जीवीके इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1475	U72200TG2006PTC052160	डीकित सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1476	U80301TG2007PTC052357	सेंटर फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1477	U45200TG2007PTC052412	आकार इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
1478	U22110TG2007PTC052424	साई ललिता पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1479	U72200TG2007PTC052438	पैरामाउंट साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
1480	U72200TG2007FTC052442	सनडे बी पी ओ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1481	U72200TG2007PTC052454	गौतम इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1482	U70102TG2007PTC052545	श्री अमूल्य कांटेक्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1483	U74999TG2007PTC052617	कनेक्ट एक्जीक्यूटिव सर्च प्राइवेट लिमिटेड
1484	U45200TG2007PTC052669	लैंगून प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1485	U40104TG2007PTC052756	कोकोनाडा क्लिन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
1486	U40103TG2007PTC052893	कानीपकम पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1487	U70102TG2007PTC052908	लक्ष्मी नरसिंहा रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1488	U70102TG2007PTC052915	रामाकृष्णा रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1489	U85110TG2007PTC052933	श्री गुरुदत्त इंस्टीच्यूट ऑफ आर्गन ट्रांसप्लान्टेशन स्पेशलिटीज एंड रिसर्च प्रा.लि.
1490	U74999TG2007PTC052960	एनकॉर इलेक्ट्रोनिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1491	U72200AP2007PTC052986	शैलजा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1492	U45200AP2007PTC053009	विश्वधारा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1493	U73100AP2007PTC053025	ईस्ट कोस्ट बायोएनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1494	U70102TG2007PTC053053	गोरेपति रिअल इवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1495	U45200TG2007PLC053082	वसुंधरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
1496	U45200TG2007PTC053088	इंटीग्रेटेड ड्रेजिंग सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1497	U74140TG2007PTC053131	एलिट मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1498	U70101TG2007PTC053146	श्री वैष्णवी स्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1499	U24232TG2007PTC053168	आर.एस.वी. लाइफ साइंसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1500	U72200TG2007PTC053252	एस एस के इंफोटेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1501	U72200TG2007PTC053378	साइबरटांस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1502	U74120TG2007PTC053387	थर्ड डाइमेंशन आर्किटेक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1503	U24110TG2007PTC053468	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ केमिकल बायोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
1504	U92111TG2007PTC053535	श्रीचक्र इंटरटेनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1505	U45200TG2007PTC053583	एसक्विसर प्रोजेक्ट प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
1506	U24232TG2007PTC053634	पद्मश्री गुड मैनुयुफैक्चरिंग प्रोसेसेस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1507	U72200TG2007PTC053641	मल्टी सेंट्रिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1508	U45400TG2007PTC053713	श्री शिव साई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1509	U24117TG2007PTC053783	लक्ष्मी अरुणा ऑक्सीजन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1510	U65900TG2007PTC053824	इंवेस्टमेंट योगी फिनएडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1511	U70102TG2007PTC053842	श्री लक्ष्मी सोमेश्वरा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1512	U45400TG2007PTC053915	श्री सुप्रभात टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1513	U40106TG2007PTC054093	फियोना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1514	U24211AP2007PTC054119	जेट्रो पेट्रो बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
1515	U27320TG2007PTC054144	भाग्यनगर फैब्रिकेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1516	U72200TG2007FTC054257	सानवी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1517	U93000TG2007PTC054284	ए बी फैसिलिटी मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1518	U51101TG2007PTC054292	ब्रायो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1519	U45400AP2007PTC054369	लैंड मार्क वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1520	U01403AP2007PTC054398	ग्रीनवैली एगो प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1521	U45200TG2007PTC054407	लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1522	U24120TG2007PTC054428	भाग्यश्री बायोरिमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
1523	U72200TG2007PTC054497	माइक्रो इंटेलेक्ट्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1524	U74900AP2007PTC054566	ललिता शिवज्योति कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1525	U01119TG2007PTC054638	केएसआर फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1526	U70102TG2007PTC054919	याईस एंड फीट प्रोपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1527	U40101TG2007PTC054983	प्रभा पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1528	U74900TG2007PTC055101	सूर्य प्रभा सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1529	U65992AP2007PTC055176	नरसिपटनम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1530	U02005AP2007PTC055192	अमृता एगो इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1531	U26942TG2007PTC055194	चेन्नाकेशव सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1532	U72900TG2007PTC055220	एसक्यूब डायमेंशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1533	U01119TG2007PTC055276	सम्मिट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1534	U02005AP2007PTC055431	बुद्ध पलिता टिम्बर इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1535	U72300TG2007PTC055436	सूची सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1536	U01119AP2007PTC055440	चोलापदम एगो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1537	U29119TG2007PTC055504	जे अण्ड टेक्नोक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1538	U01119AP2007PTC055513	हरिता एगो एंड टिम्बर इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1539	U45200AP2007PTC055535	श्री रामजीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1540	U45400AP2007PTC055699	श्री रामजीस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1541	U02005AP2007PTC055752	शिवानी टिम्बर इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1542	U45400AP2007PTC055769	गोल्डनव्यू निवास प्राइवेट लिमिटेड
1543	U32204TG2007FTC055779	आइरिस वायरलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1544	U45400AP2007PTC055789	मयूर हैबिटेड प्राइवेट लिमिटेड
1545	U72200TG2007PTC055970	जेनुइन आइटेस प्राइवेट लिमिटेड
1546	U72200TG2007PTC056026	पिक्टर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1547	U40105TG2007PTC056193	पतंजलि पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1548	U40104TG2007PTC056222	पांचजन्य पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1549	U40105TG2007PTC056223	चरक पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1550	U74999AP2007PTC056361	एस पी आई ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
1551	U40105TG2007PTC056388	एवियन पॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1552	U45200TG2007PTC056550	ग्लोबल इंफ्रा विलास प्राइवेट लिमिटेड
1553	U45400TG2007PTC056606	दंडामुडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
1554	U72200TG2008PTC056901	ए एम जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1555	U72200TG2008PTC057074	पर्सनल वेब सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1556	U74999TG2008PTC057194	जीटाटेक इंजीनियरिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1557	U72200TG2008PTC057197	स्पानवेव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1558	U72200TG2008PTC057198	फ्लेक्सीसोर्स टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1559	U72200TG2008PTC057205	फोर्टेक सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1560	U72200AP2008PTC057290	पाल्स डायल 2 इंफो प्राइवेट लिमिटेड
1561	U32109TG2008PTC057333	ऑरेंज फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
1562	U93000TG2008PTC057383	बिड4 कैरिडोर मेनपॉवर कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1563	U74999TG2008PTC057393	भारती रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
1564	U72200TG2008PTC057402	पर्सनल वेब डिवाइसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1565	U72200TG2008PTC057403	अमीन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1566	U70102TG2008PTC057428	वेन्सर मीडोज प्राइवेट लिमिटेड
1567	U55209TG2008PTC057434	शामस इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1568	U92100TG2008PTC057493	डाउन टाउन फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
1569	U72200TG2008PTC057538	आर पी ए एस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1570	U41000AP2008FTC057558	पोटेबल सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1571	U45400TG2008PTC057568	तपस्वी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1572	U70102TG2008PTC057569	सिरि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1573	U45201TG2008PTC057578	जेडक्यूब कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1574	U45400AP2008PLC057671	स्पार्टक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1575	U72200TG2008PTC057702	साइबरप्लेस ई सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1576	U74999TG2008PTC057786	अर्का प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1577	U63040TG2008PTC057863	इशा ट्रेवल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1578	U52399TG2008PTC057897	सीता इंटरनेशनल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1579	U93000TG2008PTC057915	केवी कालीडिंडी कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1580	U74999TG2008FTC058049	इंटवे इंडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1581	U70102AP2008PTC058113	वराही रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1582	U93000TG2008PTC058132	हॉरिजन स्टाफिंग एंड टेक्निकल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1583	U72200TG2008PTC058231	फिनोक्सी एनवॉयरन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1584	U13203AP2008PTC058538	मैत्री माइन्स एंड मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1585	U45200TG2008PTC058564	वंदना कंसेप्टुअल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1586	U72200TG2008PTC058614	विनकॉर आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1587	U45209TG2008PTC058688	इंडोकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1588	U74900TG2008PTC058837	बैकबे हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1589	U45200TG2008PTC059016	डिगनिटी होम्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1590	U70100TG2008PTC059078	आमेया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
1591	U93000TG2008PTC059315	अमीपाथ कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1592	U72900TG2008PTC059390	प्राच इनोवेटिव डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1593	U45400TG2008PTC059408	क्रेयोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
1594	U45400TG2008PTC059462	रेडस्टोन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
1595	U72200AP2008PTC059544	श्रीनिधि 3एम टेक्नो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1596	U92412TG2008PTC059627	वर्ल्ड फ्यूचर लीग प्राइवेट लिमिटेड
1597	U14106TG2008PTC059658	बिल्डमैट सैंड प्राइवेट लिमिटेड
1598	U45209TG2008PTC059671	पवनपुत्र इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
1599	U74900AP2008PTC059726	सूर्यदेव मेडिकलब प्राइवेट लिमिटेड
1600	U74900TG2008PTC059790	करुणा ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1601	U45200TG2008PTC059872	ले गैंडे इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
1602	U72900TG2008PTC059874	चिन्मय माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1603	U72300TG2008PTC059969	सेरेनस इन्फार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1604	U72200TG2008PTC059976	एँथम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1605	U45201TG2008PTC060029	आइकॉन आइडियाज एंड इमेजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1606	U74900TG2008PTC060102	फ्लेयर रेडियोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1607	U27106TG2008PTC060172	सिम्को स्टीबल्सन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1608	U32204TG2008PTC060215	हाई-टेक टेलिमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1609	U72200TG2008PTC060228	एस एन पी सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
1610	U72200TG2008PTC060251	ब्लू-रिबन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1611	U45400AP2008PTC060405	कॉर्न इस्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1612	U45400AP2008PTC060407	परातपारा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1613	U45400AP2008PTC060435	पलेसा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1614	U74900TG2008PTC060451	कोर्जेट इंटिग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1615	U45400AP2008PTC060483	पारेशा रिअल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1616	U92190TG2008PTC060508	आइकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1617	U70102TG2008PTC060515	ग्रीन मैंगोज रिअल इस्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1618	U45400TG2008PTC060572	अमरचंद शर्मा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1619	U24233TG2008PTC060670	चामुंडी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1620	U93000TG2008PTC060705	आई आर डिजाइन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1621	U27100TG2008PLC060733	यावेह मेटलर्जिकल्स लिमिटेड
1622	U70102TG2008PTC060738	जी वी जी आर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1623	U40100TG2008PTC060894	मैक्सन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1624	U40109TG2008PTC060936	बी वी के एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1625	U74900TG2008PTC060956	सिस्क कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1626	U01403AP2008PTC061028	श्रीपति एगोज एंड लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1627	U72200TG2008PTC061040	आई टी एस टेक्नोसॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1628	U72200TG2008PTC061055	डेस्टिन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1629	U92190TG2008PTC061171	कोडू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1630	U93000TG2008FTC061236	क्यूब कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1631	U72200TG2008PTC061245	केलिप्सो आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1632	U45209TG2008PTC061258	एस वी आर निर्माण एपी प्राइवेट लिमिटेड
1633	U27205TG2008PTC061283	पी सत्यनारायण संस ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1634	U74900TG2008PTC061365	सेवन प्लानेट्स ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
1635	U72200TG2008PTC061388	वी-नेक्सस डोमेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1636	U72200TG2008PTC061458	मैट्रे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1637	U72200TG2008PTC061549	इमर्जेंट आई टी ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
1638	U45209TG2008PTC061742	मालविका इस्टेट्स एंड रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1639	U70102TG2008PTC061804	टॉरेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1640	U93000TG2008PTC061932	विश्वास मैनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1641	U45400AP2008PTC061982	श्रीकुटीर रिसोर्ट्स एंड टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1642	U72200TG2008PTC062018	पाल्मेटो आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1643	U93000TG2008PTC062080	ग्रीनस्ट्रेट्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1644	U17120TG2008PTC062154	फ्रेस्को वस्त्र प्राइवेट लिमिटेड
1645	U70102TG2008PTC062222	तुलाश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1646	U28110TG2008PTC062245	दिव्यमंगल मेटल सैंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
1647	U20299TG2008FTC062247	सेनी कायु फर्निचर प्राइवेट लिमिटेड
1648	U17114TG2008PTC062393	तपस्वी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1649	U26955TG2009PTC062432	क्लासिक डिजाइनर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1650	U67190TG2009PTC062560	पुरंदर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1651	U72200TG2009PTC062564	51 इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1652	U72900TG2009PTC062614	ब्राउन ब्रिक कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
1653	U93000TG2009PTC062927	वी एम जी कार्परेट एडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1654	U45400TG2009FTC062942	पी टी पी एस प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
1655	U52190TG2009PTC063000	रिच इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1656	U24233TG2009PTC063041	जी.पी. नेचुरल हर्ब्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1657	U72300TG2009PTC063079	रेलिरिच वेब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1658	U55101TG2009PTC063092	प्राइमो फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
1659	U70102TG2009PTC063159	सवेरा टाउनशिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1660	U29253TG2009FTC063187	एमर्सन एंड क्यूमिंग माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1661	U80221TG2009PTC063255	टैलेंट ट्री परफार्मेंस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1662	U40105TG2009PTC063268	बैसॅन पॅवर सवीर्सस प्रईवेट लिमटेड
1663	U74140TG2009PTC063369	सिग्नी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1664	U72200TG2009PTC063639	एल्लोका टेकसॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1665	U40300TG2009PTC063658	के वी के एनर्जी वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1666	U24100TG2009PTC063725	साकेत लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
1667	U40300TG2009PTC063790	डॉ. रामा कृष्णा प्रसाद पावर प्राइवेट लिमिटेड
1668	U45205TG2009PTC063791	रेवुपोलावरम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1669	U24100TG2009PTC063907	जेनकोर बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1670	U74999TG2009PTC063960	सिनर्जी इनवायरो इंजीनियर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1671	U65100TG2009PTC064002	स्पैंडियो फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1672	U45200TG2009PTC064005	सुधा टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1673	U65992TG2009PTC064120	वेनसिरी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1674	U72200TG2009PTC064162	मिहिरोनिक्स बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1675	U74900TG2009PTC064220	पलादीन रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1676	U24210AP2009PTC064302	पैनएसिया फार्म केयर प्राइवेट लिमिटेड
1677	U72200TG2009PTC064384	काइनेटा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1678	U52100TG2009PTC064388	एपिस्टेमिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1679	U74300TG2009PTC064440	जी एम टी ट्रायड मीडिया सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1680	U74900TG2009PTC064462	बायल्लास मार्केटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1681	U65992TG2009PTC064474	श्री उदय चिट फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1682	U72200TG2009PTC064531	मैगस सॉफ्टेक आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1683	U24100TG2009PTC064587	स्पाउट लाइफ साइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1684	U64201TG2009PTC064600	रेडफॉक्स टेलीसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1685	U29220TG2009PTC064698	एल्बिट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1686	U65992TG2009PTC064868	सुयोग चिट फंड्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
1687	U72200TG2009PTC064872	8 सिग्मा सॉफ्ट विल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1688	U65992TG2009PTC065081	शंकाशेखर चिट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1689	U45200TG2009PLC065140	जी एन आर इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड
1690	U67200AP2009PTC065142	वशिष्ट एश्यूरेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1691	U74920TG2009PTC065232	आन्वी सिक्यूरिटी एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1692	U65992TG2009PTC065275	वी.एस. वरुण चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1693	U72900TG2009PTC065346	अवेदास इंफारमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1694	U72900AP2009PTC065448	इनस्पाइआर्क सॉफ्टवेयर स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
1695	U74130TG2009PTC065535	माई रिवाइस इनोवेटिव मार्केटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1696	U45400TG2009PTC065792	खुल्क कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1697	U27310AP2009PTC065828	दोरई स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
1698	U72900TG2009PTC065844	पोर्वस टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1699	U65992AP2009PTC065872	वैकट श्रीनिवास चिट्स (एसके) प्राइवेट लिमिटेड
1700	U45200TG2009PTC065876	स्वर्णधरा टाउनशिप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1701	U65992TG2009PTC065926	श्री द्वारका साई चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1702	U72200TG2009PTC065927	आईफ्यूचर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1703	U65992TG2009PTC065972	साई निशिता चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1704	U36100TG2009PTC065991	एस के आर एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1705	U70200TG2009PTC066039	स्वर्णमयी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1706	U36934TG2009PTC066071	जुगली वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
1707	U25203TG2009PTC066326	अमूल्या पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1708	U67190TG2009PTC066347	श्री रक्षा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1709	U72200TG2009PTC066416	एस्सेंट रिसाइलेंस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1710	U80902TG2009PLC066425	रिसल्टिका एजुकेशन लिमिटेड
1711	U45200TG2010PLC066611	के एल आर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
1712	U72200TG2010PTC066720	यामिनी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
1713	U72200TG2010PTC066741	फोटॉन कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1714	U72200TG2010FTC066827	बिकम इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1715	U01400TG2010PTC066942	नंदिनी एगी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1716	U45209TG2010PTC066963	श्री सृषा इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1717	U74900AP2010PTC067104	श्रीपाद इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
1718	U72900TG2010PTC067109	राइट स्पॉट मीडिया सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1719	U72200TG2010PTC067157	ग्रंड हैंडी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1720	U72200AP2010PTC067166	आइकॉन नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1721	U93000TG2010PTC067213	केटरपिलर कार्पोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1722	U65992TG2010PTC067390	देवीश्री चिट फंड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
1723	U45200TG2010PTC067556	वी एस ए इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1724	U01400TG2010PTC067951	दीप्ति फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1725	U72200TG2010PTC067976	प्रोटेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1726	U70100AP2010PTC068048	सानिया प्रोपर्टी सर्वे प्राइवेट लिमिटेड
1727	U65923TG2010PTC068073	कीन फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1728	U31900TG2010PTC068186	ल्यूमनकोर इल्यूमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1729	U72900TG2010PTC068206	देवाश्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1730	U29268TG2010PTC068215	आर.वी. इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1731	U45209AP2010PTC068226	मैमूर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1732	U31500AP2010PTC068390	संजटोन पॉवर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1733	U35203TG2010FTC068407	वालड्यून्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1734	U29100AP2010PTC068513	इलेक्ट्रान वोल्ट रिन्युएबल्स प्राइवेट लिमिटेड
1735	U74990TG2010PTC068601	एस एल एन इनोवेटिव आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1736	U80301TG2010PTC068772	न्यू डायरेक्शन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड
1737	U55101TG2010PTC068799	एस आर एस क्रिएटिव कुजिन प्राइवेट लिमिटेड
1738	U29253TG2010PTC068801	मेड्रिक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1739	U85100TG2010PTC068849	वेलइंक एस एम ओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1740	U22200TG2010PTC068894	एजेंसीडिगी कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1741	U74999TG2010PTC069023	रक्षा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
1742	U40108TG2010PTC069144	दायको पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
1743	U72900TG2010PTC069174	फ्लेक्सी आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1744	U85100TG2010PTC069213	करुण्या हेल्थ केयर एंड एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1745	U24233TG2010PTC069250	जेंटास लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
1746	U45400TG2010PTC069311	के.एस.ए.ए. निर्माण प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1747	U72300TG2010FTC069397	एच पी एच सीबस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1748	U45209TG2010FTC069403	मुहू (इंडिया) बिल्डिंग मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
1749	U51909TG2010PTC069408	रीता कमांडिटी प्राइवेट लिमिटेड
1750	U15400TG2010PTC069421	साका ब्रदर्स आहार एंड हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड
1751	U72200TG2010PTC069486	जेमिनी बीपीओ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1752	U45209AP2010PTC069549	वेनसाई ड्रेजिंग एंड मेरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड
1753	U55101TG2010PTC069561	खोलानीस रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1754	U40102TG2010PTC069635	इंडबारत- सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1755	U80902TG2010PTC069742	ओक्टान मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1756	U65992TG2010PTC069923	नमाहा साई चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1757	U01119TG2010PTC069949	जस्ट बाई फ्लावर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1758	U65991TG2010PTC069973	स्पलेंडर पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड
1759	U74999TG2010PTC070023	अल्फाकेमी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1760	U27100TG2010PTC070024	संतोष ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1761	U60200TG2010PTC070025	क्विकस्टार्ट ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1762	U74999TG2010PTC070031	जिनोम इंडस्ट्रियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1763	U36100TG2010PTC070034	गैलेक्सी फर्निचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1764	U36996TG2010PTC070099	हैदराबादी पर्स ज्वेल्स एंड बैंगल्स प्राइवेट लिमिटेड
1765	U36993TG2010PTC070138	प्रकाश मेकेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1766	U14200TG2010PTC070211	एस. श्रीनिवास राव माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1767	U67190TG2010PTC070247	मानस्वी (मंचीरियाल) चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1768	U74210TG2010PTC070286	जे वी आर इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1769	U36912TG2010PTC070345	विग्नेट्टे इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1770	U40300TG2010PTC070453	करुण्या एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
1771	U92120TG2010PTC070551	तेलंगाना न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1772	U72200TG2010PTC070579	रेकॉन आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1773	U74999AP2010PTC070617	सर्टिस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
1774	U33203TG2010PTC070635	सबेरीज ऑप्टिकल्स फ्रेंचाइज प्राइवेट लिमिटेड
1775	U72300AP2010PTC070663	आर्स इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1776	U80904TG2010PTC070684	पेंडुलम एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1777	U45209TG2010PTC070848	हरित निर्माण इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1778	U29253TG2010PTC070875	सत्य श्रीनिवास इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1779	U31900AP2010PTC070940	नेपल्स हाई वोल्टेज सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1780	U15142TG2010PTC071031	मैक्स ऑयल मिल प्राइवेट लिमिटेड
1781	U72200TG2010PTC071080	एंथुसिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1782	U72200TG2010PTC071109	मनीसवेयर टेक्नोपीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1783	U70102AP2010PTC071185	सदगुरु साई हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1784	U72200AP2010PTC071220	बुएना सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1785	U67110TG2010PTC071248	मुग्धा कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1786	U72200TG2010PTC071387	टेकयोगी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1787	U72900TG2010PTC071394	नितिड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1788	U74900TG2010PTC071413	ट्रिनिटी रियलकॉन ट्रांजैक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1789	U74900TG2010PTC071517	सनटेक इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1790	U45400AP2010PTC071527	श्री भुवनेश्वरी इफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1791	U74920TG2010FTC071537	एंड्रयूज टेक सिक्यूरिटी कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1792	U01119TG2010PLC071539	आकांक्ष एगो कमांडिटीज लिमिटेड
1793	U74140TG2010PTC071559	एस के एस एडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1794	U45209TG2010PTC071686	सुधा इंजीनियर्स एंड कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1795	U45209TG2010PTC071697	संकल्पा इफ्राटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1796	U74999TG2010PTC071702	एक्सपर्ट स्विंग मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1797	U01403TG2010PTC071754	गजराज बायोटेक गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
1798	U74999TG2010PTC071869	ज्ञान वेब सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1799	U92400TG2010PTC071887	सिलोम ब्राडकास्टिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1800	U80901TG2010PTC071937	एथीना नॉलेज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1801	U72200TG2010PTC071948	हॉरिजन टेक्निकल सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1802	U45200TG2010PTC071961	हॉरिजन इफ्रा प्रोजेक्ट एवेन्यूज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1803	U67120TG2011PTC071993	एस्सेंट सिक्यूरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1804	U40104TG2011PTC072081	शिल्पा ट्रांस सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1805	U29253TG2011PTC072115	एम्फेसिसि अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
1806	U60200TG2011PTC072125	सुसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1807	U92412TG2011PTC072126	माई ड्रीम सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड
1808	U65992TG2011PTC072166	श्री नीलाद्रि (मंदामारी) चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1809	U72200AP2011PTC072267	श्री शुभम आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1810	U13100AP2011PTC072315	वर्जिन मेटलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1811	U45209AP2011PTC072407	एल्कॉन इफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1812	U72300TG2011FTC072485	गनाना कंप्यूटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1813	U24117TG2011PTC072553	कैप्सूल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
1814	U74999TG2011PTC072614	मोजाइक इन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1815	U15400TG2011PTC072655	नील फुड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1816	U92130TG2011PTC072696	मुकुंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1817	U28123TG2011PTC072788	यूनिक स्टीमटेक प्राइवेट लिमिटेड
1818	U73100TG2011PTC072909	सिंदु रिसर्च लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
1819	U80901AP2011PTC072913	क्यूरी एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1820	U70109AP2011PTC072915	साई कृष्णा टाउनशिप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1821	U51900TG2011PTC072977	वेवेक्स टच सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1822	U74120AP2011PTC072990	वर्णवी टैक्स कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
1823	U45400AP2011PTC073014	शिवांगा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1824	U72200TG2011PTC073061	नूवोल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1825	U45400TG2011PTC073075	देवी ई पी सी प्राइवेट लिमिटेड
1826	U01403TG2011PTC073100	भुवन एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड
1827	U93000TG2011PTC073107	वी आर रिसर्च एक्जीक्यूटिव सर्च प्राइवेट लिमिटेड
1828	U72200TG2011PTC073237	ऑस्ट्रिच डेटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1829	U72200TG2011PTC073269	पैनसोफी आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1830	U15122AP2011PTC073364	एम एस आर नेचर फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1831	U72200TG2011PTC073386	न्यूक्रियस डिजाइन लैब प्राइवेट लिमिटेड
1832	U72900TG2011PTC073493	धारा आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1833	U01119TG2011PTC073541	विजडम लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
1834	U74900TG2011PTC073564	निप्पन आई क्लीन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1835	U45400TG2011PTC073611	जे वी आर इंफ्रा-टेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1836	U51909TG2011PTC073636	क्लेरिअन स्टोरेज सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1837	U72300AP2011ULT073677	इडे ऑनलाइन सर्विसेस एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1838	U70102TG2011PTC073728	डी आर आर एम्स प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1839	U45203AP2011PTC073748	स्पायेरा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1840	U72300TG2011PTC073756	विस्प्रो सॉफ्ट टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1841	U74120TG2011PTC073781	आइकॉन फैसिलिटीज मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1842	U45203TG2011PTC073810	टैमारिड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1843	U74999AP2011PTC073849	श्री भाग्यलक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
1844	U72300TG2011PTC073919	साई रचना टेक्नो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1845	U45400AP2011PTC073965	डी वी आर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1846	U52190TG2011PTC073981	मैक्स रेंज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
1847	U72300TG2011PTC074000	पिक प्वाइंट टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1848	U72300TG2011PTC074005	लोगोस इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1849	U80904TG2011PTC074060	फनबिटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1850	U65992TG2011PTC074151	विशवाभरा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1851	U55204AP2011PTC074191	गोल्ड फिश लीजर एंड हेल्थ टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
1852	U70102TG2011PTC074192	जैतवी रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1853	U55101AP2011PTC074198	लाइफ सटाइल टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
1854	U65992TG2011PTC074269	कल्याणी खानी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1855	U40300TG2011PTC074282	जया विद्युत उत्पादन प्राइवेट लिमिटेड
1856	U31908TG2011PTC074307	कैंडिलक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1857	U33111TG2011PTC074371	इलेक्ट्रान साइंटिफिक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1858	U70200TG2011PTC074389	एस.के.ए.एच. इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1859	U85110TG2011PTC074393	पल्स हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1860	U72200TG2011PTC074458	इन्वेंट फेम टेक्नो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1861	U63030TG2011PTC074459	हारिल लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1862	U72200TG2011PTC074688	श्री विश्व टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1863	U72200TG2011PTC074735	वाकिंग क्वाइन पेमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1864	U40300TG2011PTC074761	सुशीला एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1865	U93000TG2011PTC074945	साई बालाजी टेक लीगल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1866	U45400TG2011PTC075110	एन वी एल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1867	U01119TG2011PTC075288	संवर्चला नर्सरी गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
1868	U45100TG2011PTC075318	एसकंपीटेंट एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1869	U45209TG2011PTC075360	व्यखांसा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1870	U24211TG2011PTC075369	कृषि क्राप केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1871	U45400TG2011PTC075399	धनविन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1872	U85100TG2011PTC075490	मेडिसिस इंफो मेडिकल इंफारमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
1873	U63090TG2011PTC075601	फ्लेयर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1874	U72200AP2011PTC075699	स्कोटा इंफारमेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1875	U72200TG2011PTC075727	अमीबा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1876	U74900TG2011PTC075744	क्रेडेबल आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1877	U74900TG2011PTC075840	9 याईस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1878	U31908TG2011PTC075893	यूनिट्रोनिक्स ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1879	U63090TG2011PTC075983	ए टू जेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1880	U45209TG2011PTC076037	नरेन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1881	U17122TG2011PTC076099	दसरी अशोक सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1882	U51909TG2011PTC076172	जय गणेश व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
1883	U72200TG2011PTC076177	कपर्दी सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
1884	U99999TG1981PTC076342	शाह मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड
1885	U26100AP2011PTC076418	शानगी ग्रेनाइट्स इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1886	U74999AP2011PTC076534	ब्लूबेरी वैल्यू ऐडेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1887	U92190TG2011PTC076537	लेक व्यू इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1888	U45400TG2011PTC076540	श्रीनिधि रेडी मिक्स कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड
1889	U72300TG2011PTC076570	श्री फोएनिक्स एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
1890	U45203TG2011PTC076572	सी आर एन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1891	U13100TG2011PTC076619	वरम रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
1892	U93000TG2011PTC076656	आई-सेवा ई-कॉम सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1893	U45400TG2011PTC076697	वाट्सोल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
1894	U72200TG2011PTC076747	जे आर पी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1895	U67190TG2011PTC076762	पेनियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1896	U40107AP2011PTC076793	फ्यूचर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1897	U65992TG2011PTC076815	संपन्ना चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1898	U28910TG2011PTC076899	दिव्य साई टिन कंटेनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1899	U72200TG2011PTC076982	ई टी एल आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1900	U72200TG2011PTC077024	इंटेनसिफाई सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1901	U74910TG2011PTC077057	अरपनटेक रिक्रूटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1902	U72200TG2011PTC077077	इंस्पायर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1903	U45209AP2011PTC077079	सवीरा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1904	U63040TG2011PTC077096	एलिकिसर ट्रेवल्स एंड रिक्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1905	U17299TG2011PTC077148	अमोघा टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1906	U72200TG2011PTC077218	जुक आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1907	U72200TG2011PTC077287	एडफ्यूएंट सॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1908	U72100TG2011PTC077290	आईएक्सपर्ट इंटरैक्टिव सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1909	U45400AP2011PTC077297	वाई.एन. रेड्डी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1910	U45203TG2011PTC077464	आदि निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1911	U74999TG2011PTC077537	डिजिटल डायनामिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1912	U74900TG2011PTC077565	एम बी मेंटेनेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1913	U72200TG2011PTC077646	किरणस एम्बेडेड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1914	U72200TG2011PTC077688	सॉफ्ट आइकॉन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1915	U65992TG2011PTC077694	शादनगर मणिकंठा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1916	U85110AP2011PTC077763	ट्रांसमेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1917	U24232TG2011PTC077801	साइरस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1918	U21093TG2011PTC078026	विजक्राफ्ट पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1919	U51909AP2011PTC078053	चेलिकैन ऑयल एंड गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1920	U24233TG2011PTC078086	आयुरकर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1921	U45400TG2011PTC078088	एलिकिसर हैबिटेड एंड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
1922	U52390TG2011PTC078191	मरालइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1923	U33201TG2011PTC078245	टेक्ट्रान ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1924	U74300TG2011PTC078261	थारंगा डिजिटल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1925	U37100TG2012PTC078356	पर्सट्राप एगो बायो प्राइवेट लिमिटेड
1926	U72200TG2012PTC078399	सोदासी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1927	U72900TG2012PTC078426	डिस्टिंक्ट पेरिफेरल्स एंड स्मार्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1928	U26960AP2012PTC078446	डेल्टा सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1929	U72200AP2012PTC078476	स्वावी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1930	U63090TG2012PTC078490	कैडिस लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1931	U85110TG2012PTC078538	एपल मेडिकल आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1932	U74900TG2012PTC078573	जे वी आर रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1933	U45400TG2012PTC078598	प्रिकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1934	U45209TG2012PTC078673	कैडिस इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1935	U51909TG2012PTC078737	ए टी एस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1936	U15122TG2012PTC078919	एन एम आर डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1937	U41000AP2012PTC078979	वेलस्पिंग रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
1938	U45209AP2012PTC079100	श्रे रियल इस्टेट एंड प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट (एपी) लिमिटेड
1939	U65992TG2012PTC079109	विजया चिट फंड (मेडक) प्राइवेट लिमिटेड
1940	U72200TG2012PTC079137	स्टैनकियोन नॉलेज सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1941	U72300TG2012PTC079258	एस.ए.पी. सी वी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1942	U74110TG2012PTC079266	रेड्डी कारपोरेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1943	U65992TG2012PTC079386	श्रेया प्रदा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1944	U74900TG2012PTC079410	हेलाक्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1945	U72300TG2012PTC079421	एल एस ब्रोड बैंड प्राइवेट लिमिटेड
1946	U27100AP2012PTC079427	शांतिराम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1947	U65990TG2012PTC079499	वाटर विंग्स फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1948	U72200TG2012PTC079509	सक्सेस सूत्र टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1949	U24232TG2012PTC079555	कम्प्राइम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1950	U45400TG2012PTC079640	मानस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1951	U72200TG2012PTC079843	क्लेलैप टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1952	U72200TG2012PTC079901	टी जे सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1953	U15400TG2012PTC079967	एक्सेलिया फुड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1954	U74900TG2012PTC079978	वायुपुत्र गुप प्राइवेट लिमिटेड
1955	U24232TG2012PTC080006	एलिट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1956	U23101AP2012PTC080098	एवेनिर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1957	U45400TG2012PTC080126	श्री साई दिव्य डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1958	U50200AP2012PTC080158	एक्सट्रान ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
1959	U51909TG2012PTC080208	वी आर मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1960	U74900TG2012PTC080215	इंडवेल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1961	U70102AP2012PTC080257	स्वर्णनिधि हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1962	U72200TG2012PTC080299	रेवूसॉफ्ट सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1963	U14102AP2012PTC080307	सुवर्णधारा रॉक्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1964	U45209TG2012PTC080312	किमटी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1965	U74999TG2012PTC080333	श्रीवत्स बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1966	U72900TG2012PTC080365	इंफोटेस आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1967	U72200TG2012PTC080394	शिफ टी सी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1968	U72200TG2012PTC080460	एन जी 6 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1969	U74999TG2012PTC080461	इनसाइट ट्रेड्स एंड नोवलटीज प्राइवेट लिमिटेड
1970	U93000TG2012PTC080479	जे आर पी टूवेल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1971	U72200TG2012FTC080481	डाटा डॉट सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1972	U74999TG2012PTC080547	बालरका कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1973	U31908TG2012PTC080587	लोकेश्वरी पॉवर लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
1974	U51909TG2012PTC080615	तमामा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1975	U24120TG2012PTC080617	ब्लूम क्राप केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1976	U40300TG2012PTC080687	फोएनिकस पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
1977	U15400TG2012PTC080692	पद्मानायक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1978	U22190TG2012PTC080694	मैग्नेट ऐड्स एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1979	U74999TG2012PTC080698	इंटरनेशनल स्टडीज एब्रोड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1980	U45209TG2012PTC080729	सॉलिस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
1981	U01403TG2012PTC080774	डॉ. एस वी पी लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
1982	U67190TG2012PTC080820	एस जे एफ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1983	U67190TG2012PTC080833	ऐडनिम स्ट्रेटिजिज इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1984	U72200TG2012PTC080884	पेंच आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1985	U15205TG2012PTC080894	हैजेल डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1986	U45400TG2012PTC080983	ईकावेजमैन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1987	U24232TG2012PTC080985	साइबस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
1988	U31900TG2012PTC081075	आर्टिग एम्बेडेड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
1989	U74999TG2012PTC081262	बालरका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1990	U27310AP2012PTC081364	श्री कनकमहालक्ष्मी रिसोर्सस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1991	U14290TG2012PTC081408	एराइज इंफ्राकॉन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1992	U45209AP2012PTC081419	दीपा टेक्नो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1993	U45209AP2012PTC081422	जय टेक्नो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1994	U45209AP2012PTC081425	विश्व जननी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1995	U45209TG2012PTC081494	एस एम एस इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1996	U72900TG2012PTC081499	ई-मर्चेट डिजिटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1997	U73100TG2012PTC081511	नार्थ अमेरिका बायोमेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
1998	U70100AP2012PTC081769	कल्याणी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1999	U16000TG2012PTC081883	इनफिनिटी टोबैको प्राइवेट लिमिटेड
2000	U24232TG2012PTC081909	मेडकाइन बायो प्राइवेट लिमिटेड
2001	U74900TG2012PTC081918	पी एच एल टेलिसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2002	U21020TG2012PTC081931	ओएसिस पेपरपैक प्राइवेट लिमिटेड
2003	U55101TG2012PTC081971	एसलैक्स टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2004	U45209TG2012PTC081976	नरसिंगी प्राइम स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड
2005	U51909AP2012PTC081990	स्फूर्ति इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2006	U01211TG2012PTC082068	कौमुदी डेयरी एंड एगी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2007	U14220TG2012PTC082170	श्रीटेक मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2008	U72200TG2012PTC082177	अप्पुलेंटो मोबिलिटी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2009	U45209AP2012PTC082202	फ्लोरेट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2010	U93000TG2012PTC082226	राइजिंग ग्लो ब्यूटी एंड हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2011	U80302TG2012PTC082229	वेस्टॉस लाइव टेली स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
2012	U85110TG2012PTC082257	हेलो हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2013	U15122TG2012PTC082329	एन आर आई मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2014	U13203TG2012PTC082373	श्री साई दवरकामयी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
2015	U72200TG2012PTC082378	बेरिलसॉफ्ट आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2016	U24100TG2012PTC082408	प्राणु मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड
2017	U22100TG2012PTC082464	अहल्या मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2018	U45209TG2012PTC082520	आर्मर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
2019	U74999TG2012PTC082537	आदर्श इवेंट्स एंड प्रोमोस प्राइवेट लिमिटेड
2020	U65992TG2012PTC082582	शिवदिव्य चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2021	U93000TG2012PTC082592	इंडिया सेवा ई-कॉम एंड सोलसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2022	U45209TG2012PTC082595	एस वी एम सिविल प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2023	U72300TG2012PTC082667	कैनकॉन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2024	U72200TG2012PTC082691	इकोनसर्व सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2025	U74900TG2012PTC082719	कार्डब्राइट प्रिंटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2026	U74999TG2012PTC082764	वर्बाटिम स्टाफिंग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2027	U45400TG2012PTC082838	वाइजाग स्लरी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2028	U28113TG2012PTC082845	नोवा पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड
2029	U24233TG2012PTC082874	जाइनो मार्क फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
2030	U74200TG2012PTC082927	एनवायरो बिलटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2031	U29253TG2012PTC083057	के वी आर पॉवरमेक इंडस्ट्रियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2032	U45209TG2012PTC083079	नगमा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2033	U01405TG2012PTC083153	एकता सुगर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2034	U26960AP2012PTC083167	श्री विजया साई मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
2035	U45209TG2012PTC083218	भैरव पॉवर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2036	U72300TG2012PTC083311	वाल्ना सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2037	U93000TG2012PTC083319	गो 2 वेडलॉक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2038	U45209TG2012PTC083390	तेजस्वाराम इंजीनियर्स एंड कांस्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2039	U45400TG2012PTC083433	ब्लू स्ट्रीक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2040	U72200TG2012PTC083455	ट्रांसक्यूब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2041	U15400TG2012PTC083485	डाउन साउथ डेलिकेसीस प्राइवेट लिमिटेड
2042	U72200TG2012PTC083498	वायरफ्रेम वेब डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2043	U52322TG2012PTC083534	मैडिसन क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
2044	U92100TG2012PTC083552	रैंडम थाउट्स प्राइवेट लिमिटेड
2045	U45209TG2012PTC083565	साई सन्निधी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2046	U22200TG2012PTC083572	श्री नवनिर्माण प्रिंटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2047	U31900TG2012PTC083648	श्रीमान सेंसर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2048	U65924TG2012PTC083656	स्मार्ट ट्रेडिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2049	U22222TG2012PTC083665	अनन्या मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2050	U45400TG2012PTC083726	सुपातश्री कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2051	U64204TG2012PTC083750	कोविदानम माध्यमम प्राइवेट लिमिटेड
2052	U51909TG2012PTC083839	एम पी टी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2053	U40108TG2012PTC083928	जे ई सी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2054	U18109TG2012PTC083989	जस्ट 4 यू इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2055	U52390TG2012PTC084000	स्पर्श कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2056	U45209TG2012PTC084048	हैबिटस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2057	U72200TG2012PTC084090	आरगी इंफो लॉजिक सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2058	U72200TG2012PTC084147	सनटियारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2059	U45200AP2012PTC084165	नितिन माइनिंग एंड सिविल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2060	U63040TG2012PTC084229	श्री गल्फ आंध्र टूर्स एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2061	U63090AP2012PTC084280	समुराम शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2062	U37100TG2012PTC084285	भव्या भवानी रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
2063	U92120TG2012PTC084291	मालिनेनी प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2064	U74900TG2012PTC084294	टी एंड आई इंजीनियरिंग कंसलटेंसी सर्विसेस एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2065	U22100TG2012FTC084295	सिरि पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2066	U45209TG2012PTC084329	हिल इंफ्राटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2067	U80904TG2012PTC084334	लियो किडज एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2068	U85100TG2012PTC084349	नवीना हेल्थ केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2069	U45209TG2012PTC084353	टर्बो एटम इंजीनियर्स एंड इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2070	U72900AP2012PTC084358	बिल्स एन टिकट्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2071	U72400TG2012PTC084446	वेलडन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2072	U31400TG2012PTC084507	साई भवानी पॉवर टेक प्राइवेट लिमिटेड
2073	U72200TG2012PTC084549	सुपर इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2074	U24232TG2012PTC084553	कैड लैक लाइफ साइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2075	U15122TG2012FTC084583	रामाकृष्णा फुड कुजिन्स प्राइवेट लिमिटेड
2076	U72200TG2012PTC084592	पोड्स एडु सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2077	U74999TG2012PTC084607	नैको इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2078	U72300TG2012PTC084660	विज्ञान कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2079	U72900TG2012PTC084724	जिरको मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड
2080	U45200TG2012PTC084743	एस वी आर इंजीनियरिंग एंड इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2081	U72200TG2012PTC084767	गैलप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2082	U93000TG2012PTC084801	चमेलियोन एच आर एम एस प्राइवेट लिमिटेड
2083	U72200TG2012PTC084809	एस्सेंडो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2084	U40108TG2012PTC084903	दमन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2085	U93000TG2012PTC084937	फ्रीलांसर मेडिकल प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2086	U51909TG2012PTC084978	पेपर कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
2087	U74900TG2012PTC085028	एबाइड एच आर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2088	U72200AP2012PTC085081	महापाटी आई टिभी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2089	U01407TG2012PTC085097	इति एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
2090	U01403AP2012PTC085102	गूज ग्लोबल एग्री प्राइवेट लिमिटेड
2091	U72900TG2012PTC085114	डी एल आई टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2092	U24232AP2012PTC085122	अभुषा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
2093	U92120TG2012PTC085140	यूनिवर्सल चर्च मीडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड
2094	U72900TG2012PTC085147	स्मैपटेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2095	U45203TG2013PTC085218	बी आर मेटालिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2096	U70102TG2013PTC085234	प्राइम लिविंग इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2097	U85191TG2013PTC085246	आर के आयुर्वेदिक एंड पीसोरिएसिस रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
2098	U10100TG2013PTC085254	कास्ब्रो कोल्स प्राइवेट लिमिटेड
2099	U72300TG2013PTC085380	इंटीग्रल माइंड्स सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2100	U73100TG2013PTC085424	थेराक्सेल डिस्कवरीज प्राइवेट लिमिटेड
2101	U72200TG2013PTC085432	जर्लिना सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2102	U72200TG2013PTC085468	नाइसेट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2103	U01403AP2013PTC085477	वेलुरु एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2104	U92120TG2013PTC085522	मनोरमा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2105	U40108TG2013PTC085527	के एल के एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2106	U60200TG2013PTC085574	ऑरेंज टर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2107	U72900TG2013PTC085602	सियोना सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2108	U80901TG2013PTC085619	लाइफ वायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2109	U65923AP2013PTC085633	श्री लक्ष्मी नंदा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2110	U01119TG2013PTC085646	एग्रीमॉल क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड
2111	U25200TG2013PTC085667	रिमर्स प्राइवेट लिमिटेडनेट रिक्लेप्ला-
2112	U72200TG2013FTC085673	इनरोड इंडिया होटल्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2113	U72200AP2013PTC085705	कांट्रैडो आई टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2114	U65992AP2013PTC085724	श्रेयोजना चिट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2115	U16000AP2013PTC085740	पातुरी टोबैकोज प्राइवेट लिमिटेड
2116	U85193TG2013PTC085752	श्री वैष्णवी मेडि केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2117	U45209TG2013PTC085762	मेगा प्रिकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
2118	U23200TG2013PTC085775	न्यूजोन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2119	U72200TG2013PTC085830	एसपेसज टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2120	U24301TG2013PTC085860	अन्वित लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2121	U15122TG2013PTC085910	देसी गौरमेट प्राइवेट लिमिटेड
2122	U01403TG2013PTC085949	रेनोवा सीड साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2123	U74900TG2013PTC085963	वेय 4 लोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2124	U40108TG2013PTC085981	कौस्यप सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2125	U92120TG2013PTC086000	मास्क प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2126	U74140TG2013PTC086006	वायुजा क्लिनरूम सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2127	U92412TG2013PLC086110	श्री साई लीला ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड
2128	U40107AP2013PTC086118	मेडेहल सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड
2129	U51101TG2013PTC086120	नूतन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
2130	U45203TG2013PTC086154	अचला गोल्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2131	U93030AP2013PTC086165	नियास आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2132	U92120AP2013PTC086174	के के मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2133	U52390TG2013PTC086212	चिकारा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2134	U74140TG2013PTC086234	गुड शेफर्ड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2135	U74900TG2013PTC086253	लियो ब्रांड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2136	U55104TG2013PTC086262	एस.के.ए.एच. होटल्स लियो ब्रांड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2137	U35990AP2013PTC086313	जया शक्ति कॉमर्शियल मोटर्स लियो ब्रांड सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2138	U15122TG2013PTC086364	गजकेसरी फुड प्राइवेट लिमिटेड
2139	U72200TG2013PTC086390	एस्फायर सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2140	U21098TG2013PTC086423	वीरभद्र पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2141	U29253TG2013PTC086458	एलिया ऑटोमेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2142	U10100TG2013PTC086487	एस.के.ए.एच. माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2143	U51101TG2013PTC086655	युविका मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
2144	U40107AP2013PTC086659	आदित्या पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2145	U72200TG2013PTC086714	ट्रेवेल ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2146	U74900TG2013PTC086715	सेल्फ क्राफ्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
2147	U45209TG2013PTC086730	फर्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2148	U93000TG2013PTC086766	नेक्स्ट जेन एजुकेशन सोल एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2149	U24232TG2013PTC086814	हर्कुलस बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
2150	U74130TG2013PTC086831	रिजल्ट मैटिक ऑनलाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2151	U92412TG2013PTC086843	गैंड स्लैम स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2152	U45100TG2013PTC086862	नू कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2153	U74900TG2013PTC086937	रॉयस कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड
2154	U55101TG2013PTC086965	नुओवो फुड कांसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2155	U24301TG2013PTC086991	ओरिआयु हर्बल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2156	U05004AP2013PTC087001	पद्मश्री फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड
2157	U72900AP2013PTC087030	अचंता एसीन गिनीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2158	U31401AP2013PTC087108	एस एस के एच कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2159	U52100TG2013PTC087113	निको ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2160	U31905TG2013PTC087135	अन्विका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2161	U85100TG2013PTC087143	श्रीवेन हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2162	U40108TG2013PTC087149	कंडुला सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2163	U45400TG2013PTC087168	वी आर आर प्रोपर्टी डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2164	U31400TG2013PTC087179	रंजन इलेक्ट्रिकल एंड रेफ्रिजेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2165	U72900TG2013PTC087194	स्पा0इन कंप्यूटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2166	U72400TG2013PTC087215	केविन्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2167	U72200TG2013PTC087320	एकांश इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2168	U31906TG2013PTC087331	सनलाइफ सोलर एंड सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2169	U74140TG2013PTC087345	नेल्लोर नारायणा कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2170	U45209TG2013PTC087361	करेरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2171	U45209TG2013PTC087401	विरिची कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
2172	U72900TG2013FTC087410	हेलो इनोवेशन आई टी प्राइवेट लिमिटेड
2173	U45200TG2013PTC087419	सुब्रहमण्या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2174	U52335TG2013PTC087422	किंग्सवे इंटीग्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2175	U40107TG2013FTC087450	कार्मेल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2176	U72200TG2013PTC087453	यग्ना आई टी इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
2177	U65992TG2013PTC087489	सप्तगिरी श्रीनिलय चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2178	U72200TG2013PTC087515	नेक्सॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2179	U24134TG2013PTC087516	वैंडिता पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2180	U92100TG2013PTC087543	चरण मूवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2181	U24232TG2013PTC087578	वीजे फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2182	U52100TG2013PTC087589	एस एस एन वी वी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2183	U74900TG2013PTC087596	सोसिको कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2184	U31900TG2013PTC087602	ग्लेयर इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2185	U34100TG2013PTC087624	रैप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2186	U24232TG2013PTC087632	कैडिन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
2187	U52300TG2013PTC087646	जी एन के इंटीरियर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2188	U45200TG2013PTC087699	इको फ्रेंडली होम्स बड़ौदा प्राइवेट लिमिटेड
2189	U65992AP2013PTC087705	महा देवी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2190	U45209TG2013PTC087729	वन वल्ड टाउनशिप बड़ौदा प्राइवेट लिमिटेड
2191	U72200TG2013PTC087732	आई स्ट्रीम मीडिया सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2192	U72200TG2013PTC087775	ओसिएनिक ई-टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2193	U15400TG2013PTC087801	नाहर फुड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2194	U45209TG2013PTC087819	लीफ्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2195	U72900TG2013PTC087845	एमेज इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2196	U40300TG2013PTC087852	इल्यूमाइन सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2197	U52190TG2013PTC087860	हस्त ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2198	U93000TG2013PTC087924	बिकाड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2199	U72200TG2013PTC087933	इवेन्सोल सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2200	U72200TG2013PTC087966	लास्या सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2201	U24110TG2013PTC087989	राजडव क्रॉप साइंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2202	U72900TG2013PTC087995	प्रसूषा लॉजिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2203	U74999TG2013PTC088043	हैजेलवुड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2204	U72300TG2013PTC088062	अव्यय आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2205	U01403AP2013PTC088089	आदराना पाड़ी एंड पंटा प्राइवेट लिमिटेड
2206	U51909TG2013PTC088099	बुद्धवरापु इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2207	U74900TG2013PTC088110	ब्रिजस्टोन ग्रेनाइट्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2208	U72200TG2013PTC088211	लूमिनोवा टेक्नो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2209	U72200TG2013PTC088287	स्वाश सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2210	U52390TG2013PTC088319	एमेजिंग वैंडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2211	U74900TG2013PTC088371	फ्रीगो मेडिकल एंड हेल्थ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2212	U45209TG2013PLC088400	एपोलक्स हाउसिंग इंडिया लिमिटेड
2213	U45400TG2013PTC088417	सनग्रेस होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2214	U35301TG2013PTC088457	मुक्त एयर प्राइवेट लिमिटेड
2215	U92120TG2013PTC088458	सिरी टेरिटोरियल न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
2216	U45200TG2013PTC088548	ब्लू विलाज प्राइवेट लिमिटेड
2217	U33119TG2013PTC088584	मेडी आई केयर हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2218	U45209TG2013PTC088602	अयबुवन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2219	U72400TG2013PTC088625	2 पी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2220	U15331TG2013PTC088627	रत्ना एगो वेट फीड्स-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2221	U22120TG2013PTC088655	एशर्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
2222	U74220TG2013PTC088693	राइट डॉक्टर्स हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2223	U24232TG2013PTC088707	मयूका फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
2224	U74200TG2013PTC088708	ट्वेंटी वन डिग्रीज पीएमसी प्राइवेट लिमिटेड
2225	U51101TG2013PTC088720	वी के आर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2226	U72200TG2013PTC088762	अनंत बिजनेस कंसलटेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2227	U92100TG2013PTC088763	प्रजावाणी ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2228	U29241TG2013PTC088764	एक्सेल फ्लूड पॉवर एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
2229	U51909TG2013PTC088775	श्री भाग्यलक्ष्मी कोल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2230	U31900AP2013PTC088779	सनराइज सोलर पैनेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2231	U51909TG2013PTC088867	अवनी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
2232	U22120TG2013PTC088948	सेवन सम्मिट्स स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
2233	U72200TG2013PTC088953	अस्त इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2234	U74900TG2013PTC088963	स्टर्लिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2235	U45209AP2013PTC088986	लोकेश एडिफाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
2236	U72200TG2013FTC089169	भवन आइटोन प्राइवेट लिमिटेड
2237	U40108AP2013PTC089241	श्री रावी गीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2238	U93000TG2013PTC089277	माइकेल मखाल सिम्फनी आर्कस्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड
2239	U74900TG2013PTC089324	सिरी बायो फार्मलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2240	U15122AP2013PTC089442	गोवु फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2241	U25190TG2013PTC089457	ईश्वरया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
2242	U28910TG2013PTC089542	हास ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
2243	U74900TG2013PTC089568	ऐम्प्रेक्स कापॉरिट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2244	U72200TG2013PTC089597	स्मार्टथ्रेड सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2245	U74999TG2013PTC089630	कौंडूर मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2246	U72200TG2013PTC089643	एकिको पेमेंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2247	U92412TG2013PTC089706	टीम लीड डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2248	U72200TG2013PTC089730	वैंको ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड
2249	U52399TG2013PTC089733	लेबल फोर क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
2250	U24232TG2013PTC089766	सिरी सिरी थेरापेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2251	U14107TG2013PTC089767	ऑर्चाई माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2252	U32107TG2013PTC089778	स्वाती कनेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2253	U93000TG2013PTC089779	इनार्मस स्कोप मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2254	U24232TG2013PTC089780	लैक्टोनकिंड ड्रग्स एंड फार्मलेशनस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2255	U74900TG2013PTC089783	स्नेहदीप एडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2256	U45209AP2013PTC089785	श्री लक्ष्मी नरसिंहा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2257	U14200TG2013PTC089789	शाइन इंडिया माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2258	U74900TG2013PTC089790	कर्व टेक्नोलॉजीस एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2259	U15490TG2013PTC089793	अहोय फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2260	U74120AP2013PTC089797	सारावनन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2261	U72200TG2013PTC089798	एकमे इंफोलॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2262	U27100TG2013PLC089801	बी एस डब्ल्यू इस्पात इंडिया लिमिटेड
2263	U29130TG2013PTC089806	पिनैकल पेब एंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड
2264	U72200TG2013PTC089808	सिरोकोड इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2265	U45209TG2013PTC089809	मैगनिकॉन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2266	U72200TG2013PTC089814	अक्षिता इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2267	U63030TG2013PTC089815	साईस ट्रेवलनर प्राइवेट लिमिटेड
2268	U74140TG2013PTC089817	चिंताला कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2269	U72200TG2013PTC089819	सनस्टार्क सिक्यूर-इंटेलीगल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2270	U72200TG2013PTC089823	तारक बी पी ओ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2271	U52390TG2013PTC089828	अभिषेक होम नीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2272	U72200TG2013FTC089838	एटिसल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2273	U15410TG2013PTC089841	एन बलग्लो .डी.प्राइवेट लिमिटेड
2274	U14220TG2013PTC089843	रबियाबी माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2275	U24100TG2013PTC089851	साद्या लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
2276	U72200TG2013PTC089854	ईमोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2277	U74900TG2013PTC089855	वी एन आर इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2278	U74900TG2013PTC089859	क्रिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2279	U40108TG2013PTC089862	सैयद एंड शफी पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2280	U45209TG2013PTC089863	अन्नाम इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2281	U74900TG2013PTC089865	वागवी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2282	U65992TG2013PTC089866	वागवी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2283	U74900TG2013PTC089872	मारिओ टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड
2284	U67190TG2013PTC089873	एम एफ कैपिटल एडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2285	U65100TG2013PTC089875	बैंक 2 बेसिक्स फाइनांसियल एडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2286	U65992TG2013PTC089885	अक्षिता लक्ष्मी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2287	U72200TG2013PTC089886	सी जे सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2288	U45203AP2013PTC089893	जी पी आर सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2289	U72200TG2013PTC089904	मातरे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2290	U51900TG2013PTC089906	एस.एस. इवोल्यूशन ग्लोबल वेब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2291	U45200AP2013PTC089907	साई कृपा ट्रेडिंग एंड रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2292	U74999AP2013PTC089914	नोटाची इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2293	U31900TG2013PTC089915	केक इंडिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2294	U74900TG2013PTC089917	स्टेम लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2295	U80901TG2013PTC089920	हिया इंस्ट्रीच्यूट फॉर इंटीग्रल ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
2296	U92140TG2013PTC089925	विगोर इंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2297	U63030TG2013PTC089929	प्रतापगिरी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
2298	U52599TG2013PTC089930	कॉमन इलेक्ट्रोनिक्स एंड ऑटोमेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2299	U45209TG2013PTC089935	दिल राजू कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
2300	U74900TG2013PTC089936	ट्रिजेंसिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2301	U45209TG2013PTC089939	अयातन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2302	U72900TG2013PTC089940	ओआस क्लाउड सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2303	U72200TG2013PTC089941	एक्यूबी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2304	U40300TG2013PTC089949	सेंटम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2305	U31100TG2013PTC089950	इंटेलिमैक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2306	U74900TG2013PTC089955	अल्पाइनिस्ट कॉर्प कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2307	U74900TG2013PTC089960	रायडू प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2308	U72200AP2013PTC089963	ऑरेंज नेक्स्टजेन कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
2309	U70100TG2013PTC089968	सुरभी एंड तावितिकी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2310	U85190AP2013PTC089969	वरुण मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2311	U74900TG2013PTC089972	सिग्ना सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2312	U85100TG2013PTC089978	इंडिया इकोप्रेनर प्राइवेट लिमिटेड
2313	U72200TG2013PTC089982	स्काईजेन ग्लोबल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2314	U70100TG2013PTC089987	लैंडमैन रिसलट्स प्राइवेट लिमिटेड
2315	U40106TG2013PTC089989	सुपर ब्राइट सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2316	U45400TG2013PTC089991	हासप्रो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2317	U15400AP2013PTC089993	बी डब्ल्यू स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड
2318	U85110AP2013PTC089997	डेंटल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
2319	U74900TG2013PTC089999	एलान कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2320	U28113TG2013PTC090009	जेंटो स्टील इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2321	U40300AP2013PTC090010	श्री गायत्री नेचुरल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2322	U74120TG2013PTC090013	किंगडम ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2323	U72200TG2013PTC090017	वैष्णवी टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2324	U15400TG2013PTC090018	डॉक्टर्स एन डॉक्टर्स हेल्दी फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2325	U74999TG2013PTC090022	मेट्रो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2326	U40108AP2013PTC090023	संवतसारा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2327	U50200TG2013PTC090032	माहेश्वरी ऑटो लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
2328	U72300TG2013PTC090039	वेगासिस आई टी प्राइवेट लिमिटेड
2329	U74900TG2013PTC090040	जुबिलिएंट इंफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2330	U65992AP2013PTC090043	लेमाल्ले चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2331	U51909TG2013PTC090044	आद्या ईकॉमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-
2332	U50200TG2013PLC090047	ईकावीरा हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2333	U74900TG2013PTC090054	एनर्जी प्लस वेलनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2334	U31900TG2013PTC090057	ट्राइमेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2335	U10300AP2013PTC090061	बी जी एन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2336	U74910TG2013PTC090062	जी एल पी मैन पावर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2337	U74300TG2013PTC090063	ट्रिएम्फट मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2338	U63090TG2013PTC090068	एम एम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
2339	U24232TG2013PTC090069	जुवेन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2340	U45200TG2013PTC090071	एन आर आर इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2341	U45207AP2013PLC090075	जयश्री एनकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2342	U74120TG2013PTC090079	डॉट्स एंड वर्ड्स कम्युनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2343	U51103TG2013PTC090081	भावगना टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2344	U51900TG2013PTC090084	अमीर इंफेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2345	U72200TG2013PTC090092	जी एन आर सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
2346	U18204TG2013PTC090093	एस वी आर गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2347	U45200TG2013PTC090095	श्री श्रावणी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
2348	U24232TG2013PLC090096	एम बी एस रिमेडीज लिमिटेड
2349	U74999TG2013PTC090097	चारिआगो प्रोमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2350	U14200TG2013PTC090101	इन्नोमिट मिनरल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2351	U31900TG2013PTC090104	कैम्प कांट्रैक्टिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2352	U27300AP2013PTC090109	आर्नामेट आर्टिफिशर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
2353	U85120TG2013PTC090110	एस वी आर हेल्थ केयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2354	U65192AP2013PTC090113	धीरज चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2355	U92120TG2013PTC090117	पी रामबाबू इंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2356	U74920TG2013PTC090119	कोर एम्पावरमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2357	U74999TG2013PTC090120	मिसोरा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2358	U01403TG2013PTC090125	प्लूरिस एग्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2359	U45200TG2013PTC090128	लक्ष्मी रिद्धिमा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2360	U15400TG2013PTC090135	ए1 फुड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2361	U72200TG2013PTC090138	शैडो आई टी इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2362	U93090TG2013PTC090142	मांडूवा हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2363	U52100AP2013PTC090145	एम.एस.आर. डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2364	U92412TG2013PTC090146	सनआई प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2365	U72300TG2013PTC090147	यूरेनियम टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2366	U15400TG2013PTC090150	माणिकचंद कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2367	U72200TG2013PTC090157	वन वर्ल्ड आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2368	U29219TG2013PTC090163	जिक्स टेक्नो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2369	U14200AP2013PTC090165	श्री प्रदा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2370	U45209AP2013PLC090171	पी प्रकाशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
2371	U40108TG2013PTC090177	शिवामनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड
2372	U15143TG2013PTC090179	हम्सा ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
2373	U45209TG2013PTC090180	गोरक्षा कंस्ट्रक्शन्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2374	U72200TG2013PTC090181	मलीहा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2375	U72200TG2013PTC090182	डेबियन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2376	U24132TG2013PTC090183	कमल प्रभास केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2377	U52590TG2013PTC090184	डिजाइनर्स एज इंफेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2378	U52100TG2013PTC090185	डिजाइनर्स एज इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2379	U52300TG2013PTC090186	डिजाइनर्स एज फ्रेंचाइज प्राइवेट लिमिटेड
2380	U15490AP2013PTC090187	ओम जे जे ब्रेक डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2381	U74999TG2013PTC090199	मन्नार फाइनांसिल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2382	U72200AP2013PTC090202	राजगृप्स टेक्नो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2383	U45209AP2013PTC090203	मलकांडा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2384	U74140TG2013PTC090204	क्विलयर स्कूप डिजिटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2385	U32300TG2013PTC090205	विविड मोबीसॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2386	U70100TG2013PTC090206	राइज रियलटी प्राइवेट लिमिटेड
2387	U52590TG2013PTC090207	लाइफ ग्रो ऑनलाइन मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2388	U51101TG2013PTC090208	एम इंटेग्रिटी इंफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2389	U63090AP2013PTC090210	गुडलक कॉल टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड
2390	U74120TG2013PTC090213	चेराला कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2391	U74300TG2013PTC090214	वाई आर लॉजिस्टिक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2392	U72200AP2013PTC090219	पिक्सेलब्लर स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
2393	U74900TG2013PTC090222	क्लब 7 हॉस्पिटलिटी सर्विसेस हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
2394	U66000AP2013PTC090225	अखिल आधार इनसाइट मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2395	U74900TG2013PTC090226	फॉक्समेन डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
2396	U72200TG2013PTC090231	मेवरिक क्लाउड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2397	U74900TG2013PTC090241	विक्रम कारपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2398	U74900TG2013PTC090242	क्रेडली एच आर प्राइवेट लिमिटेड
2399	U74140TG2013PTC090247	प्रोएक्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2400	U40102TG2013PTC090257	कमल सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2401	U93000TG2013PTC090259	शुभ संकल्प इवेंट आर्गनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
2402	U65923TG2013PTC090260	मैक्स ग्लोबल चिट फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2403	U74900AP2013PTC090264	गैलेक्सी ग्रीन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2404	U72200TG2013PTC090265	प्रेसिस आइटेस प्राइवेट लिमिटेड
2405	U67190TG2013PTC090269	मेसक्ला फाइनांसियल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2406	U51101AP2013PTC090274	श्री साई सप्तगिरी एग्री ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
2407	U72400TG2013PTC090275	कांत ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
2408	U74900TG2013PTC090283	टेक्नोआर्ट कारपोरेट क्वालिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2409	U74900AP2013PTC090284	आइडियल इंटरप्रेनर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2410	U24233TG2013PTC090292	नियोटेब्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
2411	U92140TG2013PTC090293	क्योरस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2412	U72400TG2013PTC090295	वन एंड थ्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2413	U64200TG2013PTC090300	इंफोसियोन टेली सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2414	U22219TG2013PTC090301	वी एस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2415	U74999TG2013PTC090302	मायोभू इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2416	U40108AP2013PTC090306	सोलंजी एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2417	U72200AP2013PTC090308	आई जोन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2418	U24232TG2013PTC090310	माई ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
2419	U15331TG2013PTC090312	हडसन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
2420	U72200TG2013FTC090313	क्लैडूप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2421	U51220TG2013PTC090314	वैभव कल्याण फुड एंड एगो एजेंसीज एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2422	U45209TG2013PTC090315	चिक इस्टेट्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2423	U72200TG2013PTC090317	वन कनेक्ट आई टी सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2424	U74120TG2013PTC090320	माइक्रोब सर्किट प्राइवेट लिमिटेड
2425	U01403TG2013PTC090322	डी जे आर एगो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2426	U15400TG2013PTC090324	वैजमैन फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2427	U72200TG2013PTC090326	स्मार्ट सर्च आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2428	U74200TG2013PTC090327	आइसोटोप क्वालिटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2429	U70101AP2013PTC090329	इंडोस्टार रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2430	U72200TG2013PTC090332	आई-स्मैक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2431	U72300TG2013PTC090333	इनोर्मस कारपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2432	U72200TG2013PTC090344	सिल्वरलाइन आई टी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2433	U85191TG2013PTC090347	क्रिया हॉस्पिटल्स एंड डायगनोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2434	U31908TG2013PTC090350	आर स्क्वायर सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2435	U92419TG2013PTC090354	मल्टीट्यून इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2436	U65992AP2013PTC090355	बुद्धवरापू चित फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2437	U45206AP2013PTC090356	विरिंची टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
2438	U93095TG2013PTC090361	पवन तेजा टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2439	U24233TG2013PTC090362	श्री भवानी होम केयर प्राइवेट लिमिटेड
2440	U01403TG2013PTC090364	सान्वी एग्री बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2441	U29253TG2013PTC090366	एमकिस इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2442	U22210AP2013PTC090369	चेंजिंग मूवमेंट्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2443	U72200AP2013PTC090372	एस्सरटेन इंफो प्राइवेट लिमिटेड
2444	U24100TG2013PTC090374	ट्विन्स एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2445	U74900TG2013PTC090376	श्री ज्ञान सत्रिसेस प्राइवेट लिमिटेड
2446	U74120TG2013PTC090380	एकॉर्ड एवेन्यूज एंड इंटीरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2447	U15122TG2013PTC090381	थिंकिंग कप बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
2448	U74120TG2013PTC090383	बिंदास मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2449	U51101TG2013PTC090391	अर्ली राइज एनर्जी स्प्राउट्स प्राइवेट लिमिटेड
2450	U74999TG2013PTC090393	आर एम एच आर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2451	U72400AP2013PTC090397	लास्ट माइल आई टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2452	U65992TG2013PTC090398	रेड्डी ब्रदर्स चित फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2453	U93000TG2013PTC090399	अफसा ऑनलाइन सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2454	U45203AP2013PTC090400	मोरल बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2455	U74300TG2013PTC090402	ए आर आर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2456	U45200TG2013PTC090403	साई जी वी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2457	U72200TG2013PTC090405	ब्लू हब सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2458	U13200TG2013PLC090407	माधवेश्वरी डायमंड्स एंड मिनरलॉजी केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
2459	U01409TG2013PTC090412	हरिका डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2460	U40108TG2013PTC090414	विजन टेक्सो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2461	U72200AP2013PTC090420	गुहान आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2462	U72200TG2013PTC090422	9 सिफ्टी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2463	U74120TG2013PTC090423	श्रीरामुला सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2464	U72200TG2013PTC090424	एस आर के इंफोसॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2465	U17120TG2013PTC090426	वाजमैन टेक्स्ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
2466	U63090TG2013PTC090428	अल-नूर मदीना हज एंड उमराह टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2467	U63090TG2013PTC090431	श्री यात्रा प्राइवेट लिमिटेड
2468	U74999AP2013PTC090434	केके कुम्भाला कंज्यूमर नीड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2469	U74900TG2013PTC090445	पी एंड जी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2470	U72200TG2013PTC090446	रिज टेकस्टोर प्राइवेट लिमिटेड
2471	U13100TG2013PTC090449	प्रिकी माइन्स मेटल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2472	U74900TG2013PTC090450	आरफिन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2473	U45205TG2013PTC090451	विख्यात कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2474	U45208AP2013PTC090457	अभी अमृता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2475	U72200TG2013PTC090458	कीलॉजिक सॉफ्टवेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2476	U45200AP2013PTC090461	पिनाकिनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2477	U01400AP2013PTC090463	रामगिरी ट्राइबल फार्मर सर्विसेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2478	U45209AP2013PTC090467	काकातुरु इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2479	U80900AP2013PTC090469	सी वी आर - आईनेट इनोवेशन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2480	U72200TG2013PTC090471	रागामनी ईबिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2481	U15203AP2013PTC090472	श्री बाला डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2482	U22300AP2013PTC090473	जाम्बुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2483	U72200TG2013PTC090476	रिवेयर आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2484	U40300AP2013PTC090482	श्री सत्य सूर्या इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2485	U74120TG2013PTC090483	सन्निद्धी मीडिया सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2486	U45200AP2013PTC090494	आदर्श मीडोज प्राइवेट लिमिटेड
2487	U45200TG2013PTC090498	के.वी. रमणा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2488	U74120TG2013PTC090499	श्री वकुला मार्केटिंग सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2489	U93000TG2013PTC090502	के व्यू क्रिएटिव स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
2490	U70101AP2013PTC090505	साई राम संकरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2491	U72200AP2013PTC090506	सुजेवा आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2492	U74900AP2013PTC090508	मनलोक इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2493	U01403TG2013PTC090509	कर्षक मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2494	U01403TG2013PTC090510	श्री साई कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2495	U80901AP2013PTC090511	आइडिएशन ग्लोबल सेमिनार्स प्राइवेट लिमिटेड
2496	U40105TG2013PTC090513	ऋषि रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
2497	U74120TG2013PTC090516	आईफार्म कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2498	U45208TG2013PTC090522	साई सुमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2499	U15400TG2013PTC090525	गीनलीफ नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2500	U72200TG2013PTC090529	कैपिटिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2501	U45209AP2013PTC090530	आर डी एल ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2502	U45200TG2013PTC090532	के.एस. राव कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2503	U70200AP2013PTC090534	बेरक्का इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2504	U45209AP2013PTC090537	अर्जुन एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
2505	U80301TG2013PTC090550	फेयर फ्यूचर इंटरप्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
2506	U52100AP2013PTC090552	गेस्टर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2507	U74140TG2013PTC090556	हयूरस कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2508	U70102AP2013PTC090559	अष्टलक्ष्मी रियलटी प्राइवेट लिमिटेड
2509	U45209TG2013PTC090561	पी वाई आर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2510	U45209TG2013PTC090562	बद्रीनारायण इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2511	U72200TG2013PTC090566	सैक अप आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2512	U40300AP2013PTC090568	पी एच टी पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2513	U01403AP2013PTC090571	नंदन बी वी रेड्डी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2514	U45209AP2013PTC090573	चेल्तूरी श्रीहरि एंड श्री लक्ष्मी इंजीनियर्स एंड कांट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2515	U72200TG2013PTC090575	टेक प्राइड आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2516	U85110TG2013PTC090577	हेल्थ कर्वेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2517	U74900AP2013PTC090579	ल्यूमेन ऑफ शोर एंड शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2518	U45209AP2013PTC090582	गोगीनेनी टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
2519	U45209TG2013PTC090584	ए एस जे कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2520	U31400TG2013PTC090586	एस वी आर इको एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2521	U40300AP2013PTC090587	उदयकिरण सोलर पॉवर जेनरेशन प्लांट प्राइवेट लिमिटेड
2522	U65992AP2013PTC090599	रवि कृष्णा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2523	U51900TG2013PTC090600	कृष्णा कृपा बिजनेस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2524	U72200TG2013PLC090603	मनी टैग इंडिया लिमिटेड
2525	U70102TG2013PTC090606	बी एस वी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2526	U45200AP2013PTC090614	विजय क्षमी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2527	U01403TG2013PTC090618	श्री दुर्गा किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2528	U01200TG2013PTC090619	श्री ब्रामरी एगो प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2529	U85100TG2013PTC090623	फियोना हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
2530	U45209TG2013PTC090627	जी एम डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2531	U85191TG2013PTC090631	डी डब्ल्यू सी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
2532	U70109AP2013PTC090632	श्राहित रियल इस्टेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2533	U74140TG2013PTC090638	इंटीग्रेटेड कारपोरेट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2534	U45209TG2013PTC090639	एक्सट्रीम इंटीरियर एंड एक्सट्रीरियर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2535	U01403TG2013PTC090640	सिट्रान एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2536	U01403TG2013PTC090641	विंटेज आर्गेनिकस प्राइवेट लिमिटेड
2537	U74300TG2013PTC090643	इनस्पेस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
2538	U72200TG2013PTC090644	सुखदा सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
2539	U72400AP2013PTC090645	टेकॉक आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2540	U92490TG2013PTC090646	अम्पाला ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2541	U51900TG2013PTC090651	हनी नट ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड-
2542	U72200TG2013PTC090658	रेमार्क इंफो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2543	U14295AP2013PTC090661	नवरत्न रिसोर्स एंड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2544	U73100TG2013PTC090662	कोहोर्ट क्लिनिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
2545	U72200TG2013PTC090663	आर्कन्ट्स आई टी सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2546	U72200TG2013PTC090665	बिनारी एंट्स आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2547	U45209AP2013PTC090668	जेस्वर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2548	U01403TG2013PTC090672	ग्रीन इंडिया ग्रेनुलस प्राइवेट लिमिटेड
2549	U40105TG2013PTC090674	रिनेन विद्युत प्राइवेट लिमिटेड
2550	U40102TG2013PTC090676	रिनेन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
2551	U40103TG2013PTC090680	ग्रीन विद्युत प्राइवेट लिमिटेड
2552	U72200AP2013PTC090681	आर के एंड पी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2553	U74120TG2013PTC090683	रेडबैंड कारपोरेट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2554	U72200AP2013PTC090686	बेस कोड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2555	U51909TG2013PTC090691	स्काईपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रीन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2556	U72200TG2013PTC090692	निस्सी वेबटेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2557	U74992TG2013PTC090693	एस पी एस एचआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2558	U45209TG2013PTC090698	ए एम के इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2559	U34100TG2013PTC090700	आर2 ऑटोमोटिव्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2560	U29248TG2013PTC090706	स्नेहा रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2561	U72200TG2013PTC090707	मारुति टेक्नोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2562	U45400TG2013PTC090709	स्वर्ण भूमि प्रोमोटर्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2563	U93000TG2013PTC090710	अबल विसा एंड इमिग्रेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2564	U72400AP2013PTC090711	इनवियोन कारपोरेट सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2565	U74900TG2013PTC090712	के टी कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2566	U40104AP2013PTC090715	सोलर टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2567	U72200TG2013PTC090718	माइंड ऑन डिमांड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2568	U74900TG2013PTC090721	वायर्ड डाक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2569	U40300AP2013PTC090725	एजीस रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2570	U72400TG2013PTC090727	पिक्साबाइट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2571	U72400TG2013PTC090728	डग्गीगोडला आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2572	U74900TG2013PTC090731	हैदराबाद ब्रांड प्रमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2573	U74900TG2013PTC090732	यारा ऑनलाइन सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2574	U01400AP2013PLC090735	श्री अभ्येती एग्रो फार्म्स इंडिया लिमिटेड
2575	U70102TG2013PLC090736	फ्यूचर स्पेस लिमिटेड
2576	U15400TG2013PTC090737	सबर फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2577	U01119AP2013PTC090738	स्वयंकृषि ट्राइबल फार्म सर्विसेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2578	U72200AP2013PTC090739	एन्नेक्स इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2579	U74910TG2013PTC090740	एल जी एस एचआर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2580	U74120TG2013PTC090747	शाइन क्लिन एंड कोल्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2581	U18109AP2013PTC090748	जायम स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
2582	U93000AP2013PTC090750	जी आर के होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2583	U65923TG2013PTC090756	एस एस वी एल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2584	U65992AP2013PTC090759	ग्लोरी गोल्ड चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2585	U74140TG2013PTC090761	आर एस एफ इवेंट्स एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
2586	U93020TG2013PTC090766	ए के प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2587	U74900AP2013PTC090768	स्टार यूनिवर्सल ग्लोब मार्केटिंग एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2588	U72200TG2013PTC090769	मुल्वा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2589	U74900TG2013PTC090771	राइट एन राइट सॉल्यूशन्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2590	U01403TG2013PTC090773	वितल्स एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2591	U74900TG2013PTC090774	ईएमडी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2592	U72200TG2013PTC090776	आर्ट व्हेल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2593	U74300TG2013FTC090778	ए ई जी ऑग्डेन (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
2594	U24248TG2013PTC090780	एलिस थेरापेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2595	U72200AP2013PTC090781	एच एफ टी नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2596	U63010TG2013PTC090782	एम आर ऑल कैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2597	U72200AP2013PTC090786	ग्लोबाटेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2598	U72200TG2013PTC090789	वीमैक सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2599	U63012AP2013PTC090792	आइसिस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2600	U72200TG2013PTC090793	के एम ए सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2601	U74900AP2013PTC090795	इको सोलर मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
2602	U15549AP2013PTC090799	कैमल स्टॉक बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
2603	U45200AP2013PTC090801	अष्टलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन मैटीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
2604	U51909AP2013PTC090802	कनकश्री इंटरप्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2605	U74200TG2013PTC090808	वंदना एनजिकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2606	U74900TG2013PTC090809	व्यूह डिजिटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2607	U01403TG2013PTC090813	तायी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2608	U72502TG2013PTC090817	क्रिओबीस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2609	U24233TG2013PTC090821	डैटी लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
2610	U14200TG2013PTC090826	श्रीहरि राव माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
2611	U51900AP2013PTC090830	ग्राफेनेप्रो बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2612	U72200TG2013PTC090833	एलियन आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2613	U74900TG2013PTC090834	प्रतीक एचआर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2614	U45209TG2013PTC090838	संस्कृता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2615	U74900AP2013PTC090839	नव एनिमेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2616	U80211TG2013PTC090843	प्रभास स्टडीज ई-एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2617	U92412TG2013PTC090846	जी वी एस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2618	U63000AP2013PTC090847	जी एस एन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2619	U63040TG2013PTC090853	सिग्मा कैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2620	U70100TG2013PTC090854	जॉली हिल्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2621	U72200TG2013PTC090867	1नाइस वे इंफो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2622	U40106AP2013PTC090871	श्री साई गणेश सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2623	U72200TG2013PTC090881	एसक्विंग्स मोबाइल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2624	U40107TG2013PTC090882	सैज एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
2625	U72200TG2013FTC090884	अनाहता टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2626	U92130TG2013PTC090887	ताप्ती मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2627	U72400TG2013PTC090894	स्मार्ट साइबर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2628	U65992TG2013PTC090896	अयाज चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2629	U51109AP2013PTC090899	बी एस बी बिजनेस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2630	U74900AP2013PTC090901	राइट वे कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
2631	U51900AP2013PTC090903	पी एन पी ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
2632	U52605TG2013PTC090904	तितर्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
2633	U74900TG2013PTC090906	कैरियर बी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2634	U01407TG2013PTC090910	वीगो रिच फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2635	U74900AP2013PTC090912	स्वान एचआर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2636	U72400TG2013PTC090913	पॉल सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
2637	U51909TG2013PTC090916	लिवइजी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2638	U74120TG2013PTC090919	क्यूब लैब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2639	U67190AP2013PTC090925	एस एस बी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
2640	U01407AP2013PTC090926	टी एल एन एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2641	U92100TG2013PTC090927	रियल सिनेमाज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2642	U74140TG2013PTC090928	प्रोपस मैनेजमेंट एडवायजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2643	U01403TG2013PTC090935	वेन्नेला सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
2644	U15122AP2013PTC090942	साई योगहाता फुड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
2645	U40108AP2013PTC090944	सोल ट्रॉनिक्स पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2646	U22300TG2013PTC090946	अर्थशास्त्र मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2647	U85110TG2013PTC090947	सनलाइफ हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2648	U72400TG2013PTC090948	प्वाइंट इंफोटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2649	U52190AP2013PTC090950	विनजे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2650	U55204TG2013PTC090953	अनवी रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2651	U45200TG2013PLC090955	जनमित्राज इस्टेट्स लिमिटेड
2652	U40108TG2013PTC090956	चक्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2653	U40108AP2013PTC090961	अभ्युन्नति रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2654	U70100AP2013PTC090964	कनिष्क एग्री फार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2655	U63030AP2013PTC090967	सचिन होलिडेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2656	U45209TG2013PLC090971	हैस्प्रो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
2657	U73200TG2013PTC090972	प्रेस्टो टेक्नो एंड रिसर्च सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2658	U26960AP2013PTC090976	ग्रीन ट्री माइक्रो मिनरल्स एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
2659	U74900TG2013PTC090977	सनी सोलर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
2660	U74900TG2013PTC090979	रामकृष्णा येस मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2661	U72200TG2013PTC090985	वेदिकप्रो आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2662	U70101TG2013PTC090986	ऑनसाइट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2663	U01407AP2013PTC090987	एस आर औषधी एग्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2664	U72900TG2013PTC090989	स्पियरऑन सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2665	U40108AP2013PTC090991	प्रोक्सिमा सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2666	U45209TG2013PTC090995	पी जी आर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2667	U85191TG2013PTC091002	अयूर बोधि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2668	U72400TG2013PTC091003	एक्सेल ईआरपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2669	U15490TG2013PTC091008	मेट्रो रिफाइनरीज (कृष्णापटनम) प्राइवेट लिमिटेड
2670	U29253TG2013PTC091016	डायनोविस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2671	U80301AP2013PTC091018	एडु च्वाइस एजुकेशनल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
2672	U74210AP2013PTC091020	माईकॉम इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2673	U72400TG2013PTC091023	इंटेग्रिटा आई टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2674	U72400TG2013PTC091025	इम्ब्योयू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2675	U72200AP2013PTC091029	अम्माजी इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2676	U67100AP2013PTC091033	विंड इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2677	U72200AP2013PTC091034	एस एम एस वी इन्फो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2678	U72900TG2013PTC091035	आर के मीडिया चैनल (तेलंगाना) प्राइवेट लिमिटेड
2679	U72200TG2013PTC091036	हमिंगबिट आई टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2680	U74900TG2013PTC091037	हविलाह कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2681	U85100TG2013PTC091041	प्रागमैटिक मेडिटेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2682	U24232TG2013PLC091042	सुश्रुत फार्मा लिमिटेड
2683	U10100TG2013PTC091044	स्काई स्टोन कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2684	U63090AP2013PTC091045	स्पीड कैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2685	U65992AP2013PTC091047	अश्विनी प्रिया चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2686	U74900TG2013PTC091049	के 4 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2687	U01407AP2013PTC091050	श्री निश्चल एग्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2688	U72400TG2013PTC091053	संवृत इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2689	U74120TG2013PTC091059	ग्लोबल इफी टैक्स एंड बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
2690	U45200AP2013PTC091061	विजयश्री भास्कर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2691	U72200TG2013PTC091062	ग्रीन ऑर्बिट ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2692	U74900TG2013PTC091063	जी सी प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2693	U50102AP2013PTC091066	दास ऑटोमोबाइल सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2694	U85110TG2013PTC091070	नीलकंठ हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2695	U21020TG2013PTC091071	मनसा प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
2696	U74910AP2013PTC091072	सुराग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2697	U72200TG2013PTC091078	अल स्क्वायर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2698	U25200TG2013PTC091082	सुवर्ण दुर्गा पोली पैक प्राइवेट लिमिटेड
2699	U18202TG2013PTC091085	मेघा स्पोर्ट्स वियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2700	U74900TG2013PTC091088	संपतकारी डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2701	U01403TG2013PTC091090	वेंकटाद्री पालेम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2702	U74900TG2013PTC091092	हसिनी पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2703	U01403TG2013PTC091095	श्री वेंकटेश्वरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2704	U55101AP2013PTC091097	श्री साई सतय लेडीज हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड
2705	U40107AP2013PTC091098	एस आर के इको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड
2706	U74140TG2013PTC091102	फ्रेंसको कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2707	U51102TG2013PTC091106	ए बी सिद्धार्थ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
2708	U01403AP2013PTC091108	चाणक्य तेजा डेयरी एंड एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2709	U22219TG2013PTC091109	श्री साई दत्ता रोटी ग्रेव्हर प्राइवेट लिमिटेड
2710	U29253TG2013PTC091111	नीरव इंजीनियर्स एंड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2711	U72200TG2013PTC091116	जस्पर आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2712	U45209TG2013PTC091119	मुवल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2713	U72200TG2013PTC091121	महंती आई टी सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2714	U80301TG2013PTC091122	पाटम टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2715	U85100TG2013PTC091124	न्यू वेज हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2716	U29130TG2013PTC091128	एफटेन इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2717	U36101TG2013PTC091129	कल्पवृक्षा आर्ट क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2718	U93000TG2013PTC091132	सत्यफनी अस्ट्रो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2719	U02002TG2013PTC091140	श्री वेदा नेचुरल रिमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
2720	U72200TG2013PTC091143	सैग्री ई-कॉमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2721	U24119AP2013PTC091144	गीन लाइफ आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2722	U13209TG2013PTC091146	कल्पतरु माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
2723	U64110TG2013PTC091155	फाइबर फास्ट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
2724	U52300TG2013PTC091160	कैरिगन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
2725	U72200TG2013PTC091162	टोटल परफार्मेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2726	U74900TG2013PTC091167	बृहती इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2727	U74999TG2013PTC091168	इंडिया फॉर डायल इंफोसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2728	U74900AP2013PTC091171	गो एप्ट कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2729	U72200TG2013PTC091172	ऑप्टिमस टेक्नोकॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2730	U51101AP2013PTC091173	श्री वण्णवी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2731	U22222TG2013PTC091174	ट्रॉफी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2732	U72200TG2013PTC091176	सैपिएंट फ्यूजन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2733	U01403TG2013PTC091177	ओम साई फार्म्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2734	U74140TG2013PTC091179	पिनियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2735	U72200TG2013PTC091182	तीगा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2736	U15122AP2013PTC091187	श्री जयलक्ष्मी नारायणा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2737	U72200TG2013PTC091188	मोबिवास सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2738	U72200TG2013FTC091189	आईविस टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2739	U74900TG2013PTC091196	यंग चैप्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2740	U74900TG2013PTC091197	सुनेव ज्वेल्स एंड जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2741	U45209TG2013PTC091198	गीतिका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2742	U80301TG2013PTC091205	नेमी इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2743	U72200TG2013PTC091212	एएमके इंफोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2744	U52100TG2013PTC091218	दत्तालूरी मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
2745	U74900TG2013PTC091219	लोरियन आइनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2746	U80221TG2013PTC091221	जीनियस जिम प्राइवेट लिमिटेड
2747	U50403TG2013PTC091230	एमआर बुक योर व्हेकिल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
2748	U74900TG2013PTC091231	ओरेटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2749	U72200TG2013PTC091232	क्विकॉन आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2750	U55101TG2013PTC091238	एस वी आर मायाबाजार रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2751	U72200TG2013PTC091242	कोडबुक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2752	U72200TG2013PTC091243	टेक्सॉल मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2753	U72400TG2013PTC091247	स्मार्ट गीक इंफो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2754	U72200TG2013PTC091250	माइटेल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2755	U36101TG2013PTC091255	मैक्सेज इंटेरियो प्राइवेट लिमिटेड
2756	U72200TG2013PTC091256	एस पी एस टेकविजाईस प्राइवेट लिमिटेड
2757	U74990AP2013PTC091257	अक्षय इन्वेस्टर एजुकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2758	U74900TG2013PTC091261	हॉरिजन बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2759	U24232TG2013PTC091263	शमज फार्मसी प्राइवेट लिमिटेड
2760	U40106TG2013PTC091264	ओजाई एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2761	U22219AP2013PTC091268	विशाखा ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2762	U72200TG2013PTC091269	एसीपीएम आई टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2763	U24232TG2013PTC091274	ग्लिबर्ट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2764	U74900TG2013PTC091278	अपनी चाय कैफे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2765	U74900TG2013PTC091279	सिग्मा इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2766	U72200TG2013PTC091283	रेनॉड सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2767	U51103TG2013PTC091285	नॉर्थ स्टार आयरन प्राइवेट लिमिटेड
2768	U45200AP2013PLC091287	होमलैंड्स इंडिया लिमिटेड
2769	U72500TG2013PTC091288	पैडरोन एलिगेंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2770	U45209AP2013PTC091291	अराज इंफ्राडैवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2771	U70101TG2013PTC091296	गायत्री साई किरण डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2772	U72200TG2013PTC091299	एम3 लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2773	U72200AP2013PTC091300	श्री देवदत्त टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2774	U50102TG2013PTC091302	जेनिथ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2775	U40300AP2013PTC091306	पॉवरट्रिक्स एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2776	U63090AP2013PTC091308	मणिकंटा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2777	U40300TG2013PTC091309	एम क्यूब इंडस्ट्रियल गैसेज प्राइवेट लिमिटेड
2778	U52100TG2013PTC091311	ए वी आर मेडि प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2779	U37100TG2013PTC091315	ट्रायड मेटलर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2780	U24232TG2013PTC091316	अभिनव फार्मूलेशनस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2781	U67190TG2013PTC091318	एस एस वी एम कैपिटल लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
2782	U51909AP2013PTC091321	गो ग्रीन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
2783	U74999AP2013PTC091322	1000 ओक्स प्राइवेट लिमिटेड
2784	U70100TG2013PTC091323	श्री अभिषा एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
2785	U74140TG2013PTC091325	ओरिअन पोलेरिस मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2786	U74900TG2013PTC091329	प्रतिदी मार्केटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2787	U74900TG2013PTC091332	ब्राउज नीड प्राइवेट लिमिटेड
2788	U80212TG2013PTC091333	कीलैब्स ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
2789	U45209AP2013PTC091336	वसुंधरा ग्लोबल इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2790	U92412TG2013PTC091343	रेडीक्यू इंफ्रामीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2791	U72200TG2013PTC091347	क्विक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2792	U63040TG2013PTC091357	श्रीन नवाल्स कैब सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2793	U01403TG2013PTC091359	एम क्यूब एग्रीकल्चरल एंड फुड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2794	U93030TG2013PTC091361	कैपेसिटेड कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2795	U74900TG2013PTC091364	आप्ती टेक्नो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2796	U70101TG2013PTC091367	आकांक्षा ग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2797	U74900TG2013PTC091373	नेप्लस अल्ट्रा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
2798	U92100TG2013PTC091374	गोल्डस्टार सिने स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
2799	U74140TG2013PTC091375	सिएरा एविएशन कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2800	U72200TG2013PTC091378	आई.एच.आई. सिक्यूर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2801	U40108TG2013PTC091384	सानिल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2802	U24232AP2013PTC091386	हिंसबर्ग लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
2803	U74900AP2013PTC091391	नावीकराना सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2804	U72200TG2013PTC091392	वटपत्र इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2805	U71290TG2013PTC091393	एबाउट आई आर एक्जिम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2806	U72200TG2013PTC091394	कैसर इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2807	U72200TG2013PTC091395	एमरियन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2808	U45203TG2013PTC091396	3एस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2809	U01400TG2013PTC091397	एनरिच एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
2810	U10200TG2013PTC091398	श्री चक्र इंफेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2811	U72200TG2013PTC091400	स्विटेल टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2812	U72900TG2013PTC091402	टेक-हंट आई टी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
2813	U01407TG2013PTC091408	बासवपुरम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2814	U01400TG2013PTC091409	प्राणज्योति एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड
2815	U70109AP2013PTC091411	पार्थ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2816	U51102TG2013PTC091425	हर्षित सबमर्सिबल पम्प्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2817	U74910TG2013PTC091426	बिल्वा फैसिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2818	U85110TG2013PTC091428	रुद्रागणी रामुलु मेमोरियल सहस्र केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2819	U65992TG2013PTC091429	वनम्मा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2820	U65992TG2013PTC091433	तपस्विनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
2821	U01407TG2013PTC091437	प्राकृतिक एग्री फुड्स एरा प्राइवेट लिमिटेड
2822	U74900AP2013PTC091442	सिटीअर्ब इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2823	U80900TG2013PTC091445	एकेडमी ऑफ पोजीटिव लाइफ स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
2824	U45200TG2013PTC091448	वज्रम कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2825	U74930TG2013PTC091451	एक्से मैन पावर सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2826	U45209TG2013PTC091453	मेटिकूलस एक्सेस टेक इंफ्रा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2827	U74900TG2013PTC091454	माही कंसलटेंसी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2828	U72200TG2013PTC091455	क्वांट्रा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2829	U92100TG2013PTC091456	मी इवेंट्स एंड मीडिया सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2830	U63000TG2013PTC091458	जियोस्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2831	U80902TG2013PTC091463	ब्रांट फोर्ड एजुकेशन एंड कैरियर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2832	U52100TG2013PTC091465	यशश्री एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
2833	U52100TG2013PTC091466	शैडो रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2834	U74900TG2013PTC091467	सेवन स्टार्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2835	U80900TG2013PTC091468	क्लैप्स विकिड्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2836	U74900TG2013PTC091470	कैल्सियम कोटिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2837	U45200TG2013PTC091471	स्टेबल एवेन्यूज एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2838	U72200TG2013PTC091472	हैनोवरियन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2839	U63040TG2013PTC091482	7 कैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2840	U74900TG2013PTC091483	एस एस आर एम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2841	U72100AP2013PTC091488	इंफेजेंटैक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2842	U72900TG2013PTC091494	ब्रिलिएंस टेकसॉल्स प्राइवेट लिमिटेड
2843	U72900TG2013PTC091499	कमालम इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफोसॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2844	U33110TG2013PTC091506	सरता साइंटिफिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2845	U70100TG2013PTC091510	वहिराज इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2846	U51101TG2013PTC091515	विब्रा ट्रेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2847	U74900TG2013PTC091518	जे आर ट्रेडिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2848	U72900AP2013PTC091523	डिसॉफ्ट आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2849	U32204AP2013PTC091524	शिवा संभावी डिजिटल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2850	U72200TG2013PTC091529	इंस्टाराइज आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2851	U60232TG2013PTC091533	वेमू कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2852	U80301TG2013PTC091538	वेमोलिन्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2853	U72200TG2013PTC091540	इलेक्ट्रो निक सॉल्यूशन्स इंफारमेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्रा.लि.
2854	U01407TG2013PTC091543	अस्टमन एगोज प्राइवेट लिमिटेड
2855	U80900TG2013PTC091549	श्रीमेधा एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
2856	U52399TG2013PTC091551	एच एस के ऑनलाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2857	U72200TG2013PTC091554	ब्रिहास सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2858	U45209TG2013PTC091556	ज्योति इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2859	U74900TG2013PTC091558	टिप्स हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड
2860	U45209TG2013PTC091559	राव इंफ्रावैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2861	U45200TG2013PTC091573	कामधेनु एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
2862	U72900TG2013PTC091574	जियोआइकॉन ऑनलाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2863	U45200TG2013PTC091575	एस के स्पेस कंस्ट्रक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2864	U72200TG2013PTC091577	बाँस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2865	U27100AP2013PTC091581	वर्जिन स्टील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2866	U45200TG2013PTC091583	भारती एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
2867	U74900TG2013PTC091589	शॉपइनरेल डॉट कॉम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2868	U70101TG2013PTC091590	रेड्डी रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2869	U52100TG2013PTC091594	सैस रिटेल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2870	U74999TG2013PTC091595	आई डी एस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2871	U70109TG2013PTC091596	विजय चंदर रियलटीज प्राइवेट लिमिटेड
2872	U55101TG2013PTC091597	ऑरेंज होलिडेज प्राइवेट लिमिटेड
2873	U72200TG2013PTC091599	इवोन नेटवर्किंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2874	U74900TG2013PTC091601	क्रिसैलिस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड
2875	U29253TG2013PTC091607	गोदावरी प्रेसिसन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2876	U72200TG2013PTC091611	लूकस इंफो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2877	U72900TG2013PTC091612	सिक्वूअल वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड
2878	U72100TG2013PTC091617	सी3 वेब प्राइवेट लिमिटेड
2879	U72400TG2013PTC091619	ऑप्टिकॉन इंडिया इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2880	U72300TG2013PTC091621	कॉच इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2881	U55101AP2013PTC091623	नवरस मल्टी कुशन कैफे प्राइवेट लिमिटेड
2882	U72400TG2013PTC091628	बी मार्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2883	U14200AP2013PTC091629	फयाज एंडटेक माइन्स-हाई-मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2884	U93000TG2013PTC091630	इंदिरानाथ अर्प सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2885	U74900TG2013PTC091631	ऑरिजिनल इवेंट लाइन प्राइवेट लिमिटेड
2886	U72200TG2013PTC091638	अत्रयेसा सॉफ्टवेयर कंसलटेंसी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2887	U29268TG2013PTC091639	एतिकाला मडीपेल्ली इंजीनियरिंग एंड मैनुफैक्चरिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लि.
2888	U52100TG2013PTC091645	सुफाह गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
2889	U74900TG2013PTC091650	डिजिक्वेस्ट पॉवर कंवरजन प्राइवेट लिमिटेड
2890	U40102TG2013PTC091653	सॉटी गैस (एल पी जी) प्राइवेट लिमिटेड
2891	U72200TG2013PTC091655	कौडिन्या कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
2892	U40106TG2013PTC091658	ग्रीष्म सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड
2893	U01400TG2013PTC091659	ऑरेंज फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
2894	U01403TG2013PTC091660	श्रृग्धा एग्रो फार्म (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2895	U74900TG2013PTC091661	श्री स्नेहा कार्स प्राइवेट लिमिटेड
2896	U65992TG2013PLC091662	कंसिस्टेंट सक्सेसफुल कैपिटल लिमिटेड
2897	U72200TG2013PTC091663	नयागारा आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2898	U72200TG2013PTC091664	फिन्नावेट आई टी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2899	U15122TG2013PTC091668	सतीश फ्लूडिटी प्राइवेट लिमिटेड
2900	U74900TG2013PTC091669	सिफज विजन सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
2901	U24100TG2013PTC091671	मेन्सचस्टार फार्मास्युटिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2902	U13209TG2013PTC091672	एमिगोज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2903	U72100TG2013PTC091673	मीडिया कूकीज इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2904	U74900TG2013PTC091674	एक्टिव आई कंट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2905	U72200TG2013PTC091677	के एम पी आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2906	U22210TG2013PTC091678	साई लिखिता प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2907	U72200TG2013PTC091679	एजया इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2908	U72300TG2013PTC091681	वेरिटिक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2909	U74900TG2013PTC091684	आइडोलाइज मैनेजमेंट एंड एच आर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2910	U26960TG2013PTC091688	एच.आई.एस. एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
2911	U45209TG2013PTC091690	एनट्रिक्स इफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2912	U01403TG2013PTC091692	वैल्यू मार्क्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2913	U72200TG2013PTC091693	सिल्वरक्लाउड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2914	U74900AP2013PTC091696	ब्लू आई सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2915	U14200TG2013PTC091700	बंजारा माइन्स एंड ओर्स प्राइवेट लिमिटेड
2916	U74900TG2013PTC091705	अमेया मैन पॉवर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2917	U74991AP2013PTC091706	शिरडी साई डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2918	U45200TG2013PTC091708	जीआरएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2919	U63090TG2013PTC091711	उपन्ना पैकेज टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
2920	U72300TG2013PTC091714	एडवांस आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2921	U55101TG2013PTC091716	वमशीज कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2922	U72900AP2013PTC091720	तवस सिस्टम्स आई टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2923	U36941TG2013PTC091730	सिम2होम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2924	U72300TG2013PTC091735	आबु आयेशा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2925	U72200TG2013PTC091738	मेकलॉजिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2926	U72200TG2013PTC091739	शफर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2927	U72200AP2013PTC091741	पवानी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2928	U72300TG2013PTC091743	पीपुल एक्सिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2929	U72200TG2013PTC091744	अपना आई टी सॉफ्ट सोल प्राइवेट लिमिटेड
2930	U74900TG2013PTC091746	ब्लूज टच हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2931	U72300TG2013PTC091747	जहाना सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2932	U22222TG2013PTC091748	साकेत टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2933	U72200TG2013PTC091752	माइंडट्रिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2934	U80900TG2013PTC091755	प्रेपहब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2935	U72200TG2013PTC091757	गुरुस ग्लोबल टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2936	U05000AP2013PTC091759	पी आर के राजू एक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2937	U29307TG2013PTC091761	आई-क्लास सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2938	U40102AP2013PTC091770	तिरुमला इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2939	U72200AP2013PTC091771	युप सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2940	U72200TG2013PTC091772	संघमित्रा आई टी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2941	U45200TG2013PTC091774	जे जे एस फैकेड सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2942	U74900TG2013PTC091775	ट्राई प्राइवेट लिमिटेडवर्क्स नेटमैक्स-
2943	U72200TG2013PTC091776	7 सिपरा आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2944	U70100TG2013PTC091787	एस.डी. एसोसिएट्स इंफ्रा एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
2945	U72200TG2013PTC091789	कोट्टा इंडो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2946	U55101AP2013PTC091790	श्री लक्ष्मी श्रीनिवास होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2947	U14200TG2013PTC091792	सिलिकेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2948	U74900TG2013PTC091795	अयाका मीडिया क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2949	U74900TG2013PTC091796	वेस्ट क्लिफ इंडो सर्व प्राइवेट लिमिटेड
2950	U22222TG2013PTC091797	आईहिका मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2951	U52335TG2013PTC091798	एस पी इको सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2952	U74900TG2013PTC091800	भनोजी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड
2953	U74900TG2013PTC091801	फोटो सेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2954	U93000TG2013PTC091804	कूप मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2955	U50102TG2013PTC091807	रैप इको मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2956	U45209TG2013PTC091809	वैयब्रा इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
2957	U45206TG2013PTC091811	एबरार एंड मन्नान इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2958	U51909TG2013PTC091812	सेराफिक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2959	U31109TG2013PTC091813	सन सोलर पार्क प्राइवेट लिमिटेड
2960	U45200TG2013PTC091817	एस्सेंट इंजीनियरिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2961	U01400TG2013PTC091819	शारदा बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2962	U74900TG2013PTC091822	वी एस ए आई टी एचआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2963	U72200TG2013PTC091823	जियोडिफाइनर्स टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2964	U74900TG2013PTC091829	एमेमे डिजिटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2965	U74140TG2013PTC091831	फोगो मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2966	U93000TG2013PTC091832	मैनफोर्स गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
2967	U45200TG2013PTC091833	साइबर सिटी कंस्ट्रक्शन्स कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2968	U01211TG2013PTC091834	क्रस्टेसियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2969	U85100AP2013PTC091839	अष्टलक्ष्मी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
2970	U01400TG2013PTC091842	के वी एन एग्री गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2971	U72200TG2013PTC091846	स्टूडियो गॉड प्राइवेट लिमिटेड
2972	U01100TG2013PTC091849	श्री लक्ष्मी नरसिंहा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2973	U74120TG2013PTC091850	जी एम पिकचर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2974	U01403TG2013PTC091853	आर जी आर फार्मगेट एगो-फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2975	U72900TG2013PTC091854	वाग्देव टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2976	U80900AP2013PTC091855	अष्टलक्ष्मी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
2977	U52390AP2013PTC091856	अष्टलक्ष्मी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2978	U52390AP2013PTC091857	अष्टलक्ष्मी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2979	U52390AP2013PTC091858	अष्टलक्ष्मी ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
2980	U51101TG2013PTC091860	हेल्दी हूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2981	U51900TG2013PTC091862	श्री दिलीप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2982	U31908TG2013PTC091871	यूनिवर्सल मेगा सोलर प्राइवेट लिमिटेड
2983	U93000AP2013PTC091874	विशाखा आई टी पार्क प्राइवेट लिमिटेड
2984	U72200TG2013PTC091875	डाक्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
2985	U93000TG2013PTC091876	फ्रेश हंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2986	U72200TG2013PTC091878	ग्रेस सत्य मार्ग आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2987	U72900AP2013PTC091882	मेटाक्वेक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2988	U74900TG2013PTC091883	कैटालाइजर स्टार्ट अप एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
2989	U80902TG2013PTC091887	पाई साइंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2990	U90000TG2013PTC091892	एनवायरोटेक वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2991	U36999TG2013PTC091893	स्पीड पैक पैकेजिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
2992	U20294TG2013PTC091895	करुणया टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड
2993	U51103TG2013PTC091896	पैरामाउंट फार्मलेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2994	U72200TG2013PTC091897	रेटिन्यू सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2995	U74900AP2013PTC091898	कारोलेक आई टी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2996	U72200TG2013PTC091902	इवर टास्क टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2997	U14200AP2013PTC091903	गुलजार हाई-टेक माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2998	U74900TG2013PTC091905	आर्केड गेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2999	U31902TG2013PTC091906	वरासिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3000	U55101TG2013PTC091909	मनोजना रेस्टूरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3001	U51909TG2013PTC091911	एसोट ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड
3002	U40108AP2013PTC091915	सूर्य प्रकाश सोलरगोल्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
3003	U52322AP2013PTC091917	अष्टलक्ष्मी सिल्क प्राइवेट लिमिटेड
3004	U92100TG2013PTC091920	अनिल भानु कोर डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
3005	U40102TG2013PTC091923	ऑप्टिमस वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3006	U22219TG2013PTC091925	श्राव्या प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
3007	U62200AP2013PTC091926	प्रेवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
3008	U72200TG2013PTC091927	लेगैसी गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड
3009	U74900TG2013PTC091929	जे एच टी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3010	U52390AP2013PTC091937	अष्टलक्ष्मी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
3011	U24100TG2013PTC091939	नागा लक्ष्मी चंद्र शेखर बायो टेक प्राइवेट लिमिटेड
3012	U26950TG2013PTC091943	जी एन आर एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3013	U72200TG2013PTC091950	माइग्रेट इंफोनेट प्राइवेट लिमिटेड
3014	U65922TG2013PTC091952	एल्लूरी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3015	U72200TG2013PTC091953	इंडरोक ई-सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3016	U72501TG2013PTC091954	योगागना इंफो सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3017	U85100TG2013PTC091961	ओरकोस हेल्थ रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3018	U72200AP2013PTC091962	गे हूड्स टेक्नोलॉजीस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3019	U15400TG2013PTC091969	ए एन फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3020	U31900TG2013PTC091970	बृहत टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3021	U01400TG2013PTC091973	विजय महालक्ष्मी एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3022	U74140TG2013PTC091974	नंदा प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3023	U74140TG2013PTC091975	बॉलीवुड फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3024	U31401TG2013PTC091977	एस एस डेलाइट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3025	U72200TG2013PTC091982	मिरियम ब्रोड बैंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3026	U74120TG2013PTC091987	वैक्टरमणा सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3027	U64201AP2013PTC091992	आईकनेक्ट सेल्यूलर प्राइवेट लिमिटेड
3028	U01407AP2013PTC091997	ताल्लूर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3029	U80210TG2013PTC091998	वाजमैन एडु सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3030	U45400TG2013PTC091999	सिल्वर स्टीक एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड
3031	U80904TG2013PTC092000	श्रीवेन इंडस्ट्रियल इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3032	U72200TG2013PTC092002	सिवर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3033	U65992TG2013PTC092003	सविता चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3034	U74900TG2013PTC092005	निम्बेल टेक्नोक्राफ्ट ई-सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3035	U70100TG2013PTC092011	मीनाक्षी सुनीता इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3036	U45200TG2013PTC092012	बाहूपदा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3037	U14200TG2013PTC092019	जे एस रोचेस प्राइवेट लिमिटेड
3038	U72200TG2013PTC092020	क्रॉच आई टी रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
3039	U74900TG2013PTC092029	जोवी कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3040	U80904TG2013PTC092031	स्प्रिंजे कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3041	U72200TG2013PTC092032	साई एस एस आर वेदिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3042	U72200TG2013PTC092034	जाज मार्केटिंग एंड इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3043	U24100TG2013PTC092037	सिल्वरबैंक रिसर्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3044	U72200TG2013PTC092039	उपनिषद सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3045	U74900TG2013PTC092040	देवा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3046	U72200TG2013PTC092042	शिने आई टी सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3047	U45400TG2013PTC092047	पोटली इंफ्रा एंड मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3048	U73200TG2013PTC092048	एच के इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3049	U45209AP2013PTC092050	एस एस राजू टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3050	U74900TG2013PTC092057	श्री गुरु दुर्गा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3051	U17291TG2014PTC092061	वाशिंगटन इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड
3052	U45400AP2014PTC092063	शहाजा इको ग्रीन प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3053	U70100TG2014PTC092064	राइजर्स डेवलपर्स एंड मार्केटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3054	U72200TG2014PTC092071	माइक्रोशेल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3055	U72200TG2014PTC092072	भूमिका रेकॉन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3056	U74900TG2014PTC092074	फाल्कैम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3057	U72200TG2014PTC092075	आर एम नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3058	U52300TG2014PTC092078	डिजि स्मार्टसेक ऑटोमेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3059	U45200TG2014PTC092079	श्री सेता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3060	U80302TG2014PTC092081	जे बीएस क्लाउड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3061	U24100TG2014PTC092082	अमेरो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3062	U01400TG2014PTC092083	श्री सीता रामंजनेया एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3063	U14200AP2014PTC092086	हान्वी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
3064	U52390AP2014PTC092088	अष्टलक्ष्मी स्टील प्राइवेट लिमिटेड
3065	U22130TG2014PTC092090	वेरा पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3066	U74900AP2014PTC092091	अंसरो फ्रेश फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3067	U63090TG2014PTC092093	वैसर होलिडेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3068	U72200AP2014PTC092099	द्राटि आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3069	U72200TG2014PTC092100	पवन बिजनेस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3070	U40108AP2014PTC092101	शोर्या इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3071	U21098TG2014PTC092104	टी जी के मीडिया एंड ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3072	U65992TG2014PTC092105	पोटली चिट फंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3073	U72300TG2014PTC092108	बटरफ्लाई क्रिएटिव आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3074	U74920TG2014PTC092110	वी सी फ्लेमॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3075	U85100AP2014PTC092113	ब्रह्म हेल्थकेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3076	U74900TG2014PTC092117	प्लानेट डिजिटल मार्केटिंग आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3077	U74900TG2014PTC092118	एक्सेडाटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3078	U92120TG2014PTC092122	जीएम वीएफएक्स प्राइवेट लिमिटेड
3079	U72200TG2014PTC092124	मैटर इंफारमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3080	U45209TG2014PTC092125	बीआरएन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
3081	U28133AP2014PTC092129	एम जे टीएमटी बार्स प्राइवेट लिमिटेड
3082	U51909TG2014PTC092131	गौरंगा विक्टरी फ्लैग मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
3083	U92120TG2014PTC092138	विसि इवेंट एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3084	U72300TG2014PTC092139	अगस्त्य आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3085	U74900TG2014PTC092140	ऑराटेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3086	U72200TG2014PTC092141	गो-गेटर बिजनेस सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3087	U45200TG2014PTC092144	केएमआर बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3088	U72900TG2014PTC092148	अलनी इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3089	U93000TG2014PTC092149	लैब बाइक मैनपावर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3090	U90001AP2014PTC092152	विजिलेंट सिक्यूरिटी एंड एलॉयड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3091	U74900TG2014PTC092153	इहराम टूवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3092	U51101AP2014PTC092154	7 पेजेज एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
3093	U24100TG2014PTC092156	लक्ष्मी बालाजी एनर्जी इंफ्रा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3094	U74900TG2014PTC092160	अर्थक्रक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3095	U24296AP2014PTC092161	संक्योएन लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3096	U74900AP2014PTC092162	सत्यवती ऑफ शोर मेरिटाइम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3097	U74990TG2014PTC092170	सनलैप सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3098	U36912TG2014PTC092173	वैष्णवी कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3099	U74120TG2014PTC092175	प्रयुक्ति सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3100	U01407TG2014PTC092178	सन्विता एगी बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3101	U74120TG2014PTC092179	एल्कोव इंडिया आउटसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
3102	U40106TG2014PTC092180	केम्प ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3103	U72200AP2014PTC092181	सोनासॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3104	U74900TG2014PTC092182	श्रीकृति फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3105	U01400AP2014PTC092185	श्री न्यासा एगो टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3106	U72200TG2014PTC092187	सियोनटेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3107	U74900TG2014PTC092194	ताबुक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3108	U24232TG2014PTC092195	सेरेने आर्गेनिकस प्राइवेट लिमिटेड
3109	U24100TG2014PTC092199	साई धरनी शाकम्बारी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3110	U72300TG2014PTC092203	ब्रायोसिनर्जी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3111	U72900TG2014PTC092204	ऐश्वर्या साई दत्ता आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3112	U51102TG2014PTC092205	ममता मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3113	U72900TG2014PTC092211	वेनडिन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3114	U72900AP2014PTC092215	बिलियन मैक्रोस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3115	U72200TG2014PTC092219	सूरज स्मार्ट 3डी डिजाइनर्स एंड कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3116	U72300TG2014PTC092221	ब्लिंक राइड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3117	U72300TG2014PTC092224	मार वेब डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
3118	U72300TG2014PTC092227	बेनिसोन बोल्ट आई टी सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3119	U17120AP2014PTC092229	नेस्तम गिनिंग एंड स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3120	U22222TG2014PTC092230	सीके मीडिया इवेंट्स एंड इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3121	U74120TG2014PTC092231	सी के यू कॉमर्शियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3122	U22222TG2014PTC092232	श्री राज राजेश्वरी मूवी मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
3123	U72300TG2014PTC092233	टेकैपी सॉफ्ट सोल प्राइवेट लिमिटेड
3124	U45206TG2014PTC092236	वी जे आर इंफ्राटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3125	U40106AP2014PTC092239	सरतम सोलर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3126	U72300TG2014PTC092243	इवा कंसलटेंसी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3127	U67100TG2014PTC092244	एस वी एस सी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3128	U24100TG2014PTC092245	सुदीक्षा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3129	U45209TG2014PTC092247	सातवाहन इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3130	U45200TG2014PTC092250	श्री रेशमा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3131	U24232TG2014PTC092252	इनोकेयर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3132	U93090TG2014PTC092254	अपीरॉन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड
3133	U01400TG2014PTC092256	श्री लक्ष्मी विग्नेश्वरा एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3134	U45400TG2014PTC092258	एडुपुगंटी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3135	U72200TG2014PTC092262	एडु इंडिया इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3136	U36912TG2014PTC092265	आदिबट्ला प्रेसिसन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3137	U40107TG2014PTC092266	बंजारा बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड
3138	U72400TG2014PTC092267	स्मैश वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3139	U72200TG2014PTC092269	डेली लाइफ टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3140	U45209TG2014PTC092276	ए वी बी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3141	U45200TG2014PTC092277	निस विल्लास प्राइवेट लिमिटेड
3142	U32200TG2014PTC092278	रोबोटिक्स इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3143	U70100TG2014PTC092280	बिल्डिंग इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3144	U74992TG2014PTC092284	वी आर इश्यूरेंस ब्रोकिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3145	U15122AP2014PTC092287	ग्लोबल प्रोडक्ट्स एंड पैकिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3146	U74900AP2014PTC092288	कैमिट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3147	U74120TG2014PTC092290	प्रोग्रेस हाउस होल्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3148	U74920TG2014PTC092296	ब्रेव सिक्यूर सॉल्यूशन्स एंड फैसिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3149	U65923TG2014PTC092299	संक्षेप चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3150	U67200TG2014PTC092301	ऑप्शन ट्रेजर स्ट्रेटेजीस प्राइवेट लिमिटेड
3151	U74900TG2014PTC092307	प्रोक्यूब सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3152	U74120TG2014PTC092311	क्रिडी बिजनेस सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3153	U72300TG2014PTC092312	सोसियोमोटो मोबाइल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3154	U72300TG2014PTC092313	एन वॉइस ई सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3155	U72400TG2014PTC092315	कोलेसे इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3156	U80900TG2014PTC092316	स्पेशलिटी गुरस एडुकेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
3157	U74120TG2014PTC092318	धांगर चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3158	U15122TG2014PTC092320	येरबा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
3159	U67200AP2014PTC092322	लॉरिओन वेल्थ एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड
3160	U72200TG2014PTC092330	एक्सपनोस कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3161	U74300TG2014PTC092331	अर्ल डिजाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3162	U93000TG2014PTC092333	दाशन इंटरनेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3163	U93030TG2014PTC092335	जॉब एन जॉय स्टाफिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3164	U29253AP2014PTC092339	इलिट एगो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3165	U74910TG2014PTC092340	इंडु फैसिलिटी मैन पावर एंड कारपोरेट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3166	U15400TG2014PTC092344	सुधीर्स तिरुमला फुड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3167	U93000TG2014PTC092345	ओके फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3168	U40106AP2014PTC092346	स्पेसेज सोलर एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3169	U72900TG2014PTC092349	राइज 'एन' शाइन आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3170	U74900TG2014PTC092351	नोट वन सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3171	U74900TG2014PTC092353	सी शेल्स फार्मूलेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3172	U61100TG2014PTC092358	वी एंड वी शिप लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
3173	U72200TG2014PTC092359	बट्रीसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3174	U72200AP2014PTC092361	पिन्नमानेनी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3175	U45400TG2014PTC092362	वजीर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3176	U01405TG2014PTC092363	महागोदावरी एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3177	U74999AP2014PTC092369	प्रूडेंशियल टर्बो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3178	U24100TG2014PTC092370	चैत्र फार्मलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3179	U74120TG2014PTC092372	जी एस आर टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3180	U93000AP2014PTC092377	पीपुल पल्स एनालिसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3181	U45209AP2014PTC092378	श्री विगेस्ना सोमा राजू कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3182	U01403TG2014PTC092380	श्री सत्य लक्ष्मी एगोफार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3183	U15139TG2014PTC092386	एस एन एस सौपामानिया प्राइवेट लिमिटेड
3184	U63090TG2014PTC092388	तिरुपति पत्नीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3185	U80301TG2014PTC092390	कोडूम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
3186	U72200TG2014PTC092402	वमशी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3187	U93000TG2014PTC092410	एँथेम स्प्रिचुअल एंड होलिस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3188	U72100TG2014PTC092414	नियो लैब्स आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3189	U45209AP2014PTC092416	वनमाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3190	U40102AP2014PTC092417	ऐरे पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3191	U72500TG2014PTC092421	एन डीज एल जी एन टेक्नोलॉजीस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3192	U74930TG2014PTC092424	गारिकिपति इंफेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3193	U40103AP2014PTC092425	रतकोंडा पॉवर (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
3194	U10101TG2014PTC092426	ब्लूबर्ड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
3195	U70101TG2014PTC092428	अशरफ खान इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3196	U40107AP2014PTC092430	श्री संतोष सनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3197	U74920TG2014PTC092431	स्वर्णरक्षा सिक्यूरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3198	U74900TG2014PTC092432	लाइकर एंड टच इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3199	U40108AP2014PTC092434	टीजी पल्ली पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
3200	U74900TG2014PTC092437	येलो ऑटोहोना प्राइवेट लिमिटेड
3201	U40108AP2014PTC092441	मेगाट्रोन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3202	U45209TG2014PTC092442	महानंदी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3203	U15122TG2014PTC092443	स्वीट्स एंड नमकीन्स इंडिया कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3204	U64203AP2014PTC092446	ब्लूवेब नेटवर्क सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3205	U45209TG2014PTC092447	आइकॉन एवेन्यू (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3206	U74900TG2014PTC092448	समरीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3207	U45209TG2014PTC092449	मुलुपुरी एंड अम्बाटी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3208	U45209TG2014PTC092450	फर्नहिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3209	U40101TG2014PTC092452	एँको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3210	U72400TG2014PTC092454	माइक्रोइटे टेक्नोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3211	U40102TG2014PTC092455	मैस्ट्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3212	U22130TG2014PTC092456	न्यूजपीक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3213	U85100TG2014PTC092458	रॉयल सुप्रीम हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3214	U93000TG2014PTC092459	जोस कारपोरेट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3215	U72200TG2014FTC092461	एक्यूट इंफोसिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3216	U01403TG2014PTC092462	श्री विसालक्ष्मी एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3217	U15122TG2014PTC092463	स्लगलाइन बेवेरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
3218	U74900TG2014PTC092464	टी वी आर बिजनेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3219	U01403TG2014PTC092467	मिडोरि एगो टेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3220	U13201TG2014PTC092471	जी वी एस माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3221	U72200TG2014PTC092474	वोरिऑन ग्लोबल इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3222	U93000TG2014PTC092475	माई न्यू लुक पार्लर प्राइवेट लिमिटेड
3223	U40300AP2014PTC092476	कांसा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3224	U63090TG2014PTC092477	एलियन होलिडे टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
3225	U45209TG2014PTC092483	वैष्णव इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3226	U51909TG2014PTC092484	एक्स वाई जेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3227	U74900TG2014PTC092487	नव्या इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3228	U72400TG2014PTC092489	सिनसिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3229	U63000TG2014PTC092490	माइक्रोरोड कैरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3230	U45206TG2014PTC092491	सी एस एम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3231	U55101TG2014PTC092494	शंकरी रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3232	U72200TG2014PTC092495	पी एस कारपोरेट मॉडल इंस्टीच्यूट (सॉफ्टवेयर) प्राइवेट लिमिटेड
3233	U45209TG2014PTC092499	स्टीलथ प्राइवेट लिमिटेड
3234	U72200TG2014PTC092504	आर्कोन्ज बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3235	U74900TG2014PTC092506	सत्यऋषि टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
3236	U40106TG2014PTC092509	ग्लेर सोलर प्राइवेट लिमिटेड
3237	U45209TG2014PTC092511	सेवन स्टारसिटी एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
3238	U24100TG2014PTC092512	आलोक लाइफ साइसेस प्राइवेट लिमिटेड
3239	U74120TG2014PTC092513	महोगम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3240	U72200TG2014PTC092523	सिरी डाटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3241	U45400TG2014PTC092524	श्रीधात्री कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3242	U72200TG2014PTC092526	इनगेज बीडीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3243	U01403AP2014PTC092529	श्री मुख डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3244	U51109TG2014PTC092531	एजी ट्रेवर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3245	U72200TG2014PTC092534	अरीना आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3246	U74900AP2014PTC092536	एस एंड एस एडेता मार्केटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3247	U72200TG2014PTC092538	बोधद्री आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3248	U22300TG2014PTC092544	इंडियो कैनवास प्राइवेट लिमिटेड
3249	U67190TG2014PTC092548	बी एम सी सियूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
3250	U92130TG2014PTC092554	स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3251	U92412TG2014PTC092555	नंदा टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3252	U28910TG2014PTC092558	आई के मेटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3253	U72300TG2014PTC092561	सरल रिटेल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3254	U63040TG2014PTC092563	एल आर एस ट्रेवल एंड टूर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3255	U92412AP2014PTC092564	एम पी आर ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3256	U67190TG2014PTC092569	दिनश्री फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3257	U93000TG2014PTC092571	सप्तदर्शी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड
3258	U72200TG2014PTC092572	प्राइमा लीनिया टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3259	U74900AP2014PTC092574	लियोमार्ट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
3260	U40102TG2014PTC092576	सनलाइट एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3261	U45400TG2014PTC092578	श्री स्नीआनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
3262	U63031TG2014PTC092585	एस एम फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड
3263	U73200AP2014PTC092592	एक्सेलऑन क्लिनिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3264	U01403AP2014PTC092595	साई नव्या ग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3265	U74140TG2014PTC092598	दर्व बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3266	U72200TG2014PTC092600	आारा इंफोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3267	U72200TG2014PTC092608	डॉट 2 डेटा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3268	U40108TG2014PTC092612	भास्वरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3269	U74900TG2014PTC092614	रिया इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3270	U29268TG2014PTC092618	ललिता एयर कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3271	U52311TG2014PTC092622	फार्मा डिल प्राइवेट लिमिटेड
3272	U74140TG2014PTC092626	वी के आर एम एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3273	U72200TG2014PTC092629	डाटैजल टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3274	U74900TG2014PTC092632	ओमवे वर्ल्ड सर्विसेस एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3275	U74900TG2014PTC092634	कादरी मिनरल्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
3276	U31908TG2014PTC092635	साई बालाजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3277	U45209AP2014PTC092640	अक्षय इंफ्रा प्रोपर्टीज एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3278	U01200TG2014PTC092643	अक्षय फार्म टू होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3279	U85100TG2014PTC092645	गोल्डन लायन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3280	U45209TG2014PTC092646	एचकेएम इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3281	U74900TG2014PTC092651	अनुषा फायर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3282	U74200TG2014PTC092654	एस ए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3283	U14102TG2014PTC092659	आर्क ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3284	U74900TG2014PTC092662	वेदालाइफ केयर मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3285	U74900TG2014PTC092663	हेन्डेका मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3286	U01400TG2014PTC092664	नेचर फील्ड एग्रीटेक एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
3287	U24100TG2014PTC092666	आइसोमर आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3288	U01403TG2014PLC092673	यंग फार्मर्स कॉटन गिनिंग एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
3289	U15122TG2014PTC092674	जे एम एस फ्रॉस्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3290	U73100TG2014PTC092678	क्यूरेटम सेल साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3291	U45200AP2014PTC092682	अमीन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3292	U31900TG2014PTC092683	एमआर सोलर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3293	U72200TG2014PTC092685	एनलाइटन ट्रेनिंग एंड कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3294	U72200TG2014PTC092687	रैमनीज ग्लोबल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3295	U85100AP2014PTC092688	सद्गुरु लाइफ केयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3296	U72200TG2014PTC092694	इनपुट एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड
3297	U72200TG2014PTC092695	आर एम आर क्रिएटिव डिजाइन एंड एनिमेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3298	U15122TG2014PTC092697	अशोक पायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3299	U27109TG2014PTC092698	ट्रांसमेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड
3300	U72900TG2014PTC092699	लिसान एडुलिनगोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3301	U74900TG2014PTC092700	डेल्टा फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3302	U85190TG2014PTC092701	डॉ. गीता श्री हेल्थकेयर एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड
3303	U52399TG2014PTC092703	सास्मैक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3304	U63012AP2014PTC092704	एलियर ट्रेवल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3305	U45209TG2014PTC092705	हरिनक्ष इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3306	U72900TG2014PTC092708	बटरफ्लाई डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
3307	U93030TG2014PTC092709	एम शाह इंटीग्रेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3308	U74200AP2014PTC092710	पवानी ड्रेजिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3309	U72200TG2014PTC092715	विपारिट ई बिजनस प्राइवेट लिमिटेड
3310	U72200TG2014PTC092723	एच डी एल सी इंफो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3311	U51909TG2014PTC092725	फाइंड स्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3312	U72200TG2014PTC092726	क्लेवेज इंफारमेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3313	U74920TG2014PTC092728	लाइव ट्रेकिंग एंड सर्विलांस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3314	U80211AP2014PTC092734	ई मार्ग एडुटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3315	U01407TG2014PTC092739	श्री अंजनेया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3316	U55101TG2014PTC092741	बिंग पिंग फुड चेन प्राइवेट लिमिटेड
3317	U50102TG2014PTC092743	एरियल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
3318	U52100TG2014PTC092755	साना एलॉयज एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3319	U28910TG2014PTC092759	रास वायर्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
3320	U72200TG2014PTC092760	वेबमैट्रिक्स आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3321	U70100TG2014PTC092762	वनगारी राजू हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
3322	U74200AP2014PTC092763	लक्टेस बिजनस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3323	U74900TG2014PTC092764	स्टैनले ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3324	U01403TG2014PTC092772	संतोषी माता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3325	U37100TG2014PTC092773	श्रीलक्ष्मी इकोप्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3326	U74900AP2014PTC092776	इंजून टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3327	U14200TG2014PTC092778	सिड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
3328	U05004AP2014PTC092779	सी आर एक्वा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3329	U74900AP2014PTC092786	पासिडी मयूरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3330	U52190TG2014PTC092789	बोट्री इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3331	U74900TG2014PTC092791	वोदेका बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3332	U74999TG2014PTC092792	आई एपल स्टोर हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
3333	U72200TG2014PTC092793	क्रिसिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3334	U51101TG2014PTC092795	ऐड लिंक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3335	U72200TG2014PTC092801	स्किल सिनिट ट्रेनिंग एंड कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3336	U51101TG2014PTC092804	उप्लेप्ले ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3337	U72300TG2014PTC092813	मिडियन सॉफ्टवेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3338	U17222AP2014PTC092824	एस आर एम कॉटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3339	U45200TG2014PTC092831	कार्तिकेय सोलर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड
3340	U72900TG2014PTC092837	प्रोडेटा बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3341	U74991AP2014PTC092838	एसआरके इंडस्ट्रियल सर्विसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
3342	U15510TG2014PTC092839	डायल ए ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड
3343	U51505AP2014PTC092841	एमरिक पॉवर पैक प्राइवेट लिमिटेड
3344	U40300TG2014PTC092845	के एल आर सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3345	U26933AP2014PTC092850	मा रॉक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3346	U45203TG2014PTC092851	साई सृजीत इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
3347	U45209TG2014PTC092855	बुज्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3348	U24100AP2014PTC092857	स्पाई पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
3349	U15400TG2014PTC092858	नाना रेसिप्स प्राइवेट लिमिटेड
3350	U72200TG2014PTC092859	एडवांस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3351	U15400AP2014PTC092863	टिटबी फुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3352	U15511TG2014PTC092865	चारमीनार फार्म्स एंड बोटलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3353	U74910TG2014PTC092866	जोन पथ रिक्रूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3354	U72200TG2014PTC092869	वितलैब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3355	U72200AP2014PTC092872	बडीस नेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3356	U74200TG2014PTC092875	ओस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
3357	U67190TG2014PTC092876	जोन पथ फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3358	U65992AP2014PTC092881	दिव्यकांति चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3359	U74900TG2014PTC092883	लैवेन्स मेनपॉवर सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3360	U90001TG2014PTC092884	एक्वा रिसाइकिल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3361	U15549TG2014PTC092888	सुशीस फुड प्राइवेट लिमिटेड
3362	U72400TG2014PTC092889	24नीड्स ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3363	U72200TG2014PTC092891	आर्टिलेक्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3364	U72300TG2014PTC092893	आराध्या ओवरसीज एंड आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3365	U24232TG2014PTC092900	सनगुरुज फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3366	U05010TG2014PTC092904	मेरीन लाइफ सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3367	U13209TG2014PTC092905	जे आर जे मिन्नरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3368	U93000TG2014PTC092907	आर एंड आर डिजाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3369	U74900TG2014PTC092909	श्रीकार इंफ्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3370	U51101AP2014PTC092917	वासवी विक्टरी फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3371	U52100TG2014PTC092918	हर्षित इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3372	U74900TG2014PTC092923	मेफा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3373	U52100TG2014PTC092927	युक्ता रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
3374	U74900AP2014PTC092929	आयुरसुख हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3375	U70102AP2014PTC092936	कपरतिनी रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3376	U25192TG2014PTC092937	श्री विजया कृष्णा केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
3377	U72200TG2014PTC092941	डी एंड ई टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3378	U74900TG2014PTC092945	यश एफ एम सी जी प्राइवेट लिमिटेड
3379	U63010TG2014PTC092949	पवन पुत्र लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3380	U72200TG2014PTC092954	पेरैगिन इनोवेटेक प्राइवेट लिमिटेड
3381	U63090AP2014PTC092955	नरया शिपापिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3382	U45209TG2014PTC092956	विधातृ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3383	U74900AP2014PTC092957	दीनू एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3384	U74910TG2014PTC092960	लोटस कैरियर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3385	U72200TG2014PTC092962	क्वेरी स्केप सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3386	U74900TG2014PTC092963	विघ्नराजा एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
3387	U51101TG2014PTC092964	गीन बर्ड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3388	U74900TG2014PTC092966	थैलामस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3389	U24100TG2014PTC092967	जर्खा प्राइम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3390	U65923TG2014PTC092974	एस वी सी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3391	U74910AP2014PTC092976	जानमा मैन पावर कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3392	U74900TG2014PTC092977	बिजनेसवाला ई-बिज मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3393	U72400TG2014PTC092985	कोरीपेल्ला इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3394	U74910TG2014PTC092989	लाक्स टेक स्टाफिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3395	U45209TG2014PLC092994	राव इंफ्रा रिसोर्स लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3396	U40300TG2014PTC092996	श्रावन्ती रिसर्च एंड (सोलर) पॉवर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3397	U52399TG2014PTC093001	लिसर ऑनलाइन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3398	U24100TG2014PTC093002	उसकेमिका लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
3399	U24100TG2014PTC093003	क्वालिटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3400	U65992TG2014PTC093004	प्रिकि चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3401	U14102TG2014PTC093008	श्रीनिका ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
3402	U74910TG2014PTC093014	के के ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3403	U74900TG2014PTC093015	सिरि मेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3404	U14200AP2014PTC093020	ग्रेस स्टोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3405	U45200TG2014PTC093023	एयरा इन्फ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3406	U70200AP2014PTC093031	ग्लोबल क्लासिक रियलटी प्राइवेट लिमिटेड
3407	U72200TG2014PTC093035	स्प्रिंगमार्क आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3408	U72200AP2014PTC093036	लॉरेम टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3409	U74300TG2014PTC093037	बीएसपी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3410	U74900TG2014PTC093041	एचएमएस बीपीओ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3411	U72200TG2014PTC093044	सरायू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3412	U28910TG2014PTC093046	सनकास्ट कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3413	U55101TG2014PTC093047	श्रुक्स एल कैफे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3414	U85193TG2014PTC093054	पिक एन ब्लू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
3415	U14200AP2014PTC093058	सनग्लोहरी ओवरसीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3416	U45209TG2014PTC093059	मैको एवेन्यूज एंड कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3417	U52190TG2014PTC093060	विजयमार्ट सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
3418	U85100TG2014PTC093062	आयुर्वेदिका हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3419	U14200TG2014PTC093064	अभ्युनाटी नेचुरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
3420	U85100TG2014PTC093065	नैपस्टार हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3421	U72200AP2014PTC093066	प्रति कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3422	U41000TG2014PTC093067	उडाजा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3423	U72200TG2014PTC093070	कोडेक्स सॉफ्ट बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3424	U74999TG2014PTC093072	आई सेवर्स ऑप्टिसियन्स प्राइवेट लिमिटेड
3425	U74900AP2014PTC093075	सिक्रोनाइज स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
3426	U74900TG2014PTC093076	जी आर आर फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
3427	U72200TG2014PTC093077	क्यूबिट्रॉनिक्स इंटिग्रेटेड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3428	U45200TG2014PTC093082	बेरिल बीम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3429	U72200TG2014PTC093085	फारेस्टन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3430	U72200TG2014PTC093086	वैरिएंट इनोवेटिव आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3431	U65992AP2014PTC093089	जीवनतेजा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3432	U40108TG2014PTC093096	सेफायर अल्टरनेटिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3433	U72200TG2014PTC093106	एक्यूट माइंड्स टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3434	U92100TG2014PTC093116	वी आर सिने आर्ट्स एंड क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3435	U72200TG2014PTC093118	ग्लोबल ई-कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
3436	U51909TG2014PTC093121	एक्सोडो ग्लोबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3437	U93000TG2014PTC093124	सन्निवा पॉवर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3438	U72200TG2014PTC093125	अकिली स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3439	U72200TG2014PTC093126	एम्पिरिक लैंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3440	U72200TG2014PTC093128	कीटेक नेक्स्टजेन सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3441	U51909TG2014PTC093129	मल्क कर्मांडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
3442	U73100AP2014PTC093133	वैमानम टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3443	U74900TG2014PTC093143	कोपियस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3444	U74140TG2014PTC093145	एडीडीएच कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3445	U70109AP2014PTC093147	प्रेमांजली इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3446	U63010TG2014PTC093151	हियूरेक्स वॉयेज टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3447	U72400AP2014PTC093154	विभा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3448	U65192TG2014PTC093157	श्री वेदिका चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3449	U72502TG2014PTC093158	शंकम क्लासिफाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
3450	U72200TG2014PTC093165	अम्बिस्टा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3451	U35999AP2014PTC093166	श्री नित्य एलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3452	U45209TG2014PTC093169	निशात बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3453	U34200TG2014PTC093171	ग्रेप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3454	U74900TG2014PTC093178	मूवी रेनबो वेब सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3455	U45200TG2014PTC093183	टेरा कंस्ट्रक्शन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3456	U92412TG2014PTC093184	एलेनकी इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3457	U01407TG2014PTC093185	अवनिटा एगो फार्म्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3458	U74140TG2014PTC093188	स्किलटेक एडुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3459	U72200TG2014PTC093191	मैकएनरोस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3460	U45209TG2014PTC093197	जेबियोन इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3461	U24100TG2014PTC093198	इर्विन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3462	U24230TG2014PTC093201	पद्मश्री हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3463	U72200TG2014PTC093203	सैगडेज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3464	U01403AP2014PTC093206	मुरारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
3465	U14102AP2014PTC093207	एम एम आर माइन्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
3466	U01407TG2014PTC093211	थर्ड आई फीड प्रोसेसेस प्राइवेट लिमिटेड
3467	U72400TG2014PTC093214	ऐड स्ट्रीट डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3468	U72200TG2014PTC093216	लीड विनर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3469	U45206AP2014PTC093219	जाजेन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
3470	U65910AP2014PTC093220	श्री माधवाराया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3471	U72200TG2014PTC093221	टेकी 9 इंफो सॉफ्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3472	U72200TG2014PTC093226	विनटेल इंटरसिंस प्राइवेट लिमिटेड
3473	U45208TG2014PTC093227	आर एस बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3474	U45200TG2014PTC093231	लिनोक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3475	U45200AP2014PTC093233	पवानी विवेनडास प्राइवेट लिमिटेड
3476	U74900TG2014PTC093234	हिंद कारपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3477	U80301TG2014PTC093236	प्रोलिफिक काउंसेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
3478	U52100AP2014PTC093237	एक्सओम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
3479	U24232TG2014PTC093241	लार्वेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3480	U24232TG2014PTC093252	एरिएट्टी फार्मा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3481	U52190TG2014PTC093254	कृष्णा शास्त्रुला ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3482	U15400TG2014PTC093257	डि लाइट फ्रैकीज एंड फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3483	U74910TG2014PTC093259	सूरती आउट सोर्सिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3484	U15400TG2014PTC093264	प्रिकी एफएमसीजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3485	U45200AP2014PTC093265	गणशक्ति कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3486	U74900TG2014PTC093272	श्री स्कंदा नारायणी कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3487	U72200TG2014PTC093274	स्काई कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3488	U40105TG2014PTC093275	सी एम आर सोलर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
3489	U85100TG2014PTC093276	स्वप्ना हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3490	U45200TG2014PTC093277	ईश्वरेशू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3491	U74900TG2014PTC093279	इको बैरन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
3492	U40300TG2014PTC093281	कार्तिका सोलर प्राइवेट लिमिटेड
3493	U85191TG2014PTC093286	कारूपति इंस्टीच्यूट ऑफ पेन एंड सफरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3494	U74900AP2014PTC093287	बैक्यू केटरिंग एंड एलॉयड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3495	U74900AP2014PTC093288	बीवीआरएस सिक्यूरिटी एंड मैन पॉवर आउटसोर्सिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3496	U14200TG2014PTC093291	मणिकंटा मिनरल्स एंड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
3497	U51900AP2014PTC093295	धीरज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3498	U52399TG2014PTC093297	वंडर डिवाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3499	U01403TG2014PTC093299	एसएसटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3500	U74900TG2014PTC093305	सिनेप्टिक इंजिन्स प्राइवेट लिमिटेड
3501	U14292TG2014PTC093313	जोन पथ ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
3502	U72200TG2014PTC093319	स्टूडियो टॉक डिजाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3503	U40300TG2014PTC093321	जीटोव सोलर पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3504	U74120AP2014PTC093322	थिंक वाइज एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3505	U52100TG2014PTC093328	जी2वी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3506	U25190TG2014PTC093329	पावरमेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3507	U01820TG2014PTC093330	सीएसआर फुड टेक प्राइवेट लिमिटेड
3508	U72200TG2014PTC093331	वुसोल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3509	U45209AP2014PTC093333	किवीस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
3510	U70102AP2014PTC093335	प्रभावती शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3511	U72200TG2014PTC093337	पिनटेग्रा टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3512	U24232TG2014PTC093339	फिकस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3513	U74900AP2014PTC093341	लक्ष्मी गणपति इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3514	U72200TG2014PTC093343	प्रेस्टन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3515	U45209TG2014PTC093344	अभीरवे कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3516	U01407TG2014PTC093348	कृषि सेवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3517	U25190TG2014PTC093349	प्रदा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3518	U74900TG2014PTC093351	टेकसिम्फनी आई टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3519	U01400AP2014PTC093358	उद्योभव फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3520	U40109TG2014PTC093359	सनसेट सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
3521	U72200TG2014PTC093363	वैल्यू एप्लीकेशन्स एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3522	U40106TG2014PTC093365	आर्सेल सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड
3523	U72200TG2014PTC093367	यक्षा एम्बेडेड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3524	U74110TG2014PTC093373	एसकेएन लॉ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3525	U65910TG2014PTC093376	एसकेपी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3526	U22222AP2014PTC093382	प्रजा हिता पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
3527	U52390TG2014PTC093385	वे 2 लक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3528	U01820TG2014PTC093386	एगी साक्षी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
3529	U51909TG2014PTC093387	स्मार्ट टॉयज प्राइवेट लिमिटेड
3530	U15137TG2014PTC093389	संध्या फुड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
3531	U45200TG2014PTC093390	मौर्या होम्स प्राइवेट लिमिटेड
3532	U85100TG2014PTC093392	डॉ. लालसज वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
3533	U15400TG2014PTC093401	सहसा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3534	U70109AP2014PTC093402	दर्शनी कंस्ट्रक्शन्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3535	U51220TG2014PTC093403	शरद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
3536	U74300TG2014PTC093405	कला ऐड्स एंड इंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3537	U45209TG2014PTC093406	स्वेता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3538	U10204TG2014PTC093410	तपस्वी माइनिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3539	U50102TG2014PTC093412	श्रेष्ठ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
3540	U24232TG2014PTC093413	वैस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3541	U72200AP2014PTC093417	इवी सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3542	U51504TG2014PTC093422	अस्लार मेम्ब्रेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3543	U63090AP2014PTC093425	काम्पीटेंट स्टोरेज टैंक्स प्राइवेट लिमिटेड
3544	U70100TG2014PTC093426	चेकमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
3545	U45206AP2014PLC093428	तालासिला इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
3546	U72400AP2014PTC093430	लेजून आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3547	U72200TG2014PTC093432	इंडर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3548	U45300TG2014PTC093434	श्रेष्ठ इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3549	U55101AP2014PTC093438	वेणु व्यापिन गौरमेट प्राइवेट लिमिटेड
3550	U52603AP2014PTC093441	श्री लक्ष्मी कल्याण ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
3551	U72500TG2014PTC093445	ओरेटर्स सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3552	U72900TG2014PTC093447	संप्रति कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3553	U52100TG2014PTC093450	बालराजु ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3554	U74900TG2014PTC093453	ताति इटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3555	U74900TG2014PTC093454	जेनुप्रो वीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3556	U72300TG2014PTC093455	एस4रॉयड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3557	U72200TG2014PTC093457	फ्यूचर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3558	U65910TG2014PTC093459	श्री प्राणदीप चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
3559	U45209TG2014PTC093461	वरदा विनायक इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3560	U72200TG2014PTC093463	साइबर कंप्यूट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3561	U74900AP2014PTC093464	एल एन एस इंपेक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3562	U70200TG2014PTC093465	एस एल जे एगी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3563	U72300AP2014PTC093472	नैनो ऑब्जस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3564	U74900TG2014PTC093473	अप्पा मोबाइल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3565	U01117TG2014PTC093474	महेश्वर एगो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3566	U72200TG2014PTC093475	उम्फ इंडो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3567	U92330TG2014PTC093479	सीरा कारपोरेट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड
3568	U85100TG2014PTC093481	रेया पोलीक्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
3569	U74900AP2014PTC093489	भास्कर राजू हैंडराइटिंग रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
3570	U40104TG2014PTC093492	कपिला पॉवर मैक प्राइवेट लिमिटेड
3571	U74900TG2014PTC093493	क्रिएटिव क्लस्टर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3572	U72200TG2014PTC093497	जिस्टलॉजिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3573	U25203AP2014PTC093505	गीन कोस्टा रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3574	U74910TG2014PTC093506	तलत मैन पॉवर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3575	U45200AP2014PTC093507	साई गायत्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3576	U33110TG2014PTC093509	एन एम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3577	U80900TG2014PTC093512	एम लॉ इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड
3578	U72200TG2014PTC093513	तोरस इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3579	U63040TG2014PTC093514	ऑरेंज वैकेशनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3580	U72400TG2014PTC093515	टेल्लासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3581	U24232TG2014PTC093517	एलोमेड फार्मलेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3582	U72900TG2014PTC093518	टीएमआर आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3583	U17120TG2014PTC093521	सम्बाशिव गिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3584	U63040TG2014PTC093522	सिंडोमैस ट्रेवल एंड टूर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3585	U72200TG2014PTC093523	एसकेपीबी सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
3586	U01403AP2014PTC093524	गोवेल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3587	U74900AP2014PTC093526	साम्राज्य साई सोलर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3588	U01403AP2014PTC093527	जेनेसिस फार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3589	U01403AP2014PTC093528	स्वर्णाधरा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3590	U55101TG2014PTC093530	श्रेष्ठ होटल्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3591	U40102AP2014PTC093532	सिरि ग्रीन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
3592	U72200TG2014PTC093534	एम्बिट साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
3593	U51909TG2014PTC093536	लार्वेन फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड
3594	U64200TG2014PTC093538	ईगल एक्सप्रेस मेल एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3595	U14200TG2014PTC093549	एस डी वी जियो एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3596	U01407AP2014PTC093552	सुप्रसन्ना एगो प्राइवेट लिमिटेड
3597	U33110AP2014PTC093555	बेस्ट मेडिकिट प्राइवेट लिमिटेड
3598	U63090TG2014PTC093559	टच-कैलाश टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
3599	U45209TG2014PTC093563	लैंडस्टोन निर्माण इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3600	U74300TG2014PTC093568	अर्जुन इंपेक्स सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3601	U74900TG2014PTC093569	वैंटा क्रेकडिमिंटो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3602	U72200TG2014PTC093570	कैट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3603	U74900TG2014PTC093571	2एम मार्केटिंग टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3604	U63030TG2014PTC093572	बिंगो ट्रक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3605	U15122AP2014PTC093575	प्रभाकर राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3606	U72400TG2014PTC093576	प्राइवी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3607	U15209AP2014PTC093577	एसडी बायो न्यूट्री फुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3608	U74900TG2014PTC093580	श्री कृष्ण देवराय मीडिया सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3609	U36912TG2014PTC093581	विविद डिजाइन स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3610	U74900AP2014PTC093582	विनायना ई-कॉमर्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3611	U74900TG2014PTC093583	ग्रेट आइकॉन ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3612	U65923AP2014PTC093586	कमलावर्षिणी चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3613	U74120AP2014PTC093588	पवानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3614	U72300TG2014PTC093591	डिल स्पाइड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3615	U72200TG2014PTC093592	बी के आर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3616	U72200TG2014PTC093593	वी मोल्ड आई टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3617	U72200TG2014PTC093595	किंगडम आईटेस प्राइवेट लिमिटेड
3618	U80301TG2014PTC093597	इआम्बिक एडुकेशन एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3619	U72400TG2014PTC093600	तिलेटी इमिज सॉफ्ट टेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3620	U01403TG2014PTC093605	रैतु मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3621	U45200AP2014PTC093616	साहित एंड प्रणीत इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
3622	U63000TG2014PTC093617	साई वर्ल्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3623	U93000TG2014PTC093618	फर्स्ट ब्रिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3624	U45200TG2014PTC093619	रेनवो बिल्डिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3625	U72400TG2014PTC093621	गरपति श्रीराम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3626	U72400TG2014PTC093622	वज्जात टेक्नोलॉजी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3627	U40103TG2014PTC093624	नेक्स सोलर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3628	U72400TG2014PTC093633	नि-अर्प सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3629	U37100AP2014PTC093634	रिसाइक्लो क्लिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3630	U22222TG2014PTC093637	ब्लू बॉड मीडिया कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3631	U55204TG2014PTC093638	हिट ट्रिप टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3632	U80904TG2014PTC093640	आरंभ स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड
3633	U40105TG2014PTC093641	सिरका सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3634	U80300TG2014PTC093642	वायुपुत्र एडु कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
3635	U74900TG2014PTC093646	ब्रैंड इमेज उह मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3636	U74140AP2014PTC093647	टैलेंटपाइन कंसलटेंसी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3637	U65923TG2014PTC093649	देवर्षि चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
3638	U63090AP2014PTC093651	लक्ष्मी वेंकटेश्वरा टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3639	U45200AP2014PTC093654	भूमि पुत्र हाउसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3640	U45200AP2014PTC093655	आल्या बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3641	U72200AP2014PTC093657	आईजियल इंफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3642	U72200TG2014PTC093658	उद्देश सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3643	U52100TG2014PTC093666	स्माइल ऑन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3644	U41000AP2014PTC093670	जैगू वाटर प्राइवेट लिमिटेड
3645	U24100TG2014PTC093671	वेनडांटे ऑटोमेशन एंड सिक्यूरिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3646	U45205AP2014PTC093672	कट्टा कंस्ट्रक्शन्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3647	U93000TG2014PTC093673	अंजनलक्ष्मी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3648	U74120AP2014PTC093675	बीआर ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
3649	U45200TG2014PTC093677	7 हिल्स कंस्ट्रक्शन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3650	U17120TG2014PTC093679	महासाई टेक्सटाइल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3651	U72200TG2014PTC093681	लॉग्रन टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3652	U45200AP2014PTC093684	तलसिला सिविल एंड स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड
3653	U72200TG2014PTC093685	विसलैब आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3654	U72200AP2014PTC093687	वाई बी एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3655	U51909AP2014PTC093688	नेस्थम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3656	U74900TG2014PTC093691	क्लिफटॉन एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3657	U74900AP2014PTC093693	आईब्रा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3658	U52399TG2014PTC093697	टीम इंडिया फास्ट मूविंग गुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3659	U74900AP2014PTC093699	वैष्मिता पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3660	U72200TG2014PTC093700	श्वेता आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3661	U51397AP2014PTC093702	पीआरवी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3662	U40103AP2014PTC093704	पद्मार्का इको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
3663	U63090TG2014PTC093711	डिवाइन ट्रेवल रिवार्स प्राइवेट लिमिटेड
3664	U24232TG2014PTC093713	ट्रिविया फार्मास्युटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3665	U22120AP2014PTC093714	समारा संकम मीडियाज प्राइवेट लिमिटेड
3666	U63090TG2014PTC093715	ग्रीन कैमिनो राइड शेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3667	U72400TG2014PTC093719	जी एस बी इंफो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3668	U72200TG2014PTC093722	कैपो आइडियाज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3669	U74900TG2014PTC093723	शुभम रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3670	U80904TG2014PTC093726	इंटीग्रेटेड इंस्टीच्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी प्राइवेट लिमिटेड
3671	U72400TG2014PTC093727	मास आई टी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3672	U52599TG2014PTC093728	मेट्रो होम डिलीवरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3673	U73100TG2014PTC093729	बडेपा सुपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड
3674	U36912AP2014PTC093730	कुंदनिका गोल्ड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3675	U31908TG2014PTC093734	वोल्ट्रान सोलर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3676	U92412AP2014PTC093735	अलनअन्ना क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3677	U74900TG2014PTC093736	बॉली हॉली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3678	U55203TG2014PTC093738	एस आर एस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3679	U70102AP2014PTC093740	श्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड
3680	U14220TG2014PTC093742	केवीसी माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3681	U72200TG2014PTC093743	एफ8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3682	U45200TG2014PTC093745	ग्रेसेस नीड इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड
3683	U14200TG2014PTC093747	आर्क रॉक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3684	U15122AP2014PTC093748	चुरुवु इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3685	U22222TG2014PTC093750	भास्कर ऑफसेट प्रिंटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3686	U72200TG2014PTC093751	एम डी एम इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3687	U51109TG2014PTC093753	साई कृपा स्पाइस कर्माडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
3688	U40106AP2014PTC093754	कुर्रस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड
3689	U51495TG2014PTC093755	निरूपम पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3690	U14200TG2014PTC093760	निकुंज रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
3691	U60231TG2014PTC093761	बैमेल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड
3692	U85191TG2014PTC093762	हैदराबाद स्लिमिंग एक्स प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
3693	U72200TG2014PTC093763	कार्बन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3694	U65992AP2014PTC093767	सुब्बोजी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3695	U45200TG2014PTC093769	दि ब्लू ओक कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3696	U72200TG2014PTC093771	साइटेनियम सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3697	U72200TG2014PTC093776	कैप्कॉन नोविगो आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3698	U40102TG2014PTC093782	सोलिस एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3699	U72400TG2014PTC093785	टेक्नोजेम्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3700	U74910TG2014PTC093787	रिकॉन स्टाफिंग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3701	U74900TG2014PTC093790	माना कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3702	U45203TG2014PTC093799	स्वस्तलम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3703	U72400AP2014PTC093800	श्रीमयी एडुटेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3704	U01403AP2014PTC093804	एवीएम डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3705	U80302TG2014PTC093811	डीएनबी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड
3706	U85100TG2014PTC093812	डीएनबी देवा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3707	U72200AP2014PTC093813	सुनीता सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3708	U72200TG2014PTC093815	मिलियन आई टी पिक्सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3709	U72200TG2014PTC093816	विडकन आई टी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3710	U85100TG2014PTC093823	नाउकयूर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3711	U72200TG2014PTC093827	नेटसॉफ्ट एक्सपर्ट्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3712	U52310TG2014PTC093831	इवोल्यूशन रिहैब केयर प्राइवेट लिमिटेड
3713	U74920TG2014PTC093834	वारियर प्रोटेक्शन गार्ड प्राइवेट लिमिटेड
3714	U52341AP2014PTC093835	एच एंड सी सप्लायर्स एंड कांट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3715	U72400TG2014PTC093838	डिल्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3716	U13209AP2014PTC093839	आर एस एन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
3717	U72400TG2014PTC093842	एमिगोसक्यूब आई टी प्राइवेट लिमिटेड
3718	U15122TG2014PTC093843	लेपिडस फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3719	U72400TG2014PTC093848	एनसाइक्लो डिजीजन साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3720	U74910TG2014PTC093851	एसआरजे प्लेसमेंट एंड इंजीनियरिंग केसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3721	U72200TG2014PTC093854	वेदविक सॉफ्टवेयर आर एंड डी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3722	U72200AP2014PTC093855	रॉकोवल इंटेरेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
3723	U24233TG2014PTC093858	प्रिया ग्रीन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3724	U14200TG2014PTC093859	मिनरल ऑन ग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड
3725	U45209TG2014PTC093861	दत्तका बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3726	U40108TG2014PTC093862	बीपीआर प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3727	U80301TG2014PTC093864	कूल स्टूडेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3728	U25203AP2014PTC093865	श्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3729	U37100AP2014PTC093866	स्काईवार्ड रिप्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
3730	U72400TG2014PTC093869	मनकेना एंड सादगौडा टेक्नॉजीक्स प्राइवेट लिमिटेड
3731	U52390TG2014PTC093874	ईबॉक्स ऑटोमेटेड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
3732	U29119TG2014PTC093880	मुक्तार इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3733	U92490TG2014PTC093881	रिपल्स इवेंट्स एंड इंटरटेनमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3734	U45200AP2014PTC093882	ग्रीन ओसियन इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3735	U92412TG2014PTC093885	शिवसागर सिने स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
3736	U72400TG2014PTC093887	एससीजी सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3737	U72400TG2014PTC093888	रूलफ्री टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3738	U52100TG2014PTC093891	पचारी सुपर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड
3739	U15122TG2014PTC093892	एनफसी फुड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3740	U25209AP2014PTC093895	श्री प्लास-पैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3741	U40107TG2014PTC093900	वीआरएस पावर प्राइवेट लिमिटेड
3742	U74900AP2014PTC093901	एजीस प्रगति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3743	U72900TG2014PTC093902	जेबीबी बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3744	U74120TG2014PTC093908	मदरलैंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3745	U80904TG2014PTC093910	इस्ट्रीच्यूट ऑफ फाइन ट्यूनिंग एंड कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3746	U26960AP2014PTC093911	वीआर स्पेसिलटी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3747	U74140TG2014PTC093918	कांफीसोल प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3748	U72200TG2014PTC093919	ऑटोस्पिंज प्राइवेट लिमिटेड
3749	U74900TG2014PTC093921	सैम ब्रोडबैंड प्राइवेट लिमिटेड
3750	U01407TG2014PTC093926	मालिता हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
3751	U55101TG2014PTC093928	शन्मुख फुड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3752	U26999AP2014PTC093930	ऐश्वर्या इको इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3753	U01403TG2014PTC093932	श्री कनक दुर्गा किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3754	U93030TG2014PTC093935	एसवी यूरोपा सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
3755	U24211TG2014PTC093937	लशरिता बायो टेक प्राइवेट लिमिटेड
3756	U45209TG2014PTC093939	वीआर एलिमेंट्स टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
3757	U74900TG2014PTC093945	मित्ता बालू इफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3758	U93000TG2014PLC093947	वारधी मीडिया हाउस लिमिटेड
3759	U51909TG2014PTC093951	आरोहन कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3760	U01407TG2014PTC093954	महा रैतु रिसोर्सेस एंड उद्यान्स प्राइवेट लिमिटेड
3761	U33110AP2014PTC093957	बार्कर लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3762	U72200AP2014PTC093962	ओम एगोनोमिक टेक्नोलॉजीस सॉल्यूशन्स (ओट्स) प्राइवेट लिमिटेड
3763	U45209TG2014PTC093963	एक्सेलेंट एडिफिस प्राइवेट लिमिटेड
3764	U25209TG2014PTC093966	कैम्प प्लासस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3765	U45209TG2014PTC093967	स्वाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3766	U74140AP2014PTC093979	वारब्लेसिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3767	U72200TG2014PTC093982	कुदुमुलास इफो प्राइवेट लिमिटेड
3768	U74900TG2014PTC093984	तेलंगाना होमलैंड रिसोर्सेस डेवलपिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3769	U93000TG2014PTC093985	टॉप स्टार फेसलिटी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3770	U14211TG2014PTC093986	महा मिनरल्स एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
3771	U74900TG2014PTC093988	ताहिया सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3772	U29242TG2014PTC093991	श्री साई कन्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
3773	U52399TG2014PTC093993	महालक्ष्मी जैश इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3774	U45203AP2014PTC093997	क्लेरिऑन बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3775	U92412TG2014PTC093998	राजाराम फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
3776	U45207AP2014PTC093999	राजमपेट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
3777	U52100TG2014PTC094000	राइट शॉप इकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3778	U01403AP2014PTC094002	श्रीनिवासुलु रेड्डी फीड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3779	U52100TG2014PTC094004	वरुन्या बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
3780	U01403TG2014PTC094006	श्री विष्णु बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
3781	U74999TG2014PTC094008	ब्रोडवे आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3782	U51101AP2014PTC094010	कर्ब क्वेलेन प्राइवेट लिमिटेड
3783	U74900TG2014PTC094014	फर्स्ट लीफ एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
3784	U33110AP2014PTC094021	रागा लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3785	U40106TG2014PTC094024	महा सुरभि मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3786	U74120TG2014PTC094026	सीक कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3787	U72200TG2014PTC094029	एलिसियम आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3788	U74999AP2014PTC094034	कृपी केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3789	U74120TG2014PTC094036	एस एस एल पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3790	U55101TG2014PTC094037	एलिट हाउस कीपिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3791	U74120TG2014PTC094039	कार्जॉल ऑटो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3792	U34200AP2014PTC094041	श्री राजाबाबू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
3793	U40102AP2014PTC094042	प्रोरीटा सोलर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3794	U74900AP2014PTC094045	नेक्सस-रिब्स बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3795	U72200TG2014PTC094050	मार्वल कारपोरेट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3796	U45400AP2014PTC094053	गुरु साई दत्ता स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3797	U72200TG2014PTC094056	महिमानविता इंफारमेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3798	U37200TG2014PTC094062	राजकोष एस डब्ल्यू एम प्राइवेट लिमिटेड
3799	U74900TG2014PTC094063	हंसा सिक्यूरिटी एंड फैसिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3800	U45200TG2014PTC094071	विक्षित टेक प्राइवेट लिमिटेड
3801	U70100AP2014PTC094074	श्रीवारी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3802	U74900TG2014PTC094080	बीमैम इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3803	U74140TG2014PTC094081	इनोवेटिव माइंड्स ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3804	U74140TG2014PTC094083	अच्युता क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3805	U74200TG2014PTC094084	वाई टी के ऑफकॉमटेक प्राइवेट लिमिटेड
3806	U74120TG2014PTC094085	वेदिक कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3807	U65190AP2014PTC094088	कोल्लेबोरियना मल्लिकार्जुना राव चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
3808	U22222AP2014PTC094089	केएमआर पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3809	U74900TG2014PTC094091	एसएस न्यूट्रिमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3810	U72200AP2014PTC094103	डायल 4 जिल्ला इंफारमेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3811	U72200AP2014PTC094105	रॉवेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3812	U72200TG2014PTC094106	क्लाउड राइस एफ डब्ल्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड
3813	U45200TG2014PTC094107	पोलस्टार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
3814	U51101TG2014PTC094113	श्रेयाज एक्जिम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3815	U45200AP2014PTC094117	रेवती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3816	U72200TG2014PTC094118	वेबओटेक इंटरैक्टिव सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3817	U40102TG2014PTC094120	वीसीआरएल - पीवीके जेनरेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3818	U74900AP2014PTC094122	एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिकल सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3819	U74120TG2014PTC094123	सेफको प्रोपर्टीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3820	U74900AP2014PTC094134	चि हटके ऑनलाइन फैसिलिटीटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3821	U51101TG2014PTC094136	विहाना फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3822	U74900TG2014PTC094137	बीवीपी बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3823	U92412TG2014PTC094138	बाउंस इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3824	U74900TG2014PTC094139	अल्ट्रा बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3825	U74900TG2014PTC094141	क्रिएटिव मैक्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3826	U51101TG2014PTC094143	कॉमलोकस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
3827	U74900TG2014PTC094144	स्कार्पियो स्टेम सेल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3828	U72200AP2014PTC094148	सात्विका टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3829	U40102TG2014PTC094149	जगत कांति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3830	U72200TG2014PTC094152	एस्केलेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3831	U17120TG2014PTC094155	आर5 एपेरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3832	U29253TG2014PTC094157	यूनिक डेयरी टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3833	U72200AP2014PTC094158	कैगे टेक कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3834	U74900TG2014PTC094168	विदुरा कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3835	U70102AP2014PTC094170	श्री कादरी लक्ष्मी नरसिंहा फार्म्स एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3836	U31908TG2014PTC094171	प्रोटीयाज सोलर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3837	U72300AP2014PTC094174	कोट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3838	U74120TG2014PTC094177	वन फोर्स डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3839	U33111TG2014PTC094180	पैरागॉन एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड
3840	U72200TG2014PTC094183	डेलटेक्नो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3841	U52206AP2014PTC094188	वोडालाइफ वाटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3842	U72200TG2014PTC094190	साइमैटिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3843	U01403TG2014PTC094193	रेड्डीज पॉल्ट्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3844	U72300TG2014PTC094195	बीए प्राज्ञा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3845	U45200TG2014PTC094197	मिदुना वनम प्राइवेट लिमिटेड
3846	U70102TG2014PTC094198	सौभाग्य पवित्र भूमि टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
3847	U18204AP2014PTC094200	जेके टी. शर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3848	U74200TG2014PTC094202	लक्षरा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
3849	U45209AP2014PTC094206	वेंकट विजय साई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3850	U64100TG2014PTC094208	स्ट्रेफा इनोवेटिव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3851	U15122TG2014PTC094214	आई एग्री फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3852	U74120TG2014PTC094215	आई मेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3853	U51101AP2014PTC094220	रैपिडस्पीड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3854	U52100TG2014PTC094222	तवक्कल पॉवर सॉल्यूशन्स एंड ऑटोपार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3855	U74120TG2014OPC094223	ऑक्टीयपस जियो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओ पी सी)
3856	U24100TG2014PTC094226	एम एस ए लाइफ साइसेस प्राइवेट लिमिटेड
3857	U22222TG2014PTC094227	चेन्नोलू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3858	U22222TG2014PTC094229	सी एस बी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3859	U22222TG2014PTC094230	वैडीतेरा इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3860	U74900TG2014PTC094232	लक्षसारा ऑरिजिन प्राइवेट लिमिटेड
3861	U72400TG2014PTC094234	गैंगसमिको ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3862	U24232TG2014PTC094235	मिट्कान फार्मा कैटेलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
3863	U74900TG2014PTC094238	नभी टेलिकॉम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3864	U72400TG2014PTC094240	ऑफिसियम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3865	U45206TG2014PTC094243	अज्वा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3866	U72200TG2014PTC094247	वीस्टेप इंफोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3867	U01403TG2014PTC094256	रूई एग्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3868	U51909TG2014PTC094259	क्रिस्टल आर्क इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3869	U74920AP2014PTC094260	इंडियन सिक्यूरिटी फोर्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3870	U74900AP2014PTC094264	चित्रा स्विता इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3871	U10100TG2014PTC094267	ए जे माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3872	U72200TG2014PTC094270	टीएसआर आईक्यू टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3873	U92412TG2014PTC094271	मौर्या प्रोमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3874	U74900TG2014PTC094502	कृष डायरेक्ट 2 होम सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3875	U64100TG2014PTC094504	फाइबर फास्ट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3876	U24233AP2014PTC094508	एपेक्सम हाइजीन प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3877	U70109AP2014PTC094512	इनकोर वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3878	U74900AP2014PTC094516	आह्वानम फुड एंड ड्रिंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3879	U72200TG2014PTC094517	पीएनपी फास्ट्रैक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3880	U85100AP2014PTC094518	डिलिजेंस हेल्थकेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3881	U72900AP2014OPC094521	दत्ताम्सा टेक्नो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
3882	U45209TG2014PTC094524	पीवीएम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3883	U45209AP2014PTC094525	राजधानी नव निर्माण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3884	U40102TG2014PTC094527	अप्पानाचार्या सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3885	U72900AP2014PTC094528	गेमर्स हाल्ट प्राइवेट लिमिटेड
3886	U65992AP2014PTC094532	लक्ष्य सहाना चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3887	U74140TG2014PTC094541	वेंचर पूले कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3888	U01403TG2014PTC094542	प्रसन्ना हर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3889	U72200AP2014PTC094542	सक्सेस क्यूब्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3890	U70102AP2014PTC094543	एडवांस्ड माइथोलॉजी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3891	U15122AP2014PTC094544	चीता ब्रेवरीज (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
3892	U01407TG2014PTC094545	स्वर्ण फार्म्स एंड फीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3893	U45209TG2014PTC094546	द्वारका इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3894	U72200TG2014PTC094548	रॉलिंग एग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3895	U45209TG2014PTC094549	ऐकमे अर्थ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3896	U22219AP2014PTC094556	रावी स्मार्ट पब्लिकशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3897	U72200TG2014PTC094557	आई-आइकॉन कोरलॉजिक प्राइवेट लिमिटेड
3898	U65992AP2014PTC094560	गनता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3899	U72400TG2014PTC094560	ओपस टेक्नोलॉजीस सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3900	U51109TG2014PTC094563	ब्लू पीपर इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3901	U01407TG2014PTC094564	श्रेयास फीड्स एंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3902	U85195TG2014PTC094565	मेडिमार्ग वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
3903	U72500TG2014PTC094567	एस वर्कस्पेस प्राइवेट लिमिटेड
3904	U72900AP2014PTC094567	लैंडी कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3905	U72900AP2014PTC094570	उपाधि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3906	U31900TG2014PTC094575	एनवीआर पावर ऐंड्स प्राइवेट लिमिटेड
3907	U74300AP2014PTC094577	एएमआर एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
3908	U72400TG2014PTC094578	लक्षसारा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3909	U31900TG2014PTC094579	मौमुदी इलेक्ट्रिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3910	U55204TG2014PTC094579	गल्लिनाज फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3911	U24232TG2014PTC094581	बायोएस्टस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
3912	U72200TG2014PTC094584	ऐबटर्मिनल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3913	U45200AP2014PTC094586	तिरुमला इंफ्रा इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3914	U72200AP2014PTC094589	रोनित इंफारमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3915	U72200AP2014PTC094591	यूनिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3916	U74900TG2014PTC094592	सप्ता एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3917	U74910TG2014PTC094594	सिद्धौ जॉब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3918	U74900TG2014PTC094595	जेजे ग्रीन्स एंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3919	U70200AP2014PTC094596	पेड्रिक प्रोपर्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3920	U01403TG2014PTC094597	ताडुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3921	U92100TG2014PTC094598	मंजीरा मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड
3922	U01403TG2014PTC094599	केशमपेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
3923	U51909TG2014PTC094606	पीआरपी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3924	U51101AP2014PTC094609	अक्षय एग्री एक्सपोर्ट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड
3925	U74900AP2014PTC094611	गोपी किरण एजुकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3926	U51900AP2014PTC094614	ड्रीम केयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3927	U72900TG2014PTC094615	एसएसआई बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3928	U74900TG2014PTC094616	एडवर्टिका कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3929	U45200AP2014PTC094617	बी एन वी बिल्डिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3930	U72200TG2014PTC094620	पार्क इंफार्मेशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3931	U51909AP2014PTC094622	ऑरेंज रिटेल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3932	U72200TG2014PTC094623	रैडिकेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3933	U74900AP2014PTC094624	बिवांटेज ग्लोबल स्मार्ट सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
3934	U74900AP2014PTC094625	बिसरा कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड
3935	U33111TG2014PTC094626	मेटोक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3936	U72200TG2014PTC094630	वैचर वाइज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3937	U65992TG2014PTC094632	ऋषि दुबे चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3938	U24233AP2014PTC094633	एसस प्राइवेट लिमिटेड किलारज बायो साइं-
3939	U63010TG2014PTC094633	सुजान प्रिया लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3940	U74900TG2014PTC094635	श्री श्री चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
3941	U72200TG2014PTC094636	डेल्विंग टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3942	U74200TG2014PTC094639	इंक्यूटस इंजीनियरिंग एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3943	U72200TG2014PTC094640	श्रीनिका सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
3944	U74900AP2014PTC094641	सरानाम ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3945	U80301TG2014PTC094641	मूराल मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3946	U72200TG2014PTC094643	प्रिवानो टेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3947	U72200TG2014PTC094644	राल्स टेक्नो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3948	U15122TG2014PTC094646	कोलम्बस हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3949	U45209TG2014PTC094649	पार्वती देवी सुपर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
3950	U74140AP2014PTC094651	स्वीटी बायोलॉजिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3951	U15122TG2014PTC094652	कॉफी कोला बेवरेजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3952	U80901AP2014PTC094655	इंफिनिटी लाइफ स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
3953	U24233TG2014PTC094656	एमजेंट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
3954	U45200TG2014PTC094658	विक्टरीयन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3955	U45209AP2014PTC094659	एक्सिसोन मेरीन एंड ऑफशोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3956	U74900AP2014PTC094660	पीपीएल ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3957	U40106TG2014PTC094662	टीजीपी सोलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
3958	U72200AP2014PTC094663	सैमड्यूड इंफो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3959	U45400AP2014PTC094666	श्री साई विशांत कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3960	U72200AP2014PTC094667	रमा टेक्नो-फंक्शनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3961	U29268TG2014PTC094669	बीएमएच इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3962	U74900AP2014PTC094669	ब्रीज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3963	U21098AP2014PTC094671	एमएनपी पेपर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3964	U74900TG2014PTC094671	नं.1 रोड रनर्स प्राइवेट लिमिटेड
3965	U72900TG2014OPC094672	अर्कजुन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
3966	U60200TG2014PTC094674	सिमकैब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3967	U74992AP2014PTC094675	एनसीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
3968	U72200AP2014PTC094678	वेस्टर्न ओसियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3969	U65924TG2014PTC094679	मरेड्डी फॉर्च्यून्स प्राइवेट लिमिटेड
3970	U74140AP2014PTC094679	किरपाल बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3971	U01403AP2014PTC094681	कोनासीमा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
3972	U24100TG2014PTC094681	टीएमआई फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3973	U40107AP2014PTC094682	ग्रीन ग्लोब पॉवर एंड एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3974	U72900TG2014PTC094682	सेरियम एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
3975	U74900AP2014PTC094683	जेड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3976	U01400TG2014PTC094684	भूसेवा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3977	U45209TG2014PTC094685	इंफ्रामैक्स हाउसिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3978	U74900AP2014PTC094685	एसडीके बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
3979	U63090AP2014PTC094691	सिटी फ्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3980	U85100AP2014PTC094692	अवेक्षा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3981	U74210TG2014PTC094693	लार्वन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3982	U72200TG2014PTC094694	अलिजा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3983	U72200TG2014PTC094696	चाट प्रो प्राइवेट लिमिटेड
3984	U74140TG2014PTC094698	ट्रायोकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3985	U72200AP2014PTC094699	लिनोसिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
3986	U31908AP2014PTC094700	श्री मनोग्ना पॉवर एंड एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3987	U40104TG2014PTC094702	स्ट्रिंग पॉवर इन्वेंटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3988	U01407AP2014PTC094704	गरपति ग्रीन फीलड्स प्राइवेट लिमिटेड
3989	U74900TG2014PTC094707	राफा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
3990	U45209AP2014PTC094710	विजय किरण प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3991	U15495AP2014PTC094711	श्रीनिधि नट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
3992	U72200TG2014PTC094711	एसएलजे कंसलटेंट सर्विसेस (आईटी एंड एचआर) प्राइवेट लिमिटेड
3993	U55101TG2014PTC094713	एसवीटीपी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3994	U52399TG2014PTC094715	रेज इंडिया सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3995	U74900AP2014PTC094715	पेगा ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3996	U80212AP2014PTC094717	रेनाल्ड्स इंटरनेशनल इंस्टीच्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3997	U14293TG2014PTC094719	रत्नवीर माइनिंग कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3998	U14220TG2014PTC094720	प्रुवेंचर मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
3999	U40103TG2014PTC094722	पामर सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4000	U52390TG2014PTC094723	अभिषेक रिटेल ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4001	U74900AP2014PTC094724	इक्विपी ह्यूमन रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
4002	U27310AP2014PTC094725	मारफोसिस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
4003	U24232TG2014PTC094726	बीएलआर बायो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4004	U74900TG2014PTC094727	लर्न ऑल एडुपीडिया प्राइवेट लिमिटेड
4005	U72200TG2014PTC094729	श्री उदयभान सिंह शिकारवार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
4006	U72200TG2014PTC094730	फारबिडेन साइबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4007	U15510AP2014PTC094732	एक्वा रिफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड
4008	U63040TG2014PTC094732	राइजिंग होलिडे सर्विस इंटरप्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
4009	U50102TG2014PTC094733	एवीआर हेवी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4010	U32209AP2014PTC094737	ग्रामीण डिजिटल केबल टी वी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
4011	U74900TG2014PTC094737	100डायल डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4012	U74900TG2014PTC094739	हेल्थ फ्लाई प्राइवेट लिमिटेड
4013	U74140TG2014PTC094741	वाई एंड डी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4014	U72200AP2014PTC094742	ब्लूजय सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
4015	U55204AP2014PTC094748	मंडाती महीधर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
4016	U72400TG2014PTC094749	एमिगोज ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4017	U51103AP2014PTC094751	मीनू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4018	U74200TG2014PTC094751	पैवा एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4019	U80300TG2014PTC094753	इमैजिन लाइफ एडु प्राइवेट लिमिटेड
4020	U74900TG2014PTC094755	डैमोन कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4021	U74900TG2014PTC094757	18 रील्स इंटरटेनमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
4022	U72900TG2014PTC094759	99 ट्रेनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
4023	U74120AP2014PTC094760	आदिलक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4024	U74140TG2014PTC094760	ग्लोबलाइंस बिजनेस नेटवर्क एंड एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
4025	U29268AP2014PTC094761	सुजाशा नवाचार टेक्नोलॉजीस एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4026	U74300TG2014PTC094764	ग्लोबल इमैजिनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
4027	U72200AP2014PTC094768	माइक्रो एनलिवेन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4028	U45200AP2014PTC094769	आर्टिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
4029	U72200TG2014PTC094769	इंटरप्राइज सॉल्यूशन 360 प्राइवेट लिमिटेड
4030	U15122TG2014PTC094771	किसस फुड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
4031	U72200TG2014OPC094772	ईबी आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4032	U72200TG2014PTC094773	कैटॉन आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4033	U72200TG2014PTC094774	इशानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4034	U74900TG2014PTC094775	कल्यान्स बिग कार कैफे प्राइवेट लिमिटेड
4035	U67100TG2014PTC094777	चेरिश कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
4036	U72100TG2014PTC094779	स्निग्दा सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4037	U45209AP2014PTC094780	मैक एबोडस प्राइवेट लिमिटेड
4038	U63030TG2014PTC094782	लावा बिजनेस नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
4039	U72300AP2014PTC094782	राइट स्पॉट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4040	U40106AP2014PTC094785	माती सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4041	U74900TG2014PTC094786	विनिमाई ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4042	U67190TG2014PTC094791	जय प्राज्वल फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4043	U45200AP2014PTC094794	श्रीवारी एवेन्यूज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4044	U45200AP2014PTC094796	के वी एस एन राजू कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
4045	U74999TG2014PTC094796	अवध प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4046	U40102TG2014PTC094799	बीएलआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड D
4047	U01403TG2014PTC094802	प्रावर्सी एग्रीटेक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4048	U13202AP2014PTC094802	उल्लिकालू डोलामाइट माइन प्राइवेट लिमिटेड
4049	U72900TG2014PTC094803	रोबैंड सोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4050	U55101TG2014PTC094804	राइजिंग सन कारपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4051	U15122AP2014PTC094811	जन्मभूमि फुड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4052	U72300TG2014PTC094816	एनके बिजनेस सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4053	U01403AP2014PTC094817	एस ड्रिप इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड
4054	U10300AP2014PTC094819	वैरन पेट्रो केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4055	U72200TG2014PTC094819	स्कार्फ सॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4056	U72200TG2014PTC094822	ग्रीन इन टाइम ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4057	U40300TG2014PTC094823	उज्ज्वला पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4058	U45200AP2014PTC094823	प्राणविटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
4059	U55101AP2014PTC094825	इंडियन कन्वेंशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
4060	U35100TG2014PTC094826	एस मोड्यूलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4061	U22200TG2014PTC094829	पोजिटिव वेव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
4062	U72200AP2014PTC094829	केएसके ऑनलाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड
4063	U65910TG2014PTC094830	बिल्वानी चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4064	U72200TG2014PTC094834	जिफी टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4065	U72200TG2014PTC094835	लेसिस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4066	U74999TG2014PTC094836	इब्राम ग्लोबल फाइनांसियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4067	U72200TG2014PTC094837	बीएलआर इंफो प्राइवेट लिमिटेड
4068	U72300AP2014PTC094838	एसएलपी माइक्रो सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4069	U74900TG2014PTC094841	प्रिकी एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4070	U72200TG2014PTC094843	एस्सेट्स वाच प्राइवेट लिमिटेड
4071	U45200AP2014PTC094844	एलसीसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4072	U72200TG2014PTC094846	कोटास टेक्नो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4073	U72300TG2014OPC094848	फोर्सचर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4074	U24211AP2014PTC094848	लिलाक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4075	U72200TG2014PTC094852	पेहॉक्स मोबाइल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4076	U65923TG2014PTC094856	अस्मिता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
4077	U74900AP2014PTC094857	श्रीकांत ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4078	U45200TG2014PTC094859	भगवती एवेन्यू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
4079	U74900TG2014PTC094863	जीएमएसआर मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4080	U23203AP2014PTC094864	इंदु पाइरोलिसिस प्राइवेट लिमिटेड
4081	U72200TG2014PTC094864	बंसल ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4082	U70102TG2014PTC094865	सिरी चंदना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
4083	U72200TG2014PTC094868	सॉफ्ट पाई आई टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4084	U85195AP2014PTC094868	बीएमसी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
4085	U15400TG2014PTC094872	बटरनट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
4086	U70102AP2014PTC094876	कुमुदा वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4087	U74900AP2014PTC094877	वर्तुलान इंफो एंड मीडिया सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4088	U72900AP2014PTC094879	एवीआर एनिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4089	U72900AP2014PTC094881	आई कैरियर क्राफ्ट आई टी सर्विसेस एंड बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4090	U72900TG2014PTC094882	अमोबा आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4091	U93000TG2014PTC094884	विविद एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4092	U74900TG2014PTC094885	रियलटी शील्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4093	U15490TG2014PTC094886	सन एगो ऑयल रिफाइनरिज प्राइवेट लिमिटेड
4094	U72200AP2014PTC094886	एक्टिस आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4095	U74999AP2014PTC094887	इंटीग्रिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4096	U01403AP2014OPC094888	आरिमिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4097	U74991TG2014PTC094888	वुरा वेब टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4098	U72200TG2014PTC094889	श्री विष्णुप्रिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4099	U74900AP2014PTC094891	श्री सूर्या वर्क फोर्स एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4100	U74140TG2014PTC094892	निशा प्रोपटी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4101	U74991TG2014PTC094895	तृष्णा एचआर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4102	U14220AP2014PTC094900	कामधेनु स्टोन्स एंड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
4103	U72200TG2014PTC094900	प्रेज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4104	U22120AP2014OPC094903	अध्ययन पब्लिशिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4105	U72200TG2014PTC094904	आदित्या निपुण टेक सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4106	U51909AP2014PTC094908	कोनासीमा ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
4107	U51900TG2014PTC094912	डिप्लेसरी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
4108	U74900AP2014PTC094916	लेनिमेंटस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4109	U37100AP2014PTC094917	इको रिस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
4110	U40102TG2014PTC094918	अंकम सोलर एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4111	U74900AP2014PTC094921	रिलाइबल ट्रांसफार्मर सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4112	U72200TG2014PTC094922	सरयोधा सॉफ्टवेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4113	U72200TG2014PTC094926	एअर ट्रांस स्डा प्राइवेट लिमिटेड
4114	U15100AP2014OPC094927	क्वांटल ऑटोमोटिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4115	U72200TG2014PTC094933	एक्सेस आई आई टी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
4116	U74991AP2014PTC094933	वन 47 ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4117	U74991AP2014PTC094934	गीन कैपिटल इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
4118	U51109AP2014PTC094935	सूर्या ब्लूज प्राइवेट लिमिटेड
4119	U45200AP2014PLC094936	गोल्डन ट्री टेक्नो पार्क्स लिमिटेड
4120	U45200AP2014PTC094937	सत्या बालाजी इंजीनियरिंग एंड सिविल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
4121	U72200TG2014PTC094937	वि लिंक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4122	U72200AP2014PTC094938	सी बी जी ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
4123	U72200TG2014PTC094942	एल वी प्रिंसिपल सॉफ्टवेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4124	U32109TG2014OPC094945	एरोनेट केबल कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4125	U45200AP2014PTC094945	श्री ललिताम्बिका इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
4126	U74300TG2014PTC094946	फ्यूचर ब्रेन्स पब्लिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4127	U63013TG2014PTC094948	ली लेमन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4128	U74900TG2014PTC094950	डिजाइनकासा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
4129	U52599TG2014PTC094952	ए2जेड ग्रीन गुड्स प्राइवेट लिमिटेड
4130	U55209AP2014PTC094955	कीर्ति इन प्राइवेट लिमिटेड
4131	U74140AP2014PTC094956	स्टैसिया एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
4132	U70102AP2014PTC094957	द्वारका हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
4133	U72200TG2014PTC094957	जीएसवीके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4134	U52100AP2014PTC094958	एसजीके रिटेल इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
4135	U72200TG2014PTC094959	चंदसा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4136	U72500TG2014PTC094960	कुबेर बीपीओ एंड मैनेज्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4137	U74900TG2014PTC094961	कलिंगा फैसिलिटी सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4138	U45208TG2014PTC094963	जूम फोर इंफ्रा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4139	U72200AP2014PTC094964	पिक्सटार्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4140	U25200AP2014PTC094968	ह्यू प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
4141	U74900AP2014PTC094969	बिनारी इंफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4142	U65992AP2014PTC094970	फ्यूचर नीड्स चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
4143	U24297TG2014PTC094971	शाओ-नैब केम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4144	U72200AP2014PTC094971	रिंडस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4145	U72200AP2014OPC094973	कृपटेक सॉल्यूशन्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
4146	U17120AP2014PTC094974	श्री कंडूला वैकटेश्वरा रेड्डी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
4147	U72200TG2014PTC094975	सोनीत सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4148	U32100TG2014PTC094977	एक्सटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4149	U29253TG2014PTC094980	बीएलआर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4150	U40300AP2014PTC094983	श्री महानु सोलर प्राइवेट लिमिटेड
4151	U17291TG2014PTC094984	अनुप्रिया टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
4152	U74140TG2014PTC094991	सिनर्जी मोबाइल लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4153	U17291AP2014PTC094993	लिडिया फैशन डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड
4154	U85110TG2014PTC094993	साई हर्षिनी लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
4155	U40102AP2014PTC094996	अरकाजा सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
4156	U72200TG2014PTC094996	एक्सियोलॉजिकल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4157	U45200TG2014PTC094997	मुक्कापति कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
4158	U74900AP2014PTC094997	डायल आंध्र सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4159	U15410AP2014PTC094998	पालेम फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
4160	U74900TG2014PTC094998	एसएसआर डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
4161	U72100AP2014PTC095000	भुवा सॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4162	U74900TG2014PTC095000	वी2वी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
4163	U51101AP2014PTC095001	लायन हर्ट्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
4164	U74900TG2014PTC095001	वीरा इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4165	U74999AP2014PTC095002	विलाइव वायर एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड
4166	U72400TG2014PTC095003	अक्षय ग्लोबल इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4167	U40108TG2014PTC095004	पोसनपल्ली पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
4168	U74900AP2014PTC095004	पिक्सेल लाइटिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4169	U72200TG2014PTC095006	एप्पमोटिव्स आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4170	U14200AP2014PTC095007	बॉजर माइनिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4171	U74900TG2014PTC095008	श्री गायत्री टर्बो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
4172	U45400TG2014PTC095009	गच्छीबाँली इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
4173	U74900TG2014PTC095011	इमेज स्पीक एडवर्टाइजमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4174	U74140TG2014PTC095012	जेनार्क कंसलटेंसी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4175	U80301AP2014PTC095016	की एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4176	U50100AP2014PTC095019	एसआरएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4177	U15137AP2014PTC095026	एरिगो फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4178	U72900TG2014PTC095030	इमेल्यूर वेब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4179	U51900AP2014PTC095033	पालीचेर्ला एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
4180	U64110AP2014PTC095034	डी वी आर डिजिटल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4181	U72300TG2014PTC095034	मदासु एम2सी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4182	U74999AP2014OPC095035	स्काई लाइन क्रेन इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4183	U72200AP2014PTC095037	धनलक्ष्मी डिजिटल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4184	U72400TG2014PTC095037	लाइट बज बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड
4185	U74991TG2014PTC095038	डेस्कॉन पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड
4186	U05000AP2014PTC095039	इंडिगेज बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4187	U72900TG2014PTC095039	नईपुन्या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4188	U15400AP2014PTC095042	शादनाना एमू प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
4189	U65923AP2014PTC095043	एन एस राज चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
4190	U45400TG2014PTC095044	कैसल इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
4191	U72200AP2014PTC095044	सारधी ट्रांसफोर्स प्राइवेट लिमिटेड
4192	U72200TG2014PTC095045	त्रिलिंगा कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4193	U51909AP2014PTC095046	सिनार कर्मांडीज प्राइवेट लिमिटेड
4194	U72900TG2014PTC095049	राइबर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
4195	U74120AP2014PTC095049	फिलपसाइड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
4196	U74900AP2014PTC095054	युवन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4197	U72900TG2014PTC095056	वोर्टन टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4198	U01405AP2014PTC095060	जीबिडी एमू प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4199	U51101AP2014PTC095061	जिनियल कारपोरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4200	U74900TG2014PTC095063	सीएसएस टेक्नो प्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
4201	U74991AP2014PTC095065	रेविंस आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4202	U93000TG2014PTC095068	यावेह मैन पॉवर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4203	U74900AP2014PTC095070	शो वायर्ज मैनजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4204	U01403AP2014PTC095071	गुंटूर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
4205	U74900TG2014PTC095071	क्रिसेंटो आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4206	U72200TG2014PTC095072	पीडीपी बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4207	U40300AP2014PTC095078	अर्थ टू एनर्जी पॉवर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4208	U72200AP2014PTC095079	जूस्टी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4209	U74900AP2014PTC095082	एपल सिविल एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
4210	U15410AP2014PTC095083	वेगो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
4211	U72200TG2014PTC095083	ट्रायो इंफार्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4212	U15510TG2014PTC095088	शोटज बेवरेजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4213	U24232TG2014PTC095090	अल्टिमा लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
4214	U72200AP2014PTC095091	सोधना इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4215	U74900TG2014PTC095094	क्वेरेंसिया एडु प्राइवेट लिमिटेड
4216	U74900AP2014PTC095102	कोनोक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4217	U45209AP2014PTC095103	इयूरालाइट ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4218	U52300TG2014PTC095104	इष्टा कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4219	U70100AP2014PTC095104	अनिल बाबू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
4220	U40102AP2014PTC095105	जे एस सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4221	U80301TG2014PTC095107	मैथ मैन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड
4222	U72200AP2014PTC095108	कॉर्पस आई टी प्राइवेट लिमिटेड
4223	U70102AP2014PTC095110	गीतेश हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
4224	U45200AP2014PTC095113	अश्वा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4225	U10300TG2014PTC095114	के वी मिनरल टेक प्राइवेट लिमिटेड
4226	U85190AP2014OPC095115	जिम जोन बटर वैल्यू फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4227	U74900TG2014PTC095116	तेलंगाना सिक्यूरिटी एंड यूटिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4228	U01403AP2014OPC095118	सिरिजा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4229	U65992AP2014PTC095119	श्री लक्ष्मी कल्याण चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
4230	U74900TG2014PTC095125	पत्री फाइनांसियल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4231	U51909TG2014PTC095129	यू एंड सी बिजनेस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4232	U22219AP2014PTC095130	दुताला प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4233	U63040TG2014PTC095132	माई ऑन ट्रेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4234	U80901AP2014PTC095132	पोर्टेंट कैरियर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4235	U72200AP2014PTC095134	टेक टू टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4236	U24233AP2014PTC095135	निमिश फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
4237	U74140AP2014PTC095137	लीजेंड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4238	U40101AP2014PTC095138	इनफर सोलर पॉवर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4239	U14220TG2014PTC095139	उन्नाटि मेटामिन प्राइवेट लिमिटेड
4240	U74900TG2014PTC095140	यूटे मीडिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4241	U52390AP2014PTC095141	एकादंत सुपर बाजार प्राइवेट लिमिटेड
4242	U70101TG2014PTC095144	रॉयल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
4243	U70100AP2014PTC095145	आर्चोन्ज ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4244	U51909AP2014PTC095148	रेज ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4245	U45400AP2014PTC095149	मनी साई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
4246	U72200AP2014PTC095150	अनगदत्ता आई टी कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4247	U24211TG2014PTC095153	क्यामा बायो केम प्राइवेट लिमिटेड
4248	U74120AP2014PTC095154	फिल्टर ब्लूम फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4249	U51909AP2014OPC095157	लॉयल कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4250	U72900TG2014PTC095157	पेनियल ग्लोबल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4251	U72200AP2014PTC095158	जी एंड पी फिनिट इंफारमेशन्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4252	U72200TG2014PTC095158	क्वालर्ट सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड
4253	U45201AP2014PTC095160	याह कोर्ट्स इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड
4254	U72200TG2014PTC095160	एस्सेनटाटा सॉफ्टवेयर लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4255	U72200TG2014PTC095161	वी वी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
4256	U74200AP2014PTC095162	एकेएन रेड्डी वैल्यूएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4257	U40108TG2014PTC095164	विरिटास एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4258	U40105AP2014PTC095165	श्री धनलक्ष्मी सोलर पॉवर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4259	U74900AP2014PTC095169	साई हीलिंग आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4260	U24232TG2014PTC095172	डीबीएस साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड
4261	U24232AP2014PTC095173	येलो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
4262	U72200TG2014PTC095175	विडोर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4263	U01403TG2014PTC095176	महानदी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
4264	U55101AP2014PTC095177	गुंटुपल्ली रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4265	U72200AP2014PTC095178	एवेरेस्ट स्मार्ट डाटा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4266	U72200TG2014PTC095181	प्राविदारिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4267	U72200AP2014PTC095184	स्मैसवी सॉफ्टवेयर इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4268	U72200TG2014PTC095184	क्लिंच सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
4269	U74200TG2014PTC095185	श्री लाना इंजीनियर्स एंड वैल्यूर्स प्राइवेट लिमिटेड
4270	U74900AP2014PTC095185	बेरिली एगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4271	U15400TG2014PTC095186	बेसिम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4272	U40200TG2014PTC095187	सी एंड एन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4273	U70100TG2014PTC095188	राधाकृष्णा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
4274	U40108TG2014PTC095189	मैक्सवेल नेचुरल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
4275	U29300TG2014PTC095192	डोवर लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4276	U72200AP2014PTC095193	जेनेटिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4277	U92190TG2014PTC095193	आपका टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
4278	U65923TG2014PTC095196	रेकिन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
4279	U51900TG2014PTC095200	5 एलिमेंट्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
4280	U72900TG2014PTC095204	आशुतोष इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4281	U74999TG2014PTC095211	विक्टस आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4282	U70100TG2014PTC095213	सहिति रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4283	U19121TG2014PTC095214	आर एस के इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4284	U24100TG2014PTC095215	पेलकोट फार्मूलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4285	U72900TG2014PTC095217	स्टाइल्स यू आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4286	U31400TG2014PTC095219	हार्डिफा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4287	U72200TG2014PTC095232	नार्वी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4288	U40108TG2014PTC095235	आरेस पॉवरजेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
4289	U52190TG2014PTC095236	आरेस कॉमट्रेड एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4290	U74900TG2014PTC095237	चिश्ती मालंजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4291	U40108TG2014PTC095240	ब्लू सेज एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4292	U74900TG2014PTC095254	ओर्स कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4293	U67190TG2014PTC095259	निहाल वेल्थ क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4294	U72200TG2014PTC095261	लेमन आई टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4295	U72900TG2014PTC095263	जास ईकॉमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-
4296	U45200TG2014PTC095264	अक्षयजेन ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4297	U72200TG2014PTC095265	रेडचिप इंसोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
4298	U74900TG2014PTC095274	ऐज टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
4299	U72200TG2014PTC095275	फ्रूटन आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4300	U74200TG2014PTC095276	पुलिनाट नव्या एयरटेक प्राइवेट लिमिटेड
4301	U72200TG2014PTC095277	एस्रेखा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4302	U52399TG2014PTC095279	दिलीप अरुण इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4303	U60230TG2014PTC095280	सूतया लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4304	U72200TG2014OPC095281	टेक्सीस आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4305	U72200TG2014PTC095284	अक्षरा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4306	U74140TG2014PTC095285	एविसो ओवरसीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4307	U74900TG2014PTC095289	रेड मैमथ स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
4308	U45200TG2014PTC095293	नवत इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
4309	U50401TG2014PTC095298	श्री काकतिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4310	U74900TG2014PTC095302	तेलंगाना चैनल 5डिजिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4311	U72200TG2014PLC095304	साई भावना इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड
4312	U01403TG2014PTC095307	सहस रेड संडल वुड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4313	U72200TG2014PTC095308	स्मैक आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4314	U74300TG2014PTC095313	एडकॉम कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4315	U24100TG2014PTC095319	नियोफाइन केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4316	U74900TG2014PTC095322	ग्रीन बेल मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
4317	U74900TG2014PTC095323	स्पेक्ट्रम रिस्क एडवाइजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4318	U31908TG2014PTC095324	अकेला सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4319	U72200TG2014PTC095328	ग्लूऑन साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4320	U63000TG2014PTC095334	प्रिकी टूर्स एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
4321	U45400TG2014PTC095340	वुरम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4322	U45200TG2014PTC095341	एस वी एस एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
4323	U74140TG2014PTC095342	पालेहे बिजनेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4324	U50200TG2014PTC095347	वीआर रियल बाय डीलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
4325	U74900TG2014PTC095353	वन वर्ल्ड ई मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेडवेस्ट-
4326	U72200TG2014PTC095356	येलो बी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4327	U74900TG2014PTC095358	एल आर एस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
4328	U74999TG2014PTC095367	जिटी कंफर्ट फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
4329	U74900TG2014PTC095372	केना इंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4330	U74900TG2014PTC095373	वेलोक्स रॉयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4331	U01200TG2014PTC095377	समान्वी एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड D
4332	U72200TG2014PTC095379	कूल आई टी सर्विसेस एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4333	U74900TG2014PTC095381	जी एस एम एम्पायर सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4334	U72200TG2014PTC095387	ऑक्सस आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4335	U15400TG2014PTC095389	कृष्णा फ्रेश एंड टेस्टी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
4336	U15490TG2014PTC095391	अम्बाटी फुड्स एंड बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
4337	U72300TG2014PTC095394	प्रूवेन्टस सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
4338	U65992TG2014PTC095398	श्री आदी बालाजी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
4339	U72200TG2014PTC095401	द्वारका आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4340	U74900TG2014PTC095402	जीफायर फिनमैन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4341	U74900TG2014PTC095405	कैरियर कैनन एचआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4342	U72200TG2014PTC095406	एलिअंस इंफो सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड
4343	U67100TG2014PTC095407	श्री रक्षा चिट्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
4344	U50102TG2014PTC095412	तिरुमला मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4345	U74900TG2014PTC095414	सिंगापुर रिसोर्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4346	U74900TG2014PTC095421	रिटेल मैक्स कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4347	U01400TG2014PTC095422	सोहारब एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4348	U32300TG2014PTC095429	क्यूकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4349	U72200TG2014OPC095430	पीएनआर आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
4350	U22219TG2014PTC095436	सेवन क्रिएशन्स एड्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
4351	U36101TG2014PTC095438	मालवीय फर्निट आर्ट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4352	U74900TG2014PTC095439	मोहनरागा इवेंट्स एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4353	U74900TG2014PTC095442	पीआरओ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4354	U80902TG2014PTC095444	चक्रवर्ती एडुकाॅन प्राइवेट लिमिटेड
4355	U72200TG2014PTC095446	लाइसन आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4356	U85195TG2014PTC095451	प्रकृति वेलनेस प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4357	U74900TG2014PTC095454	श्री विद्या मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4358	U74140TG2014PTC095457	एनपीएस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4359	U72200TG2014PTC095458	पैन ऑप्टिकॉन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
4360	U45200TG2014PTC095460	श्री विजय चैतन्या इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
4361	U72200TG2014PTC095470	एक्सजाइले इंफो टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
4362	U51900TG2014PTC095475	लिविंग प्रूफ एक्जिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4363	U74900TG2014PTC095478	तमकीन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
4364	U74900TG2014PTC095480	एसवीसी इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4365	U72200TG2014PTC095481	लॉगजीरो आई टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

रमेश चन्द्र मिश्रा
कम्पनी पंजीयक
हैदराबाद
आंध्र प्रदेश और तेलंगणा

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-110003, the 8th October 2018

No. A.12012/ 1/AD(Cy)/2017-Admn.II—Shri Sukh Das, Joint Assistant Director (Cipher) of this Directorate is promoted in the grade of Assistant Director (Cipher) in Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5400/-, in PB-3, Group-‘A’ pre-revised) on regular basis with effect from the forenoon of 19.09.2018.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

GHAN SHYAM
Deputy Director (Admn.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL)

Kolkata-700001, the 24th October 2018

No. PAGAEWB/02/02/97/2018-19/406—Under kind orders of the Principal Accountant General (A&E), West Bengal dated 22.10.2018, Shri Kousik Kumar Dutta, Asstt. Accounts Officer is promoted to the post of Accounts Officer in Level-09 of the Pay Matrix of CCS (Revised Pay Rules) 2016 plus usual allowances with effect from 01.11.2018 (FN) or the date of his taking over the charge, whichever is later.

G. RAI
Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 1st November 2018

No. 5/1/2018-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base: 2001=100 remained stationary at 301 (three hundred one) for the month of September, 2018.

AMRIT LAL JANGID
Deputy Director

MINISTRY OF CULTURE
(DEPT. OF CULTURE)
ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 31st October 2018

No. 4-402/2018/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Gautam Kumar Mallik, Research Associate (Cultural) attached to the Head Office, Kolkata of this Survey to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), Group-B (Gazetted) in the pay band PB-2 (Rs. 9300—34800/-) with Grade pay of Rs. 4600/- (pre-revised) corresponding Level 07 in the Pay Matrix (revised) at the same station with effect from the forenoon of 10.10.2018 until further orders.

M. SASIKUMAR
Head of Office

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(REGISTRAR OF COMPANIES)

Kanpur-208001, the 14th November 2018

No. LC/248(1)/5531—Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the Companies whose names are given below under Section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two

immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

Any person objecting to the proposed removal or striking off of the name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Sl. No.	CIN No.	Company Name
1	U24233UP2015PTC075339	ALANA CHEMICALS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2	U24233UP2015PTC075188	FULWARI BEAUTY PRIVATE LIMITED
3	U24233UP2015PTC075006	SUBALA LABS PRIVATE LIMITED
4	U24233UP2015PTC070830	SKYLAC LABORATORIES PRIVATE LIMITED
5	U24233UP2015PTC069368	ISHWAR CHEMICAL PRIVATE LIMITED
6	U24233UP2014PTC064578	BELAQ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
7	U24233UP2011PTC044526	GAMA MEDICHEM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
8	U24233UP2010PTC042884	DYNOSOUR MIRROR TOUCH PRIVATE LIMITED
9	U24231UP1991PTC012978	NORWES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
10	U24215UP1988PTC009473	KANTI SHANTI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
11	U24139UP1985PTC007414	WINNERS RUBBER PRIVATE LIMITED
12	U24123UP2001PTC025829	KANHAIYA AGROTECH PRIVATE LIMITED
13	U24110UP2016PTC087042	SMDLIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
14	U22222UP2015PTC069527	APNA MEDIA FOLKS PRIVATE LIMITED
15	U22222UP2013PTC059351	NEWS FLASH MEDIA PRIVATE LIMITED
16	U22222UP2013PTC056442	DILIGENT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITE
17	U22222UP2012PTC053800	HASTAKSHEP MEDIA PRIVATE LIMITED
18	U22219UP2018PTC104230	MORNINGCITY MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
19	U22211UP2013PTC060661	SOURCEKEY INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
20	U21098UP2010PTC041667	PAPIER FIBERS PRIVATE LIMITED
21	U19120UP2011PTC043835	KANPUR TANNERIES ENVIRONMENTAL PROTECTION PRIVATE LIMITED
22	U18209UP2016PTC087132	NEWFLANGED TRENDS PRIVATE LIMITED
23	U17299UP2017PTC091512	TRIPATHIG CREATION PRIVATE LIMITED
24	U16003UP1997PTC022907	SINGHANIA SALES PRIVATE LIMITED
25	U15400UP2014PTC061676	SANGAM AGRIFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
26	U15400UP2013PTC060813	KSHIR BEVERAGES PRIVATE LIMITED
27	U01110UP2016PTC084637	RATAN PRIYA ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
28	U01119UP2016PTC083322	RUDRAGREEN PRODUCER COMPANY LIMITED
29	U01120UP2016PTC082975	ABHAYEA ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
30	U01400UP2014PLC061817	INDRANI GREENTECH LIMITED
31	U01403UP2011PLC044895	RACY AGROTECH LIMITED
32	U01403UP2011PTC046528	NANDINI EXPORTS (I) PRIVATE LIMITED
33	U01403UP2011PTC047166	SUNEHRA KAL SUGANDHA PRODUCER COMPANY LIMITED
34	U01403UP2012PTC053534	VERSATILE AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
35	U10200UP2016PTC087201	SSRD MINING & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
36	U14220UP2016PTC075784	SHREE NARAYAN MINING PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
37	U15122UP2012PTC050656	APUL FOODS PRIVATE LIMITED
38	U15122UP2013PTC057640	EMPIRE INDOFOODS PRIVATE LIMITED
39	U15122UP2015PTC072664	FLAVORAVENUE FOODS PRIVATE LIMITED
40	U15129UP2017PTC090714	VANDY FOOD PRIVATE LIMITED
41	U24233UP2016PTC075483	XENIUM BIOTECH PRIVATE LIMITED
42	U24296UP2016PTC082942	N V K PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
43	U25190UP2014PTC063906	SHEETALRAMA PLAST INDIA PRIVATE LIMITED
44	U26912UP1998PTC023535	SANKALP EXPORTS PRIVATE LIMITED
45	U26960UP1991PTC012883	PARASHAR JEWELLERS PRIVATE LIMITED
46	U26960UP2015PTC069002	A B BATHFIT PRIVATE LIMITED
47	U27100UP2014PTC062402	VISHVESHARAY ISPAT PRIVATE LIMITED
48	U27104UP1988PTC009347	VARIETY STEELS PRIVATE LIMITED
49	U27104UP2006PTC031443	JAI SHANI ISPAT PRIVATE LIMITED
50	U28112UP2011PTC043314	GORAKHPUR ISPAT PRIVATE LIMITED
51	U28112UP2014PTC063774	DOORLINE LOCKS & HARDWARE PRIVATE LIMITED
52	U29119UP2016PTC083561	ANICO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
53	U29211UP1999PTC024613	SHREE KRISHNA DIESELS ENGINE PRIVATE LIMITED
54	U29253UP2015PTC068746	EOLE WATER INDIA PRIVATE LIMITED
55	U29308UP1926PLC000316	ALIGARH ELECTRIC SUPPLY CO LIMITED
56	U30005UP2010PTC039694	SEISHIN TECHNO ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
57	U31101UP1973PLC003818	PRINTING MACHINES INDIA LIMITED
58	U31900UP2016PTC085830	HIGHTECH SOLAR AND ELECTRICAL PRIVATE LIMITED
59	U31908UP2015PTC071516	MAK POWER SYSTEM PRIVATE LIMITED
60	U31908UP2015PTC073028	SHUBH SWASTIK HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
61	U31908UP2016PTC075479	HAMSINI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
62	U32109UP2014PTC062844	ABANICO LIGHTS PRIVATE LIMITED
63	U33110UP2009PTC038797	SILVERLEAF PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
64	U33111UP2015PTC072924	RADEX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
65	U33201UP1972PTC003593	FERRITIES AND ELECTRONICS COMPONENTS PRIVATE LIMITED
66	U36109UP2016PTC087704	CULTURE WINDOW PRIVATE LIMITED
67	U36993UP2011PTC044691	AMBIC REMEDIES PRIVATE LIMITED
68	U37100UP2009FTC037924	MARIS ENVIRONMENT PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
69	U40300UP2016PTC086333	WATTSPHERE ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
70	U45101UP1996PTC019502	CORBETT COUNTRY RESORT PRIVATE LIMITED
71	U45201UP1990PTC011940	TRUMP CEMENT AND CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
72	U45201UP1992PTC014004	ODDH COMBINES PRIVATE LIMITED
73	U45201UP1996PTC020908	DASHMESH CONSTRUCTION AND HOUSING PRIVATE LIMITED
74	U45201UP2005PTC029502	TOPEND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
75	U45201UP2005PTC030449	URIMILA SHELTERS PRIVATE LIMITED
76	U45201UP2005PTC046485	GYANCHANDANI HOUSING AND INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
77	U45201UP2006PTC031305	SHREE HARI CIVITECH PRIVATE LIMITED
78	U45201UP2006PTC032407	SHREE SAGAR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT & CONSTRUCTION PRIVA

Sl. No.	CIN No.	Company Name
79	U45201UP2014OPC064903	WE DREAM CONSTRUCTION OPC PRIVATE LIMITED
80	U45201UP2014PTC062189	VIBRANT INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
81	U45400UP2013PTC059442	CONFIANCE HOUSING PRIVATE LIMITED
82	U45400UP2013PTC059631	ACUMEN HOMES PRIVATE LIMITED
83	U45400UP2014PTC065233	KARTIK BUILDMART PRIVATE LIMITED
84	U45400UP2014PTC065814	MARG DAD BUILDTECH PRIVATE LIMITED
85	U45400UP2014PTC066868	C4S CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
86	U45400UP2014PTC067401	SANTUSHTI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
87	U45400UP2016PTC084314	EMON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
88	U45401UP1993PLC015573	SHREE SHYAM INTERNATIONAL LIMITED
89	U45500UP2016PTC084691	ARUSH AND HARSHIT CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
90	U50102UP2004PTC028523	SRI RAM BALI MOTORS PRIVATE LIMITED
91	U50500UP2017PTC091018	NEW ABS SOLUTION AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
92	U51101UP2012PTC052286	OAK LABORATORIES PRIVATE LIMITED
93	U51101UP2012PTC053702	G.P. RETAILMART PRIVATE LIMITED
94	U51101UP2013PTC054770	ASSOCIATED FRIENDS MARKETING PRIVATE LIMITED
95	U51101UP2013PTC055323	WISE MOO LABS PRIVATE LIMITED
96	U51101UP2013PTC057802	BALAJI DIVINE TRADERS PRIVATE LIMITED
97	U51101UP2015PTC073769	MINDOS PHARMA PRIVATE LIMITED
98	U51101UP2016PTC077078	TALAN EXIMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
99	U45400UP2011PTC047517	MAHESH INFRABUILD PRIVATE LIMITED
100	U45400UP2011PTC047521	MAHESH INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED
101	U45400UP2012PTC050652	GS INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
102	U45400UP2012PTC051882	L.S.R.S REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
103	U45400UP2013PLC057632	SURYADARSHAN INFRATECH LIMITED
104	U45400UP2013PTC055586	K.R.S. MINERALS PRIVATE LIMITED
105	U45400UP2013PTC055691	PLAZAPLUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
106	U45400UP2013PTC058501	VIJAY KUMAR YADAV CONTRACTOR PRIVATE LIMITED
107	U45400UP2013PTC059287	SAI BHAGWAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
108	U45202UP2014PTC063860	AKARSHKAMAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
109	U45202UP2014PTC063996	AVS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
110	U45202UP2014PTC064411	LA-IMPRADEL PARKS SPV PRIVATE LIMITED
111	U45203UP2016PTC086428	TTD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
112	U45204UP2013PTC060459	ISRANI HOUSING & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
113	U45309UP2016PTC083091	PRATEEK INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
114	U45400UP2009PLC038733	ALLIANCE TOWNPLANNERS LIMITED
115	U45400UP2009PTC038156	AMAN INFRACON PRIVATE LIMITED
116	U45400UP2010PTC040869	TEKRIWAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
117	U45400UP2011PTC043921	SHANKAR INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
118	U45201UP2014PTC062814	MSS INFRATECH POWER PRIVATE LIMITED
119	U45201UP2014PTC064776	SVASTI VENTURES PRIVATE LIMITED
120	U45202UP2013PTC061050	BALAJISHAKTI CORPORATION PRIVATE LIMITED
121	U55204UP2016PTC076609	KHANDELWAL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
122	U63022UP2004PLC028576	SURAJ SHEETALAYA LIMITED
123	U63030UP2017PLC094076	INDOSPIRE JOURNEYS LIMITED
124	U63090UP2009PTC036727	DURJAY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
125	U63090UP2010PTC042514	ENDEAVOR TRAVELS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
126	U63090UP2011PTC043675	FALCON AIRVOYAGES PRIVATE LIMITED
127	U63090UP2014PTC067183	G K GLOBAL TOURPLANNER PRIVATE LIMITED
128	U63090UP2015PTC070946	NOMADIC HOLIDAY SERVICES PRIVATE LIMITED
129	U64204UP2012PTC050573	HEAVY TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
130	U64204UP2013PTC058971	ADEPTVISION TECHNOLOGIES & SERVICES PRIVATE LIMITED
131	U64204UP2015PTC071661	SHREE NARAYAN COMTECH PRIVATE LIMITED
132	U65110UP1993PTC015478	J.P. HOSPITAL PRIVATE LIMITED
133	U65921UP1925PTC000288	JAIN AND CO PVT LTD
134	U65923UP2015PLC071061	AYUSH NIDHI LIMITED
135	U65991UP2014PLC066678	UNITY MUTUAL NIDHI LIMITED
136	U65991UP2014PLC066898	PANCHMUKHI NIDHI LIMITED
137	U65991UP2015PLC073300	ANCHAL INDIA NIDHI LIMITED
138	U67190UP1995PTC018380	DAIRY FUN FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
139	U55204UP2013PTC054524	TATHAGAT HOTELS PRIVATE LIMITED
140	U55204UP2014PTC065205	GRANO INNS & SUITES PRIVATE LIMITED
141	U55204UP2015PTC070742	N.M.S RESORTS & HOTELS PRIVATE LIMITED
142	U51102UP1998PLC023186	DYNAMIC PUBLICATIONS (INDIA) LIMITED
143	U51109UP1987PTC009203	SAPNA PALACE TALKIES PRIVATE LIMITED
144	U51226UP1997PTC022525	MAA KATYAYNI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
145	U51397UP2005PTC030069	MAPLE DRUGS PRIVATE LIMITED
146	U51909UP2016PTC087936	CAREFUL DRUGS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
147	U51909UP2018PTC102480	ILLUMINE COSMETICS PRIVATE LIMITED
148	U52100UP2009PTC039058	KAMALA AAHAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
149	U52100UP2012PTC050699	HEERAWALA JEWELS PRIVATE LIMITED
150	U52100UP2012PTC054230	AANJANEYAKRIPA MARKETING & INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
151	U52100UP2014PTC064893	LUNAR TRADERS PRIVATE LIMITED
152	U52100UP2014PTC066875	ECLECTIC KRAFTS PRIVATE LIMITED
153	U52100UP2015PTC072908	KIMINU ONLINE TRADERS PRIVATE LIMITED
154	U52392UP2005PTC030211	PIXEL COMMUNICATION SYSTEM PRIVATE LIMITED
155	U52601UP2016PTC087965	PAASH ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
156	U52609UP2016PTC084834	LOCAL MEDICAL STORE MARKETPLACE PRIVATE LIMITED
157	U52609UP2017PTC091367	CHAUDHARY LIFECARE PRIVATE LIMITED
158	U55101UP1992PTC014021	PURUSHOTTAM HOTELS PRIVATE LIMITED
159	U55101UP2005PTC029433	APNA HOTELS AND RESTRA PRIVATE LIMITED
160	U55101UP2016PTC084569	ARUGVIJYA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
161	U70100UP2013PTC061073	RUDRA SHIVA INFRA BUILD PRIVATE LIMITED
162	U70100UP2013PTC061384	R.K. AMAAN INFRA BUILDERS PRIVATE LIMITED
163	U70100UP2014PLC063175	REAL GREEN REAL ESTATE INDIA LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
164	U70100UP2014PTC062368	CELEBRUS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
165	U70100UP2014PTC062510	ASSOTECH DREAM PROJECTS PRIVATE LIMITED
166	U70100UP2014PTC062639	STARK REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
167	U70100UP2014PTC062904	LUXMIDAS INFRATECH PRIVATE LIMITED
168	U70100UP2014PTC063462	VASUDEVKRISHNA INFRACITY PRIVATE LIMITED
169	U70100UP2014PTC063463	VASUDEVKRISHNA REALBUILD PRIVATE LIMITED
170	U70100UP2014PTC063470	SJN INFRATECH PRIVATE LIMITED
171	U70100UP2014PTC063542	TRILOGY STRUCTURES PRIVATE LIMITED
172	U70102UP2010PLC041926	KKS INFRADEVELOPER LIMITED
173	U70102UP2010PTC041098	SHIVAMTECH CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
174	U70102UP2011PLC046892	DHENU INFRATECH INDIA LIMITED
175	U70102UP2011PTC043714	IP OMJA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
176	U70102UP2011PTC043897	BRAHMA INFRA BUILDERS PRIVATE LIMITED
177	U70102UP2011PTC045800	SHRI SAI BABA LAND PROFILE PRIVATE LIMITED
178	U70102UP2011PTC045873	PRABHU INFRABUILD PRIVATE LIMITED
179	U70102UP2011PTC046407	SHUBHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
180	U70102UP2011PTC046572	YADUVANSHI COLONISERS PRIVATE LIMITED
181	U70102UP2011PTC046589	YADUVANSHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
182	U70102UP2011PTC047875	PRABHU INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
183	U70102UP2012PTC049142	REALISTIC LANDMARK PRIVATE LIMITED
184	U70102UP2012PTC049146	DAWN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
185	U70102UP2012PTC049198	ROYAL AVADH LANDMARK PRIVATE LIMITED
186	U70102UP2012PTC050569	PBAD INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
187	U70102UP2012PTC050853	SPARSH INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
188	U70102UP2012PTC051661	RAJDHANI INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
189	U70102UP2012PTC051719	OJ INFRABUILD PRIVATE LIMITED
190	U70102UP2012PTC051948	COMRADE REALTORS PRIVATE LIMITED
191	U70102UP2012PTC052007	EARTH INFRATOWN PRIVATE LIMITED
192	U70102UP2012PTC054391	SYNOVUM INFOTECH PRIVATE LIMITED
193	U70102UP2013PLC059506	SAVIOUR REALESTATE INDIA LIMITED
194	U70102UP2013PLC059670	DEVASHRAY INFRABUILD LIMITED
195	U70102UP2013PTC054739	MINARETS INFRATECH PRIVATE LIMITED
196	U70102UP2013PTC057066	SHAMIYANA REALTORS PRIVATE LIMITED
197	U70102UP2013PTC057166	CASTLEPRIMA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
198	U70102UP2013PTC057556	THREESKS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
199	U70102UP2013PTC057968	PDM TECH PRIVATE LIMITED
200	U70102UP2013PTC058034	ANIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
201	U70102UP2013PTC058216	BAPU PLANNER AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
202	U70102UP2014PLC065987	SKYSTAR INFRAESTATE INDIA LIMITED
203	U70102UP2014PTC065379	RAHULGOLDEN INFRA REAL PRIVATE LIMITED
204	U70102UP2014PTC066240	GENCON INFRATECH PRIVATE LIMITED
205	U70102UP2014PTC066732	GSSR SKYHEIGHTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
206	U70102UP2014PTC067815	S.D.S. INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED
207	U70102UP2014PTC067841	SUPERVISION INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
208	U70102UP2015PLC075282	UAS INFRADEVELOPERS LIMITED
209	U70102UP2015PTC068127	ARINDAM BHUMI PROJECTS PRIVATE LIMITED
210	U70102UP2015PTC068410	AKSHARA BUILDCON PRIVATE LIMITED
211	U70102UP2015PTC070159	LALA MANSARAM REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
212	U70102UP2015PTC071732	PARAMHANS INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
213	U70102UP2015PTC072399	PROPEX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
214	U70102UP2015PTC072671	SANAATAN BUILDZONE PRIVATE LIMITED
215	U70102UP2015PTC072816	HANUMANTKRIPA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
216	U70102UP2015PTC073919	SSH INFRATECH PRIVATE LIMITED
217	U70102UP2015PTC073994	AAKASHDEEP INFRABUILD PRIVATE LIMITED
218	U70102UP2015PTC074369	OJASVINLIFE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
219	U70102UP2015PTC074918	AHMAD BUILDERS PRIVATE LIMITED
220	U70102UP2016PTC075555	SILVERMAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
221	U70102UP2016PTC077376	SAMBRIDHI HOUSING & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
222	U70109UP2016PTC083390	SIDDHIDATRI EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
223	U70109UP2016PTC084282	DIAL 4 PROPERTY PRIVATE LIMITED
224	U70109UP2016PTC088069	STONEVILLA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
225	U70200UP2017PTC095936	NITYANAND ASHRAM PRIVATE LIMITED
226	U72110UP1997PTC022096	NARESH CORRUGATED BOARDS PRIVATE LIMITED
227	U72200UP2016OPC082952	ARVINDAM INFOTECH PRIVATE LIMITED (OPC)
228	U72200UP2016PTC083645	BESTUMBEST INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
229	U72300UP2006PTC031201	OM HARI INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
230	U72300UP2012PTC051112	HQVFX COMPUTING LAB PRIVATE LIMITED
231	U72300UP2012PTC051905	QUADRA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
232	U72300UP2013PTC058625	VIBRANT INFOTECH PRIVATE LIMITED
233	U72300UP2013PTC059849	ASK TO RAY TELE INFO PRIVATE LIMITED
234	U72300UP2014PTC065272	TECHNOCRATIC GLOBAL PRIVATE LIMITED
235	U72300UP2014PTC065763	GEARON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
236	U72300UP2014PTC066533	WIBE LABS PRIVATE LIMITED
237	U72300UP2014PTC066609	ADIUTRIX ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
238	U72300UP2014PTC066905	APOGEE INFOTECH PRIVATE LIMITED
239	U72300UP2015PTC068776	ADICTO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
240	U72300UP2015PTC069726	DJP TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
241	U70102UP2013PTC058216	COMB EYE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
242	U70102UP2014PLC065987	PHELIX INFOTECH PRIVATE LIMITED
243	U70102UP2014PTC065379	RAMPAL SINGH MUKHTYAR AHMAD SOFTECH PRIVATE LIMITED
244	U70102UP2014PTC066240	ALRIK INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
245	U70102UP2014PTC066732	PIXET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
246	U70102UP2014PTC067815	ITRIUM GLOBAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
247	U70102UP2014PTC067841	SWORLITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
248	U70102UP2015PLC075282	B2M GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
249	U70102UP2015PTC068127	NIDHI DIGITALBEE PRIVATE LIMITED
250	U70102UP2015PTC068410	SNM DIGITAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
251	U70102UP2015PTC070159	RITUAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
252	U70102UP2015PTC071732	DOMAINSHAPERS (OPC) PRIVATE LIMITED
253	U70102UP2015PTC072399	TECHROUNDERS PRIVATE LIMITED
254	U70102UP2015PTC072671	SINOPIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
255	U70102UP2015PTC072816	PRAVISH BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
256	U70102UP2015PTC073919	AIM WEB TECH PRIVATE LIMITED
257	U70102UP2015PTC073994	ARJANX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
258	U70102UP2015PTC074369	SAMPRIITI INFOTECH PRIVATE LIMITED
259	U70102UP2015PTC074918	MYSTERIOUS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
260	U70102UP2016PTC075555	JINIBRAIN PRIVATE LIMITED
261	U70102UP2016PTC077376	STEIGESYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
262	U70109UP2016PTC083390	RISING STAR MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
263	U70109UP2016PTC084282	GOLDENMATCHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
264	U70109UP2016PTC088069	APNA PRODUCTION AND PRINTMEDIA PRIVATE LIMITED
265	U70200UP2017PTC095936	LALCHAND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
266	U72110UP1997PTC022096	LORDBUDDHA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
267	U72200UP2016OPC082952	HP MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
268	U72200UP2016PTC083645	JET STAR TRAINING INSTITUTE OF MERCHANT NAVY PRIVATE LIMITED
269	U72300UP2006PTC031201	SAMRIDHI FILM CO PRIVATE LIMITED
270	U72300UP2012PTC051112	SANTINO BOOKS SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
271	U72300UP2012PTC051905	SEEMYINDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
272	U72300UP2013PTC058625	NEXT ORBIT VENTURES PRIVATE LIMITED
273	U72300UP2013PTC059849	AQSA TOBACCO PRIVATE LIMITED
274	U72300UP2014PTC065272	MBSC PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
275	U72300UP2014PTC065763	SUPER BIOFRESH PRIVATE LIMITED
276	U72300UP2014PTC066533	3MB FOODS PRIVATE LIMITED
277	U72300UP2014PTC066609	TURBOTEK INDIA PRIVATE LIMITED
278	U72300UP2014PTC066905	SOCIAL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
279	U72300UP2015PTC068776	GYNEOLIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
280	U72300UP2015PTC069726	TIARA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (OPC)
281	U74120UP2015OPC071312	NARAYANSINGH SECURITY SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
282	U74120UP2015PTC068543	TROLL INDIA MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
283	U74120UP2015PTC068748	VIJAYALAXMI CEMENT PRIVATE LIMITED
284	U74120UP2015PTC068956	KAPIZ PRECAST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
285	U74120UP2015PTC068964	MANIBHUSHAN GEMS AND JEWELS PRIVATE LIMITED
286	U74120UP2015PTC069378	ADYASHAKTI TRADERS PRIVATE LIMITED
287	U74120UP2015PTC069581	EDLYNX PRIVATE LIMITED
288	U74120UP2015PTC069729	EDOCENT ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
289	U74120UP2015PTC070603	SALESMART SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
290	U74120UP2015PTC071298	LAVINATION E-TECH PRIVATE LIMITED
291	U74120UP2015PTC071670	GULMOHAR INCENSE INDIA PRIVATE LIMITED
292	U74120UP2015PTC071812	KHAADAR RETAIL & EXPORTS PRIVATE LIMITED
293	U74120UP2015PTC072525	ARU ADVENTURES PRIVATE LIMITED
294	U74120UP2015PTC072857	REAL EARTH GEO TECH PRIVATE LIMITED
295	U74120UP2015PTC075288	ADAD FINVEST CONSULTANT PRIVATE LIMITED
296	U74120UP2016PTC075471	ROBOSTRAT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
297	U74120UP2016PTC076139	RENEWABLE INDIA INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
298	U74120UP2016PTC076369	BALLY HOO LAB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
299	U74120UP2016PTC076697	MAXOQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
300	U74120UP2016PTC077303	MYCREST SERVICES PRIVATE LIMITED
301	U74120UP2016PTC077346	JASPER OVERSEAS PRIVATE LIMITED
302	U74140UP1989PTC010726	ENGTECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
303	U74200UP2010PTC041048	SYNERGIC GREENTECH PRIVATE LIMITED
304	U74210UP2008PTC036305	SHREE SAISHIV ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
305	U74900UP2008PTC036117	SILVER SPEAR SOLUTION & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
306	U74900UP2009PTC037983	NUMERO UNO REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
307	U74900UP2010PLC042040	BONNE FORTUNE INFRASTRUCTURE AND CONSULTANCY SERVICES LIMITE
308	U74900UP2010PTC039478	KOHINOOR VITRIFIED TILES AND CERAMICS PRIVATE LIMITED
309	U74900UP2010PTC040482	VECTOR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
310	U74900UP2010PTC041129	AAWAZ INFOTECH PRIVATE LIMITED
311	U74900UP2010PTC041789	PHYSIC LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
312	U74900UP2010PTC042833	DSA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
313	U74900UP2011PTC043318	SREE GURU TECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
314	U74900UP2011PTC046740	AAROGYA MEDILIFE PRIVATE LIMITED
315	U74900UP2013PTC058294	SUDHITH INFOTECH PRIVATE LIMITED
316	U74900UP2013PTC060381	Z LONG BIOTECH PRIVATE LIMITED
317	U74900UP2014PTC063396	EVERGREENVALLEY AGRO PRIVATE LIMITED
318	U74900UP2014PTC063397	VIDH YANTRIK ENGINEERING PRIVATE LIMITED
319	U74900UP2014PTC064131	TIMEGLOBAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
320	U74990UP2007PTC033453	MOKSH INFRATECH PRIVATE LIMITED
321	U74992UP2009PTC039101	AVADH BUSINESS PRIVATE LIMITED
322	U74992UP2010PTC040103	M. S. TECHNOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
323	U74999UP2006PTC031296	APANA VYAVASAYA NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
324	U74999UP2008PLC035506	GURU KRIPA WHEELS LIMITED
325	U74999UP2011PTC046973	ENGINEER'S INTEGRITY INDIA PRIVATE LIMITED
326	U74999UP2011PTC047236	SHRI SHOONYO JI AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
327	U74999UP2014PTC063487	INSIGMA SERVICE SOLUTION PRIVATE LIMITED
328	U74999UP2015PTC074786	LOGICS ADVANCED TECHNOLOGY (I) PRIVATE LIMITED
329	U74999UP2016OPC082867	SOLINUS TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
330	U74999UP2016OPC087961	ALLUSION EYE CARE (OPC) PRIVATE LIMITED
331	U74999UP2016PTC083166	XCELTRADERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
332	U74999UP2016PTC083169	OPEL LIGHT PRIVATE LIMITED
333	U74999UP2016PTC084064	HONNESHAS FASHION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
334	U74999UP2016PTC084147	GANGASAGAR SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
335	U74999UP2016PTC084882	PEAPOD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
336	U74999UP2016PTC085182	CRAFTMADE METALS PRIVATE LIMITED
337	U74999UP2016PTC085823	ZIPBOX LOGISTICS PRIVATE LIMITED
338	U74999UP2016PTC085965	APIA PRIVATE LIMITED
339	U74999UP2016PTC086545	EXSERVE CONSULTING PRIVATE LIMITED
340	U74999UP2016PTC086744	ATROUS DESIGNS PRIVATE LIMITED
341	U74999UP2016PTC086772	SSVC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
342	U74999UP2016PTC087258	LORD VENKATESH MANAGMENT AND MARKETING PRIVATE LIMITED
343	U74999UP2016PTC087609	ITEL COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
344	U74999UP2016PTC087647	SMARTHOME APPLIANCES AND DIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
345	U74999UP2016PTC087912	CRIO SUPPORT INDIA PRIVATE LIMITED
346	U74999UP2016PTC088702	USAB SERVICES PRIVATE LIMITED
347	U74999UP2017OPC092156	PEHLA KADAM EVENTS (OPC) PRIVATE LIMITED
348	U74999UP2017PTC091667	VRAHAT ELECTRICALS AND ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
349	U74999UP2017PTC091984	CHIMENEY HILLS FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
350	U74999UP2017PTC092105	ALVA SOLAR LIGHT PRIVATE LIMITED
351	U74999UP2017PTC093311	SRISAISAMRADDHI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
352	U74999UP2017PTC093372	SKYLINE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
353	U74999UP2017PTC093483	AADVIKA4 ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
354	U74999UP2017PTC093675	KARFTOS SERVICES PRIVATE LIMITED
355	U74999UP2017PTC094046	COURTYARD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
356	U74999UP2017PTC095322	BAGHEL WORKER'S ADDA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMIT
357	U74999UP2017PTC095630	ABHAVI VENTURES PRIVATE LIMITED
358	U74999UP2017PTC095661	MINAR OVERSEAS RECRUITMENT PRIVATE LIMITED
359	U74999UP2017PTC098188	EMERGENCE LABS PRIVATE LIMITED
360	U74999UP2018PTC103691	RF CAREER POINT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
361	U74999UP2018PTC103863	KASHINATH AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
362	U80211UP2014PTC061991	AGRV TECHNICALITOUS PRIVATE LIMITED
363	U80211UP2014PTC062738	A.P.D.I. EDUSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
364	U80904UP2012PTC050487	LEADING INSTITUTE OF PROFESSIONAL COURSES PRIVATE LIMITED
365	U80904UP2012PTC052584	BALAJI GOPAL SIR COACHING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
366	U80904UP2014PTC065110	EDDICTED ADVISORIES PRIVATE LIMITED
367	U80904UP2014PTC067343	JAGOYA EDUCATION PRIVATE LIMITED
368	U80904UP2017PTC090905	PORT EDUCATION PRIVATE LIMITED
369	U85100UP2007PTC033735	P.M MEDICAL SYSTEM & SERVICES PRIVATE LIMITED
370	U85110UP2017PTC092143	BOSKER LABS PRIVATE LIMITED
371	U85120UP2016PTC085982	ESKEVI BIOTECH PRIVATE LIMITED
372	U85191UP2010PTC040027	ABHIRAJI HOSPITALS PRIVATE LIMITED
373	U85191UP2012PTC051333	PAIN EDUCATIONAL ACADEMY (INDIA) PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN No.	Company Name
374	U85191UP2015PTC068518	SHUBHAARADHYA BIOTECH PRIVATE LIMITED
375	U85191UP2015PTC071438	UPSURGELABS HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
376	U85191UP2015PTC072533	RV COINAGE HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
377	U92100UP2014PTC061803	FIRSTSTEP PRASTAVANA MEDIA PRIVATE LIMITED
378	U92111UP2003PTC027178	VEDANT VISION PRIVATE LIMITED
379	U93000UP2013PTC060892	SATIJA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
380	U93000UP2017PTC091084	SHARP HOME CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
381	U93030UP2004PTC029355	CHARANJEET INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
382	U93030UP2011PTC045263	JETSTAR TRAINING INSTITUTE OF AERONAUTICS PRIVATE LIMITED
383	U93030UP2012PTC049071	ASTRUM SOFTECH PRIVATE LIMITED
384	U93030UP2013PTC056394	ZADON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
385	U93030UP2015OPC068922	UNNATI INDIA MULTISERVICES PRIVATE LIMITED (OPC)
386	U93030UP2015OPC069493	SAMAR (INDIA) WATER PURIFIER PRIVATE LIMITED (OPC)
387	U93030UP2015OPC070940	TERMINALAPPS SOFTWARE PRIVATE LIMITED (OPC)
388	U93030UP2015OPC071328	MPOWER VENTURES PRIVATE LIMITED (OPC)
389	U93030UP2017PTC097788	ATCI TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
390	U93090UP2007PTC032952	TREND SETTER PRODUCT CHAINS PRIVATE LIMITED
391	U93090UP2016OPC083125	INEFFABLE MAGNET PRIVATE LIMITED (OPC)
392	U93090UP2017OPC095731	SHRI DYOMI MAHAKALI MULTISERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
393	U93090UP2017PTC095549	ATMAN APPARELS PRIVATE LIMITED

SUDHIR KAPOOR
Registrar of Companies
Uttar Pradesh

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Bangalore-560034, the 26th October 2018

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :

No. ROCB/248(2)/STK-6/2018/2237 No. 01/STK -6/2018—Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of their names from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the companies are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the companies have obtained the status of dormant company, but they do not wish to continue their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
1	U74999KA2016PTC092699	TEACHSITY EDUSERVICES PRIVATE LIMITED
2	U74900KA2016PTC085476	UDAYATI VIHASTA PRIVATE LIMITED
3	U74999KA2016PTC095096	66 HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
4	U74900KA2012PTC064893	COLORSHOTS CONSULTING PRIVATE LIMITED
5	U80902KA2016PTC092595	COLLEGESNIPER PRIVATE LIMITED
6	U74120KA2012PTC067470	TEEM GLOBAL VACATIONS PRIVATE LIMITED
7	U74900KA2015PTC081910	GOBSMACKED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	U72900KA2013PTC071003	COGNIBLOOM WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	U72200KA2005PTC037597	MAGIC LAMP SOFTWARE PRIVATE LIMITED
10	U74900KA2015PTC081932	UYM CAREERS PRIVATE LIMITED
11	U74900KA2015PTC081811	UYM MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	U74999KA2016PTC096112	ERPGEEKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
13	U74900KA2013PTC069885	VEDIC VASTU INDIA PRIVATE LIMITED
14	U63013KA2008PTC044885	AIRONE CARGO PRIVATE LIMITED
15	U72200KA2012FTC064706	CONTRAIL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
16	U74900KA2013PTC072584	S.M.STAR INDIA PRIVATE LIMITED
17	U72900KA1999PTC025644	SHREENATH INFORMATION AND COMMUNICATIONS RESEARCH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
18	U70109KA2017PTC100319	SELECTIVEARTH PRIVATE LIMITED
19	U72200KA2015PTC079267	RAIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	U51909KA2016PTC093599	AVVAANT ELECTRO ENERGY PRIVATE LIMITED
21	U74900KA2013PTC067549	A.W. TRADING AND INTERIORS PRIVATE LIMITED
22	U70102KA2014PTC076345	SAMANVITA SHELTERS INDIA PRIVATE LIMITED
23	U72200KA2010PTC055766	YIDAM WEB PROJECTS PRIVATE LIMITED
24	U72200KA2017FTC102896	MILVIK TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
25	U74900KA2008PTC048139	INCREDIBLE INSPIRATIONS FINVEST PRIVATE LIMITED
26	U22210KA1975PTC002879	THE JAYA KARNATAKA NEWS PRINTERS PRIVATE LIMITED
27	U63040KA2014PTC075412	PGS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
28	U51109KA1996PTC020737	PANCHA RATHNA TRADING PRIVATE LIMITED
29	U01403KA2012PTC066300	RASDASHAN AGRO PRIVATE LIMITED
30	U72200KA2013PTC072186	PARENTHESIZE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U80300KA2009PTC050891	REDDY'S EDUCATIONAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
32	U74990KA2010PTC053236	NATONE ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
33	U26957KA1973PTC002315	SERVO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
34	U45202KA2008PTC048579	SEC PROPERTY PRIVATE LIMITED
35	U72200KA2009PTC050739	ECANDOR IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
36	U15500KA2000PTC026391	JUNIPER FOODS PRIVATE LIMITED
37	U72200KA2017PTC100681	FIDZEAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
38	U72200KA2008PTC045291	CLAY-TOKENS INFOTECK PRIVATE LIMITED
39	U72200KA2013PTC068509	PROTHOUGHT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
40	U29299KA1999PTC026129	PROTECH FABRICATION PRIVATE LIMITED
41	U74900KA2009PTC051607	DHEE TECHNO LABS PRIVATE LIMITED
42	U73200KA2013PTC070787	PCLOUD DESIGN LABS PRIVATE LIMITED
43	U02001KA1995PTC017658	CHELAVARA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
44	U72501KA2017PTC100992	EMES INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
45	U85110KA1991PTC012418	POORNIMA TILES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
46	U45205KA2016PTC085814	IMPLEMENTING THOUGHTS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
47	U29140KA2010PTC054875	STEAMMAX ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
48	U72200KA2013PTC070918	SOFTWAREBOX IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	U01118KA2007PTC043831	CELLENT BIOTECH PRIVATE LIMITED
50	U74900KA2015PTC081405	CHEKKOO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
51	U18101KA2006PTC038177	V5 FASHIONS PRIVATE LIMITED
52	U45205KA2015PTC081407	AINTREE INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
53	U72200KA2011PTC059415	FINAYANA SOFTWARE & SERVICES PRIVATE LIMITED
54	U74999KA2007PTC044745	ROBHATAH ROBOTIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	U72200KA2011PTC056545	DIGITALIEN E-CREATIONS PRIVATE LIMITED
56	U15122KA2011PTC057959	OMKAR SUGARS AND POWER PRIVATE LIMITED
57	U67000KA1995PTC019321	MADHUMILAN FINVEST PRIVATE LIMITED
58	U40101KA2006PTC038494	SHAKUNTALAM POWER PRIVATE LIMITED
59	U72900KA2015PTC079307	TRAPOT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
60	U74900KA2014PTC077514	SEWAONDEMAND SERVICES PRIVATE LIMITED
61	U85110KA1996PLC019620	KALYANI HABITAT LIMITED
62	U85110KA1996PLC019624	KALYANI HIGHWAY DEVELOPERS LIMITED
63	U51909KA2017PTC100870	ARCHITA GLOBAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
64	U85110KA1997PTC022082	VISHNU HOSPITALS PRIVATE LIMITED
65	U67120KA2008PTC048734	K NARAYANA STOCKS AND SHARES PRIVATE LIMITED
66	U72200KA2014PTC077792	INSTASHOPPE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
67	U72400KA2007PTC043808	NGENIA LABS PRIVATE LIMITED
68	U72400KA2014PTC076483	GLYDEL TECH PRIVATE LIMITED
69	U63040KA2012PTC063678	MY HOLIDAYS MY WAY PRIVATE LIMITED
70	U74900KA2012PTC062574	GREENFIN IMPEX TRADING PRIVATE LIMITED
71	U45200KA2012PTC064253	MAKERSBEST BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
72	U74140KA2014PTC073066	AVIGHNA CREATIVES INDIA PRIVATE LIMITED
73	U93090KA2017PTC100998	VALTECH CONSULTING PRIVATE LIMITED
74	U63022KA1971PTC002043	BINAGA ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
75	U72200KA2015PTC081415	ALTIORE DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
76	U45200KA2015PTC084990	PLATINUMFEATHERS INFRAA PRIVATE LIMITED
77	U74999KA2017PTC101962	QLYTIX INDIA PRIVATE LIMITED
78	U70100KA2014PTC076285	PROPMONK REALTY PRIVATE LIMITED
79	U72200KA2015PTC078196	NEOBORG TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
80	U45309KA2016PTC092750	BHARAT PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
81	U72200KA2003PTC031971	CLOUD 9 HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
82	U72200KA2012PTC064343	EDZILLA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
83	U72200KA2015PTC081226	QREATIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
84	U45200KA2014PTC074617	ARYA TEJAS DEVELOPERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED
85	U22300KA2005PTC036188	SCRIPT AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
86	U74900KA2014OPC076063	G-MARTECH TECHNICAL CONSULTANCIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
87	U26933KA2013PTC068612	SUNFA PIERRA PRIVATE LIMITED
88	U02001KA2008PTC046113	YAMINI AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
89	U73100KA2012FTC067065	NOVEL CLINICAL RESEARCH (INDIA) PRIVATE LIMITED
90	U74140KA2005PTC037485	ACCUDOT CONSULTING PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
91	U72200KA2015PTC083098	ARTHAAURA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
92	U01010KA2005PTC035816	TRANSIT SURVEYS PRIVATE LIMITED
93	U24248KA2007PTC043115	FLORIBUNDA FRAGRANCES PRIVATE LIMITED
94	U80903KA2008PTC047771	COLLEGE FOR LANGUAGE AND VOCATIONAL TRAINING PRIVATE LIMITED
95	U45205KA2014PTC076422	RISHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
96	U72200KA2013PTC069571	SAAKSHIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
97	U74900KA2011PTC058320	SIRI LAXMI PROCESSING COMPANY PRIVATE LIMITED
98	U74999KA2016PTC096546	METRICSWIKI PRIVATE LIMITED
99	U72900KA2016PTC092303	MEETURITE PRIVATE LIMITED
100	U17221KA2009PTC050252	DODDABALAPUR INTEGRATED TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED
101	U72200KA2014PTC074623	FAIRKET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
102	U72900KA2015PTC083513	HONKNBID TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
103	U45205KA2016PTC087110	TEAMASAP PROJECT MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
104	U74900KA2014OPC075147	BHAVANI E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
105	U74999KA2016PTC096879	UNIC LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
106	U70102KA2007PTC043938	LIMITLESS PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
107	U72200KA2013PTC068039	ONEPOWER CLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED
108	U51109KA2013PTC072261	SYSSTRA WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
109	U14101KA2000PLC027947	ROCKLINES NATURE STORE LIMITED
110	U52100KA2012PTC065979	C2B JEWELS RETAIL PRIVATE LIMITED
111	U74900KA2016PTC087062	ROLLINGREEL STUDIOS PRIVATE LIMITED
112	U85120KA2010PTC053792	PRANAMA PLEXUS PRIVATE LIMITED
113	U72900KA1988PTC009476	BRINDAVAN SOFTLAND PRIVATE LIMITED
114	U55101KA1999PTC025174	ZAINAB FATIMA FAST FOODS PRIVATE LIMITED
115	U72200KA2016OPC086056	BRIDALEGE SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
116	U65992KA2006PTC039138	SHRI AUSTLAXMI CHITS PRIVATE LIMITED
117	U72200KA2013PTC071312	LOTUS SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED
118	U67100KA2017PTC108469	TCEJORP A&B FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
119	U67190KA2006PTC040429	PCR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
120	U74999KA2016PTC092845	MAGNET SPORTS PRIVATE LIMITED
121	U74900KA2015PTC084496	D FABSTOREY PRIVATE LIMITED
122	U74900KA2015PTC080496	MUDTREE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
123	U74900KA2016OPC086926	INTEGRATED BIZCORP (OPC) PRIVATE LIMITED
124	U45202KA2014PTC076263	SAI SIRI VENTURES D-INDIA PRIVATE LIMITED
125	U64200KA2014PTC074835	ENERGREEN DAS NETWORKS PRIVATE LIMITED
126	U72200KA2011PTC056660	HAVYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
127	U80904KA2009PTC049580	SUCCESSNEXT LIFE ACADEMY PRIVATE LIMITED
128	U70101KA2005PTC037106	PRAKRUTHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
129	U72900KA2016PTC092519	MATHRU IT SERVICES PRIVATE LIMITED
130	U72200KA2013PTC072613	BHAVYAM INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
131	U45400KA2013PTC070226	4WAYSQUARE DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
132	U74900KA2015PTC081432	S V FORTUNERS INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
133	U74999KA2016PTC097122	ETZ INDIA PRIVATE LIMITED
134	U72200KA2013FTC069482	INTALIO SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
135	U72200KA2014PTC074793	FILLGOOD SYSTEMS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
136	U24119KA1986PTC008008	E.P. LABS PRIVATE LIMITED
137	U74999KA2016OPC094899	SPACIA INTERIAA (OPC) PRIVATE LIMITED
138	U72400KA2014PTC074578	ELEVENTY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
139	U18101KA2003PTC032845	N.NARASAPPA TEXTILE INDIA PRIVATE LIMITED
140	U63090KA2010PTC052212	MILLENIUM PARKING (INDIA) PRIVATE LIMITED
141	U72200KA2012PTC066285	ETASHA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
142	U74999KA2016PTC092516	NAM ALUMINUM EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
143	U22130KA2013PTC070854	MOBCIRCLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
144	U72200KA2006PTC040577	OPEN COUNTRY TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
145	U51109KA2014PTC077461	SPOORTHY HERBALS PRIVATE LIMITED
146	U72900KA2009PTC050122	BONIDEA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
147	U21023KA2015PTC078390	VITHOBHA CARTONS PRIVATE LIMITED
148	U72200KA2015PTC083622	ZOCKET SOFTWARE LABS PRIVATE LIMITED
149	U72200KA2008PTC047402	3G LABS INDIA PRIVATE LIMITED
150	U60200KA2013PTC071571	DACOTRANS SOUTHERN INDIA PRIVATE LIMITED
151	U60231KA2008PTC047730	KARTHIKEYAS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
152	U14200KA2008PTC048144	SANDUR MINERALS & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
153	U72200KA2010PTC055248	ULTISOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
154	U24232KA2014PTC076002	MEDCORE PHARMA PRIVATE LIMITED
155	U74900KA2013PTC067865	KALMESHWAR BUSINESS SOLUTION PRIVATE LIMITED
156	U92412KA2010PTC054481	GALT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
157	U99999KA1994PTC016074	VINAYAKA STOCKS PRIVATE LIMITED
158	U72900KA2011PTC061142	CLOUDSPAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
159	U72900KA2007PTC042322	WILLIAMS CHEESMAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
160	U74900KA2015PTC084938	PANOMICS DIAGNOSTICS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
161	U14292KA2012PTC066473	SHREE SALASAR GRANITES (INDIA) PRIVATE LIMITED
162	U17222KA2010PTC055958	SCARLET CLOTHING PRIVATE LIMITED
163	U74999KA2016PTC093040	E-MEDDOC HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
164	U80301KA2012FTC064572	GKTI INDIA PRIVATE LIMITED
165	U29248KA2016PTC086304	AVAGAMA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
166	U72200KA2013PTC072478	NISAKI TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
167	U72900KA2016PTC097875	BRIDGEBIZ NETWORKS PRIVATE LIMITED
168	U72900KA2017PTC100905	TYCHOON SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
169	U26949KA2007PTC043594	JR NONWOVENS AND WATERPROOFING PRIVATE LIMITED
170	U29244KA2014PTC076315	CASE WERKZ INDIA PRIVATE LIMITED
171	U67120KA1995PTC019303	SWARNA PUSHP FINLEASE PRIVATE LIMITED
172	U72200KA2009PTC050628	IBSI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
173	U74900KA2015PTC084927	CLOUD WATER PURIFICATIONS PRIVATE LIMITED
174	U30007KA1994PTC015669	CPD COMPUTER PERIPHERALS DEVICES PRIVATE LIMITED
175	U74900KA2014PTC077875	AKA BUSINESS PROCESS PRIVATE LIMITED
176	U01407KA2015PTC079788	PRATYAGRA FARMS PRIVATE LIMITED
177	U72200KA2012PTC062176	ISOMETRIC TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
178	U15122KA2015PTC083312	FOODSTER KITCHEN PRIVATE LIMITED
179	U74900KA2015PTC080879	AKSIM MEP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
180	U80211KA2001PTC029076	GENIE KIDS LEARNING RESOURCES PRIVATE LIMITED
181	U01130KA2011PTC060370	SOCIETE AGRO COMMODITIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
182	U72200KA2015PTC082601	CELEBRATE MUCOMMERCE PRIVATE LIMITED
183	U45200KA2007PTC044157	MATHRUSHREE PROMOTERS PRIVATE LIMITED
184	U85120KA2008PTC045166	GUARDIAN MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
185	U74110KA2007PTC043443	CN PROFESSIONAL & LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED
186	U27101KA2012PTC064261	ARRIGO STEEL INDIA PRIVATE LIMITED
187	U74999KA2017PTC106685	CETO TECHNOCRATS BEVERAGES PRIVATE LIMITED
188	U73100KA2003PTC033091	BIOVEL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
189	U74900KA2015PTC078087	IDROPAN WATER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
190	U45205KA2015PTC080133	KORATH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
191	U72200KA2012PTC065430	ASTERIKS DIGITAL PRIVATE LIMITED
192	U17214KA2014OPC075562	BIZUALYTICS INFOTECH PRIVATE LIMITED (OPC)
193	U80301KA2012PTC066272	GENIUS BRAINS EDUCARE INDIA PRIVATE LIMITED
194	U74999KA2017OPC106470	DANCITUDE FITNESS SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
195	U45205KA2014PTC075549	BVL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
196	U45205KA2014PTC075565	BVL VILLAS PRIVATE LIMITED
197	U72200KA2012PTC065806	NEXT TALENT TRAINERS PRIVATE LIMITED
198	U15209KA2017PTC101460	MANGALORE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
199	U28999KA2017PTC108247	MANGALORE METALLIX PRIVATE LIMITED
200	U35113KA2014PTC077113	VELOCE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
201	U74999KA2016PTC093515	EKAA GENSET PRIVATE LIMITED
202	U72200KA2004PTC034473	ADPS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
203	U72300KA2010PTC054456	BIDSTALK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
204	U72200KA2011PTC060239	3S INNOVATION AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
205	U70101KA1999PTC024864	DUROFLEX PROPERTIES PRIVATE LIMITED
206	U22190KA2012PTC065620	TALLURS IMPRESS MEDIA PRIVATE LIMITED
207	U74999KA2016PTC097910	PRIMERO TEACHER-INTERFACE PRIVATE LIMITED
208	U72200KA2016PTC095276	AGR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
209	U74999KA2017PTC103589	NITERS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
210	U74900KA2014FTC076332	BRIDGEPARK TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
211	U24100KA2010PTC054068	GREENTON ECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
212	U40104KA2014PTC077583	JUST POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED
213	U74900KA2009FTC051447	VIANZA SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
214	U72300KA2014PTC074608	LOOKKNOW TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
215	U74900KA2015PTC082638	KENA FOOD AND WELLNESS PRIVATE LIMITED
216	U72200KA2015PTC082949	PROANS TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED
217	U72900KA2010PTC055925	PROBENCHMARK OUTSOURCING SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
218	U45201KA1994PTC015891	NAVRAS HEAVY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
219	U72200KA2015PTC081617	LEBOOM SOFTTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
220	U74999KA2010PTC052972	GASTRO TECH PRIVATE LIMITED
221	U74999KA2016PTC094569	ALLOCATE SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
222	U52590KA2015OPC078425	GLAERA TRENDS PRIVATE LIMITED (OPC)
223	U05190KA2005PTC035630	AKSHAYA LABELS PRIVATE LIMITED
224	U18101KA2015OPC080834	STHAVI DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED (OPC)
225	U24232KA2015PTC078697	GLOBIOSAGE PHARMA PRIVATE LIMITED
226	U74140KA2015PTC079716	NASH CAPITAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
227	U51909KA1995PTC018794	MAKWEL AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
228	U67100KA2014PTC073882	S2S FUND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
229	U52590KA2015PTC078902	CIRKA INFOTECH PRIVATE LIMITED
230	U13201KA2014PTC077769	ANJANADRI MINERALS PRIVATE LIMITED
231	U72200KA2011PTC060582	JAGRAT TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
232	U72200KA2013PTC071331	ARERA INFOTECH PRIVATE LIMITED
233	U80301KA2012PTC064804	ALFA ACADEMY PRIVATE LIMITED
234	U74140KA2008FTC046349	KNOURA TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
235	U18101KA2013PTC069313	CAHOOTS GARMENTS PRIVATE LIMITED
236	U65999KA2009PTC050488	NPO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
237	U72900KA2012PTC066356	SRI CHAKRINEE SOFTEK PRIVATE LIMITED
238	U60200KA2014PTC074784	NIDO RELOCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
239	U51909KA2016PTC094537	HI HUES PRIVATE LIMITED
240	U70100KA2015PTC080889	EEVEE LAND VENTURES PRIVATE LIMITED
241	U40106KA2016PTC098823	GREENFINCH ENERGY PRIVATE LIMITED
242	U72200KA2012PTC062676	STAMP COMPUTERS PRIVATE LIMITED
243	U51900KA2013PTC069774	YAPSHA MULTITRADE PRIVATE LIMITED
244	U40109KA2009PTC050997	MILLENIUM SYNERGY (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED
245	U80300KA2014PTC073834	WISH EDUCATIONAL PRODUCTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
246	U51909KA2008PTC045232	SILICON HIVE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
247	U52100KA2010PTC054862	HYPERION GREEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
248	U72200KA2012PTC064687	ZINGCHAK SERVICES PRIVATE LIMITED
249	U01711KA2005PTC036915	BOSSA NOVA TEX PRIVATE LIMITED
250	U45400KA2014PTC076526	SANKESHWARA ASSETS PRIVATE LIMITED
251	U74900KA2015PTC081602	DIGILEAN MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
252	U74999KA2016PTC097770	VBRANDO DIGITAL MARKETING PRIVATE LIMITED
253	U74900KA2016PTC085243	ORB8 BUSINESS INCUBATION PRIVATE LIMITED
254	U29112KA2001PTC029713	AIRCRAFT BRAKE PADS PRIVATE LIMITED
255	U74900KA2015OPC083883	SWASHBUCKLER VENTURES INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
256	U72200KA2010PTC053199	ASTU INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
257	U74900KA2014PTC074677	CIGNET SECURITY SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
258	U72501KA2016PTC097630	BUBBLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
259	U63030KA2016PLC094333	AQUATRANS SHIPPING LIMITED
260	U65993KA1996PTC021034	CALIFORNIA INVESTMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED
261	U74999KA2016PTC098584	SPRINGALD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
262	U72900KA2011PTC061117	KIRAZZ TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
263	U15490KA2010PTC054199	DELIGHTO FOODS PRIVATE LIMITED
264	U74999KA2009PTC050254	TRANSWELT LANGUAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
265	U74900KA2014PTC075304	KINGS & PRINCE TRAINING ACADEMY PRIVATE LIMITED
266	U74999KA2011PTC061528	J & J INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED
267	U72200KA2011FTC059293	TFO MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
268	U92400KA2015PTC083326	XRT FITNESS PRIVATE LIMITED
269	U74900KA2015PTC084297	SUMVID ONLINE INTERACTIVE PRIVATE LIMITED
270	U51909KA2013PTC070582	BIO-INDIA PHARMA MARKETING PRIVATE LIMITED
271	U01810KA2008PLC047596	ELTEKON APPARELS LIMITED
272	U74140KA2004PTC033697	INSTORE DESIGN (INDIA) PRIVATE LIMITED
273	U74994KA2006PTC039717	SPACE FIT (INDIA) PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
274	U45201KA2008PTC046657	EMAAN ESTATES & PROPERTIES PRIVATE LIMITED
275	U65993KA2008PTC048647	ANANTA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
276	U45209KA2015PTC079562	RIVERA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
277	U74900KA2016PTC085201	OM SWASTHOBHAVA INSTITUTE PRIVATE LIMITED
278	U72901KA2016PTC094997	SYNIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
279	U85110KA2015PTC079928	PLAKSA HOSPITAL PRIVATE LIMITED
280	U74900KA2013PTC067696	CANIN BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
281	U72200KA2015PTC084099	CAMEOMATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
282	U45205KA2013PTC072374	UNIVA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
283	U72900KA2011PTC059542	LUNSYS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
284	U31401KA2016PTC086651	NUEVO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
285	U15209KA2011PTC060240	CURRY SPRIG FOODS PRIVATE LIMITED
286	U74200KA2008PTC047986	SHANK CONTRACTS & ENGINEERING PRIVATE LIMITED
287	U70100KA2015PTC081419	S K P CIVIL TECH PRIVATE LIMITED
288	U67110KA2013PTC068873	L G & S CAPITAL PRIVATE LIMITED
289	U74994KA2006PTC040105	STYLE FX (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
290	U74900KA2015PTC079813	OFFISPAZZIO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
291	U72200KA2009PTC050168	ALTHEA SYSTEMS & SOFTWARE PRIVATE LIMITED
292	U74900KA2014PTC075828	4TEMPS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
293	U72900KA2016OPC096820	DATAMATRIX SYSTEMS (OPC) PRIVATE LIMITED
294	U36991KA2013PTC071297	RED JASPER RETAIL PRIVATE LIMITED
295	U45200KA2011PTC060765	PRAGATHI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
296	U74999KA2016PTC095607	NISHTA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
297	U74900KA2015PTC078795	ZONE RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
298	U45203KA2005PTC036107	NITESH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
299	U85191KA2015PTC078916	WANAKA HEALTH CARE & RESEARCH PRIVATE LIMITED
300	U85110KA2007PTC044021	INSTITUT D'EXPERTISE CLINIQUE INDIA PRIVATE LIMITED
301	U72200KA2014PTC077400	ZIDIO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
302	U74900KA2014PTC077095	SQUAREBUZZ APPS PRIVATE LIMITED
303	U63090KA2012PTC067212	LES VOYAGES TRAVEL EXPERIENCES PRIVATE LIMITED
304	U24100KA2013PTC070297	BLUE WHALE BIOLOGICALS PRIVATE LIMITED
305	U74900KA2013PTC071798	SHOPTREE ONLINE RETAIL PRIVATE LIMITED
306	U74900KA2013PTC069898	NPG ANALYTICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
307	U74140KA2012PTC062208	MARBEL STRATEGIC CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
308	U72200KA2007PTC042656	PLAKSHA INNOVATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
309	U70109KA2016PTC096006	TAO VENTURES PRIVATE LIMITED
310	U74210KA1999PTC042119	ANKIT FORGINGS PRIVATE LIMITED
311	U32208KA1994PTC016078	PROLINE POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
312	U72200KA2008PTC048115	E-MARGA TECHNOLOGY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
313	U72200KA2010PTC052357	ENTELEKI TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
314	U74900KA2013PTC071316	KARAASHILP CREATIONS PRIVATE LIMITED
315	U72300KA2012PTC065927	PRASHASTE TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
316	U92140KA2014PTC076484	EPICURUS EVENT PRIVATE LIMITED
317	U72900KA2016PTC098404	GRAPHITI XYZ INDIA PRIVATE LIMITED
318	U14200KA2014PTC076920	SIDHIVINAYAK EARTHGEO SERVICES PRIVATE LIMITED
319	U72200KA2015PTC082941	WEBILIZE SOFTWARE DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
320	U74999KA2016PTC095154	GALIUM RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
321	U55102KA1990PTC011177	SUMIDITYA HOTELS PRIVATE LIMITED
322	U73100KA2010PTC054379	ABAX PHARM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
323	U80903KA2009PTC049506	SSQUARE TRAINING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
324	U74140KA2002PTC030130	FLORAISON INDIA COMPLIANCES PRIVATE LIMITED
325	U72200KA2013PTC071641	ULTAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
326	U29299KA2005PTC036047	TBX RESOURCES AND PRODUCTS PRIVATE LIMITED
327	U85110KA1997PTC021894	B.S.M CHITS PRIVATE LIMITED
328	U72200KA2013PTC072183	INGRAPHER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
329	U52590KA2015PTC082211	FOXES DESIGNS PRIVATE LIMITED
330	U72900KA2016PTC094459	DOMINANCE INTERNET PRIVATE LIMITED
331	U72900KA2014PTC074566	INTRAMART INDIA PRIVATE LIMITED
332	U36912KA2010PTC053818	INNOVATIVE THOUGHT WORKS PRIVATE LIMITED
333	U36990KA2013PTC072323	HITECH ANODES PRIVATE LIMITED
334	U72200KA2013PTC069388	BHAVITVA DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
335	U52390KA2014PTC073336	PRICECO RETAIL PRIVATE LIMITED
336	U22120KA2009PTC051889	X8MENT MEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
337	U52100KA2016PTC086053	DUFFL FASHION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
338	U74900KA2015PTC084606	COMPARE LAB PRIVATE LIMITED
339	U74900KA2015PTC078174	SHEA TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
340	U63040KA2015PTC083462	SHSF LOGISTICS OPTIMIZATION VENTURES PRIVATE LIMITED
341	U72900KA2016PTC092372	ZANMI DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
342	U93090KA2013PTC071692	ARION LAW SERVICES PRIVATE LIMITED
343	U72900KA2015PTC084732	FLYING WHEEL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
344	U72200KA2014PTC076963	ANJANA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
345	U72900KA2004PTC035062	AMATRA INFOTECH PRIVATE LIMITED
346	U18105KA2016PTC093473	BLUMARK FASHION PRIVATE LIMITED
347	U18109KA2016PTC093529	EVOLVEE APPARELS PRIVATE LIMITED
348	U72200KA2014PTC075670	KEMPAMI SYSTEMS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
349	U45201KA2007PTC043321	ROSEMONT REALTY PRIVATE LIMITED
350	U72900KA2003PTC031775	TARTAN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
351	U72200KA2013PTC070867	TIKSHARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
352	U67190KA2008PTC045259	RAJIVM FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
353	U74300KA2008PTC047490	ADJUG MEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
354	U85110KA2004PTC034720	SWASTIK GENERAL AND HEALTH CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
355	U72200KA2015OPC081084	DENEBSKY MOBILES PRIVATE LIMITED (OPC)
356	U74300KA1993PTC014502	FACHLEUTE TRADING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
357	U52300KA2011PTC060421	PIQ-A-WAGON.COM PRIVATE LIMITED
358	U72200KA2011PTC060553	PROAPPSYS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
359	U55101KA2011PTC060364	NANDHANA BUDGET HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
360	U55101KA2012PTC061971	NANDHANA HOTELS PRIVATE LIMITED
361	U55101KA2007PTC042464	SREE NANDINI PALACE HOTELS PRIVATE LIMITED
362	U65910KA1982PTC004999	PREMIER SOFTEK INDIA PRIVATE LIMITED
363	U74900KA2014PTC077535	HAWK EYE CCTV PRIVATE LIMITED
364	U85110KA2000PTC028217	HAWKEYE INSTITUTE FOR BETTER VISION PRIVATE LIMITED
365	U74999KA2017PTC105435	PEPPA VENTURES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
366	U72200KA2012PTC066954	ADITIAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
367	U72200KA2013PTC071630	ISEEDEA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
368	U22219KA2013PTC069699	JUGGLER & KEEPER MEDIA PRIVATE LIMITED
369	U73100KA2012PTC066906	INNOVATIVE SUN TECH PRIVATE LIMITED
370	U72200KA2005PTC037731	INSIGHT TECHNOLOGY PARTNERS PRIVATE LIMITED
371	U74900KA2015PTC078534	PARISKQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
372	U51109KA2014PTC076540	WORKPLACE FURNITURE PRIVATE LIMITED
373	U74920KA2012PTC065819	CANNEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
374	U36999KA2011PTC059792	ADITHI HARNESS AND ALLIED ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
375	U55101KA2012PTC064396	SOSSEGO HOSPITALITY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
376	U80301KA2013PTC072304	SKILLTIPLY LEARNING PRIVATE LIMITED
377	U20101KA1976PTC003020	INDIAN WOODS AND MOULDINGS PRIVATE LIMITED
378	U72200KA2014OPC074843	FEBITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
379	U21000KA2012PTC065224	PRISM PAPER PRIVATE LIMITED
380	U72900KA2005PTC036363	SKILLPROFILER ANALYTICS PRIVATE LIMITED
381	U72200KA2011PTC058436	SHESTRA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
382	U31100KA2015PTC082529	EAZYRIDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
383	U74999KA2016PTC094289	KRL CONSULTING PRIVATE LIMITED
384	U00093KA1993PTC015040	MYSORE MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED
385	U74140KA2003PTC032021	CIVIL SOCIETY INFORMATION EXCHANGE PRIVATE LIMITED
386	U72200KA2002PTC031106	SOFTPRO SOFTWARE PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
387	U52590KA2012PTC061964	TRICA RETAIL VENTURES PRIVATE LIMITED
388	U85190KA2013PTC068317	SUNETRA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
389	U72200KA2011PTC057391	ATTRIBO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
390	U72200KA2008PTC047790	MIDDLEWARE CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED
391	U34106KA2007PTC041607	ASHOK KHENY MOTORS PRIVATE LIMITED
392	U52339KA2007PTC044416	EUROBASE EXIM PRIVATE LIMITED
393	U74999KA2016PTC097150	OMICORN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
394	U85100KA2008PTC045872	SAI RANGA HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
395	U74900KA2014PTC077257	GETBETTER SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
396	U52590KA2015PTC078904	WOODSHRIKE RETAIL PRIVATE LIMITED
397	U72400KA2011PTC056882	REVVU CLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED
398	U92190KA2015PTC079816	SPARSE ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
399	U85110KA1997PTC021679	6S EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
400	U24239KA2008PTC046320	DHAM HI PHARMA PRIVATE LIMITED
401	U74900KA2015PTC084894	LYPHOSIS BIOTECH PRIVATE LIMITED
402	U51909KA1995PTC018300	ASWATI PROJECTS PRIVATE LIMITED
403	U72900KA2016PTC093846	CETIRI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
404	U72200KA2014PTC073937	IYANTRAM SOFTSYSTEMS PRIVATE LIMITED
405	U74999KA2017PTC098973	HUSK GREEN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
406	U72300KA2010PTC054334	IMANAGE TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
407	U93000KA2012PTC066944	DIGLYWOOD ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
408	U70101KA2009PTC050882	VIOLET OCTOBER ENGINEERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
409	U72200KA2015PTC081988	VIKAN INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
410	U51909KA2015PTC083503	EDWARDIAN FASHION PRIVATE LIMITED
411	U45205KA2013PTC072415	WHITELINES DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
412	U72200KA2013PTC071415	ETHNOTECH IT AND HARDWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
413	U85100KA2010PTC054750	MARIGOLD MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
414	U74900KA2015PTC082586	PROTEOS LABS PRIVATE LIMITED
415	U35301KA2012PTC066719	YANTRA MRO AND AVIATION SERVICES PRIVATE LIMITED
416	U74999KA2017OPC102585	J&K TRIP MAKERS (OPC) PRIVATE LIMITED
417	U70200KA2016OPC094828	JUSTCOMMERCIAL.IN PRIVATE LIMITED (OPC)
418	U80301KA2010PTC052448	KAUTILYA VIDYALAYA PRIVATE LIMITED
419	U29307KA2009PTC050551	GLOBAL METTLE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
420	U74999KA2017PTC101963	SEICHO SEEDS PRIVATE LIMITED
421	U74140KA2015PTC080785	BCAPITALFINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
422	U74900KA2015PTC081379	BEECAPITALS FOREX TRADING PRIVATE LIMITED
423	U13205KA2015OPC078461	TRAPEZA BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED (OPC)
424	U74900KA2008PLC045740	VOLUNTAS FOOD PARKS (INDIA) LIMITED
425	U13100KA1981PTC004509	VISHAL MINERALS PRIVATE LIMITED
426	U72400KA2008PTC048086	VERTICAL LEARNING CONSULTANTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
427	U45202KA1993PTC014015	GUDAGUNTI PROJECTS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
428	U85110KA2000PLC027819	ACROPETAL ANIMEDIA LIMITED
429	U74999KA2013PTC068558	KAYAKA MEDIA PRIVATE LIMITED
430	U55101KA2012PTC067268	ARIANNA FNB PRIVATE LIMITED
431	U65991KA1992PTC013333	HIGH POINT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
432	U45203KA2015PLC082367	GRASSROOTIN INFRA ENERGY LIMITED
433	U11100KA2012PTC063712	GREEN POLYMER ENERGIES PRIVATE LIMITED
434	U74900KA2011PTC057694	SPONSORSHIP MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED
435	U85110KA2013PTC070019	LUMITIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
436	U51399KA2003PTC033046	NAVAGEN MARKETING PRIVATE LIMITED
437	U72900KA2017PTC102817	KARTIFY LABS PRIVATE LIMITED
438	U51505KA2003PTC032006	SYRATRON TRADE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
439	U74999KA2017PTC099360	EVLOGIA PRIVATE LIMITED
440	U72300KA2004PTC033628	TALENTSERV SERVICES PRIVATE LIMITED
441	U74999KA2016PTC098697	CQT INDIA PRIVATE LIMITED
442	U92490KA1994PTC016204	ANNLEELA COMMUNICATIONS PVT LTD
443	U29308KA2013PTC072730	MACROSE INFRA INDIA PRIVATE LIMITED
444	U70102KA2007PTC043965	NIVIS HOLDING PRIVATE LIMITED
445	U80302KA2000PTC028291	INDIAN SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
446	U01403KA2015PTC083889	ICF AGRITECH PRIVATE LIMITED
447	U70109KA2007PTC041766	FEATHERLITE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
448	U36103KA2011PTC058733	MARMON FEATHERLITE RETAIL FIXTURES PRIVATE LIMITED
449	U72400KA2000PTC028049	SAMW TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
450	U72200KA2000PTC026787	TARGET BUSINESS PARK PRIVATE LIMITED
451	U74994KA2005PTC036155	VELLAL INTERARC PRIVATE LIMITED
452	U74900KA2014PTC075579	DEALYOURSELF INTERNET PRIVATE LIMITED
453	U74900KA2015PTC084949	CLINEKART SUPPLIES PRIVATE LIMITED
454	U72200KA2007PTC042672	TELEBASE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
455	U85110KA2005PTC037134	KADAMBI SUPERGAMMA CANCERCARE PRIVATE LIMITED
456	U72200KA2012PTC065850	ROYALE CHEESE PRIVATE LIMITED
457	U72200KA2015PTC082081	OORJIT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN NO.	COMPANY NAME
458	U72900KA2017OPC100892	CEYON TECH (OPC) PRIVATE LIMITED
459	U29120KA2007PTC043530	REMOTE CONTROL MICROFINISH ACTUATORS PRIVATE LIMITED
460	U55101KA2010PTC055502	WINFINITY HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
461	U01549KA1984PTC006438	ASS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
462	U72200KA2015PTC078993	PEOPLEBRIDGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
463	U93090KA2014OPC076602	ZSQUARES SIGNATURE EVENTS PRIVATE LIMITED (OPC)
464	U85110KA1991PLC012654	CHEMBRA ORCHARD PRODUCE LIMITED
465	U74900KA2014OPC076780	BRICOLE CONSULTING PRIVATE LIMITED (OPC)
466	U92410KA2015PTC080491	RSP SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
467	U74900KA2016PTC086922	SPRITZ FINE FOOD PRIVATE LIMITED
468	U74900KA2015PTC079577	PURPLEPATH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
469	U15400KA2010PTC054233	PACE AGROTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
470	U01300KA2010PTC054249	PACE ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
471	U72300KA2011PTC058609	PRAGMATIC CYBERNETIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
472	U74900KA2010PTC054681	GYAN MANTRA MARKETING PRIVATE LIMITED
473	U32107KA2008PTC047346	CYBERNETIC RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED
474	U26990KA2013PTC068998	KARIZMA TILES PRIVATE LIMITED
475	U72900KA2016PTC095260	HELLOTAPS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
476	U31909KA1993PTC014235	DEVI MOVING SPARES PRIVATE LIMITED
477	U31907KA2007PTC043305	PROTECT BHARAT SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
478	U72200KA2006PTC038503	METRICA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
479	U72200KA2016PTC085095	BEEZER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
480	U65100KA2008PTC045405	VIVIENDA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
481	U74900KA2013PTC069235	TP&S MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
482	U45205KA2013PTC072041	MAA SAFE RESIDENCE INDIA PRIVATE LIMITED
483	U31909KA2007PTC043671	MANTHAN SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED
484	U72200KA2007PTC044586	TRC INFOTEK PRIVATE LIMITED
485	U45202KA2013PTC068198	CATALYST AFFORDABLE HOUSING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
486	U29248KA2015PTC082115	PRO-SERVE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
487	U72900KA2009PTC051069	MED TAARA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
488	U45202KA2009PTC049105	MNG CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
489	U74900KA2015PTC078535	NUKLEO HANDYMAN SERVICES PRIVATE LIMITED
490	U72200KA2014PTC073974	PROCESCOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
491	U25200KA2013PTC072367	MAINI PLASTICS AND AUTOCOMPONENTS PRIVATE LIMITED
492	U40109KA2012PTC064458	ILEX POWER INDIA PRIVATE LIMITED
493	U74900KA2008PTC045803	KROR EXPORTS PRIVATE LIMITED
494	U55101KA2010PTC055761	WESTWOOD HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
495	U74999KA2016PTC092592	ANITRA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
496	U72200KA2013PTC071751	JOMOSOFT CONSULTING PRIVATE LIMITED
497	U55101KA2016PTC093572	KRISHNA PARADISE PRIVATE LIMITED
498	U45205KA2011PTC059963	EMIRATES INDIA PRECAST PRIVATE LIMITED
499	U74900KA2015PTC082510	GREENSPACE FACILITIES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
500	U72200KA2016PTC085342	THINKSCALE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

C.V. SAJEEVAN
REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

FORM No. STK-5

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rule, 2016]

REFERENCE:

In the matter of the striking off names of companies under section 248(1) of the Companies Act, 2013.

Hyderabad-500068, the 2nd November 2018

No. ROC/HYDERABAD/STK-5/TABLE-I/4365.—(1) Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that:

- (i) The following companies have not commenced business within one year of their incorporation.
- (ii) The following companies in “TABLE-I” have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455.

And, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the thirty days from the date of this notice.

(2) Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

S.No.	CIN	Company Name
1	U28113AP1948PLC000011	WARRIOR(INVESTMENT)LIMITED
2	U15312AP1904PLC000014	SRI KRISHNA JUTE MILLS LTD
3	U01403AP1920PTC000039	SRI RAMANUJA GINNING AND RICE FACTORY PVT LTD
4	U16000AP1927PLC000053	SILEMANKHAN AND MEHABOOB KHAN TOBACCOS PUBLIC LTD
5	U85310AP1925PLC000054	DORNAKAL DICESSON TRUST ASSOCIATION
6	U52520AP1928PTC000058	MOTORS AND GENERAL STORES PVT LTD
7	U65110AP1929PLC000062	AGRICULTURAL AND MERCANTILE BANK OF INDIA LIMITED
8	U99999TG1982PTC000065	AARBEE PIPS AND PROFILES PVT LTD
9	U99999AP1934PLC000078	SRI RAMA SUGAR AND INDUSTRIES LTD
10	U60100AP1935PTC000080	CHITTOOR MOTOR TRANSPORT CO PVT LTD
11	U45200TG1934PLC000081	HYDERABAD CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
12	U92100AP1935PTC000086	SARASWATI TALKIES PRIVATE LIMITED
13	U99999TG1937PLC000108	INDIA FRUITS LTD.
14	U99999AP1940PLC000137	SRI SADHANA PRINTING LTD
15	U99999AP1940PTC000144	NITYAKALYANI SYNDICATE PRIVATE LIMITED
16	U99999AP1940PTC000145	UNIVERSAL MICA CO PVT LTD
17	U99999TG1941PTC000160	JAYANTHI RAMA CHANDRAPPA SETTY MILLS PVT LTD
18	U60100AP1941PTC000166	HINDUSTAN COMMERCIAL AND TRANSPORT CO PVT LTD
19	U01401AP1942PTC000174	GONASAPUDI LIFT IRRIGATION CO PVT LTD
20	U24219AP1942PTC000182	HINDUSTAN FERTILISERS AND BONE MILLS PVT LTD
21	U52520AP1943PTC000189	ATTILI DAYALBAG STORES PVT LTD
22	U52520AP1943PTC000193	PETA DAYALBAGH STORES PVT LTD
23	U99999AP1943PTC000197	KAKINADA RADHASOAMI FINANCE CORPORATION PVT LTD
24	U11200TG1943PLC000202	HYDERABAD OIL AND PAINT COMPANY LIMITED
25	U74900TG1944PTC000205	PINGLE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
26	U99999TG1944PTC000218	HYDERABAD INDUSTRIAL CORPN PVT LTD
27	U92100AP1944PTC000220	SRI RAJAGOPAL FILM PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
28	U01401AP1945PTC000226	KALANU KONDA LIFT IRRIGATION CO PVT LTD
29	U01403AP1945PLC000261	VATLUR LIFT IRRIGATION COMPANY LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
30	U99999AP1946PTC000263	JUPITER MANURE AND BONE MILLS PVT LTD
31	U99999AP1946PTC000268	PREMIER FILMS PVT LTD
32	U99999AP1946PLC000282	ELLORE INDUSTRIES LTD
33	U74999AP1946PTC000286	SREE HARIKOTA FIREWOOD EXPORTING CO PVT LTD
34	U99999AP1946PTC000287	GOPALA KRISHNA PVT LTD
35	U55101AP1947PLC000301	GREENLANDS HOTELS LIMITED
36	U99999AP1947PTC000310	CHAKRADHARA TALKIES PVT LTD
37	U74999AP1947PTC000312	MOHAN MICA EXPORTS PVT LTD
38	U74900TG1947PTC000328	EASTERN TRADERS PRIVATE LIMITED
39	U15143AP1947PTC000333	PAKANADU OIL MILLS PVT LTD
40	U80220AP1949PTC000380	EDUCATIONAL SUPPLIES PVT LTD
41	U99999AP1949PTC000381	EASTERN MERCANTILE AND ENGINEERING CO PVT LTD
42	U99999AP1949PTC000402	SRIMANTH INDUSTRIALS PVT LTD
43	U27109TG1940PLC000404	SRI SUVARCHALA ANJANEYA STEEL AND IRON ASSOCIATION LIMITED
44	U92111AP1950PTC000416	PRABHAT PICTURES PVT LTD
45	U99999AP1950PLC000425	BHARAT MINING AND TRADING CO. LTD
46	U99999AP1950PLC000429	MARS INDIA LTD
47	U74999AP1951PTC000450	SRI SRINIVAS INDUSTRIES PVT LTD
48	U65992AP1951PTC000459	LORD VENKATESWARA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
49	U45201TG1953PTC000497	NAVAYUGA CONSTRUCTIONS PVT LTD
50	U01119TG1954PTC000526	THE KRISHNAYAPALEM LIFT IRRIGATION COMPANY PRIVATE LIMITED
51	U92111TG1954PTC000532	BASANT PICTURES PRIVATE LIMITED
52	U93000TG1954PTC000533	ANDHRA LAW TIMES PVT LTD
53	U74999AP1955PTC000537	PRASAD INDUSTRIES PVT LTD
54	U24100TG1955PTC000547	TEX CHEM CORPN PRIVATE LIMITED
55	U74999TG1955PTC000549	D.V.K. SARMA AND CO PVT LTD
56	U74999AP1956PTC000553	G S MURTI AND CO PVT LTD
57	U13209AP1956PTC000554	SREE KANAKAMBA MINING CO PVT LTD
58	U74999AP1943PTC000562	SHREE MAHAVIR LITHOS PVT.LTD.
59	U51200AP1956PTC000567	NOVEL TRADERS PVT LTD
60	U93000TG1930PTC000574	COMMERCIAL INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD
61	U74999AP1930PLC000577	LAMMASING CO LTD
62	U52300TG1938PTC000588	JOHN BURTON PVT LTD
63	U74900TG1940PTC000597	SILCHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
64	U24110TG1942PLC000613	HYDERABAD CHEMICALS AND FERTILIZERS LTD
65	U74999TG1943PTC000619	HYDERABAD BULLETIN PVT LTD
66	U63013TG1945PTC000646	PATNY TRANSPORT PRIVATE LIMITED
67	U22110TG1948PLC000678	GOLKONDA AND PUBLICATIONS LTD
68	U93000TG1950PLC000694	MOHAN AGENCIES LTD
69	U65993TG1951PTC000703	DUNDOO PENTIAH INVESTMENTS PVT LTD
70	U15143TG1951PLC000708	THE HYDERABAD OILS AND SEEDS EXCHANGE LIMITED
71	U74210AP1953PTC000714	MINIMAX ENGINEERS PVT LTD
72	U74999TG1952PTC000721	MODERN TALKIES PVT LTD
73	U74999TG1954PTC000739	HYDERABAD DECCAN ENGINEERING COMPANY PVT LTD
74	U01403AP1954PLC000740	KRISHNAYAPALLEM LIFT IRRIGATION COMPANY LIMITED
75	U92100TG1957PTC000775	NAGARJUNA FILMS PRIVATE LIMITED
76	U11200AP1958PTC000794	ANDHRA ABHYUDAYA GROWMORE FOOD AGRICULTURAL CO PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
77	U93000TG1958PTC000804	B SHANKER LAL AND CO PVT LTD
78	U74999TG1958PTC000805	MALANI COMMERCIAL CO SECUNDERABAD PVT LTD
79	U15424AP1959PTC000809	SRI SAIBABA KHANDESARI SUGAR MILLS PVT LTD
80	U74999TG1959PTC000811	ANDHRA PRADESH BUSINESS PVT LTD
81	U22210AP1959PTC000813	ANDHRA PRABHA PRIVATE LIMITED
82	U74999AP1959PTC000818	WOMENS HOMELY INDUSTRIES PVT LTD
83	U15424AP1959PTC000821	VENKATESWAAR GUR AND KHANDASARI SUGARS PVT LTD
84	U74999TG1959PTC000834	ALLIED ASSOCIATES PVT LTD
85	U15424AP1959PTC000836	SRI THAGARAMPUDI SITANAGARAM GUR AND KHANDASARI SUGAR MILLS PVT LTD
86	U74999AP1961PTC000869	CLAUDSHAW INDUSTRIES PVT LTD
87	U01210AP1961PTC000873	UNIVERSAL SEA FOODS PVT LTD
88	U01403AP1961PTC000880	DAKSHINA BHARATA MANURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
89	U65992AP1961PTC000881	M.R.L. CHIT FUNDS PVT LTD
90	U26101AP1961PTC000884	GOWRI SANKAR GLASS SYNDICATE PVT LTD
91	U99999TG1961PLC000891	ANDHRA FOUNDRY AND MACHINE CO.LTD.
92	U40102AP1961PLC000897	ASIATIC THERMIC LIMITED
93	U99999TG1962PTC000901	HYDERABAD AUCTIONEERS PVT LTD
94	U19200AP1962PTC000909	GRAMA SEVA LEATHER TANNING INDUSTRIES PVT LTD
95	U35911TG1962PLC000912	MOPEDS INDIA LIMITED
96	U92111AP1962PTC000921	SREE NILAYAN PICTURES PVT LTD
97	U18101AP1962PLC000928	VENKATA LAKSHMI MILLS LTD
98	U65992AP1962PTC000930	SASTRI FINANCE PRIVATE LIMITED
99	U99999AP1962PTC000933	ABIRAMI COTTON MILLS PVT LTD
100	U18101AP1962PLC000936	ANDHRA COTTON MILLS LTD
101	U99999TG1962PTC000940	TELE-TONE INDUSTRIES PVT LTD
102	U74900AP1963PTC000946	MAHODAYA AGENCIES PRIVATE LIMITED
103	U99999TG1963PTC000955	CZARNIKOW RIONDA CO.(INDIA) PVT LTD
104	U99999AP1963PTC000957	GOUTHAMI TRADING INDUSTRIAL CORPN PVT LTD
105	U15312AP1963PLC000961	SREE PADMAVATHI MILLS LTD
106	U05004AP1963PLC000963	FISH PRODUCTS LTD
107	U21012TG1963PTC000965	VENKATRAM PAPER PRODUCTS PVT LTD
108	U24100TG1963PTC000977	ORGANIC CHEMICALS PRIVATE LIMITED
109	U99999AP1963PTC000978	SAYEE SRINIVASA AGENCIES PVT LTD
110	U74999TG1964PTC000980	JAYANTHI ENGINEERING PVT LTD
111	U16003AP1964PTC000982	COASTAL TOBACCO CO PVT LTD
112	U99999AP1964ULT000983	AGRIMM COR PVT LTD
113	U31100TG1964PTC000986	AMIT CAPACITORS PRIVATE LIMITED
114	U31100TG1964PTC000988	ARJUNA ELECTRONICS PVT LTD
115	U29210TG1964PTC000991	MECLEC INDUSTRIES PVT LTD
116	U65920TG1964PTC000993	SHAMSHAHAD TRADING PVT LTD
117	U99999TG1964PTC000994	CONTINENTAL ORE CO (INDIA) PVT LTD
118	U74210TG1954PTC001000	REECHEM PVT LTD
119	U99999TG1964PLC001001	SOUTHERN MOVIE TONE LTD
120	U99999AP1964PTC001006	AURORA FOOD AND FRUIT INDUSTRIES PVT LTD
121	U99999AP1964PTC001012	SHREE SEETHA RAM CHANDRA MINING CO PVT LTD
122	U17111AP1964PTC001013	VENKATA REDDY SONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
123	U74999TG1964PTC001017	SRI GIRIRAJ ENTERPRISE PVT LTD
124	U99999TG1964PTC001019	PELLETY PRODUCTS PVT LTD
125	U70100AP1964PTC001020	LAND MARKS PVT LTD
126	U99999AP1964PTC001021	NARAHARI AND CHOWDARY CO PVT LTD
127	U01210TG1965PTC001031	SRI VENKATESWARA DAIRY FARM PVT LTD
128	U15312AP1965PTC001032	NANDYAL RICE MERCHANTS SYNDICATE PVT LTD
129	U01119TG1965PTC001035	HYDERABAD FARMS PVT LTD
130	U99999TG1965ULT001040	U-NEWE MFG PVT LTD
131	U65992AP1965PTC001041	SAROJA BENEFIT CHIT FUNDS PVT LTD
132	U24230TG1965PTC001046	THE ORGAROMA INDIA PRIVATE LIMITED
133	U16003TG1965PTC001050	NIZAMABAD BIDI MANUFACTURING CO PVT LTD
134	U99999TG1965PTC001052	SAMAN BROTHERS PVT LTD
135	U45200TG1965PTC001053	REINFORCED CONSTRUCTION AND LAND DEVELOPMENT PVT LTD
136	U99999AP1965PTC001054	RAVI PRODUCTIONS PVT LTD
137	U25209TG1965PTC001058	APPOLO ZIPPER CO PRIVATE LIMITED
138	U99999TG1965PTC001059	VARICON PVT LTD
139	U65992TG1965PTC001062	SRI KANAKA DURGA CHIT FUNDS PVT LTD
140	U74999TG1965PTC001063	PUMPS AND MACHINERY CO PVT LTD
141	U74999AP1965PTC001066	SRI VIGNANA MANJUSHA PVT LTD
142	U21022TG1965PTC001068	CARTONS PRIVATE LIMITED
143	U15424AP1965PTC001075	SRI VIJAYA DURGA KHANDSARI SUGAR MILLS PVT LTD
144	U74999AP1965PTC001077	HOTELS (ANDHRA) PVT LTD
145	U74999TG1965PTC001080	SANTHI TRADING CO PVT LTD
146	U74999AP1965PTC001088	HYDERABAD STRUCTURALS PVT LTD
147	U74999TG1965PTC001091	RAVI PRAKASH ENTERPRISES PVT LTD
148	U25190AP1965PTC001092	SREE LALBABA ROLLING AND SHEET MILLS PVT LTD
149	U27109TG1966PTC001107	HYDERABAD ALLOY FOUNDRIES PVT LTD
150	U65992AP1966PTC001115	SRI VISHNU CHIT FUND CO PVT LTD
151	U17119TG1966PTC001116	KALPANA FIBRE FOAM PVT LTD
152	U28111TG1966PTC001117	METAL INDUSTRIES (ANDHRA) PVT LTD
153	U01118TG1966PTC001118	HOT STEEL PVT LTD
154	U25209TG1966PTC001121	N.M.PLASTICS PVT LTD
155	U74999TG1966PTC001123	NEETA ENTERPRISES PVT LTD
156	U24110TG1966PTC001125	CONDUCTORS AND CHEMICALS PVT LTD
157	U74300TG1966PTC001128	SILVER ADVERTISERS PVT LTD
158	U65992TG1966PTC001133	SRI VIGNESHWARA CHIT FUND PVT LTD
159	U74999TG1967PTC001142	ELTECH PVT LTD
160	U93000TG1967PTC001145	FINTAS SALES AND SERVICES PVT LTD
161	U99999AP1967PTC001146	PLANTERS UNITED COMMERCIAL CO PVT LTD
162	U92111AP1967PTC001150	SRI SERI FILMS PVT LTD
163	U74999TG1967PTC001153	INDISCHE-OSTERREICHISCHEHANDELSGESELLSCHA PVT LTD
164	U24239AP1967PTC001163	ESMARK PHARMACEUTICALS PVT LTD
165	U74999TG1967PTC001171	SHIKAR ADVENTURES PVT LTD
166	U25199AP1967PTC001172	BETON RUBBERS PVT LTD
167	U13209TG1967PTC001173	MOTI MINERAL GRINDERS PVT LTD
168	U92111TG1967PLC001177	VIDYODAYA FILMS LTD
169	U99999TG1967PTC001179	JAYAPRAKASH AGRO COMMERCIAL INDUSTRIES PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
170	U40109TG1968PTC001188	DOMESTIC GAS PVT.LTD.
171	U93000AP1968PTC001192	SAFIRE TRADING CO PVT LTD
172	U01119AP1968PTC001193	COROMANDAL CANNING CO PVT LTD
173	U70102TG1968PTC001198	REAL ESTATE HYDERABAD PVT LTD
174	U51390TG1968PTC001201	ENTERPRISE DEVELOPMENT PVT LTD
175	U65993AP1968PTC001203	SRINIVASA MOTOR AND GENERAL FINANCE CO PVT LTD
176	U74999AP1968PTC001205	ANCILLARY ENGINEERING INDUSTRIESANDAGENCIES PVT LTD
177	U74999TG1968PTC001209	SHAIENDRA NUMISMATICS PVT LTD
178	U74999TG1968PLC001210	HYDERABAD PUBLIC WELFARE HOUSING CO LTD
179	U18100AP1968PLC001213	GEMNI TEXTILES LTD
180	U51909TG1968PTC001216	KATRAGADDA ELECTRONICS PVT LTD
181	U65992TG1968PTC001221	DAYA CHIT INVESTMENTS PVT LTD
182	U65993TG1968PTC001224	INTEGRATED INVESTMENT AND CHIT FUND PVT LTD
183	U65993AP1968PTC001225	ABHYUDAYA FINANCE ENTERPRISES PVT LTD
184	U24110TG1968PLC001226	ESSAR CHEMICALS LTD
185	U45202TG1968PTC001227	ANDHRA CONSTRUCTION CO PVT LTD
186	U93000TG1968PTC001228	BALA MINERALS TRADING CO PVT LTD
187	U60210AP1917PLC001237	RAYALASEEMA PASSENGER AND GOODS TRANSPORTS LIMITED.
188	U74999TG1969PTC001248	INDO CANADIAN CO PVT.LTD.
189	U15421AP1969PTC001257	SRI KRISHNA KHANDASARI SUGARS PVT LTD
190	U25200TG1969PTC001259	ADMARK PLASTICS PVT LTD
191	U99999TG1969PTC001260	PACKAGING AND INDUSTRIAL AGENCIES PVT LTD
192	U65992TG1969PTC001261	VINAYA INVESTMENTS AND CHITS FUND PVT LTD
193	U01119TG1969PTC001267	SEVEN HILLS FOOD PRODUCTS PVT LTD
194	U99999TG1969PTC001271	ANAB-SHAHI WINES AND DISTILLERIES PVT LTD
195	U70100TG1969PTC001275	SOLVENTS AND ESTATES PVT LTD
196	U99999AP1967PLC001277	HIND CONTAINERS LTD
197	U99999TG1970PTC001279	FLUID SYSTEMS PVT LTD
198	U65992TG1969PTC001285	CHIT FOR MONEY PVT LTD
199	U65990TG1969PTC001288	KAN0DIA FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
200	U65920AP1969PTC001289	ASHOK COMMERCIAL FINANCE ENTERPRISES PVT LTD
201	U65992AP1969PTC001291	REENA TRADING CHIT FUNDS PVT LTD
202	U99999TG1969PLC001297	COROMANDEL MILLS LTD
203	U65921TG1969PTC001299	K S AUTO HIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED
204	U65992TG1969PTC001302	BHASKARA FINANCIAL AND CHIT FUND PVT LTD
205	U11202AP1969PLC001304	TRILLINGA OIL INDUSTRIES LIMITED
206	U31109TG1969PLC001307	ELECTRIC TRANSFORMER AND EQUIPMENT CO LTD
207	U99999TG1969PTC001308	CRUSHIC AND CO PVT LTD
208	U52520AP1969PTC001309	JAI SANKAR TRADING AND CHIT FUNDS PVT LTD
209	U65992AP1970PTC001310	SAI SRI NIVASA CHIT FUND PVT LTD
210	U22110TG1970PTC001314	HYDERABAD PUBLICATION AND NEWS PAPERS PVT LTD
211	U01119TG1970PTC001317	AGRIANDELECTRIC EQUIPMENTS PVT LTD
212	U31504AP1970PTC001321	EVEREST LIGHTING PRODUCTS PVT LTD
213	U50102TG1970PTC001326	AUTO TRACTORS PVT LTD
214	U74210TG1970PTC001328	HIGHTONE INSULATION ENGINEERS PVT LTD
215	U65910AP1970PTC001329	JAWAHAR FINANCE CO PVT LTD
216	U28999TG1970PTC001330	SRI VENKATESWARA CROWNS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
217	U05001AP1970PTC001336	EAST COAST MARINE PRODUCTS PVT LTD
218	U74900TG1970PTC001345	PEARLINE PARIS (ANDHRA) PVT.LTD.
219	U32105TG1970PTC001346	DECCAN CONDUCTORS PVT LTD
220	U15140AP1970PTC001347	K T R BRAN OIL INDUSTRIES PVT LTD
221	U15541AP1970PTC001355	ABHYUDAY SOFT DRINKS PVT LTD
222	U27109TG1970PTC001356	MEENAKSHI STEEL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
223	U99999AP1991PTC001360	VISAKHA WHEEL AND WATER CONSULTANTS PVT LTD
224	U17119AP1970PTC001365	SRINIVASA FIBRE PRODUCTS PVT LTD
225	U21098TG1970PLC001372	STENCILS AND STENCILS LTD
226	U01122TG1970PLC001376	ASHOKA AGRICULTURAL AND ELECTRICAL INDUSTRIES LIMITED
227	U65992TG1970PTC001378	TAJ FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD
228	U99999AP1971PLC001380	RAZOLE TALUK BURMA REPATRIATES DEVELOPMENT AND COCONUT INDUSTRIES AND TRADING COMPANY LIMITED
229	U50100TG1971PTC001382	KEMAL TRACTOR ENGINEERING ENTERPRISES PVT LTD
230	U51909TG1971PTC001387	SAIRES TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
231	U65992TG1971PTC001388	MITRA CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
232	U27310TG1971PLC001389	DUCTRON CASTINGS LTD
233	U74300TG1971PTC001391	RITIKA ADS PRIVATE LIMITED
234	U74210AP1971PTC001396	SOHAN ENGINEERING PVT LTD
235	U29100TG1977PTC001398	X L EQUIPMENTS PVT LTD
236	U52605TG1971PTC001400	UNIVERSAL CYCLES PVT LTD
237	U74999TG1971PTC001407	BALANAGAR INDUSTRIAL ESTATE PVT LTD
238	U24110AP1971PTC001411	RAYALASEEMA CHEMICALS PVT LTD
239	U24110AP1971PTC001412	SRI BHADRI CHEMICALS PVT LTD
240	U25209TG1971PTC001413	APARNA PLASTICS PRIVATE LIMITED
241	U99999AP1971PTC001415	PLASTIPHANES PVT LTD
242	U65992AP1971PTC001416	SRI KANAKA DURGA MATHA CHIT FUND FINANCE PRIVATE LIMITED
243	U51909AP1971PTC001426	ADITYA COMMERCIAL AND TRADING ENTERPRISES PVT LTD
244	U99999TG1971PTC001433	SCIENTIFIC EQUIPMENT SALES PRIVATE LIMITED
245	U17119TG1971PLC001441	DELTA FIBRE PRODUCTS LTD
246	U74999AP1971PTC001447	VISAKHAPATNAM BURMA REPATRIATES CINE AND COMM. ENTERPRISES PVT.LTD
247	U28910TG1971PTC001457	PRECISION PRESSINGS PVT LTD
248	U26914TG1971PLC001458	SILIKON CERAMICS LTD.
249	U55101TG1972PTC001462	TRIVENI TOURIST HOTEL PRIVATE LIMITED
250	U65992AP1972PTC001464	RAVI BHARAT FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD
251	U51909AP1972PTC001470	BATCHU SUBBA ROW GENERAL TRADING CO PVT LTD
252	U15490AP1972PTC001473	SHAKTI FOODS PVT LTD
253	U63020AP1972PTC001477	BOBBILLI WAREHOUSING PVT LTD
254	U99999TG1972PLC001479	ELECTROLYTIC FOILS LTD
255	U74999TG1972PTC001480	TERRESTRIAL RESOURCES PVT LTD
256	U52520TG1972PTC001484	SISSOO TRADERS AND INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
257	U31300TG1972PTC001485	GOLKONDA WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
258	U31200TG1994PTC001489	TRIVEN AVIATION PRIVATE LIMITED
259	U25209TG1972PTC001495	APPOLO CHAIN ZIPS PRIVATE LIMITED
260	U55101AP1972PTC001499	HOTEL GOVIND PVT LTD
261	U25209AP1972PTC001503	KESAVA PLASTIC PRODUCTS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
262	U65992TG1972PTC001505	BHANU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
263	U01122TG1972PTC001508	PADMA AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
264	U55101AP1972PTC001509	HOTEL SANDHYA PVT LTD
265	U62100TG1972PTC001510	TIRVEN AVIATION PVT LTD
266	U55101TG1972PTC001512	SHIVHARSHA HOTELS PVT LTD
267	U65992TG1972PTC001514	SECUNDERABAD CHIT FUNDS PVT LTD
268	U55101TG1972PLC001516	HOTEL SREE KRISHNA LTD.
269	U25110TG1972PLC001520	ANDHRA PRADESH AUTOMOBILES TYRES AND TUBES LIMITED
270	U29220TG1972PTC001521	UNIVERSAL PRECISION BALL MANUFACTURING CO PVT LTD
271	U65993TG1972PTC001526	SNEHA FINANCE PVT LTD
272	U34300TG1972PTC001528	AUTO PRODUCTS PVT LTD
273	U19200AP1972PTC001529	JYOTI FOOTWEAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
274	U32101TG1972PLC001530	BHARAT TELEVISION LTD
275	U17300TG1972PTC001541	FOAM FABRICS PVT LTD
276	U31900TG1972PTC001542	SCIENTIFIC ELECTRICALS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
277	U92114TG1972PTC001546	HARVIN FOTOKARVE PVT LTD
278	U65992TG1972PTC001557	SAHAYATA CHIT FUNDS PVT LTD
279	U13209TG1973PTC001566	IKHWAAN MINING CO PVT LTD
280	U55101AP1973PTC001568	HOTEL UPLANDS PVT LTD
281	U74210TG1973PTC001578	UDANI ENGINEERING CO (HYDERABAD) PVT LTD
282	U99999AP1973PLC001584	COASTAL ASBESTOS CERRCENT PRODUCTS LTD
283	U55101TG1973PTC001585	VIKRANTI HOTELS PVT LTD
284	U15140TG1973PLC001587	TELUGUNADU OILS LTD
285	U11202AP1973PLC001591	SAVOY SOLVENT OIL EXTRACTION LTD
286	U17214TG1973PTC001595	JAI FOAM PVT LTD
287	U99999TG1973PTC001599	KRISH VIMAN SERVICES PVT LTD
288	U27109AP1973PLC001600	SREE BAJARANG IRON AND STEEL LTD
289	U27109TG1973PTC001603	SECUNDERABAD METALIZING PVT LTD
290	U65992TG1973PTC001604	PRATIBHA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
291	U45200TG1973PLC001608	ANDHRA PRADESH STATE CONSTRUCTION CORPN LIMITED
292	U25199AP1973PTC001615	PROLAYA RUBBER PRODUCTS PVT LTD
293	U31100TG1973PLC001626	CHANDRIKA ELECTRONICS LTD
294	U24110TG1973PLC001627	AMIDE CHEMICALS LTD
295	U92111TG1973PTC001628	KRISHI VALA FILMS PVT LTD
296	U20200TG1973PTC001633	ALPHINS WOOD WORKS PVT LTD
297	U65992AP1973PTC001641	SRI LAKSHMI INVESTMENTS AND CHIT FUNDS PVT LTD
298	U28939TG1973PTC001647	CONSOLIDATED METAL FINISHING PVT LTD
299	U27109TG1973PTC001648	VIGRO IRON AND STEEL INDUSTRIES PVT LTD
300	U15101AP1973PTC001651	PRAGATI AGRO TRADERS PVT LTD
301	U21015TG1973PTC001659	VEDAVATHI STRAW BOARDS PVT LTD
302	U24110TG1973PTC001667	SULTAN CHEMICALS AND MINERALS PVT LTD
303	U29110AP1973PTC001672	LARIVE AND CO (STEVEDES) PVT LTD
304	U13209AP1974PTC001679	GRAPHITE MINING AND REFINING PVT LTD
305	U15310AP1974PTC001685	RAYALASEEMA ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
306	U99999TG1974PLC001689	JOURNALISTS ENTERPRISES LTD
307	U65992TG1974PTC001691	MADHU CHIT FUND PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
308	U65992TG1974PTC001696	BHAGYANAGAR CHIT FUNDS PVT LTD
309	U21015TG1974PLC001698	SREERAMA STRAW BOARDS LTD
310	U17111AP1974PTC001700	BANDARUPALLI COTTON AND OIL MILLS PVT LTD
311	U24100AP1974PTC001705	B R AGRO CHEMICALS PVT LTD
312	U14294AP1974PTC001708	SREE KRISHNA GRAPHITES AND CRUCIBLES PVT LTD
313	U65992AP1974PTC001709	NANDYAL CHIT FUND PVT LTD
314	U24110TG1974PTC001710	FALCON LABORATORIES PVT LTD
315	U01222TG1974PTC001712	VEDA AGRICULTURAL ESTATES AND DAIRY FARMS PVT LTD
316	U24110TG1974PTC001718	SHREE MEHERBABU CHEMICALS AND ELECTRICALS PVT LTD
317	U31402AP1974PTC001722	GUIDE BATTERIES PVT LTD
318	U15420AP1974PTC001726	VENKATARAMANA SUGAR ENTERPRISES PVT LTD
319	U74210AP1974PTC001727	MARINE AND MECHANICAL ENGINEERING SERVICES PVT LTD
320	U99999TG1974PTC001736	SRINIVASA CARBONIC GAS PVT LTD
321	U74999TG1974PTC001737	INDO PAN ENGINEERING CO PVT LTD
322	U24200AP1974PTC001740	KAVALI CHEMICALS PVT LTD
323	U24200TG1974PTC001741	J N K CHEMICALS AND PLASTICS PVT LTD
324	U24200AP1974PLC001745	APPARAYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LTD
325	U99999TG1974PTC001746	EUREKA FARMS PVT LTD
326	U65992TG1974PTC001749	ADARSH BENEFITS AND SAHAYAK CHIT FUNDS PVT LTD
327	U29309AP1974PTC001757	BOBBILI ELECTRONICS PVT LTD
328	U01119TG1974PTC001758	SAKTHI AGRO CHEMICALS PVT LTD
329	U27109TG1974PLC001765	D.G. STEELS AND ALLOYS LTD
330	U15424AP1974PTC001776	RANGARAYA KHANDASARI SUGARS PVT LTD
331	U15424AP1974PTC001777	GOPALAKRISHNA KHANDASARIES PVT LTD
332	U01403AP1974PTC001778	KALAPATHARU HYBRID SEEDS PVT LTD
333	U15143AP1974PTC001779	UPPALAPATI SOLVENT OIL PVT LTD
334	U65992TG1974PTC001780	SRI PRAGATI FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD
335	U24110TG1974PLC001781	HYDERABAD CARBONS AND CHEMICALS LTD
336	U65993TG1974PTC001784	DECCAN VAINDHYA FINANCE AND CHIT FUNDS PVT LTD
337	U74900AP1974PLC001785	MODERN PROTEINS LTD
338	U14102TG1974PTC001786	SATH NALA FINE STONES PVT LTD
339	U27109TG1974PTC001787	SURIT METAL PRODUCTS PVT LTD
340	U25200AP1974PTC001788	JAYALAXMI PLASTICS PVT LTD
341	U55101AP1974PTC001791	HOTEL SAROVAR PVT LTD
342	U15541TG1974PTC001793	UNITED WINE MERCHANTS PVT LTD
343	U67190TG1974PTC001797	HYDERABAD TOURS AND TRAVELS PVT LTD
344	U27109TG1974PTC001800	JOLLY STEELITE ENGINEERING PVT LTD
345	U24110AP1974PTC001801	BHUSHAN CHEMICALS PVT LTD
346	U74999TG1974PTC001803	EXPORT CONSORTIUM OF ANDHRA PRADESH PVT LTD
347	U15143AP1974PTC001805	KHAMMAM SOLVENT OILS PVT LTD
348	U74999AP1974PTC001810	SREE RAM CELLULOSE PVT LTD
349	U99999TG1974PTC001811	PERSONNEL AND INDUSTRIAL SERVICES PVT LTD
350	U15541AP1974PTC001816	VEERANJANEYA WINES AND COMMERCIAL ENTERPRISES PVT LTD
351	U.....TG1974PTC001818	UNIVERSAL FOAM PRODUCTS PVT LTD
352	U01119TG1974PTC001821	VENKATARAMA STRAW BOARDS AND AGRO INDUSTRIES PVT LTD
353	U51909TG1974PTC001825	SHAZAK EXPORTS PVT LTD
354	U24110TG1974PTC001828	TIRUMALA CHEMICALS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
355	U74999AP1974PTC001829	BURMA REPATRIATES BAKERY AND COMMERCIAL PVT LTD
356	U34102AP1974PTC001831	SOVIN AUTO ENTERPRISES PVT LTD
357	U70102TG1975PTC001835	MATRUSRI ENGINEERING AND BUILDERS PVT LTD
358	U24110TG1975PTC001838	SHREE FARM CHEMICALS PVT LTD
359	U24309AP1975PTC001839	NAGARJUNA PESTICIDES PVT LTD
360	U24299AP1975PTC001841	GOLD BOND RUBBER AND CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
361	U74210AP1975PTC001842	INAGANTI ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
362	U16009AP1975PTC001848	ANDHRA LEAF TOBACCO ENTERPRISES PVT LTD
363	U67190TG1975PTC001850	Y M C A INTERNATIONAL TOURIST HOME PVT LTD
364	U65992AP1975PTC001855	DEVI CHIT FUNDS PVT LTD
365	U65993TG1975PTC001859	MULTIPLE INVESTMENTS PVT LTD
366	U31300AP1975PTC001862	POLYTECH CABLES AND PRODUCTS PVT LTD
367	U15311TG1979PTC001877	ANANTHPUR ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
368	U45200TG1975PTC001879	AUTO BUILDERS CO PVT LTD
369	U65992TG1975PTC001894	MATESHWARI CHIT FUND PVT LTD
370	U99999AP1975PTC001898	KISAN SEEDS (ANDHRA) PVT LTD
371	U21010TG1975PTC001903	KRISHNA PAPERS AND MATCHES PVT LTD
372	U74999AP1975PTC001905	MAHALAXMI MATCH INDUSTRIES PVT LTD
373	U18100AP1975PTC001906	RAJAM JUTE MILLS PVT LTD
374	U29309TG1975PTC001908	MANGNETOMIN SYSTEMS AND DESIGNERS PVT LTD
375	U65992TG1975PTC001910	SAHELI CHIT FUND PVT LTD
376	U52520AP1975PTC001912	SPACE SALES PVT LTD
377	U24110TG1975PTC001913	HYDERABAD PULP PRODUCTS PVT LTD
378	U65993AP1975PTC001918	ANDHRA PRADESH SAVING AND FINANCE PVT LTD
379	U24110TG1975PTC001922	METRO MARKETING AGENCIES PVT LTD
380	U65993TG1975PTC001923	HUSSAIN INVESTMENTS AND MARKETING CONSULTANTS PVT LTD
381	U24110TG1975PTC001924	JAISONS CHEMICALS ELECTRONICS AND MINERALS PVT LTD
382	U74300TG1975PTC001927	SELCO MARKETING PVT LTD
383	U65992AP1975PTC001928	PHALAPRADA CHITS AND TRADES PVT LTD
384	U65993AP1975PTC001937	KRISHNA VENI FINANCIERS PVT LTD
385	U74210AP1975PTC001943	CECON ENGINEERING PVT.LTD.
386	U52520AP1975PTC001946	SRINIVASA ENTERPRISES PVT.LTD.
387	U21012TG1975PTC001947	DAILY NEWS PAPERS PVT LTD
388	U29219TG1975PTC001948	TOOLS AND TOOL INDIA PVT LTD
389	U29309TG1975PTC001952	BELCO REGULATORS PVT LTD
390	U92111AP1975PTC001954	KADARESWARA ART PICTURES PVT LTD
391	U65992TG1975PTC001955	MACAN CHIT FUND PVT LTD
392	U92110TG1975PLC001959	SANGEET TAPES LTD
393	U65910TG1975PTC001972	SAMRAT SAVINGS AND TRADING CO PVT LTD
394	U51101AP1975PTC001974	BALAJI AGRO AGENCIES PVT LTD
395	U24232TG1976PLC001977	ANDHRA SYNHEICS AND ANTIBIOTICS LIMITED
396	U52520TG1976PTC001981	BALARAMA KRISHNA TRADERS PVT LTD
397	U99999TG1976PTC001982	VIKRAM RETRONS PVT LTD
398	U16001TG1976PTC001990	SWARNA VIRGINIA TOBACCO COMPANY PRIVATE LIMITED
399	U74999TG1976PTC001993	SIVAS INSTRUMENTS AND GANGES PVT LTD
400	U15435TG1976PTC001997	PRASANTHI TEA AND PROCESSING INDUSTRIES PVT LTD
401	U30008TG1976PTC001998	K.B.STAMPINGS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
402	U74999TG1976PTC002000	MICRO WAVE SYSTEMS AND COMPONENTS PVT LTD
403	U65993TG1976PTC002004	MILAN INVESTMENTS(HYDERABAD) PVT LTD
404	U01112AP1976PTC002009	ANDHRA PRADESH HYBRID SEEDS AND AGRO SERVICES PVT LTD
405	U24292TG1976PTC002011	ANDHRA GELATINES AND GLUES PVT LTD
406	U61100TG1976PTC002012	TRIMURTHI SHIPPING PVT LTD
407	U52520TG1976PTC002018	PRIZE TRADING AND MARKETING PVT LTD
408	U65910AP1976PTC002020	GUDIVADA FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD
409	U99999TG1976PTC002021	SREE DHANALAKSHMI PICTURES PVT LTD
410	U27100AP1976PTC002029	SWAMY JAYENDRA NUTS BOLTS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
411	U74900TG1976PTC002030	TRIMURTHI OVERSEAS TRADE PVT LTD
412	U31100TG1976PLC002032	NATIONAL CAPACITORS LTD
413	U29309TG1976PTC002035	PRIYADARSHINI ELECTRONICS PVT LTD
414	U52520TG1976PTC002037	SYNTHOPACK ENTERPRISES PVT LTD
415	U65910AP1976PTC002038	GOUTHAMI SAVINGS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
416	U24110TG1976PTC002047	DAWN CHEMICALS PVT LTD
417	U01119TG1976PTC002053	EXCEL AGRO SERVICES PVT LTD
418	U24110TG1976PTC002057	NECTOR CHEMICALS AND COSMETICS PVT LTD
419	U15420AP1976PTC002060	HANUMAN KHANDSARI SUGARS PVT LTD
420	U74999TG1976PTC002061	TRILING REFRIGERATION INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
421	U24110TG1976PLC002063	SOUTH SEA CHEMICALS LIMITED
422	U15420AP1976PTC002068	SREE SANTHI SUGARS PVT.LTD.
423	U65992TG1976PTC002073	SRINIDHI CHIT FUNDS PVT LTD
424	U29195TG1976PTC002074	K.B.BOTTLERS PVT LTD
425	U74210TG1976PTC002077	DRILL ROCK ENGINEERING PVT LTD
426	U45200TG1976PTC002079	SARVASUKHI HOUSING CONSTRUCTION CO PVT LTD
427	U45200TG1976PTC002082	RAYALA SAVINGS AND BUILDERS PVT LTD
428	U24246AP1976PTC002085	RAVIN HERBAL INDUSTRIES PVT LTD
429	U51909TG1976PTC002095	HYDERABAD EXPORTS PVT LTD
430	U34100TG1976PTC002097	HANGALAGRI AUTO PRIVATE LIMITED
431	U99999TG1976PTC002098	MARK MAN INDUSTRIAL CONSULTANCY PVT LTD
432	U14293TG1976PTC002101	ANDHRA PRADESH MICA FLAKES PVT LTD
433	U34102AP1976PTC002108	INDUSTRIAL AUTOMOBILE MANUFACATURERS PVT LTD
434	U65993AP1976PTC002111	SRI SOUJANYA SAVINGS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
435	U74999TG1977PTC002114	UHRENTIME PVT LTD
436	U24110AP1977PTC002116	RAMYA CHEMICALS COLOURS PVT LTD
437	U29309AP1977PTC002118	ZENITH ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
438	U26942TG1977PTC002120	RAGHAVENDRA CEMENT PVT LTD
439	U65992TG1977PTC002125	VEERABHADRA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
440	U24111TG1977PTC002128	TUZEE GASES PVT LTD
441	U65992TG1977PTC002131	RAGINI CHIT FUND PVT LTD.
442	U65910AP1977PTC002132	NAIDU SAVINGS PVT LTD
443	U15420AP1977PTC002133	JAYA KHANDSARI SUGARS PVT LTD
444	U74999TG1977PTC002139	RISHIRAJ REFRIGERATIONS PVT LTD
445	U24239TG1977PTC002140	UNISAN PHARMACEUTICALS PVT LTD
446	U85195AP1977PTC002143	FARICHEM LABORATORIES PVT LTD
447	U65910AP1977PTC002148	RAGHU SAVINGS AND FINANCE PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
448	U24220TG1977PTC002154	SHRESTA PRINT PACKS PVT LTD
449	U74999TG1977PTC002156	HYDERABAD DYESTUFFS PVT LTD
450	U01112AP1977PTC002160	GURURAJ SEEDS CO PVT LTD
451	U74999AP1977PTC002161	TIRUMALA PRECISION FASTERNINGS PVT LTD
452	U24200TG1977PTC002162	EASTERN BIOLOGICALS AND CHEMICALS PVT LTD
453	U74999TG1977PTC002172	TWIN CITIES LAPIDAIRIES PVT LTD
454	U52520TG1977PTC002178	RANGAAS MARKETING AGENCIES PVT LTD
455	U99999TG1977PTC002179	SATISH TRADING CO PVT LTD
456	U15143AP1977PLC002182	RAYALASEEMA AGRO PRODUCTS AND OILS LTD
457	U20100TG1977PTC002184	SWAMY RED SANDER AND SANDLE WOOD EXPORTS PVT LTD
458	U24232TG1977PTC002185	SPEGEL PHARMA PVT LTD
459	U65992TG1977PTC002188	GAUTAM CHIT FUND PVT LTD
460	U11200TG1977PTC002191	INTEGRATED FUEL EQUIPMENTS PVT LTD
461	U65993AP1977PTC002195	VIJAYAWADA SAVINGS PVT LTD
462	U65992AP1977PTC002203	NEW PRAGHATHI CHITS AND INVESTMENTS PVT LTD
463	U74999TG1977PTC002204	ANDHRA PRADESH YARN COMBINES PVT LTD
464	U74210TG1977PTC002212	NAVEGA ENGINEERS PVT LTD
465	U27109AP1977PTC002216	B M C STEEL FURNITURE PVT LTD
466	U74900AP1977PTC002221	RAJU TAMARIND SEED STARCH INDUSTRIES PVT LTD
467	U74210TG1977PTC002223	HERTZ AND WAVES ENGINEERS PVT LTD
468	U74210TG1977PTC002224	HUSTON ENGINEERS COMPANY PRIVATE LTD.
469	U01119TG1977PTC002232	CYTOZYME AGRO (HYDERABAD) PVT LTD
470	U29248TG1977PLC002233	KLAYMAN PORCHELAINS LIMITED
471	U65910AP1977PTC002237	LAKSHMI SAVINGS AND FINANCE PVT LTD
472	U65992AP1977PTC002241	MUTYALA CHIT FUNDS PVT LTD
473	U74999AP1978PTC002243	A V BHANOJI ROW MARITIME AGENCIES PVT LTD
474	U72200TG1978PTC002249	KUMUD TECHNO ASSOCIATES PVT LTD
475	U01119TG1974PTC002256	GREEN FIELD FERTILISERS PVT LTD
476	U29219TG1978PLC002257	ANAM MACHINERY FABRICATORS LTD.
477	U99999AP1978PTC002263	ECONOMIC ROOFINGS PVT LTD
478	U65992TG1978PTC002264	SUBHALAYA CHIT FUNDS PVT.LTD.
479	U92111AP1978PTC002265	ANNAPURNA THEATRES (VISAKHAPATNAM) PVT LTD
480	U99999TG1978PTC002267	ANDHRA PRADESH CORN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
481	U74140TG1978PTC002270	TIMS CONSULATANTS PRIVATE LIMITED
482	U45200TG1978PTC002273	BHAGYANAGAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
483	U05005TG1978PTC002277	MARINE EQUIPMENTS PVT LTD
484	U65992TG1978PTC002279	BHAGYADARSI CHIT FUNDS FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
485	U24239TG1978PTC002282	ROPHOEL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
486	U72200TG1978PTC002283	DIGITAL COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
487	U24110TG1978PTC002284	INDUSTRIAL CHEMICALSANDSILICONES(HYDERABAD) PVT LTD
488	U51909TG1978PTC002286	BUBALUS EXPORTS PVT LTD
489	U24110TG1978PTC002287	CHARMINAR CHEMICALS PRODUCTS PVT LTD
490	U65992AP1978PTC002289	NAVODAYA CHIT FUND PVT LTD
491	U15143TG1978PTC002292	RAJATGIRI OILS AND CHEMICALS PVT LTD
492	U52110TG1978PTC002295	DRUVA TRADING PVT LTD
493	U65992AP1978PTC002303	GAMYANIDHI CHIT FUND PVT LTD
494	U65992TG1978PTC002307	SRAVANTHI CHIT FUND PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
495	U65992TG1978PTC002316	MUKTA CHITS SYNDICATE PVT LTD
496	U65992AP1978PTC002321	USHODAYA CHIT PRIVATE LIMITED
497	U65992AP1978PTC002327	KEERTHY CHIT FUNDS PVT LTD
498	U74210AP1978PTC002329	VIJAYAWADA STRUCTURALS PVT LTD
499	U55101AP1978PTC002331	COASTAL HOTELS PRIVATE LIMITED
500	U51909TG1978PTC002342	INDUS OVERSEAS PVT LTD
501	U51909TG1978PTC002343	VIJETA ENTERPRISES PVT LTD
502	U74140TG1978PTC002354	AGRICULTURAL CONSULTANCY SUPPLYANDSERVICES PVT LTD
503	U24110TG1978PTC002359	DECCAN FOODS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
504	U31909TG1978PTC002367	ALKALINE ACCUMULATORS(INDIA) PVT LTD
505	U65993TG1978PTC002371	NAVA CHETANA SAVINGS PRIVATE LIMITED
506	U15142TG1978PTC002377	B K SOLVENT EXTRACTION PVT LTD
507	U13209TG1978PTC002380	ANDHRA MICA MINING AND PROCESSING COMPANY PRIVATE LIMITED
508	U29309TG1978PTC002385	SRI SIDDHESWARI ELECTRONIC EQUIPMENTS PVT LTD
509	U15209TG1978PTC002386	PARAMOUNT AGRO CHEMICALS PVT LTD
510	U65992TG1978PTC002392	AISHWARYA CHIT FUND PVT LTD
511	U31300TG1979PTC002397	ADITYA CABLES PRIVATE LIMITED
512	U45200TG1979PTC002403	POLAVARAPU HOUSING AND INDUSTRIAL COMPLEX PVT LTD
513	U28999TG1979PTC002404	KALPANA TECHNO AND ENGINEERING SERVICES PVT LTD
514	U92111AP1979PTC002411	HIMAGIRI FILMS PVT LTD
515	U65993TG1979PTC002412	KANAKDHARA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
516	U52520AP1979PTC002414	ANDHRA LAMPS MARKETING PVT LTD
517	U65992TG1979PTC002415	LOKULA CHIT FUNDS PVT LTD
518	U21012TG1994PLC002416	TALANGANA PAPER MILLS LIMITED
519	U22212TG1979PTC002418	COSMOS PUBLICATIONS PVT LTD
520	U21011TG1979PTC002419	TWIN CITY TOOLS AND METTALLURGICAL ENGINEERS PVT LTD
521	U24110TG1979PLC002425	GEELAN CHEMICALS LTD
522	U65992TG1979PTC002426	GOPATHI CHIT FUND PVT LTD
523	U24110TG1979PTC002429	SO FARIM CHEMICALS PROCESS PVT.LTD.
524	U16000TG1979PLC002430	DUNCAN TOBACCO COMPANY LIMITED
525	U65993TG1979PTC002431	VAR LAKSHMI TRADING INVESTMENTS PVT LTD
526	U52520TG1979PTC002432	SHANTIDOOT MARKETING PRIVATE LIMITED
527	U15499TG1979PTC002434	ULTIMA FOOD MACHINES PVT LTD
528	U52110TG1979PTC002436	BHAGYANAGAR AGENCIES PVT LTD
529	U29219TG1979PTC002440	GOPATHI METAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
530	U24110TG1979PLC002442	DECCAN EXPLOSIVES AND CHEMICALS LTD
531	U74140AP1979PTC002443	VANI FISHERY CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
532	U74140TG1979PTC002446	VENTRA ENGINEERING CONSULTANTS PVT LTD
533	U21012AP1979PLC002449	VASAVI PAPER MILLS LTD
534	U16001AP1979PTC002453	VIRGINIA TOBACCO EXPORTERS CO PVT LTD
535	U65992TG1979PLC002461	HELAPURI CHIT FUNDS PT LTD
536	U15499AP1979PTC002462	SAILEM FOOD PRODUCTS PVT LTD
537	U45200TG1979PTC002464	VIJAYA CHANDI CONSTRUCTION PVT LTD
538	U31909TG1979PTC002466	TRADE WELD HYDERABAD PVT LTD
539	U74140TG1979PTC002467	NOVOCHEM CONSULTANTS PVT LTD
540	U63040TG1979PTC002470	VIHAR TRAVELS PVT LTD
541	U28129TG1979PTC002472	HYTICA CONTAINERS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
542	U74999TG1979PTC002479	DRE DRILLING EQUIPMENT PVT LTD
543	U65992TG1979PTC002484	VISWA SHANTI CHIT FUNDS AND FINANCES PVT LTD
544	U24110AP1979PTC002489	NAUPADA MARINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
545	U65992AP1979PTC002491	JANARANJANI CHIT FUNDS PVT LTD
546	U24110TG1979PTC002492	VANI DRUG INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
547	U24239TG1979PLC002493	PRASHA PHARMACEUTICALS LTD
548	U24110TG1979PTC002494	ANDHRA EXPLOSIVES PVT LTD
549	U05005AP1979PTC002505	VARUNA SEA FOODS PVT LTD
550	U65991AP1979PTC002508	PARTHASARATHI FINANCE PVT LTD
551	U74900TG1979PTC002518	AMBER BISCUITS PVT LTD
552	U17299TG1979PTC002523	ZIAUDDEEN AHMED COIR ROPE COMPANY PVT LTD
553	U18101AP1979PTC002528	GOMATHY SPINNERS PVT LTD
554	U45200TG1979PTC002530	SARADAW CONSTRUCTION PVT LTD
555	U31300AP1979PLC002533	RAYALASEEMA CARBIDE PRODUCTS LIMITED
556	U13209AP1979PTC002534	SHREE KESHAVA GREY BARYTES MINES PRIVATE LIMITED
557	U28931TG1979PTC002537	PARTAP CLADDED STEEL PVT LTD
558	U24230TG1979PTC002538	PFIMEX INTERNATIONAL (DRUGS AND DIETICS) PVT LTD.
559	U27109AP1979PTC002539	SRIVATSA STEEL AND TUBES PRIVATE LIMITED
560	U72200TG1979PTC002540	QUAD DATA SYSTEMS PVT LTD
561	U25199TG1979PTC002547	JOBAL RUBBERS PVT LTD
562	U52110TG1979PTC002552	MINAR EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
563	U51909TG1979PTC002554	HYDERABAD LATEX FOAMS PVT LTD
564	U52520TG1979PTC002560	SASILA MARKETING SERVICES PVT LTD
565	U28992TG1979PTC002562	CHARMINAR RIMS PVT LTD
566	U45200AP1979PTC002563	COROMANDEL CONSTRUCTIONS PVT LTD
567	U65992TG1979PTC002567	VENKATA SAIBABA CHIT FUND PVT LTD
568	U65992TG1979PLC002568	SUDARSAN CHITS (ANDHRA PRADESH) LTD
569	U55101AP1979PTC002569	ANJANEYA HOTELS PVT LTD
570	U65993TG1979PTC002570	HYDERABAD INVESTMENTS AND FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
571	U31300AP1979PTC002574	ROOSTER CABLE WORKS PRIVATE LIMITED
572	U15499TG1979PTC002583	BEST FOOD PVT LTD
573	U65992TG1979PTC002584	SRI PADA CHIT FUNDS PVT LTD
574	U70109TG1979PTC002589	TULSI NARAIN PROPERTIES PVT LTD
575	U65992TG1979PTC002590	NIRUPAMA CHIT FUND PVT LTD
576	U92111TG1979PTC002591	PRAMOD PICTURES PVT LTD
577	U15499AP1979PTC002592	CUDDAPAH CAKE AND BRAN PVT LTD
578	U29309AP1979PTC002594	SAPPHIRE ELECTRONICS EQUIPMENT PVT LTD
579	U24124TG1979PTC002596	INDOMEX AGRICHEM PVT LTD
580	U27310AP1979PTC002598	SUTLEZ CASTINGS PVT LTD
581	U74210AP1980PTC002599	KUMBA ENGG. WORKS PRIVATE LIMITED
582	U65992TG1980PTC002600	SURAKSHA CHIT FUNDS PVT LTD
583	U16001AP1980PTC002601	LAKSHMI TOBACCOS PVT LTD
584	U01222TG1980PTC002609	RAJA RAJESHWARA HATCHERIES PVT LTD
585	U16001AP1980PTC002610	SATYA JYOTHI TOBACCO ENTERPRISES PVT LTD
586	U92111TG1980PTC002614	VENTRA PRIME MOVERS PVT LTD
587	U24239TG1980PTC002618	SWATI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
588	U31909TG1980PTC002620	HYSEC HEATING EQUIPMENTS PVT LTD
589	U72200TG1980PTC002622	LOTUS COMPUTER FORMS PVT LTD
590	U65992TG1980PTC002624	MANJEERA CHIT FUNDS PVT LTD
591	U45200TG1980PTC002625	RENUKA CONSTRUCTION PVT LTD
592	U16001AP1980PTC002627	MITTAPALLI AUDINARAYANA AND COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED
593	U92111TG1980PTC002628	EUREKA THEATRES PVT LTD
594	U31909TG1980PTC002631	PAPYRUS AGENCIES PVT LTD
595	U65992TG1980PTC002632	SANGAMITRA CHIT FUNDS PVT LTD
596	U24110TG1980PLC002640	SAVERA MARINE SALT AND CHEMICALS LIMITED
597	U18101TG1980PTC002642	AUREO APPARELS PVT LTD
598	U24230AP1980PTC002643	TRAVAR DISTILLERIES PVT LTD
599	U29309TG1980PTC002645	DYNA ELECTRO-MEK PVT LTD
600	U55101TG1980PTC002646	MIRALAM LAKE RESORT PVT LTD
601	U24239AP1980PTC002647	MONIZ PHARMACEUTICALS PVT LTD
602	U24111TG1980PTC002648	G S INDUSTRIAL GASES PVT LTD
603	U19112AP1980PTC002650	CUIREX TANNERS PVT LTD
604	U17119AP1980PTC002651	SRI SRINIVASA JUTE MILLS PVT LTD
605	U01119TG1980PTC002652	SRIRAM SYSTEMS AND FORMS PVT LTD
606	U14102TG1980PTC002658	LEO STONE (TEXTURED COATINGS) PVT LTD
607	U28932TG1980PTC002660	INNOVATIVE TOOLS PRIVATE LIMITED
608	U92111TG1980PLC002661	PRAJA PICTURES LTD
609	U74140TG1980PTC002662	MINAR TECHNICAL SERVICES PVT LTD
610	U74140TG1980PTC002669	RURAL INDUSTRIAL CONSULTANTS PVT LTD
611	U05005AP1980PLC002670	ANDHRA SALT AND MARINE CHEMICALS LTD
612	U17230AP1980PTC002673	GODAVARI BOTTLING CO PVT LTD
613	U65992TG1980PTC002682	SANDHYA CHIT FUNDS PVT LTD
614	U31400TG1980PTC002683	DECCAN BATTERIES PVT LTD
615	U25200TG1980PLC002684	DECCAN RESINS LTD
616	U65992AP1980PTC002687	MEENAKA FINANCE AND CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
617	U05005AP1980PTC002688	UNITED COASTAL FOODS PVT LTD
618	U99999TG1980PLC002692	RAYALASEEMA ELECTRICALS LTD
619	U65992AP1980PTC002695	SUDHARA CHIT AND TRADING CO PVT LTD
620	U45200AP1980PTC002700	JAYASIMAYA THEATRES PRIVATE LIMITED
621	U45200TG1980PTC002701	REDDY INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS PVT LTD
622	U29309TG1980PTC002704	ANUSHYA ELECTRONICS PVT LTD
623	U65921AP1980PTC002705	CHERUBIC CREDIT AND INVESTMENTS PVT LTD
624	U01122TG1980PTC002712	VASANT AGRO AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
625	U45200TG1980PTC002716	AHURA ESTATE PVT LTD
626	U52520TG1980PTC002720	KAS EXPORTS PVT LTD
627	U26942TG1980PTC002721	DUTTATREYA CEMENT PRODUCTS PVT LTD
628	U22210TG1980PTC002722	INSTAPRINT PVT LTD
629	U31909TG1980PTC002723	NAGARJUNA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
630	U52520TG1980PTC002724	ENLAR MARKETING PRIVATE LIMITED
631	U29219TG1980PLC002725	UNICORN MACHINERY MANUFACTURERS LIMITED
632	U65992TG1980PTC002728	VARDHANI CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
633	U55101TG1980PTC002729	ABHA HOTELIERS PVT LTD
634	U22210TG1980PTC002730	AWARA PRINT AND PACK PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
635	U67120TG1980PTC002739	RHYLONS INVESTMENTS PVT LTD
636	U65992TG1980PTC002741	SUBHODRYA CHIT FUND PVT LTD
637	U92111TG1980PTC002747	MANOHARA CHITRA PVT LTD
638	U67120TG1980PTC002748	ELGEE INVESTMENTS PVT LTD
639	U92111TG1980PTC002755	PRAMARCHANA PICTURES PVT LTD
640	U15499TG1980PTC002756	SAGAR BISCUITS PRIVATE LIMITED
641	U63040TG1980PTC002759	GODAVARI TOURIST PVT LTD
642	U29219TG1980PTC002762	T B L FARM IMPLEMENTS PVT LTD
643	U31909TG1980PTC002768	CENTRIFUGAL AND DIECASTING ENGINEERS PVT LTD
644	U55101AP1980PTC002770	NAVODAYA HOTELS PVT LTD
645	U99999TG1980PTC002777	JEEVAN JYOTI PRESS AND PUBLISHERS ASSOCIATION
646	U29219TG1980PTC002778	YARLAGADA MACHINE TOOLS PVT LTD
647	U26100TG1980PTC002784	POTTERN GLASS WORKS PRIVATE LIMITED
648	U22120TG1980PTC002785	PRISMA PROCESS PVT LTD
649	U65992TG1980PTC002787	PIONEER CHITS AND FINANCE PVT.LTD.
650	U52520TG1980PTC002788	VAJRA MINERALS AND SILICATES PVT LTD
651	U24239TG1980PTC002794	ROSHAK PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
652	U24239TG1980PTC002797	DEXO PHARMA PRIVATE LIMITED
653	U15499TG1980PTC002799	NSR FOOD PRODUCTS PVT LTD
654	U65992TG1980PTC002801	SAMAMYS CHIT FUND PVT LTD
655	U52520AP1980PTC002802	VIJASI AND MYANSA TRADING PVT LTD
656	U45200TG1980PTC002806	AWARE CONSTRUCTION PVT LTD
657	U24230TG1980PTC002807	EHRlich REMEDIES PVT LTD
658	U31400TG1980PTC002808	MIGHTY BATTERIES PVT LTD
659	U17230AP1980PTC002810	VIZIANAGARAM JUTE MILLS COMPANY PRIVATE LIMITED
660	U21000AP1980PTC002813	IMPRESSIVE IMPRESSIONS PVT LTD
661	U27109TG1980PTC002814	POWDER STEEL STRIPS PVT LTD
662	U17100TG1980PTC002815	A P GWALIOR DISTRIBUTORS PVT LTD
663	U65992TG1980PTC002817	PHANI CHIT FUND PVT LTD
664	U65992TG1980PTC002822	SREYOGHILASHI CHIT FUND PVT LTD
665	U24134TG1980PTC002823	KISAN POLY PIPES PRIVATE LIMITED
666	U65992AP1980PTC002824	ORUGALLU CHIT FUND PRIVATE LIMITED
667	U74140TG1980PTC002826	PRYM COMPUTER CONSULTANTS PVT LTD
668	U74140TG1980PTC002828	SARASWATI INDUSTRIAL AND GENERAL ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
669	U31909TG1980PTC002829	ALTEC ELECTRONIC PVT LTD
670	U18100AP1980PTC002830	SOUTH INDIA JUTE FIBRES PVT LTD
671	U24110TG1980PLC002836	POSEIDON CHEMICALS LTD
672	U30004TG1980PTC002838	COPIERS SALES AND SERVICES PVT LTD
673	U26942TG1980PTC002847	SHARAVANTI MINERALS PVT LTD
674	U21012TG1980PTC002854	GOLCONDA PAPER PRODUCTS PVT LTD
675	U65992TG1980PTC002855	T C G CHIT FUND PRIVATE LIMITED
676	U31300TG1980PTC002857	PROPOL ACCONSTIC AND JHURMAH INSULATION ENGG PVT LTD
677	U55101TG1980PTC002859	GREAT MUGHALS INTERNATIONAL (INNS) PVT LTD
678	U65993TG1980PTC002863	POLA INVESTMENT PVT LTD
679	U65992TG1980PTC002864	SUMADARSHI CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
680	U15499TG1980PTC002867	NUBIC FOODS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
681	U65993TG1980PTC002868	CONVENIENTC FINANCE CO PVT LTD
682	U29219TG1980PTC002871	COMDRI TOOLS PVT LTD
683	U29267TG1980PTC002873	EUREKA WASHING MACHINES PRIVATE LIMITED
684	U14220TG1980PLC002875	ARDEE SALTS CHEMICALS LTD.
685	U01222AP1980PTC002876	NANDYAL AGROVET INDUSTRIES PVT LTD
686	U29140AP1980PTC002878	EAST COAST FURNANCES AND FABRICATION PVT LTD
687	U74210TG1981PTC002879	MIZHONI CONSULTANTS PVT LTD
688	U45200TG1981PTC002882	PREMIER CONTRACTORS PVT LTD
689	U27109TG1981PTC002883	SRI SAIBABA STEEL ROLLING MILLS PVT LTD
690	U65992AP1981PTC002884	PROMOTIVE FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD
691	U60100AP1981PTC002893	VIZAG LORRY OPERATORS PVT LTD
692	U52100TG1981PTC002894	JAI SARATHI AGENCIES PVT LTD
693	U24221AP1981PTC002896	VISAKHA CERAMIC INDUSTRIES PVT LTD
694	U25209TG1981PTC002900	RASHMEE LAMINATES PRIVATE LIMITED
695	U15541TG1981PTC002901	ANDHRA BEVERAGES CO PVT LTD
696	U36100TG1981PTC002903	SFAMS FURNISHERS PVT LTD
697	U74200TG1981PTC002905	GAJANAN ENGINEERING CONSULTANTS PVT LTD
698	U27109AP1981PTC002906	COASTAL STAINLESS STEEL FOUNDRY PRIVATE LIMITED
699	U25209TG1981PTC002907	DURGA DEVI PLASTIC CHEM PVT LTD
700	U65992TG1981PTC002908	BASAVESWARA CHIT FUND PVT LTD
701	U34100TG1981PTC002909	HUMNABADKAR VEHICLES PVT LTD
702	U15143AP1981PTC002911	AROMSTICS PVT LTD
703	U27300TG1981PTC002912	BILVA PRESSURE DIE CASTINGS PVT LTD
704	U13100TG1981PTC002913	COASTAL FARM PVT LTD
705	U45200TG1981PTC002917	ARK HOUSE BUILDERS AND CONSULTANTS PVT LTD
706	U26100TG1981PTC002919	JALA MALLESH CONTAINERS MANUFACTURING CO PVT LTD
707	U51909TG1981PTC002921	KRISANU EXPORTS PVT LTD
708	U27109TG1981PTC002922	ALERA ALUMINIUM PVT LTD
709	U65992AP1981PTC002923	KONARK CHIT FUND PVT LTD
710	U01122TG1981PTC002924	SHADNAGAR FARMS PVT LTD
711	U01222AP1981PTC002928	MAJESTIC FOODS PVT LTD
712	U15143TG1981PTC002932	KIRAN OIL SEEDS PROCESSING PVT LTD
713	U29219TG1981PTC002933	VENITA SPECIAL MACHINES PVT LTD
714	U15311TG1981PTC002935	SECUNDRABAD ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
715	U24110TG1981PTC002938	GOTTIMUKKALA CHEMICALS PVT LTD
716	U65992TG1981PTC002939	ADILABAD CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
717	U67120AP1981PTC002941	JAYALAKSHMI SECURITIES AND INVESTMENTS PVT LTD
718	U31909TG1981PTC002943	AUTOMATIC TEST EQUIPMENT PVT LTD
719	U55101TG1981PTC002944	AMRUTHA HOTELS PVT LTD
720	U21012AP1981PLC002946	SRI PADMAVATI PAPER MILLS LTD
721	U51909TG1981PTC002947	ST. PAYAM EXPORTERS PVT LTD
722	U23201TG1981PTC002948	SAIMAN GAS APLIANCE PVT LTD
723	U15312AP1981PTC002954	SRI ANNAPARNA MODERN PAR BOILED RICE LIMITED
724	U52520TG1981PTC002956	PRIYA SALTS PRIVATE LIMITED
725	U74210AP1981PTC002958	KALYANA CHALUKYA) ENGINEERING WORKS PVT LTD
726	U24110AP1981PTC002961	NOVELS CHEMICALS PVT LTD
727	U16001AP1981PTC002967	NAVAJYOTY TOBACCO ENTERPRISES PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
728	U65992TG1981PTC002970	PRANITHI CHIT FUNDS PVT LTD
729	U74140TG1981PTC002972	SPLENDONRS MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
730	U65992TG1981PTC002976	ABHINANDANA CHIT FUND PVT LTD
731	U25209TG1981PTC002978	MICRON POLY PAPERS PVT LTD
732	U99999TG1981PTC002981	SAMRAT SPUN PIPES PVT LTD
733	U34300TG1981PLC002983	KENNARA AUTO GEAR AND GEAR BOXES LTD
734	U27109TG1981PTC002984	TELANGANA METALLIC COMPLEX PVT LTD
735	U24239TG1981PTC002985	ALMAX PHARMA PVT LTD
736	U17299TG1981PLC002986	T T INDUSTRIES AND TEXTILES LTD
737	U74210TG1981PTC002987	DEVI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
738	U74140TG1981PTC002988	MAURYA ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
739	U25199TG1981PLC002989	STEEL CORD RUBBERS LTD
740	U31909TG1981PTC002991	OSCAR ELECTRONICS PVT LTD
741	U05005TG1981PTC002994	KETHAKI FOSH SHININGS INDIA PVT LTD
742	U24100TG1981PTC002997	NAVAJEEVAN AGRO CHEMICALS PVT LTD
743	U65992TG1981PLC003001	KARIMNAGAR CHIT FUNDS PV LTD
744	U24210AP1981PLC003002	APEEJAY CHEMICALS LTD
745	U65992TG1981PTC003003	NIRMATA CHIT FUND AND ESTATES PVT LTD
746	U74210TG1981PLC003006	VINARMAN ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD
747	U65993AP1981PTC003008	ANANTA LAKSHMI INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
748	U65993AP1981PTC003009	SRI RANGARAYA INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
749	U26102AP1981PTC003010	SIMHA SUBHAAY ENGINEERS PVT LTD
750	U65993TG1981PTC003014	CONTINENTAL INVESTMENT CO PVT LTD
751	U21098TG1981PTC003019	PINAKINI STATIONERS PVT LTD
752	U74999AP1981PTC003067	VIJAY KRISHNA FABRICATORS CO PVT LTD
753	U65993TG1981PTC003138	ABAD FINANCERS PVT LTD
754	U65993TG1981PLC003154	TOBACCO DIVERSIFICATION INVESTMENTS LTD
755	U24220AP1981PTC003176	COROMANDEL PIGMENTS PVT LTD
756	U45200TG1981PTC003219	SAIRAM CONSTRUCTIONS (P) LTD
757	U18100TG1981PTC003232	PROGRESSIVE SYNTHETIC PVT LTD
758	U22110TG1981PTC003243	NAGARJUNA PUBLICATIONS PVT LTD
759	U28992TG1981PTC003294	SOUTH INDIA BARRELS PVT.LTD.
760	U25209TG1982PTC003354	SRI VIJAYALAKSHMI PLASTICS PVT LTD
761	U16001TG1982PTC003461	COROMANDEL CIGARETTE CO PVT LTD
762	U29295TG1983PLC003813	HYDERABAD MOULDINGS LTD
763	U74140TG1983PTC003861	PROFESSIONALS COMBINE PVT LTD
764	U85110TG1983PTC003885	TWIN CITIES MEDICAL AND CARDIOC CENTRE PVT LTD
765	U21022TG1983PTC003909	CHARMINAR PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
766	U45200TG1983PTC003932	SAPTAGIRI CONSTRUCTION PVT LTD
767	U45200TG1983PTC003954	PROCON CONSTRUCTION CO PVT LTD
768	U74300TG1983PTC004016	CREATIVE DIMENSIONS PVT LTD
769	U92111TG1983PTC004039	SAIKRISHNA PICTURES PVT LTD
770	U74210TG1983PTC004163	CHAITANYA ENGINEERING PVT LTD
771	U72200TG1983PTC004187	AKSHARA INFORMATION SYSTEMS PVT LTD
772	U22219TG1983PTC004196	MAHALAKSHMI SREENATHA FORMS AND SYSTEMS PVT LTD
773	U24299TG1983PLC004228	SRI SRINIVASA STARCH COMPLEX LTD
774	U74210TG1983PTC004366	ARCHANA ENGINEERING PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
775	U74140TG1984PTC004369	SRI SHARADA CONSULTANCY ORGANISATION PVT LTD
776	U65910TG1984PLC004392	PROGRESSIVE LEASING AND INVESTMENTS INDIA LTD
777	U52520TG1984PTC004403	HYDERABAD MARKETING SERVICES PVT LTD
778	U15312AP1984PTC004408	COROMANDEL RAWANDPARA BOILED RICE MILL PVT LTD
779	U15499TG1984PTC004464	ANDHRA PRADESH PROTEIN FOODS AND SALES PVT LTD
780	U65993TG1984PLC004491	VIJAYANAGAR FINANCE LTD
781	U74140TG1984PTC004496	COROMANDAL PROJECTS PVT LTD
782	U27100AP1984PTC004555	SRI ADITYA SHIPPING AND METAL PROCESSOR PVT LTD
783	U85110TG1984PLC004580	INTERNATIONAL MEDICAL INSTITUTE LIMITED
784	U27109TG1984PLC004630	PRIYADARSHINI CASTINGS LTD
785	U65993TG1984PTC004640	SEVEN HILLS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
786	U74999TG1984PTC004670	SARVARAYA CIGARETTE CO. PVT LTD
787	U74210AP1984PTC004708	CHANDRA ENGINEERING COMPANY PVT LTD
788	U65993TG1984PLC004810	JAI BHAVANI LEASING AND INVESTMENT LTD
789	U25209AP1984PTC004816	GURUDATTA PACKAGE INDUSTRIES PVT LTD
790	U16001AP1984PTC004822	SATYA SREE TOBACCO TRADERS PVT LTD.
791	U18100TG1984PLC004840	SRI LAKSHMIDURGA GINNING AND OILS LTD
792	U23209AP1984PTC004881	SRI RAGHAVENDRA SOLID FUEL COMPLEX PRIVATE LIMITED
793	U31909TG1984PLC004885	ANDHRA PRADESH FLUORESCENTS LTD
794	U65993TG1984PTC004908	GOPIKRISHNA INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
795	U55101TG1984PTC004958	BHANU HOTELS AND PROPRIETORS PVT LTD
796	U65992TG1984PTC004987	LAXMI PRASANNA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
797	U72200TG1984PLC004989	INTERNATIONAL MACHINE INTELLIGENCE LIMITED
798	U45200TG1984PTC005099	RAVURI CONSTRUCTION CO PVT LTD
799	U51109AP1984PTC005143	COASTAL DISTRIBUTORS PVT LTD
800	U52599TG1984PTC005170	GAYATRI DEVI MARKETING PRIVATE LIMITED
801	U74999TG1985PTC005287	ANDHRA PRADESH DEXTRIN MANUFACTURERS PVT LTD
802	U63022TG1985PTC005322	VIJAYA METALLURGICALS PVT LTD
803	U74999AP1985PTC005326	VISAKHA POLYPACK INDUSTRIES PVT LTD
804	U45200TG1984PTC005463	MAHESWARI BUILDINGS PVT LTD
805	U30009TG1985PTC005479	CONTINENTAL INSTRUMENTS PVT LTD
806	U35922TG1985PTC005498	SHREE TRISHUL CARTONS PVT LTD
807	U74140TG1985PTC005756	VANTECH CONSULTANTS PVT LTD
808	U33112TG1985PTC005934	RAMAKRISHNA SURGICAL PRIVATE LIMITED
809	U15541TG1985PLC005957	COROMANDAL BEVERAGES LTD
810	U14297AP1986PTC006340	VENUS MINERAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
811	U24230TG1986PTC006392	EUREKA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
812	U24230TG1986PTC006399	HIGH-TECH MEDICALS PRIVATE LIMITED
813	U65990TG1986PTC006411	PRUDENTIAL INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
814	U65990TG1986PTC006425	HYDERABAD INVESTMENT AND SHARE CONSULTANCY PVT LTD
815	U45200TG1986PTC006450	21ST CENTURY CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
816	U99999AP1986PTC006468	SRI CHAKRA GRANITES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
817	U45200AP1986PTC006510	ASHWINI CONSTRUCTION AND CONTRACTORS PVT LTD
818	U65993AP1986PTC006549	SRI LAXMI VIGNESWARA FINANCE AND CHITFUNDS PVT LTD
819	U24292AP1986PTC006570	SRI KRISHNA EXPLOSIVES AND ACCESSORIES PVT LTD
820	U45200TG1986PTC006678	ASSOCIATED BUSINESS CENTRE PVT. LTD.
821	U74140TG1986PTC006759	COASTAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED.

S.No.	CIN	Company Name
822	U05004AP1986PTC006760	COROMANDEL FISHING NETS PRIVATE LIMITED
823	U21012TG1986PTC006920	SRI VENKATESH MARKETING COMPANY PVT.LTD
824	U74999TG1986PTC006962	PENGUIN ENGINEERING INDUSTRIES PVT. LTD.
825	U05004AP1987PTC007297	SEVEN HILLS FISHERIES PVT. LTD.
826	U27203TG1987PTC007363	HYDERABAD METALUMIN PVT LTD
827	U24230TG1987PLC007542	PARAMOUNT INFUSIONS LIMITED
828	U74300TG1987PTC007549	CHAITANYA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
829	U28933TG1987PTC007634	MYTHRI ORNAMENTAL FORGINGS PVT LTD
830	U55101AP1987PTC007713	VENKATA LAKSHMI SRINIVASA RESTAURANT PRIVATE LIMITED
831	U24239TG1987PTC007723	OTIRA PHARMACEUTICALS PVT LTD
832	U65993TG1987PTC007762	SOWBHAGYA INVESTMENTS PVT LTD
833	U5209TG1987PTC007859	SRI VENKATESWARA MOULDINGS PVT LTD
834	U29120TG1987PTC007896	PREMIER SUBMERSIBLE PUMPS PRIVATE LIMITED
835	U65910TG1987PTC007935	RAMANJANEYA FINANCE AND HIRE PURCHASE PVT LTD
836	U65993TG1987PTC007968	SWARNAMUKHI INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED
837	U63011TG1987PTC008019	COROMANDEL TRANSPORT CONTRACTORS PVT LTD
838	U74210TG1987PTC008103	CHANDANA ENGINEERING AND INVESTMENTS PVT LTD
839	U65993TG1987PTC008117	SOUTHERN INTEGRATED FINANCE PVT LTD
840	U20221TG1988PTC008177	COASTAL WOOD CRAFTS PVT LTD
841	U74999AP1988PLC008226	SRI SRINIVASA ALUMINIUM CRAFTS LTD
842	U52520AP1988PTC008290	AMARAVATHI MARKETING PVT LTD
843	U65992TG1988PTC008341	RAJANI CHIT FUND PVT LTD
844	U65992AP1988PTC008460	SRI MARUTHI MAHESWARA FINANCE AND CHIT FUNDS PVT LTD
845	U99999TG1988PTC008471	VENKATARAMANA STONE PROCESSORS PVT LTD
846	U31909AP1988PTC008545	SRI VENKATESWARA ELECTRICAL CONTRACTOR AND ENGINEERS P. LTD.
847	U65992AP1988PTC008728	VISWAVIJETHA FINANCE AND CHIT FUNDS PVT LTD
848	U45200TG1988PTC008734	SAPTAGIRI ENGINEERING CONTRACTORS PVT LTD
849	U65991TG1988PTC008740	TWIN CITIES MARKETING PVT LTD
850	U24219TG1988PTC008769	BHAGYANAGAR FLOWCHEM PVT LTD
851	U31909TG1988PTC008982	TUNGABHADRA ELECTRODES PRIVATE LIMITED
852	U65993TG1988PTC009063	THODUPUNOORI PUSHPAMMA SAMBAIAHS GENERAL INVEST AND FINANCE PRIVATE LIMITED
853	U80300TG1988PTC009337	NALANDA EDUCATIONAL SERVICES PVT LTD
854	U65910TG1988PLC009398	PRAJAY FINANCIAL SERVICES LIMITED
855	U65992TG1988PTC009418	SRAVYA CHIT FUNDS PVT LTD
856	U65993TG1989PTC009461	SREE H.B.INVESTMENTS PVT LTD.
857	U52520TG1989PTC009498	SANTHOSH MARKETINGS (MATS) PVT LTD.
858	U72200TG1989PTC009519	ASSOCIATED INFORMATICS PVT LTD.
859	U65993TG1989PTC009524	VISHWAS INVESTMENTS PVT LTD.
860	U45200TG1989PTC009638	BHAGYANAGAR BUILDERS PVT LTD.
861	U52392TG1989PTC009731	DHANALAXMI MARKETING PRIVATE LIMITED
862	U27109AP1989PTC009747	DYNAMIC INVESTMENTS SERVICE PVT LTD
863	U18209AP1989PTC009774	SRI LAKSHMI LEATHERS PVT LTD
864	U70102TG1989PLC009832	NAGARJUNA COMMERCIAL PROJECTS LTD.
865	U45200TG1989PLC009833	SOUTHERN INTEGRATED PROJECTS LTD.
866	U65992AP1989PTC009944	SHASHIDHARA CHIT FUNDS PVT LTD.
867	U27204TG1989PTC009967	SRI RAGHAVENDRA OXIDES PVT LTD.

S.No.	CIN	Company Name
868	U45200TG1989PTC010006	SRI LAKSHMI GANAPATHI CONSTRUCTIONS PVT LTD
869	U85110TG1989PTC010035	RAMAKRISHNA NURSING HOME PVT LTD.
870	U51909AP1989PTC010207	SRI ARUNA EXPORTERS PVT. LTD.
871	U65993TG1989PTC010254	TRIPURA SUNDARI INVESTMENT AND FINANCE PVT LTD
872	U65993AP1989PTC010352	SHIRDI SAI INVESTMENT CONSULTANTS PVT.
873	U67120TG1989PTC010355	SHIRDI SAI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
874	U65910TG1989PTC010476	PARAMESWARI LEASING AND FINANCES PVT LTD
875	U45200TG1989PTC010575	GODAVARI CONSTRUCTIONS PVT LTD
876	U31909TG1989PTC010738	PRAGATHI APPLIANCES PVT LTD
877	U65993TG1990PTC010974	VANTAGE INVESTMENTS PVT LTD
878	U65910TG1990PTC010987	SRI VENKATESWARA AUTO FINANCE PVT LTD
879	U74140AP1990PTC011033	VIJAYAWADA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
880	U67120TG1990PLC011045	MILLENNIUM SECURITIES LIMITED
881	U45200AP1990PTC011109	GOODWILL CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
882	U67120AP1990PTC011143	VIJAYALAKSHMI VENTURES PVT. LTD.
883	U72900TG1990PTC011254	DECCAN TECHNOLOGIES PVT LTD
884	U65993TG1990PTC011376	KANAKADHARA MERCANTILE AND FINANCE PVT LTD
885	U01222TG1990PTC011389	MADHURI POULTRY FARMS PVT. LTD.
886	U15143TG1990PTC011394	SRI VENKATESWARA COCONUT FOOD PVT. LTD.
887	U24110TG1990PTC011445	CHAITANYA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
888	U99999TG1990PTC011501	ANNAPURNA EXPLOSIVE CHEMICALS PVT.LTD.
889	U65993TG1990PTC011524	TIRUMALA INVESTMENTS PVT.LTD.
890	U45200TG1990PTC011528	SRI GOPALAKRISHNA CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
891	U65992AP1990PTC011541	SRI SIVAJYOTHI CHIT FUNDS PVT.LTD.
892	U24110TG1990PTC011609	SRI SATYA SAI CHEMICALS AND FEEDS PVT LTD
893	U74999TG1990PTC011655	SOMESWARA ENGINEERING PVT.LTD.
894	U18209TG1990PTC011690	ASSOCIATED FOOTWEART PRIVATE LIMITED
895	U29309TG1990PTC011751	SILICON ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
896	U23201TG1990PTC011811	HYDERABAD LUBRICANTS AND SPECIALITIES PVT LTD
897	U26921TG1990PLC011826	NAGARJUNA LITECRETE LIMITED
898	U13209AP1990PTC011829	SRI VENKATESWARA GRAPHIC AND MICA MINES PVT LTD
899	U01122AP1990PTC011830	SRI VENKATESWARA HORTICULTURE FARMS PVT LTD
900	U63011AP1990PTC011833	SRI VASAVI TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
901	U92111AP1990PTC011839	SRI LALITHA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
902	U74300AP1990PTC011841	SIMHAGIRI ADVERTISING AND MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
903	U85110AP1990PTC011842	DATTATREYA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
904	U70102TG1990PTC011852	HARIHARA ESTATES PRIVATE LIMITED
905	U05005AP1990PTC011938	SRI SAIRAM FREEZERS PRIVATE LIMITED
906	U31909TG1990PTC011984	AYYAPPA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
907	U64203TG1990PTC012044	DECCAN TELECOMMUNICATION AND ELECTRONICS SYSTEMS PVT.LTD.
908	U15312TG1990PTC012049	VIJAYADURGA PARBOILED PRIVATE LIMITED
909	U65993TG1990PTC012062	SLA LEASING AND ESTATES PVT.LTD.
910	U65993TG1990PTC012063	SLA LEASING AND ESTATES PVT.LTD.
911	U63011AP1991PTC012163	MURALIKRISHNA TRANSPORTS PVT LTD
912	U29303TG1991PTC012172	LAKSHMI NARASIMHA FANS PVT LTD
913	U15209TG1991PTC012248	INTERNATIONAL DAIRY FOOD PVT LTD.
914	U30001TG1991PTC012258	ASHWINI AUTOMETIOUS PVT. LTD.

S.No.	CIN	Company Name
915	U74999AP1991PTC012263	SRI VENKATESWARA CHITRAMANDIR PVT. LTD.
916	U65910AP1991PTC012331	VEERAMACHANENI FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
917	U27203TG1991PTC012403	SRI VENKATESWARA ALUMINIUM BONDS PVT.LTD.
918	U65922AP1991PLC012516	GRUHALAKSHMI HOUSING FINANCE LIMITED
919	U65992AP1991PTC012546	DOORADARSI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
920	U74210TG1991PTC012553	SRI VENKATARAMANA ENGINEERINGG PRIVATE LIMITED
921	U45200AP1991PTC012558	MURALIKRISHNA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
922	U65920TG1991PTC012640	DHANAVARSHA COMMERCIAL CREDIT PRIVATE LIMITED
923	U24239TG1991PTC012661	PARAMESWARI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
924	U21029TG1991PTC012727	MANOHARA EDUCATIONAL INSTITUTE PRIVATE LIMITED
925	U24110TG1991PTC012744	SRI LAKSHMI DEVI POUCHES AND CONTAINERS PVT LTD
926	U72200TG1991PTC012746	SRI VENKATESWARA FARMAS PRIVATE LIMITED
927	U65910AP1991PTC012964	BHAVITHA COMMERCIAL CREDIT PRIVATE LIMITED
928	U65993TG1991PTC012975	SREE DHRUVA FINANCE AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED
929	U74999AP1991PTC013025	SRI KRISHNA LIMGROSS PRIVATE LIMITED
930	U17116AP1991PTC013034	PRASANNA SERICULTURE GRAINAGE PRIVATE LIMITED
931	U45200TG1991PTC013110	TIRUPATHI PROMOTERS AND CONTRACTORS PVT LTD
932	U17116AP1991PTC013221	SAPTAGIRI GRAINAGES PRIVATE LIMITED
933	U15520TG1991PTC013238	VENKATARAMANA WINES PRIVATE LIMITED
934	U18100TG1991PTC013251	TWINCITIES INTERCONTINENTAL EXPORTS PVT LTD
935	U99999AP1991PTC013361	SRI VENKATA SAI PAPERS PRIVATE LIMITED
936	U99999TG1991PTC013395	MULTITECH EQUIPMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED
937	U45200TG1991PTC013426	BHADRACHALAM PROJECTS PRIVATE LIMITED
938	U65993TG1991PTC013496	BHAGYALAXMI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
939	U65993TG1991PTC013532	KLEN AND MARSHALLS FOUNDATIONS (INDIA)
940	U74140TG1992PTC013690	PROFESSIONAL OFFICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
941	U65993TG1992PTC013693	ANDAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
942	U55101TG1992PTC013713	SRI PADMAVATHI VENKATESH HOTELS AND CATERERS PRIVATE LIMITED
943	U34300TG1992PTC013746	CHARMINAR AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
944	U74999TG1992PTC013824	SHANMUKHA THERMOPACKS PRIVATE LIMITED
945	U15499TG1995PTC013834	MACHINO FABS (INDIA) PRIVATE LIMITED
946	U67120TG1992PTC013852	BHAGAWATHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
947	U85110TG1992PTC013869	CHAMUNDESWARI RESORTS PRIVATE LIMITED
948	U45201TG1992PTC013878	EAST WEST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
949	U70102TG1992PTC013889	SRI DWARAKAMAI ESTATES PRIVATE LIMITED
950	U70102TG1992PTC013901	VASUNDHARA DEVI ESTATES PRIVATE LIMITED
951	U92111TG1992PTC013913	SRI SACHCHIDANANDA CREATIONS PRIVATE LIMITED
952	U65993TG1992PTC013915	SRI DWARAKAMAI VENTURES PRIVATE LIMITED
953	U65993TG1992PTC013937	ABHYUDAYA FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
954	U29309TG1992PTC013954	SRI LAKSHMI APPLIANCES PRIVATE LIMITED
955	U24110AP1992PTC014083	VENKATALAKSHMI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
956	U65992TG1992PTC014134	NAVACHAITANYA CHITFUND AND FINANCE PRIVATE LIMITED
957	U45200TG1992PLC014259	ANDHRA PRADESH HOUSING DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION LIMITED
958	U24110TG1992PTC014272	PROGRESSIVE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
959	U14102TG1992PTC014338	VASUNDHARA GRANITES PRIVATE LIMITED
960	U65993TG1992PTC014391	JAHNAVI INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
961	U29309TG1992PLC014432	NAGARJUNA EIDERPAGING LIMITED
962	U67120AP1992PLC014480	KANAKA VARSHA SECURITIES LIMITED
963	U73100AP1992PTC014526	RAYALASEEMA DIAGNOSTIC AND REASEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
964	U74210TG1992PTC014548	VIJAYALAKSHMI HUMAN NEEDS PRIVATE LIMITED
965	U70102AP1992PTC014556	SRI SRINIVASA MURLIKRISHNA REAL ESTATES PVT LTD
966	U65993TG1992PTC014565	SURAKSHA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
967	U21010TG1992PTC014568	SRI VENKATA SATYANARAYANA FRUIT PROCESSING PRIVATE LIMITED
968	U24230TG1992PTC014621	STANDARD THERAPEUTIC LABORATORIES PVT LTD
969	U45200TG1992PLC014701	SEVEN HILLS CONSTRUCTIONS AND INDUSTRIES PVT LTD
970	U65993TG1992PTC014712	SRINIDHI COMMERCIAL SERVICES PVT. LTD.
971	U74300TG1992PTC014749	TELANGANA ADVERTISING SERVICES PVT.LTD.
972	U73100AP1992PTC014785	RAJAHMUNDY DIAGNOSTIC LABORATORIES PVT. LTD
973	U74140TG1992PTC014861	ORIENTAL MANAGEMENT CONTROLS PRIVATE LIMITED
974	U74210TG1992PTC014864	SRINIDHI ENGINEERING WORKS PVT. LTD.
975	U05005AP1992PTC014900	ANDHRA PRADESH AQUACULTURE CONSULTANCY PVT. LTD.
976	U51909TG1992PLC014917	PREMIER INTERNATIONAL LTD.
977	U74140TG1992PTC014988	PROGRESSIVE INDUSTRIAL FINANCE AND MANAGEMENT PVT LTD
978	U15520TG1992PLC015066	PIONEER DISTILLERIES LTD
979	U01122AP1992PLC015078	BHADRACHALAM PLANTATION AND HOLIDAY RESORTS LTD
980	U27109TG1992PTC015130	INTEGRATED TECHNOLOGIES [INDIA] PVT LTD
981	U65910TG1993PLC015227	INDWELL LEASING AND INVESTMENTS LTD
982	U31909TG1993PTC015317	ASHWINI ELECTROLYTIC PROCESSES PVT LTD
983	U70102TG1993PTC015338	PRIDE HOMES PVT LTD
984	U45200TG1993PTC015374	SRICHAKRA CONSTRUCTION PVT LTD
985	U65921TG1993PTC015523	PARWATHANENI FINANCE PRIVATE LIMITED
986	U01122TG1993PTC015569	R E S AGROTECH PVT LTD
987	U01122TG1993PTC015615	VIJAYA PHYTO FARMS PVT LTD
988	U55101TG1993PTC015675	VEEKAY HOSPITALITIES AND FACILITIES PVT LTD
989	U99999TG1993PTC015864	SPECTRUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
990	U65921AP1993PTC015911	SRI LAKSHMI PARAMATHMA FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
991	U74210TG1993PTC016050	PRIYANKA ENGINEERING PRIVATE LIMITED.
992	U99999AP1993PLC016076	RAMA KRISHNA FINANCE LIMITED
993	U67120TG1993PTC016095	SRI RAMACHANDRA INVESTMENTS PVT. LTD.
994	U51909TG1993PTC016226	SREE SAI SURYA MUSHROOMS PVT LTD
995	U65992AP1993PTC016327	DANDAMUDI CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
996	U74300AP1993PTC016341	VISAKHA ADVERTISER PRIVATE LIMITED
997	U45200TG1993PTC016353	SAI LAKSHMI ESTATES PVT LTD
998	U67120TG1993PTC016378	PRAGATHI SECURITIES PVT LTD
999	U65993TG1993PTC016383	ACUMEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1000	U65992TG1993PTC016469	SRI CHAKRA SRAAVANA CHIT FUND PVT LTD
1001	U65920TG1993PTC016470	SRI CHAKRA SRAAVANA FINANCE PVT LTD
1002	U65921TG1993PTC016567	METPALLY-VEMULAWADA HIRE PURCHASE LIMITED
1003	U45200TG1993PLC016694	SNEHALATHA INDUSTRIES LIMITED
1004	U67120TG1993PTC016716	SURYA SHARE SERVICES PVT LTD
1005	U29309TG1993PTC016808	PIONEER STRUCTURALS PVT LTD
1006	U45200TG1993PTC016809	MALLIKARJUNA ENGINEERS AND CONTRACTORS PVT LTD
1007	U40109TG1994PLC017388	DUNCAN MACNEILL POWER AND UTILITIES PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
1008	U70102TG1994PLC017393	DUNCAN MACNEILL INFRASTRUCTURE LTD
1009	U31402TG1994PTC017503	SRI RAGHAVENDRA AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1010	U45200TG1994PTC017540	MAA SAI DATTA HOMES PVT LTD
1011	U92110TG1994PTC017638	SYMPHONY BROADCAST AND MEDIA PRIVATE LIMITED
1012	U27209TG1994PLC017652	KEERTI KOPPER LIMITED
1013	U65992TG1994PTC017780	SRI SAI NAGARJUNA CHITS AND FINANCE LIMITED
1014	U65992AP1994PTC017930	SREE PADMAVATHI VENKATESWARA CHITS AND FINANCE PVT LTD,
1015	U45201TG1994PTC018065	ASHWINI CONSTRUCTIONS PVT LTD
1016	U65999TG1994PLC018099	CHARMINAR FINANCIAL SERVICES LTD
1017	U70102AP1994PTC018105	SRI VENKATA SAASTHA VENTURES AND TRADES PVT LTD
1018	U65993AP1994PTC018108	SAI LAKSHMI FINANCE PVT LTD
1019	U65920TG1994PTC018143	SEVEN HILLS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1020	U99999AP1994PTC018200	SREE BHAVANI MARINE STRUCTURES PRIVATE LIMITED
1021	U65992AP1994PTC018336	SRI VIGNESWARA FINANCE AND CHIT FUNDS PVT LTD
1022	U74999AP1994PLC018457	PRAGATHI INORGANICS LIMITED
1023	U65993TG1994PTC018478	SRINIDHI KARIMNAGAR FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1024	U22110TG1994PTC018483	ANDHRA BHOOMI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1025	U74120TG1994PTC018604	SRI SAI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1026	U65992TG1994PTC018607	SRI SAISHANAVRUDDHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1027	U05005TG1994PLC018708	RESOURCE AQUA LIMITED
1028	U99999TG1994PLC018824	KAKATIYA SECURITIES LIMITED
1029	U65922AP1994PTC018856	AVADHANI HOUSING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1030	U65910TG1994PLC018983	SRI MAHALAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1031	U65992AP1994PTC019062	SRI GANAPATHI SATCHIDANANDA FINANCE AND CHITS PRIVATE LIMITED
1032	U65923TG1995PTC019150	VAISHNAVI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1033	U67120TG1995PTC019204	RAJYALAKSHMI HOLDING PRIVATE LIMITED
1034	U92199TG1995PTC019257	SRI RAMANUJA THEATRES AND HOTELS PRIVATE LIMITED
1035	U65910TG1995PTC019429	SRI KESHAVA FINANCE PRIVATE LIMITED
1036	U67120AP1995PTC019433	PROGRESSIVE SECURITIES PRIVATE LIMITED
1037	U65993TG1995PTC019515	VASUNDHARA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1038	U65993AP1995PTC019787	COLONIAL INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1039	U65992AP1995PTC019861	RAJA RAJESWARI CHITS & INVESTMENTS PVT LTD
1040	U65993TG1995PTC019876	KAMAREDDY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1041	U65992TG1995PTC019935	METPALLY KARIMNAGAR CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1042	U24219TG1995PTC019967	GREEN GOLD MARKETING PRIVATE LIMITED
1043	U24219TG1995PLC019981	GREEN GOLD LABORATORIES LIMITED
1044	U67120TG1995PLC019995	BERKSHIRE SECURITIES LTD
1045	U74999TG1995PTC020296	JANAPRIYA COMMERCIAL CREDITS PRIVATE LIMITED
1046	U24110TG1995PTC020311	SRI VEVET CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1047	U92111AP1995PTC020374	CHIRALA COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED
1048	U40109TG1995PLC020401	KUMAR'S ENERGY CORPORATION LIMITED
1049	U74999AP1995PTC020423	BALAJI LOCKERS PRIVATE LIMITED
1050	U65992TG1995PTC020580	KAMALAPUR BHADRAKALI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1051	U65920TG1995PLC020796	SRI GURUDATTA CAPITALS LIMITED
1052	U18100TG1995PTC021112	WINTEX COTGIN PRIVATE LIMITED
1053	U65993AP1995PTC021151	RADHA KRISHNA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1054	U45200TG1995PTC021189	NORTH-EAST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1055	U90009TG1995PTC021202	MICRO CONTAMINATION AND POLLUTION CONTROLS PRIVATE LIMITED
1056	U92111AP1995PTC021316	CHITTOOR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1057	U65992TG1995PLC021609	KARIMNAGAR JAYANTHI CHIT FUNDS LIMITED
1058	U65910TG1995PTC021613	SNEHA SHAKTHI FINANCE PRIVATE LIMITED
1059	U45200TG1995PTC021956	VINAYAKA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1060	U65992AP1995PTC021978	VISAKHA KALPAVRIKSHA CHITS PRIVATE LIMITED
1061	U65922TG1995PLC022218	DUNCAN MACNEILL HOUSING COMPLEX LIMITED
1062	U27109TG1995PLC022219	INDO AMERICAN STEELS LIMITED
1063	U14102TG1995PTC022318	SRI VENKATA SATYANARAYANA GRANITES PVT LTD
1064	U65992AP1995PTC022320	SRI SAI SAMPATH CHITS PRIVATE LIMITED
1065	U29309TG1995PTC022355	SRI SATYA SAI SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED
1066	U65992AP1995PLC022379	SRI SAI SIRI FINANCE AND LEASING LIMITED
1067	U93090TG1995PTC022420	SREE VENKATESHWARA MARRIAGE SERVICES PVT LTD
1068	U45200TG1995PTC022426	SRI GURU CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1069	U70100TG1995PTC022427	SRI SADGURU DATTASAI BUILDERS PRIVATE LIMITED
1070	U70102TG1995PTC022431	HUZURABAD SURYA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
1071	U65992AP1995PTC022452	TULLURI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1072	U65992AP1995PTC022524	SWEETY DARS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1073	U99999TG1995PLC022537	SRI SHIVA SAI SECURITIES LIMITED
1074	U65990AP1995PLC022566	P.G.FORTUNE SECURITIES LIMITED
1075	U29309AP1995PTC022589	RAYALASEEMA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1076	U92111TG1995PTC022711	SEVEN HILLS AGENCIES PRIVATE LIMITED
1077	U18100TG1996PTC022805	SRI BALAJI VENKATESHWARA TEXTILE MILLS PVT LTD
1078	U65921TG1996PLC022837	SRI VENKATA PADMAVATI FINANCE LIMITED
1079	U65921TG1996PLC023027	KAMALAPUR BHADRAKALI COMMERCIAL FINANCE LIMITED
1080	U70102TG1996PLC023035	LEELA KRISHNA ESTATES LIMITED
1081	U65910TG1996PTC023082	DHANA VARSHA LEAFINNN AND HIREPURCHASE PRIVATE LIMITED
1082	U65910TG1996PLC023083	SRI DEVI ANNAPOORNA ASSOCIATES LEASING HIRE PURCHASE 7
1083	U65990TG1996PLC023195	VAISHNAVI SECURITIES LIMITED
1084	U80220TG1996PTC023299	EUREKA TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
1085	U24290TG1996PLC023357	RAYALASEEMA CALCIUM PRODUCTS LIMITED
1086	U63023TG1996PTC023454	HERITAGE POLYPACK PRIVATE LIMITED
1087	U65910TG1996PLC023493	PRIYADARSHINI INVESTMENT LIMITED
1088	U65920TG1996PTC023525	SRI SAI PRIYA FINANCE PRIVATE LIMITED
1089	U25202TG1996PTC023558	SRI SAI VINAYAKA PACKAGINGS PRIVATE LIMITED
1090	U72200TG1996PTC023576	SRI SATYA SAI SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
1091	U17120AP1996PLC023597	SWARNAMUKHI TEXTILES LIMITED
1092	U70100TG1996PTC023651	SRI SAI RAM DEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1093	U70100AP1996PTC023717	KRISHNAVENI HOUSING PRIVATE LIMITED
1094	U65992AP1996PTC023720	SRI DATTA SAI CHITFUND COMPANY PRIVATE LIMITED
1095	U74140AP1996PTC023802	EAST COAST OVERSEAS EMPLOYMENT PRIVATE LIMITED
1096	U45200AP1996PTC023850	SAI CHARAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1097	U65921AP1996PTC023904	SRI LALITHA FINANCE PRIVATE LIMITED
1098	U65992AP1996PTC023925	SRI VENKATA MAHALAKSHMI CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1099	U65992TG1996PTC023940	OM SREE GANESHA NEELA CHITS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1100	U65990TG1996PTC024092	VASUNDHARA SECURITIES AND FINANCE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1101	U21010TG1996PTC024257	BHAGYANAGAR CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1102	U74999AP1996PTC024263	SRI BALA CHAMUNDESWARI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1103	U65910TG1996PTC024333	KRISHNA PANCHAJANYA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
1104	U65910TG1996PTC024358	SRI LAKSHMI NARASIMHA LEAFIN PRIVATE LIMITED
1105	U72200TG1996PLC024359	WHITE FIELD SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED
1106	U65992AP1996PTC024389	SRI SUBRAMANYESWARA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1107	U01110AP1996PTC024427	SAMPADA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
1108	U74300TG1996PTC024447	MERCURY ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1109	U74999TG1996PTC024454	SHRESHTA REFRIGERATION PRIVATE LIMITED
1110	U72200TG1996PTC024455	GUDE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1111	U45203TG1996PTC024460	SHRESHTA STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
1112	U80900AP1996PTC024465	PRAGATHI PROFESSIONAL TRIANING SERVICES PVT LTD
1113	U74990TG1996PTC024540	BEST CHOICE HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1114	U70100TG1996PTC024563	VIJETHA CONTRACTORS AND CONSTRUCTIONS PVT LTD
1115	U01212TG1996PTC024653	ENNARAI LIVESTOCK PRIVATE LIMITED
1116	U51496TG1996PLC024874	PIONEER MULTIVISIONS (INDIA) LIMITED
1117	U72200TG1996PTC024878	HORIZON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1118	U65910AP1996PLC024920	GURU RAGHAVENDRA FINANCE LIMITED
1119	U36911AP1996PTC024974	PEGASUS PRECIOUS STONES PRIVATE LIMITED
1120	U65992TG1996PTC025036	SRI SAI MAMATHA CHITS PRIVATE LIMITED
1121	U74210TG1996PTC025045	VIJAYALAKSHMI EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
1122	U72200TG1996PTC025273	FIRST INDIAN CORPORATION PRIVATE LIMITED
1123	U65992AP1996PTC025368	KANCHI KAMAKSHI CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1124	U65992TG1996PTC025416	GOLDEN THRESHOLD CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1125	U99999TG1996PLC025492	HEART ANIMATION STUDIOS LIMITED
1126	U65992AP1996PTC025631	VIJAYA LEAFIN AND CHITS PRIVATE LIMITED
1127	U65992TG1996PTC025650	SIDDHI GANESH CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1128	U74999TG1996PTC025715	SRICHAKRA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
1129	U65921TG1996PLC025789	WARANGAL ASSOCIATES FINANCE & HIRE PURCHASE LIMITED
1130	U74950TG1996PTC025861	MANIKANTA PACKAGING PRIVATE LIMITED
1131	U01119TG1996PTC025925	GREEN EARTH PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1132	U40109TG1996PLC025996	D C POWER LIMITED
1133	U65992TG1996PTC026065	DIVYA VIJAYADURGA CHITFIN PRIVATE LIMITED
1134	U65992TG1996PTC026066	SRI VENUGOPALASWAMY CHIT FUND AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1135	U72200AP1997PTC026183	MACHILIPATNAM COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1136	U14102TG1997PTC026210	TUNGABHADRA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1137	U65991TG1997PTC026281	SANKEERTHANA SAVINGS AND INVESTMENTS PVT LTD
1138	U99999TG1997PLC026324	VENKATA SAI GENNERAL FINANCE AND INVESTMENTS (INDIA) LIMITED
1139	U65992TG1997PTC026363	SRI LAKSHMI BHAVANI CHITS LINE PRIVATE LIMITED
1140	U27109AP1997PTC026370	SRI KANAKAMAHALAXMI STEELS PRIVATE LIMITED
1141	U65992TG1997PTC026381	SRI SAI VISHNUVARDHAN CHITS PRIVATE LIMITED
1142	U24230TG1997PTC026415	HALMAK PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1143	U99999TG1997PLC026460	CREATIVE INDIA VENTURE CAPITAL LIMITED
1144	U22110TG1997PTC026461	SIVARANJANI PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
1145	U65910AP1997PLC026481	GOLDEN ROCK INVESTMENTS AND FINANCE PVT LTD
1146	U70102TG1997PTC026493	MEGACITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1147	U45200AP1997PTC026632	SRI SATYA SAI VASUNDHARA HOUSING PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1148	U24230TG1997PTC026679	HYDERABAD ANTIBIOTICS PRIVATE LIMITED
1149	U65992AP1997PTC026698	BALAJI LOCKERS CHITS PRIVATE LIMITED
1150	U51493AP1997PTC026764	SRI SRINIVASA GRINAGE PRIVATE LIMITED
1151	U74300AP1997PTC026797	SURYA BHASKARA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1152	U45200TG1997PTC026837	JYOTHIRMAI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1153	U73100TG1997PLC026868	FOURTH DIMENSION COORDINATORS LIMITED
1154	U15510TG1997PLC026942	SARGA DISTILLERIES LIMITED
1155	U65992TG1997PTC027004	SAI MANIKANTA CHITFIN PRIVATE LIMITED
1156	U65992AP1997PTC027146	SREE VENKATA BHAVANI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1157	U65910AP1997PLC027301	SRI VASAVI MAHALAKSHMI FINANCE LIMITED
1158	U72200TG1997PTC027356	UNIVERSAL INFOMATICS PRIVATE LIMITED
1159	U72200TG1997PLC027432	PARADIGM INFORMATION SYSTEMS LIMITED
1160	U65993TG1997PTC027445	SRI TIRUMALA SRINNIVASA AUTO FINANCE PVT LTD
1161	U45200TG1997PLC027456	PRADESHVIKAS BUILDERS LIMITED
1162	U65921TG1997PLC027472	KRISHNA SAI JAYACHAKRA HIRE PURCHASE LIMITED
1163	U72200TG1997PTC027499	SRI RAMANA INFORMATION RESEARCH AND SYSTEM DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1164	U65992TG1997PLC027533	LAXMI PRASANNA CREDIT AND COMMERCIAL INDIA LIMITED
1165	U65993AP1997PTC027625	SREE BRAHMALINGESWARA FINANCE PRIVATE LIMITED
1166	U67120AP1997PTC027687	VIJAYAWADA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1167	U64204TG1997PTC027722	SECUNDERABAD SATELLITE COMMUNICATIONS PVT LTD
1168	U85110AP1997PLC027727	KRISHNAVENI HOSPITALS LIMITED
1169	U85110TG1997PTC027829	BHAGYANAGAR ORTHOPAEDIC CENTRE PRIVATE LIMITED
1170	U67120TG1997PLC027927	SAI PRASANNA ASSOCIATES SECURITIES PVT LTD
1171	U72200TG1997PTC027961	BRILLIANT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1172	U17232AP1997PTC027991	COSMO BOARDS PRIVATE LIMITED
1173	U52393AP1997PTC028161	KANAKA DURGA JEWELLERY PRIVATE LIMITED
1174	U24220TG1997PTC028267	NANDI PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
1175	U70100AP1997PTC028330	SRI VENKATESWARA APARTMENTS PRIVATE LIMITED
1176	U14102AP1997PTC028369	RAYALASEEMA GRANITES PRIVATE LIMITED
1177	U92120TG1997PTC028370	SRI SRINIVASA THEATRES PRIVATE LIMITED
1178	U45201TG1997PTC028585	VENKATA PADMAVATHI ESTATES PRIVATE LIMITED
1179	U27201TG1997PTC028611	BHAGYANAGAR INSULATED WIRES PRIVATE LIMITED
1180	U28939TG1998PTC028763	VIJETHA ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
1181	U92111AP1998PTC028778	VIZAG COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED
1182	U45201TG1998PTC028793	SECUNDERABAD PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1183	U22121TG1998PTC028803	MIDRAM PUBLICATION PRIVATE LIMITED
1184	U74140TG1998PTC028841	SIVAPRIYA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1185	U65992AP1998PTC028880	SRI SAI BALAJI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1186	U65992TG1998PTC028883	SRI VIJAYADURGA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1187	U80301TG1998PLC028888	TRIVENI EDUCATIONAL ACADEMY LIMITED
1188	U65993TG1998PTC029037	KOUNDINYA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1189	U51909TG1998PTC029123	BRAHMA TEJA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1190	U85100TG1998PTC029158	SIDDARTHA MOZAMJAH HEALTH CARE SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
1191	U27104TG1998PTC029213	PENNAR ALUMINIUM CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
1192	U40108TG1998PLC029347	ANDHRA PRADESH WIND FARMS LIMITED
1193	U70100TG1998PTC029393	HARIPRIYA TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1194	U70100AP1998PTC029460	SRI DHANALAKSHMI MANGIUM DWELLERS PVT LTD
1195	U80301TG1998PTC029484	COSMIC CONSCIOUSNESS CENTRE PRIVATE LIMITED
1196	U63022TG1998PTC029564	SRI VENKATA SAI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1197	U65992TG1998PLC029642	SRI HARITHA CAPITAL AND HOUSING FINANCE PVT LTD
1198	U65992TG1998PTC029741	SRI SAI PRIYADHARANI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1199	U74200TG1998PTC030048	BERNHARD CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1200	U70102TG1998PTC030138	RAGHAVENDRA SHELTERS PRIVATE LIMITED
1201	U01224AP1998PTC030154	SRI DHANALAKSHMI SERITECH SEED CENTRE PRIVATE LIMITED
1202	U52334TG1998PTC030380	ELITE MAGNETIC DEVICES PRIVATE LIMITED
1203	U85110AP1998PTC030387	SIBAR WOMENS'S HEALTH CARE CENTRE PRIVATE LIMITED
1204	U31300TG1998PTC030403	OVN SOLAR CABLES PRIVATE LIMITED
1205	U15541TG1998PTC030494	SRI SAI LAKSHMI BOTTLING PRIVATE LIMITED
1206	U24110TG1998PTC030515	NAVA DURGA FULLER'S EARTH PRIVATE LIMITED
1207	U24130TG1998PTC030559	VSN PLASTICS PRIVATE LIMITED
1208	U65992AP1998PTC030637	SRI ANJALI S.N.PURAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1209	U45200TG1998PTC030696	MADHAVA HYTECH JAYALAXMI ENGINEERS PVT LTD
1210	U17110TG1998PTC030788	VARALAKSHMI KNITTERS PRIVATE LIMITED
1211	U63022AP1998PTC030813	SREE PUJITA MARKETING PRIVATE LIMITED
1212	U65992AP1998PTC030823	SRI SATYA SAI VASUNDHARA CHIT FUNDS PVT LTD
1213	U74140TG1999PTC030922	GROWWELL ASSOCIATES SERVICES PRIVATE LIMITED
1214	U01119TG1999PTC030927	CHAITANYA CULTIVATION PRIVATE LIMITED
1215	U72200TG1999PTC030935	KAMAREDDY INSTITUTE AND INFORMATION TECHNOLOGY JPRIVATE LIMITED
1216	U72200TG1999PTC031035	PROLIFIC INFORMATIONS PRIVATE LIMITED
1217	U72900TG1999PTC031064	INTERFACE CYBERTECH PRIVATE LIMITED
1218	U63011TG1999PTC031131	SRI LALITHA TRANSPORT PRIVATE LIMITED
1219	U74999TG1999PTC031132	PRATIBHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1220	U45200AP1999PTC031138	SREE PADMAVATHI SREENIVASA SANNIDHI HOUSING PRIVATE LIMITED
1221	U80100TG1999PTC031215	VAISHNAVI EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1222	U18101TG1999PLC031266	SRI VASAVI POLY INDUSTRIES LIMITED
1223	U99999TG1999PTC031280	SRI RAJESWARA FOODS PRIVATE LIMITED
1224	U74140TG1999PTC031475	MERITON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1225	U51909TG1999PTC031515	MESHENY IMPEX PRIVATE LIMITED
1226	U51909TG1999PTC031586	SUPER SURFACE IMPORTS AND EXPORTS PVT LTD
1227	U74140TG1999PTC031589	CAPSTONE CONSULTING PRIVATE LIMITED
1228	U72200AP1999PTC031620	HARITHA INFORMATICS PRIVATE LIMITED
1229	U14102TG1999PTC031758	SHATABDI GRANITES PRIVATE LIMITED
1230	U40109TG1999PTC031789	SWARNA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1231	U45200TG1999PTC031861	SHIVA SHAKTI TOWNSHIP PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1232	U24230TG1999PTC032147	VAISHNAVI INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
1233	U92111TG1999PTC032211	RADHAKRISHNA CINEMA THEATRE PRIVATE LIMITED
1234	U29305AP1999PTC032221	SRI SAI ELGITRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1235	U51500TG1999PTC032333	DHANAMJAYA IMPEX PRIVATE LIMITED
1236	U72200TG1999PTC032344	CONTINENTAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
1237	U72200TG1999PLC032390	VINDA TECHNOLOGIES LIMITED
1238	U74140AP1999PTC032549	KARTIKEYA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1239	U15209AP1999PTC032558	PALNADU DAIRY PRIVATE LIMITED,
1240	U72200AP1999PTC032584	VIJETHA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1241	U91990TG1999PTC032719	HYDERABAD RESIDENCY CLUB PRIVATE LIMITED
1242	U72200TG1999PTC032807	SIRI CYBERTECH PRIVATE LIMITED,
1243	U72200TG1999PTC032867	SRI VINAYAKA INSTITUTE OF COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
1244	U24110TG1999PTC033123	MILLENNIUM FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
1245	U32204TG1999PTC033132	CHARMINAR COMMUNICATIONS NETWORK PRIVATE LIMITED
1246	U72200TG1999PLC033181	FIRST CHOICE SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED
1247	U72200TG1999PLC033196	ADARSH TECHNOLOGIES LIMITED
1248	U45201TG2000PTC033216	SWARNANDHRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1249	U31909TG2000PTC033228	SANA CONTINENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1250	U72200TG2000PTC033271	LORVEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1251	U45201AP2000PTC033272	SRI VIJAYA DURGA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1252	U72200TG2000PTC033297	TWIN CITIES COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED
1253	U74999AP2000PTC033322	VELAGAPUDI PROJECTS PRIVATE LIMITED
1254	U30007AP2000PTC033421	SRI SAI RAM INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
1255	U72200TG2000PLC033539	WINDSOR TECHNOLOGIES LIMITED
1256	U72200AP2000PTC033673	VIRASI CORRESPONDENTS. COM PRIVATE LIMITED
1257	U24110AP2000PTC033795	ASSOCIATED FERTILISERS PRIVATE LIMITED
1258	U67120AP2000PTC033801	ANANTAPUR SECURITIES PRIVATE LIMITED
1259	U85110TG2000PTC033813	SRI VENKATESWARA HEALTH CARE PRODUCTS PVT LTD
1260	U72200TG2000PTC033900	ERUDITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1261	U72200TG2000PLC034008	VIVEKANANDA BHARATHI HI-TECH INDUSTRIES PVT LTD
1262	U72200TG2000PTC034161	MILLENNIUM MEDITRANS PRIVATE LIMITED
1263	U70102TG2000PTC034166	VISWAKARMA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1264	U72200TG2000PTC034218	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1265	U45200TG2000PTC034298	SREERALA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1266	U72200TG2000PTC034434	NORD INFOTECH PRIVATE LIMITED
1267	U72200AP2000PTC034542	AMRUTHAKRISHNA TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
1268	U72200TG2000PTC034649	GSS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1269	U45200TG2000PTC034674	SAI TEJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1270	U72200TG2000PLC034689	OPEN DOORS LIMITED
1271	U65992AP2000PTC034958	CHINTAPALLI CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
1272	U45200AP2000PTC035119	DIGVIJAY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1273	U70102TG2000PTC035149	GIRIDHAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1274	U72200TG2000PLC035176	MAPWORLD TECHNOLOGIES LIMITED
1275	U74210AP2000PTC035407	SRI JAYALAKSHMI PROJECTS PRIVATE LIMITED
1276	U74140TG2000PTC035417	TOPAZ DETECTIVES AND SECURITY SERVICES PVT LTD
1277	U72200TG2000PTC035490	UNIGLOW INFOTECH PRIVATE LIMITED
1278	U67120TG2000PTC035625	VIJAYAKRISHNA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1279	U65191AP2000PTC035644	JEEVAN JYOTHI DISCOUNT CARD NETWORK PRIVATE LIMITED
1280	U72200TG2000PTC035815	BUTLER TECHNICAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
1281	U70101TG2000PTC035913	SNOWFIELD PROJECTS PRIVATE LIMITED
1282	U35204TG2000PTC035917	VOITH TURBO RAIL PRIVATE LIMITED
1283	U72400TG2001PTC035963	SPN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1284	U92113AP2001PTC036195	SRI BALAJI RAGHAVENDRA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1285	U27203TG2001PLC036201	VINAYAKA ALLUMINIUM BASED PRODUCTS INDIA LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1286	U85100TG2001PTC036261	RAJAGIRI HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1287	U99999TG2001PLC036315	PROTOCOL TECHNOLOGIES LIMITED
1288	U72200TG2001PTC036534	ADVANCED COMPUTER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1289	U91110AP2001PTC036673	CHAITANYA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
1290	U85110TG2001PTC036717	MILLENNIUM HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1291	U65992AP2001PTC036729	LAKSHMI NARAYANA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1292	U52393TG2001PTC036754	JEETU JEWELLERS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED
1293	U72200TG2001PTC036860	SRI SAI KRUPA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1294	U72200TG2001PTC036880	JAHNAVI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1295	U45200AP2001PTC036938	PARAMESWARI STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
1296	U92190TG2001PTC037022	KUNDANA ENTERTAINERS PRIVATE LIMITED
1297	U92132TG2001PTC037126	VAMSI KRISHNA FILMS AND DVD DISTRIBUTORS PVT LTD
1298	U72200TG2001PTC037137	SRI BHAVANI INFORMATION SOLUTIONS PVT LTD
1299	U72200TG2001PTC037152	STALWART STRATEGIES INTERACTING NETWORKS PVT LTD
1300	U52520TG2001PTC037804	SWARNANDHRA MARKETING EXIM PRIVATE LIMITED
1301	U70102TG2001PTC037856	SAI GAYATHRI TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
1302	U67190AP2001PTC037865	AMRUTHAKRISHNA STRATEGIC SOLUTIONS PVT LTD
1303	U63023TG2001PTC037969	SRI LAKSHMI GAYATRI FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED
1304	U72200TG2001PTC038049	PROCTOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1305	U52520TG2001PTC038061	SRICHAKRA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
1306	U45201AP2001PTC038108	SRI MANJUNADHA HOUSING PRIVATE LIMITED
1307	U34300TG2001PTC038112	HYDERABAD BODYBUILDERS PRIVATE LIMITED
1308	U13209TG2001PTC038168	SRI VAISHNAVI MINES PRIVATE LIMITED
1309	U92112TG2001PTC038182	RISING SUN ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1310	U24134TG2001PTC038211	RAMAPPA POLYMERS PRIVATE LIMITED
1311	U72200AP2002PTC038330	MANASWINI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1312	U21012TG2002PLC038558	INDO AMERICAN PAPER PRODUCTS LIMITED
1313	U72900TG2002PTC038585	SRAVYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1314	U52599TG2002PTC038605	VIRINCHI INNOVATIVE NETWORK SERVICES PVT LTD
1315	U72900TG2002PTC038723	GRANDSLAAM NETWORK PRIVATE LIMITED
1316	U72900AP2002PTC038737	SRI KODANDARAMA SAI INFOTECH PRIVATE LIMITED
1317	U24239TG2002PTC038784	GAAMA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1318	U65992AP2002PTC038836	GELIVI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1319	U72900TG2002PTC038875	TRANSMINDS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1320	U70102TG2002PTC038983	BHAGYANAGAR ESTATES PRIVATE LIMITED
1321	U92114TG2002PTC038987	SRI VENKATARAMANA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
1322	U72900TG2002PTC039061	LABCAL BIOMETRIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1323	U90009TG2002PTC039062	MIDAS TOUCH FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1324	U92199TG2002PTC039168	SRI GAYATRI TELEVISION AND TELEFILMS PVT LTD
1325	U74910TG2002PTC039197	FAST TRACK PLACEMENTS PRIVATE LIMITED
1326	U52520TG2002PTC039214	POORNODAYA MARKETING PRIVATE LIMITED
1327	U92199AP2002PTC039221	NAKSHATRA HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED
1328	U80302TG2002PTC039337	KAKATTIYA CYBERMATICS PRIVATE LIMITED
1329	U34200TG2002PTC039362	ABHISHEK EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
1330	U74140TG2002PTC039530	SUKUKI GENSYS PRIVATE LIMITED
1331	U85110TG2002PTC039597	DOCTORS AND DECCAN DOCTORS QUALITY HEALTH CARE PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1332	U74999TG2002PTC039657	MEGHANA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
1333	U99999TG2002PLC039658	KAARYAKSHETHRAM TECHNOLOGIES LIMITED
1334	U51398TG2002PTC039665	A.P. GEMS AND JEWELLARY PARK PRIVATE LIMITED
1335	U14101TG2002PTC039885	SRI VENKATESWARA MARBLE AND GRANITE SLABS PRIVATE LIMITED
1336	U45209AP2002PTC039994	SRI VENKATA CHAITANYA HOUSING PRIVATE LIMITED
1337	U22210TG2002PTC040119	COROMANDEL PRINTING AND MAILING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1338	U72200TG2003PTC040203	ENLIGHTEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1339	U92111TG2003PTC040374	SRI LAKSHMI VENKATESWARA ART CREATIONS PVT LTD
1340	U18101TG2003PTC040389	DESIGN OPERATIONS PRIVATE LIMITED
1341	U70102AP2003PLC040407	SRI KANAKAMAHALAKSHMI REAL ESTATES AND DEVELOPERS LIMITED
1342	U14102TG2003PTC040449	VEERA VAISHNAVI GRANITES PRIVATE LIMITED
1343	U24239TG2003PTC040459	RANTUS PHARMA PRIVATE LIMITED
1344	U29112TG2003PTC040570	INDO-AMERICAN BALANCING SERVICES PRIVATE LIMITED
1345	U45200TG2003PTC040580	HEMALATHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1346	U63040TG2003PTC040670	RAGHAVENDRA TRAVELS PRIVATE LIMITED
1347	U70102AP2003PTC040676	RAYALASEEMA HOUSING PRIVATE LIMITED
1348	U72900AP2003PTC040722	SPARK COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
1349	U74140TG2003PTC040755	JAYABHERI CONSULTING PRIVATE LIMITED
1350	U74300AP2003PTC040762	BHAVANI ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1351	U92111TG2003PTC041108	KARTHIKEYA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1352	U52520AP2003PTC041191	SRI VENKATA RAGHAVENDRA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1353	U72200AP2003PTC041217	MOTHER INDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1354	U24239TG2003PTC041218	JUBILANT PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1355	U27109AP2003PTC041314	SVR STEELS PRIVATE LIMITED
1356	U63011TG2003PTC041390	RAJA RAJESHWARI CARGO CARRIERS PRIVATE LIMITED
1357	U92131AP2003PTC041437	CHANDANA BROADCASTING SERVICE PRIVATE LIMITED
1358	U70102TG2003PTC041443	SRI DATTATREYA BUILDERS PRIVATE LIMITED
1359	U25112TG2003PTC041547	PROFESSIONAL RUBBER SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
1360	U34102TG2003PTC041621	SRI LAKSHMI BHAVANI AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
1361	U24243TG2003PTC041712	SWARNANDHRA DETERGENTS AND CHEMICALS PVT LTD
1362	U72200TG2003PTC041844	SERAPHIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1363	U80220TG2003PTC041854	SUNSHINE EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1364	U45200TG2003PTC041862	AUTOBAHN CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
1365	U72200TG2003PTC041904	ROUDRY INFORMATION TECHNOLOGY AND ENABLED SERVICES PRIVATE LIMITED
1366	U72200AP2003PTC041955	GS SOFTCOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1367	U80903TG2003PTC041970	BRILLIANT ENGINEERING CAREER INSTITUTE PRIVATE LIMITED
1368	U74140TG2003PTC042047	GPA BRIDGE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1369	U45200TG2003PTC042105	R.K. INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1370	U74210TG2003PTC042213	SWAY ENERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1371	U15499TG2003PLC042291	HY VON FOOD PRODUCTS LIMITED
1372	U63040TG2004PTC042595	HOLIDAY DESIGNERS PRIVATE LIMITED
1373	U45200TG2004PTC042667	CHAPARALA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1374	U24239TG2004PTC042768	VENSA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1375	U40109TG2004PTC043260	CHATARI HYDRO POWER PRIVATE LIMITED
1376	U45200AP2004PTC043333	SAI PRIYANKA HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
1377	U45200TG2004PTC043383	VENKATA SIVA LAKSHMI NARASIMHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1378	U24239TG2004PTC043478	A.S.V. LABORATORIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1379	U72200TG2004PTC043539	ORABEL INFOTECH PRIVATE LIMITED
1380	U72200TG2004PTC043663	SIP SOFTLOGIC PRIVATE LIMITED
1381	U72200TG2004PTC043780	KINBEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1382	U74140TG2004PTC043848	LUPAC ACCOUNTING AND RELATED SERVICES PVT LTD
1383	U92132TG2004PTC043935	T.V. CHANNELS DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
1384	U31200TG2004PTC044045	IRAD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1385	U24239TG2004PTC044077	CHANELLE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1386	U72900TG2004PTC044236	CPI INTELLISKILLS PRIVATE LIMITED
1387	U72200TG2004PTC044290	IQ INTELLIGENT TRAINING PRIVATE LIMITED
1388	U15499TG2004PTC044322	MAHATHI FOODS AND FEEDS PRIVATE LIMITED
1389	U74200TG2001PTC044428	QUILLIS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1390	U01119TG2004PTC044567	HARNS AGRO PRIVATE LIMITED
1391	U45200TG2004PTC044569	ALIENS GROUP INFRA PRIVATE LIMITED
1392	U45200TG2004PTC044599	WHITE FIELD SHELTERS PRIVATE LIMITED
1393	U74200TG2004PTC044731	FORCEITES PRIVATE LIMITED
1394	U74210AP2005PTC045064	VISWESWARA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1395	U72200TG2005PTC045199	RUBYEFFECT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1396	U24231AP2005PLC045354	RAK BIO FUELS AND TECHNOLOGIES PRODUCER COMPANY LIMITED
1397	U45200TG2005PTC045431	VISHALA TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
1398	U72400TG2005PTC045454	ODA INFORMATICS PRIVATE LIMITED
1399	U72200TG2005PTC045757	ALERT INFO-TECH PRIVATE LIMITED
1400	U74200TG2005PTC045799	SIVEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
1401	U28930TG2005PTC045803	VENTURA AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1402	U74200TG2005PTC045856	LADCOM (INDIA) TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1403	U72200TG2005PTC046111	CADSCI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1404	U01409TG2005PTC046176	NANOTECH LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1405	U29309TG2005PTC046243	JAGANMATHA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
1406	U52520TG2005PTC046633	TIRUMALA SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1407	U01119TG2005PTC046636	SREE-CONS IMPEX PRIVATE LIMITED
1408	U72200TG2005PTC046640	TRIDEQ SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1409	U45200TG2005PTC046710	R9 CONSTRUCTIONS AND LAND DEVELOPERS PVT LTD
1410	U74910TG2005PTC046757	PARAMOUNT SURVEILLANCE PRIVATE LIMITED
1411	U60210TG2005PTC046766	IBAYS MOTORCYCLES PRIVATE LIMITED
1412	U45200TG2005PTC046865	SALEEM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1413	U74140TG2005PTC046922	RELEVANTE CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
1414	U72200TG2005PTC046976	FRUITION SOFTWARE APPLICATION SERVICE PRIVATE LIMITED
1415	U45200AP2005PTC046980	ARNAVA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1416	U70102TG2005PTC047132	CHALES RESIDENCY PRIVATE LIMITED
1417	U05004TG2005PTC047202	PHOENIX SEA FOODS PRIVATE LIMITED
1418	U67120AP2005PTC047393	VENKATA SUBRAMANYAM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1419	U72200TG2005PTC047409	TEXSILICON PRIVATE LIMITED
1420	U92190TG2005PTC047439	MIC DIGITAL MEDIA VIZAG PRIVATE LIMITED
1421	U85110TG2005PTC047448	BHARANI HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
1422	U24239TG2005PTC047473	VAKS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1423	U72200TG2005PTC047527	VELODYNE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1424	U74140TG2005PTC047639	FUTURE BOUND MIND EMPOWER PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1425	U72200TG2005PTC047791	CUROSYS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1426	U21010TG2005PTC047877	GLOBAL SAINIK URJA NIGAM PRIVATE LIMITED
1427	U55101TG2005PTC047999	MIRHYDER HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
1428	U22120TG2005PTC048039	NANDI PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
1429	U10102TG2005PTC048108	ALSHINE ALUMINIUM COMPOSITES PRIVATE LIMITED
1430	U72200TG2005PTC048223	CQUENT SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
1431	U72200AP2005PTC048349	ECOMNETS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LTD
1432	U62100TG2005PLC048498	MIR AIRWAYS LIMITED
1433	U92111TG2005PTC048504	BAD MONKEY ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
1434	U45100TG2005PTC048516	RAAGA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1435	U72200TG2005PTC048538	FLINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1436	U70102TG2005PTC048609	WHITECITY INFRASTRUCTURES (INDIA)
1437	U72200TG2006PTC048827	AMS SEMICONDUCTORS INDIA PRIVATE LIMITED
1438	U45200TG2006PTC048866	SESHA SAI BUILDERS PVT LTD
1439	U63022TG2006PTC048867	GRAMA SWARAJ COLD STORAGE AND FOOD PROCESSING UNIT PVT LTD
1440	U52520TG2006PTC049135	IRAD INCUBATION SERVICES PRIVATE LIMITED
1441	U01222TG2006PTC049238	AKSHARA POULTRIES PRIVATE LIMITED
1442	U70102AP2006PTC049291	JUPUDY ESTATES PVT LTD
1443	U61100TG2006PTC049572	ELIXIR DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
1444	U01119TG2006PTC049737	ASPIRE AGRI INDIA PRIVATE LIMITED
1445	U72200TG2006PTC049956	SRI VENKATESWARA MICROSTUF TECHNOLOGIES PVT LTD
1446	U45201TG2006PTC050166	SBV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1447	U72900TG2006PTC050296	SHALIVAHANA DIGITAL LABS PRIVATE LIMITED
1448	U15511AP2006PTC050316	SREE VIJAYA HANUMAN DELINTERS PRIVATE LIMITED
1449	U92111TG2006PTC050406	SRI LALITHKALANJALI CINEMA PRODUCTION PRIVATE LIMITED
1450	U74950AP2006PTC050412	FOURTH DIMENSION IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
1451	U70109TG2006PTC050431	SAAMAA VENTURES PRIVATE LIMITED
1452	U40109TG2006PTC050495	SRI SAI PRIYADARSHINI POWER PRIVATE LIMITED
1453	U52599AP2006PTC050551	PARVATANENI MARKETING PRIVATE LIMITED
1454	U45101TG2006PTC050672	SRI LAKSHMI SAI CONSTRUCTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1455	U74999AP2006PTC050675	SREE SRINIVASA SAFETY GLASS PRIVATE LIMITED
1456	U17122TG2006PTC050712	SRI AMBICA APPARELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1457	U65992TG2006PTC050719	SHREE SIDHIASHTALAKSHMI CHIT FUNDS ANDHRA PRADESH PRIVATE LIMITED
1458	U40102AP2006PTC050835	VAISHNAVI BIOENERGY PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1459	U85120TG2006PTC051007	AKASH GANGA HEALTHCARE PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1460	U72200TG2006PTC051035	SRI SAI SURYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1461	U52520TG2006PTC051082	BHAGYANAGAR CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED
1462	U01119TG2006PTC051103	DHANALAKSHMI AGRO AND DAIRY PRODUCTS PVT LTD
1463	U45201TG2006PTC051144	SAI DURGA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1464	U72300TG2006PTC051270	BIG INDIAN ERM SERVICES PRIVATE LIMITED
1465	U70101TG2006PTC051305	DONEPUDI ESTATES PRIVATE LIMITED
1466	U45200TG2006PLC051505	NAVA BHARAT SHELTERS LIMITED
1467	U45200TG2006PTC051514	SRI SAI VIJAYA REALTORS PRIVATE LIMITED
1468	U72300TG2006PTC051584	ROARK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1469	U65992TG2006PTC051600	SRI LAKSHMI DANDOTHKAR BALAJI CHITS PVT LTD
1470	U52520TG2006PTC051818	WINWIN ONLINE MARKETING PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1471	U65999TG2006PTC051869	STARLET LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1472	U74999TG2006PTC051870	STANDARD MECHANICAL SEALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1473	U72900TG2006PTC052120	RATIOCINATION INDIA PRIVATE LIMITED
1474	U70102TG2006PTC052150	GVK ESTATES PRIVATE LIMITED
1475	U72200TG2006PTC052160	DKIT SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1476	U80301TG2007PTC052357	CENTRE FOR MANAGEMENT EDUCATION AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1477	U45200TG2007PTC052412	AAKAAR INFRATEK PRIVATE LIMITED
1478	U22110TG2007PTC052424	SAI LALITHA PUBLISHERS INDIA PRIVATE LIMITED
1479	U72200TG2007PTC052438	PARAMOUNT CYBERTECH PRIVATE LIMITED
1480	U72200TG2007PTC052442	SUNDAY BPO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1481	U72200TG2007PTC052454	GAUTHAM INTERACTIVE LEARNING SYSTEMS PVT LTD
1482	U70102TG2007PTC052545	SRI AMULYA CONTRACTORS AND DEVELOPERS PVT LTD
1483	U74999TG2007PTC052617	KONNEKT EXECUTIVE SEARCH PRIVATE LIMITED
1484	U45200TG2007PTC052669	LAGOON PROJECTS PRIVATE LIMITED
1485	U40104TG2007PTC052756	COCONADA CLEAN POWER PRIVATE LIMITED
1486	U40103TG2007PTC052893	KANIPAKAM POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1487	U70102TG2007PTC052908	LAKSHMI NARASIMHA REALTORS PRIVATE LIMITED
1488	U70102TG2007PTC052915	RAMAKRISHNA REALTORS PRIVATE LIMITED
1489	U85110TG2007PTC052933	SRI GURUDATTA INSTITUTE OF ORGAN TRANSPLANTATION SPECIALITIES & RESEARCH PRIVATE LIMITED
1490	U74999TG2007PTC052960	ENKOR ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1491	U72200AP2007PTC052986	SAILAJA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1492	U45200AP2007PTC053009	VISWADHARA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1493	U73100AP2007PTC053025	EAST COAST BIOENERGY VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
1494	U70102TG2007PTC053053	GORREPATI REALINVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1495	U45200TG2007PLC053082	VASUNDHARA INFRAPROJECTS INDIA LIMITED
1496	U45200TG2007PTC053088	INTEGRATED DREDGING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1497	U74140TG2007PTC053131	ELITE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1498	U70101TG2007PTC053146	SRI VYSHNAVI STRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED
1499	U24232TG2007PTC053168	R.S.V.LIFESCIENCES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1500	U72200TG2007PTC053252	SSK INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1501	U72200TG2007PTC053378	CYBERTANS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1502	U74120TG2007PTC053387	THIRD DIMENSION ARCHITECTURE INDIA PRIVATE LIMITED
1503	U24110TG2007PTC053468	INTERNATIONAL SCHOOL OF CHEMICAL BIOLOGY PRIVATE LIMITED
1504	U92111TG2007PTC053535	SRICHAKRA ENTERTAINERS INDIA PRIVATE LIMITED
1505	U45200TG2007PTC053583	ESQUISSER PROJECT PLANNERS PRIVATE LIMITED
1506	U24232TG2007PTC053634	PADMASRI GOOD MANUFACTURING PROCESSES PVT LTD
1507	U72200TG2007PTC053641	MULTI CENTRIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1508	U45400TG2007PTC053713	SRI SIVA SAI INFRASTRUCTURE PROJECTS PVT LTD
1509	U24117TG2007PTC053783	LAKSHMI ARUNA OXYGEN COMPANY PRIVATE LIMITED
1510	U65900TG2007PTC053824	INVESTMENTYOGI FINADVISORY SERVICES PVT LTD
1511	U70102TG2007PTC053842	SRI LAXMI SOMESWARA BUILDERS PRIVATE LIMITED
1512	U45400TG2007PTC053915	SREE SUPRABHATH TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
1513	U40106TG2007PTC054093	FIONA INDIA PRIVATE LIMITED
1514	U24211AP2007PTC054119	JETRO PETRO BIO-TECH PRIVATE LIMITED
1515	U27320TG2007PTC054144	BHAGYANAGAR FABRICATION SOLUTIONS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
1516	U72200TG2007FTC054257	SAANVI SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1517	U93000TG2007PTC054284	AB FACILITY MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
1518	U51101TG2007PTC054292	BRIO MARKETING PRIVATE LIMITED
1519	U45400AP2007PTC054369	LAND MARK VENTURES PRIVATE LIMITED
1520	U01403AP2007PTC054398	GREENVALLEY AGRO PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1521	U45200TG2007PTC054407	LEHRY INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1522	U24120TG2007PTC054428	BHAGYASRI BIOREMEDIATIONS PRIVATE LIMITED
1523	U72200TG2007PTC054497	MICROINTELLECTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1524	U74900AP2007PTC054566	LALITHA SIVAJYOTHI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1525	U01119TG2007PTC054638	KSR FOODS PRIVATE LIMITED
1526	U70102TG2007PTC054919	YARDS AND FEET PROPERTY CONSULTANTS PVT LTD
1527	U40101TG2007PTC054983	PRABHA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1528	U74900TG2007PTC055101	SURYA PRABHAO CEMENTS PRIVATE LIMITED
1529	U65992AP2007PTC055176	NARSIPATNAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1530	U02005AP2007PTC055192	AMRUTHA AGRO ESTATES PRIVATE LIMITED
1531	U26942TG2007PTC055194	CHENNAKESAVA CEMENT PRIVATE LIMITED
1532	U72900TG2007PTC055220	SCUBE DIMENSIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1533	U01119TG2007PTC055276	SUMMIT BIOTECH PRIVATE LIMITED
1534	U02005AP2007PTC055431	BUDHA PALITA TIMBER ESTATES PRIVATE LIMITED
1535	U72300TG2007PTC055436	SUCHI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1536	U01119AP2007PTC055440	CHOLAPADAM AGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED
1537	U29119TG2007PTC055504	J&G TECHNOCRAFTS PRIVATE LIMITED
1538	U01119AP2007PTC055513	HARITHA AGRO AND TIMBER ESTATES PRIVATE LIMITED
1539	U45200AP2007PTC055535	SREE RAMJIS INFRASTRUCTURE PROJECTS PVT LTD
1540	U45400AP2007PTC055699	SREE RAMJIS PROJECTS PRIVATE LIMITED
1541	U02005AP2007PTC055752	SIVANI TIMBER ESTATES PRIVATE LIMITED
1542	U45400AP2007PTC055769	GOLDENVIEW NIVAS PRIVATE LIMITED
1543	U32204TG2007FTC055779	IRIS WIRELESS INDIA PRIVATE LIMITED
1544	U45400AP2007PTC055789	MAYUR HABITAT PRIVATE LIMITED
1545	U72200TG2007PTC055970	GENUINE ITES PRIVATE LIMITED
1546	U72200TG2007PTC056026	PICTOR SOFTECH PRIVATE LIMITED
1547	U40105TG2007PTC056193	PATHANJALI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1548	U40104TG2007PTC056222	PANCHAJANYA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1549	U40105TG2007PTC056223	CHARAKA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1550	U74999AP2007PTC056361	SPI GLASS PRIVATE LIMITED
1551	U40105TG2007PTC056388	AVIAN POWER AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1552	U45200TG2007PTC056550	GLOBAL INFRA VILLAS PRIVATE LIMITED
1553	U45400TG2007PTC056606	DANDAMUDI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1554	U72200TG2008PTC056901	AMG SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1555	U72200TG2008PTC057074	PERSONAL WEB SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1556	U74999TG2008PTC057194	ZETATEK ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1557	U72200TG2008PTC057197	SPANWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1558	U72200TG2008PTC057198	FLXISOURCE TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1559	U72200TG2008PTC057205	FORTECH SOFT INDIA PRIVATE LIMITED
1560	U72200AP2008PTC057290	PALS DIAL 2 INFO PRIVATE LIMITED
1561	U32109TG2008PTC057333	ORANGE FILMS PRIVATE LIMITED
1562	U93000TG2008PTC057383	BID4CAREER MANPOWER CONSULTANCY SERVICES PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
1563	U74999TG2008PTC057393	BHARATHI REALESTATE PRIVATE LIMITED
1564	U72200TG2008PTC057402	PERSONAL WEB DEVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1565	U72200TG2008PTC057403	AMEEN SOFTWARES PRIVATE LIMITED
1566	U70102TG2008PTC057428	VENSAR MEADOWS PRIVATE LIMITED
1567	U55209TG2008PTC057434	SHAMASH ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
1568	U92100TG2008PTC057493	DOWN TOWN FILMS PRIVATE LIMITED
1569	U72200TG2008PTC057538	R P A S SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1570	U41000AP2008FTC057558	POTABLE SEA INDIA PRIVATE LIMITED
1571	U45400TG2008PTC057568	TAPASVI BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1572	U70102TG2008PTC057569	SIRI INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
1573	U45201TG2008PTC057578	ZCUBE CONSTRUCTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1574	U45400AP2008PLC057671	SPARTEK BUILDING PRODUCTS LIMITED
1575	U72200TG2008PTC057702	SYBERPLACE E SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1576	U74999TG2008PTC057786	ARKA PRINTING AND PACKAGING PRIVATE LIMITED
1577	U63040TG2008PTC057863	ISHA TRAVEL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1578	U52399TG2008PTC057897	SITA INTERNATIONAL TRADERS PRIVATE LIMITED
1579	U93000TG2008PTC057915	KVKALIDINDI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
1580	U74999TG2008FTC058049	INTWAY INDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1581	U70102AP2008PTC058113	VARAAHI REALTERS PRIVATE LIMITED
1582	U93000TG2008PTC058132	HORIZON STAFFING AND TECHNICAL SOLUTIONS PVT LTD
1583	U72200TG2008PTC058231	FINOXY ENVIRON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1584	U13203AP2008PTC058538	MYTHRI MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
1585	U45200TG2008PTC058564	VANDANA CONCEPTUAL VENTURES PRIVATE LIMITED
1586	U72200TG2008PTC058614	WINCOR IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1587	U45209TG2008PTC058688	INDOCON INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1588	U74900TG2008PTC058837	BACKBAY HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1589	U45200TG2008PTC059016	DIGNITY HOMES & RESORTS PRIVATE LIMITED
1590	U70100TG2008PTC059078	AMEYA DESIGN PRIVATE LIMITED
1591	U93000TG2008PTC059315	AMIPATH CONSULTING PRIVATE LIMITED
1592	U72900TG2008PTC059390	PRACH INNOVATIVE DESIGNS PRIVATE LIMITED
1593	U45400TG2008PTC059408	KREON INFRA PRIVATE LIMITED
1594	U45400TG2008PTC059462	REDSTONE BUILDTECH PRIVATE LIMITED
1595	U72200AP2008PTC059544	SRINIDHI 3M TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1596	U92412TG2008PTC059627	WORLD FUTURE LEAGUE PRIVATE LIMITED
1597	U14106TG2008PTC059658	BUILDMATE SAND PRIVATE LIMITED
1598	U45209TG2008PTC059671	PAVANAPUTRA INFRA TECH PRIVATE LIMITED
1599	U74900AP2008PTC059726	SURYADEVO MEDICLUB PRIVATE LIMITED
1600	U74900TG2008PTC059790	KARUNA E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
1601	U45200TG2008PTC059872	LE GRANDE INFRA PRIVATE LIMITED
1602	U72900TG2008PTC059874	CHINMAYA MICRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1603	U72300TG2008PTC059969	SERENUS INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1604	U72200TG2008PTC059976	ANTHEM CONSULTING PRIVATE LIMITED
1605	U45201TG2008PTC060029	ICON IDEAS & IMAGES INDIA PRIVATE LIMITED
1606	U74900TG2008PTC060102	FLAIR RADIOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
1607	U27106TG2008PTC060172	SIMCO STEELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1608	U32204TG2008PTC060215	HI-TECH TELEMATICS INDIA PRIVATE LIMITED
1609	U72200TG2008PTC060228	SNP SOFT TECH PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1610	U72200TG2008PTC060251	BLUE-RIBBON SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1611	U45400AP2008PTC060405	CORN ESTATES INDIA PRIVATE LIMITED
1612	U45400AP2008PTC060407	PARATPARA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1613	U45400AP2008PTC060435	PALESA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1614	U74900TG2008PTC060451	COGENT INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS PVT LTD
1615	U45400AP2008PTC060483	PARESHA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
1616	U92190TG2008PTC060508	ICON MEDIA PRIVATE LIMITED
1617	U70102TG2008PTC060515	GREEN MANGOS REAL ESTATES INDIA PRIVATE LIMITED
1618	U45400TG2008PTC060572	AMARCHAND SHARMA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1619	U24233TG2008PTC060670	CHAMUNDY LABS PRIVATE LIMITED
1620	U93000TG2008PTC060705	I R DESIGN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1621	U27100TG2008PLC060733	YAHWEH METALLURGICALS LIMITED
1622	U70102TG2008PTC060738	GVGR INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1623	U40100TG2008PTC060894	MAKSUN ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1624	U40109TG2008PTC060936	BVK ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1625	U74900TG2008PTC060956	SYSQ CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1626	U01403AP2008PTC061028	SREEPATHI AGROS AND LAND DEVELOPERS PVT LTD
1627	U72200TG2008PTC061040	I T S TECHNOSOL INDIA PRIVATE LIMITED
1628	U72200TG2008PTC061055	DESTIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1629	U92190TG2008PTC061171	KOTTU ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1630	U93000TG2008FTC061236	CUBE CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
1631	U72200TG2008PTC061245	KALYPSO IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1632	U45209TG2008PTC061258	S V R NIRMAN AP PRIVATE LIMITED
1633	U27205TG2008PTC061283	P. SATYANARAYAN SONS JEWELS PRIVATE LIMITED
1634	U74900TG2008PTC061365	SEVEN PLANETS TRADE PRIVATE LIMITED
1635	U72200TG2008PTC061388	V-NEXUS DOMAIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1636	U72200TG2008PTC061458	MATRE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1637	U72200TG2008PTC061549	EMERGENT IT TRAINING CENTER PRIVATE LIMITED
1638	U45209TG2008PTC061742	MALAVIKA ESTATES AND REALTORS PRIVATE LIMITED
1639	U70102TG2008PTC061804	TORRENT INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1640	U93000TG2008PTC061932	VISWAS MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1641	U45400AP2008PTC061982	SRIKUTEER RESORTS AND TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
1642	U72200TG2008PTC062018	PALMETO IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1643	U93000TG2008PTC062080	GREENSTRATOS CONSULTING PRIVATE LIMITED.
1644	U17120TG2008PTC062154	FRESCO VASTRA PRIVATE LIMITED
1645	U70102TG2008PTC062222	THULASREE INFRASTRUCTURE PROJECTS PVT LTD
1646	U28110TG2008PTC062245	DIVYAMANGALA METALS AND WIRES PRIVATE LIMITED
1647	U20299TG2008FTC062247	SENI KAYU FURNITURE PRIVATE LIMITED
1648	U17114TG2008PTC062393	THAPASVI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
1649	U26955TG2009PTC062432	CLASSIC DESIGNER TILES PRIVATE LIMITED
1650	U67190TG2009PTC062560	PURANDARA CHITS PRIVATE LIMITED
1651	U72200TG2009PTC062564	5I INFOTECH PRIVATE LIMITED
1652	U72900TG2009PTC062614	BROWN BRICK COMPUTECH PRIVATE LIMITED
1653	U93000TG2009PTC062927	VMG CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
1654	U45400TG2009FTC062942	PTPS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1655	U52190TG2009PTC063000	REACH ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
1656	U24233TG2009PTC063041	G. P. NATURAL HERBS PHARMACEUTICALS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
1657	U72300TG2009PTC063079	RELIRICH WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1658	U55101TG2009PTC063092	PRIMO FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
1659	U70102TG2009PTC063159	SAWERA TOWNSHIPS INDIA PRIVATE LIMITED
1660	U29253TG2009FTC063187	EMERSON & CUMING MICROWAVE PRODUCTS PVT LTD
1661	U80221TG2009PTC063255	TALENT TREE PERFORMANCE SOLUTIONS PVT LTD
1662	U40105TG2009PTC063268	BISON POWER SERVICES PRIVATE LIMITED
1663	U74140TG2009PTC063369	SIGNY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1664	U72200TG2009PTC063639	ELLOKA TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1665	U40300TG2009PTC063658	KVK ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED
1666	U24100TG2009PTC063725	SAKETH LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1667	U40300TG2009PTC063790	DR. RAMA KRISHNA PRASAD POWER PRIVATE LIMITED
1668	U45205TG2009PTC063791	REVUPOLAVARAM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1669	U24100TG2009PTC063907	GENCORE BIOPHARMA PRIVATE LIMITED
1670	U74999TG2009PTC063960	SYNERGY ENVIRO ENGINEERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1671	U65100TG2009PTC064002	SPANDIO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1672	U45200TG2009PTC064005	SUDHA TOOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
1673	U65992TG2009PTC064120	VENSIRI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1674	U72200TG2009PTC064162	MIHIRONICS BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1675	U74900TG2009PTC064220	PALADIN RETAILS PRIVATE LIMITED
1676	U24210AP2009PTC064302	PANACEA FARM CARE PRIVATE LIMITED
1677	U72200TG2009PTC064384	KINETA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1678	U52100TG2009PTC064388	EPISTEMIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1679	U74300TG2009PTC064440	GMT TRIAD MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1680	U74900TG2009PTC064462	BOYALLAS MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1681	U65992TG2009PTC064474	SRI UDAY CHIT FUND (INDIA) PRIVATE LIMITED
1682	U72200TG2009PTC064531	MAGUS SOFTECH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1683	U24100TG2009PTC064587	SPROUT LIFE SCIENCES INDIA PRIVATE LIMITED
1684	U64201TG2009PTC064600	REDFOX TELESERVICES PRIVATE LIMITED
1685	U29220TG2009PTC064698	ELBIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1686	U65992TG2009PTC064868	SUYOG CHIT FUNDS (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
1687	U72200TG2009PTC064872	8 SIGMA SOFT VILL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1688	U65992TG2009PTC065081	SANKASHEKAR CHITS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1689	U45200TG2009PLC065140	G N R INFRASTRUCTURE (INDIA) LIMITED
1690	U67200AP2009PTC065142	VASISHTA ASSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
1691	U74920TG2009PTC065232	ANVI SECURITY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1692	U65992TG2009PTC065275	V. S. VARUN CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1693	U72900TG2009PTC065346	AVEDAS INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1694	U72900AP2009PTC065448	INSPIARK SOFTWARE STUDIOS PRIVATE LIMITED
1695	U74130TG2009PTC065535	MYREWARDS INNOVATIVE MARKETING SOLUTIONS PVT LTD
1696	U45400TG2009PTC065792	KHULQ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1697	U27310AP2009PTC065828	DORAI STEEL & POWER PRIVATE LIMITED
1698	U72900TG2009PTC065844	PORVUS TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1699	U65992AP2009PTC065872	VENKATA SRINIVASA CHITS (SK) PRIVATE LIMITED
1700	U45200TG2009PTC065876	SWARNANDHRA TOWNSHIPS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1701	U65992TG2009PTC065926	SRI DWARAKA SAI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1702	U72200TG2009PTC065927	IFUTURE CONSULTING PRIVATE LIMITED
1703	U65992TG2009PTC065972	SAI NISHITHA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1704	U36100TG2009PTC065991	SKR ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED
1705	U70200TG2009PTC066039	SWARNAMAYI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1706	U36934TG2009PTC066071	JUNGLY WORLD PRIVATE LIMITED
1707	U25203TG2009PTC066326	AMULYA POLYMERS PRIVATE LIMITED
1708	U67190TG2009PTC066347	SREE RAKSHA CHITFUND PRIVATE LIMITED
1709	U72200TG2009PTC066416	ASCENT RESILIENCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1710	U80902TG2009PLC066425	RESULTICA EDUCATION LIMITED
1711	U45200TG2010PLC066611	KLR INFRASTRUCTURES LIMITED
1712	U72200TG2010PTC066720	YAMINI SOFTECH PRIVATE LIMITED
1713	U72200TG2010PTC066741	FHOTON COMPUTING PRIVATE LIMITED
1714	U72200TG2010FTC066827	BECOME INTERNET INDIA PRIVATE LIMITED
1715	U01400TG2010PTC066942	NANDINI AGRI BIOTECH PRIVATE LIMITED
1716	U45209TG2010PTC066963	SRI SRISHA ESTATES PRIVATE LIMITED
1717	U74900AP2010PTC067104	SHRIPAD INFRA PRIVATE LIMITED
1718	U72900TG2010PTC067109	RIGHT SPOT MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1719	U72200TG2010PTC067157	GRUND HANDY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1720	U72200AP2010PTC067166	ICON NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED
1721	U93000TG2010PTC067213	CATERPILLAR CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
1722	U65992TG2010PTC067390	DEVISREE CHIT FUND(HYD) PRIVATE LIMITED
1723	U45200TG2010PTC067556	VSA INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED
1724	U01400TG2010PTC067951	DEEPTHI FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1725	U72200TG2010PTC067976	PROTAC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1726	U70100AP2010PTC068048	SANIA PROPERTY SURVEY PRIVATE LIMITED
1727	U65923TG2010PTC068073	KEEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1728	U31900TG2010PTC068186	LUMENCORE ILLUMINATORS PRIVATE LIMITED
1729	U72900TG2010PTC068206	DEVASRI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1730	U29268TG2010PTC068215	R.V. ENGINEERING EQUIPMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
1731	U45209AP2010PTC068226	MAMoor INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1732	U31500AP2010PTC068390	SANJTRON POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1733	U35203TG2010FTC068407	VALDUNES INDIA PRIVATE LIMITED
1734	U29100AP2010PTC068513	ELECTRON VOLT RENEWABLES PRIVATE LIMITED
1735	U74990TG2010PTC068601	SLN INNOVATIVE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1736	U80301TG2010PTC068772	NEW DIRECTIONS EDUTECH PRIVATE LIMITED
1737	U55101TG2010PTC068799	SRS CREATIVE CUISINE PRIVATE LIMITED
1738	U29253TG2010PTC068801	MEDRIX ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1739	U85100TG2010PTC068849	WELINK SMO INDIA PRIVATE LIMITED
1740	U22200TG2010PTC068894	AGENCYDIGI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1741	U74999TG2010PTC069023	RAKSHA PROTECTION FORCE PRIVATE LIMITED
1742	U40108TG2010PTC069144	DAIKO POWER PRIVATE LIMITED
1743	U72900TG2010PTC069174	FLEXEYE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
1744	U85100TG2010PTC069213	KARUNYA HEALTHCARE AND ACADEMICS PRIVATE LIMITED
1745	U24233TG2010PTC069250	ZENTAS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
1746	U45400TG2010PTC069311	K.A.A.S NIRMAAN PROJECTS PRIVATE LIMITED
1747	U72300TG2010FTC069397	HPH SEABUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1748	U45209TG2010FTC069403	MUHU (INDIA) BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED
1749	U51909TG2010PTC069408	RITA COMMODITY PRIVATE LIMITED
1750	U15400TG2010PTC069421	SAKA BROS AHAR & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1751	U72200TG2010PTC069486	GEMINI BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
1752	U45209AP2010PTC069549	VENSAI DREDGING & MARITIME PRIVATE LIMITED
1753	U55101TG2010PTC069561	KHOLANIS RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
1754	U40102TG2010PTC069635	IND-BARATH SUN ENERGY PRIVATE LIMITED
1755	U80902TG2010PTC069742	OKTAN MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1756	U65992TG2010PTC069923	NAMAHA SAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1757	U01119TG2010PTC069949	JUST BUY FLOWERS INDIA PRIVATE LIMITED
1758	U65991TG2010PTC069973	SPLENDOR PORTFOLIO PRIVATE LIMITED
1759	U74999TG2010PTC070023	ALPHAKEMY ADVISORS PRIVATE LIMITED
1760	U27100TG2010PTC070024	SANTOSH JEWELS PRIVATE LIMITED
1761	U60200TG2010PTC070025	QUICKSTART TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED
1762	U74999TG2010PTC070031	GENOME INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1763	U36100TG2010PTC070034	GALAXY FURNITURES PRIVATE LIMITED
1764	U36996TG2010PTC070099	HYDERABADI PEARLS JEWELS & BANGLES PVT LTD
1765	U36993TG2010PTC070138	PRAKASH MECHATRONICS PRIVATE LIMITED
1766	U14200TG2010PTC070211	S. SRINIVASA RAO MINES AND MINERALS PVT LTD
1767	U67190TG2010PTC070247	MANASVI (MANCHERIAL) CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1768	U74210TG2010PTC070286	JVR INTERIORS PRIVATE LIMITED
1769	U36912TG2010PTC070345	VIGNETTE IMAGING PRIVATE LIMITED
1770	U40300TG2010PTC070453	KARUNYA ENERGIES PRIVATE LIMITED
1771	U92120TG2010PTC070551	TELANGANA NEWS NETWORK PRIVATE LIMITED
1772	U72200TG2010PTC070579	RECKONN IT SERVICES PRIVATE LIMITED
1773	U74999AP2010PTC070617	CERTIS FINSERV PRIVATE LIMITED
1774	U33203TG2010PTC070635	SABERI'S OPTICALS FRANCHISE PRIVATE LIMITED
1775	U72300AP2010PTC070663	ARS INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1776	U80904TG2010PTC070684	PENDULUM EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1777	U45209TG2010PTC070848	HARITANIRMAN ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1778	U29253TG2010PTC070875	SATYASRINIVAS ELECTRICAL TRANSFORMER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1779	U31900AP2010PTC070940	NAPLES HIGH VOLTAGE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1780	U15142TG2010PTC071031	MAX OIL MILL PRIVATE LIMITED
1781	U72200TG2010PTC071080	ENTHUSIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1782	U72200TG2010PTC071109	MANISWARE TECHNOPSIS PRIVATE LIMITED
1783	U70102AP2010PTC071185	SADGURU SAI HOUSING PRIVATE LIMITED
1784	U72200AP2010PTC071220	BUENA SOFTTECH PRIVATE LIMITED
1785	U67110TG2010PTC071248	MUGDHA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
1786	U72200TG2010PTC071387	TEKYOGI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1787	U72900TG2010PTC071394	NITID INFORMATION TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
1788	U74900TG2010PTC071413	TRRINITY REALCON TRANSACTIONS PRIVATE LIMITED
1789	U74900TG2010PTC071517	SUNTECH ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
1790	U45400AP2010PTC071527	SRI BHUVANESWARI INFRA DEVELOPERS PVT LTD
1791	U74920TG2010FTC071537	ANDREWS TECH SECURITY CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
1792	U01119TG2010PLC071539	AAKANKSH AGRO COMMODITIES LIMITED
1793	U74140TG2010PTC071559	SKS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
1794	U45209TG2010PTC071686	SUDHA ENGINEERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
1795	U45209TG2010PTC071697	SANKALP INFRATECH (INDIA) PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1796	U74999TG2010PTC071702	EXPERTSWING MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1797	U01403TG2010PTC071754	GHAJARAJ BIOTECH GARDENS PRIVATE LIMITED
1798	U74999TG2010PTC071869	GYAN WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1799	U92400TG2010PTC071887	SILAM BROADCASTING INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1800	U80901TG2010PTC071937	ATHENA KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED
1801	U72200TG2010PTC071948	HORIZON TECHNICAL SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1802	U45200TG2010PTC071961	HORIZON INFRAPROJECT AVENUES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1803	U67120TG2011PTC071993	ASCENT SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED
1804	U40104TG2011PTC072081	SILPA TRANSENERGY PRIVATE LIMITED
1805	U29253TG2011PTC072115	EMPHASIS EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
1806	U60200TG2011PTC072125	SUSI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1807	U92412TG2011PTC072126	MY DREAM CINEMA PRIVATE LIMITED
1808	U65992TG2011PTC072166	SRI NEELADRI (MANDAMARRI) CHIT FUNDS PVT LTD
1809	U72200AP2011PTC072267	SRI SHUBHAM IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1810	U13100AP2011PTC072315	VIRGIN METALLICS PRIVATE LIMITED
1811	U45209AP2011PTC072407	ELCON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1812	U72300TG2011PTC072485	GANANA COMPUTING INDIA PRIVATE LIMITED
1813	U24117TG2011PTC072553	CAPSULE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
1814	U74999TG2011PTC072614	MOSAIC EINS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1815	U15400TG2011PTC072655	NEEL FOODS & FEEDS PRIVATE LIMITED
1816	U92130TG2011PTC072696	MUKUND MEDIA PRIVATE LIMITED
1817	U28123TG2011PTC072788	UNIC STEAMTECH PRIVATE LIMITED
1818	U73100TG2011PTC072909	SINDU RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1819	U80901AP2011PTC072913	CURIE EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1820	U70109AP2011PTC072915	SAIKRISHNA TOWNSHIPS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1821	U51900TG2011PTC072977	WAVEX TOUCH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1822	U74120AP2011PTC072990	VAISHNAVI TAX CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1823	U45400AP2011PTC073014	SIVANAGA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1824	U72200TG2011PTC073061	NUVOL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1825	U45400TG2011PTC073075	DEVI EPC PRIVATE LIMITED
1826	U01403TG2011PTC073100	BHUVANA AGRICO PRIVATE LIMITED
1827	U93000TG2011PTC073107	V R RESEARCH EXECUTIVE SEARCH PRIVATE LIMITED
1828	U72200TG2011PTC073237	OSTRICH DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
1829	U72200TG2011PTC073269	PANSOPHY IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1830	U15122AP2011PTC073364	MSR NATURE FOODS PRIVATE LIMITED
1831	U72200TG2011PTC073386	NUCREUS DESIGN LAB PRIVATE LIMITED
1832	U72900TG2011PTC073493	DHARA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1833	U01119TG2011PTC073541	WISDOM LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
1834	U74900TG2011PTC073564	NIPPON I-CLEAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1835	U45400TG2011PTC073611	J V R INFRA-TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
1836	U51909TG2011PTC073636	CLARION STORAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1837	U72300AP2011ULT073677	EDAY ONLINE SERVICES AND SOLUTIONS PVT LTD
1838	U70102TG2011PTC073728	D R R AIMS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1839	U45203AP2011PTC073748	SPAYERA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1840	U72300TG2011PTC073756	VISPRO SOFT TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1841	U74120TG2011PTC073781	ICON FACILITIES MANAGEMENT SOLUTIONS PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
1842	U45203TG2011PTC073810	TAMARIND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1843	U74999AP2011PTC073849	SRI BHAGYALAKSHMI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1844	U72300TG2011PTC073919	SAI RACHANA TECHNO SOFT PRIVATE LIMITED
1845	U45400AP2011PTC073965	DVR HOUSING PRIVATE LIMITED
1846	U52190TG2011PTC073981	MAXRANGE RETAIL PRIVATE LIMITED
1847	U72300TG2011PTC074000	PEAK POINT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
1848	U72300TG2011PTC074005	LOGOS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
1849	U80904TG2011PTC074060	FUNBEETLE EDUCATION PRIVATE LIMITED
1850	U65992TG2011PTC074151	VISHWAMBARA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1851	U55204AP2011PTC074191	GOLD FISH LEISURE & HEALTH TOURISM PRIVATE LIMITED
1852	U70102TG2011PTC074192	JAITHVI REALTORS PRIVATE LIMITED
1853	U55101AP2011PTC074198	LIFE STYLE TOURISM PRIVATE LIMITED
1854	U65992TG2011PTC074269	KALYANIKHANI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1855	U40300TG2011PTC074282	JAYA VIDYUTH UTPADAN PRIVATE LIMITED
1856	U31908TG2011PTC074307	CANDILUX PRIVATE LIMITED
1857	U33111TG2011PTC074371	ELEKTRON SCIENTIFIC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1858	U70200TG2011PTC074389	S.K.A.H. INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
1859	U85110TG2011PTC074393	PULSE HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1860	U72200TG2011PTC074458	INVENT FAME TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1861	U63030TG2011PTC074459	HARIL LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED
1862	U72200TG2011PTC074688	SRI VISWA TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1863	U72200TG2011PTC074735	WALKINGCOIN PAYMENT NETWORK PRIVATE LIMITED
1864	U40300TG2011PTC074761	SUSHEELA ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED
1865	U93000TG2011PTC074945	SAI BALAJI TECHLEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1866	U45400TG2011PTC075110	NVL INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1867	U01119TG2011PTC075288	SUVARCHALA NURSERY GARDENS PRIVATE LIMITED
1868	U45100TG2011PTC075318	SCOMPETENT AVENUES INDIA PRIVATE LIMITED
1869	U45209TG2011PTC075360	VYKHANASA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1870	U24211TG2011PTC075369	KRUSHI CROP CARE INDIA PRIVATE LIMITED
1871	U45400TG2011PTC075399	DHANVIN INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1872	U85100TG2011PTC075490	MEDISYSINFO MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
1873	U63090TG2011PTC075601	FLAIR LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1874	U72200AP2011PTC075699	SKOTA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1875	U72200TG2011PTC075727	AMEEBA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1876	U74900TG2011PTC075744	CRADLE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1877	U74900TG2011PTC075840	9YARDS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1878	U31908TG2011PTC075893	UNITRONICS AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1879	U63090TG2011PTC075983	A TO Z TRANSPORT NETWORK PRIVATE LIMITED
1880	U45209TG2011PTC076037	NAREN INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1881	U17122TG2011PTC076099	DASARI ASHOK SILKS PRIVATE LIMITED
1882	U51909TG2011PTC076172	JAI GANESH VYAPAR PRIVATE LIMITED
1883	U72200TG2011PTC076177	KAPARDHI SOFT TECH PRIVATE LIMITED
1884	U99999TG1981PTC076342	SHAH MANAGEMENT AND TAXATON CONSULTANTS PVT LTD
1885	U26100AP2011PTC076418	SHANGEE GRANITES IMPEX PRIVATE LIMITED
1886	U74999AP2011PTC076534	BLUEBERRY VALUE ADDED SERVICES PRIVATE LIMITED
1887	U92190TG2011PTC076537	LAKEVIEW ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
1888	U45400TG2011PTC076540	SREENIDHI READY MIX CONCRETE PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1889	U72300TG2011PTC076570	SREE PHOENIX ANIMATION PRIVATE LIMITED
1890	U45203TG2011PTC076572	CRN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1891	U13100TG2011PTC076619	VARAM RESOURCES PRIVATE LIMITED
1892	U93000TG2011PTC076656	I-SEVA E-COM SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
1893	U45400TG2011PTC076697	WATSOL INFRATECH PRIVATE LIMITED
1894	U72200TG2011PTC076747	JRP SOFTWARE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1895	U67190TG2011PTC076762	PENIEL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1896	U40107AP2011PTC076793	FUTURE ECO FRIENDLY TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1897	U65992TG2011PTC076815	SAMPANNA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1898	U28910TG2011PTC076899	DIVYA SAI TIN CONTAINERS INDIA PRIVATE LIMITED
1899	U72200TG2011PTC076982	ETL IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1900	U72200TG2011PTC077024	INTENSIFY SOFT INDIA PRIVATE LIMITED
1901	U74910TG2011PTC077057	URPANTECH RECRUITING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1902	U72200TG2011PTC077077	INSPIRE TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
1903	U45209AP2011PTC077079	SAVEERA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1904	U63040TG2011PTC077096	ELIXIR TRAVELS AND RECREATIONS PRIVATE LIMITED
1905	U17299TG2011PTC077148	AMOGHA TEX PRIVATE LIMITED
1906	U72200TG2011PTC077218	ZOOK IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1907	U72200TG2011PTC077287	ADFUEENT SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1908	U72100TG2011PTC077290	IXPERT INTERACTIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1909	U45400AP2011PTC077297	Y.N. REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED
1910	U45203TG2011PTC077464	ADI NIRMAL INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED
1911	U74999TG2011PTC077537	DIGITAL DYNAMICS ENGINEERING SERVICES PVT LTD
1912	U74900TG2011PTC077565	MB MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
1913	U72200TG2011PTC077646	KIRAN'S EMBEDDED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1914	U72200TG2011PTC077688	SOFTIKON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1915	U65992TG2011PTC077694	SHADNAGAR MANIKANTA CHITS PRIVATE LIMITED
1916	U85110AP2011PTC077763	TRANSMED SERVICES PRIVATE LIMITED
1917	U24232TG2011PTC077801	SYRUS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1918	U21093TG2011PTC078026	WIZCRAFT PAPERS PRIVATE LIMITED
1919	U51909AP2011PTC078053	CHELIKAM OIL & GAS INDIA PRIVATE LIMITED
1920	U24233TG2011PTC078086	AYURKER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1921	U45400TG2011PTC078088	ELIXIR HABITAT AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
1922	U52390TG2011PTC078191	MARALIN MARKETING PRIVATE LIMITED
1923	U33201TG2011PTC078245	TECHTRAN OPTICS PRIVATE LIMITED
1924	U74300TG2011PTC078261	THARANGA DIGITAL NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED
1925	U37100TG2012PTC078356	PERSTROP AGRO BIO PRIVATE LIMITED
1926	U72200TG2012PTC078399	SODASHI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1927	U72900TG2012PTC078426	DISTINCT PERIPHERALS AND SMART SOLUTIONS PVT LTD
1928	U26960AP2012PTC078446	DELTA CEMENTS PRIVATE LIMITED
1929	U72200AP2012PTC078476	SWAVEE SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1930	U63090TG2012PTC078490	CADICE LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED
1931	U85110TG2012PTC078538	APPLE MEDICAL IT SERVICES PRIVATE LIMITED
1932	U74900TG2012PTC078573	JVR REALTORS PRIVATE LIMITED
1933	U45400TG2012PTC078598	PRIKI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1934	U45209TG2012PTC078673	CADICE INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED
1935	U51909TG2012PTC078737	ATS IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1936	U15122TG2012PTC078919	N M R DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1937	U41000AP2012PTC078979	WELLSPRING RESOURCES PRIVATE LIMITED
1938	U45209AP2012PTC079100	SRE REAL ESTATE AND PROPERTY DEVELOPERS PVT LTD
1939	U65992TG2012PTC079109	VIJAYA CHIT FUND (MEDAK) PRIVATE LIMITED
1940	U72200TG2012PTC079137	STANCHION KNOWLEDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1941	U72300TG2012PTC079258	S.A.P CV SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1942	U74110TG2012PTC079266	REDDY CORPORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
1943	U65992TG2012PTC079386	SREYAPRADA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1944	U74900TG2012PTC079410	HALAX ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1945	U72300TG2012PTC079421	LS BROADBAND PRIVATE LIMITED
1946	U27100AP2012PTC079427	SANTHIRAM STEELS PRIVATE LIMITED
1947	U65990TG2012PTC079499	WATER WINGS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1948	U72200TG2012PTC079509	SUCCESS SUTRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1949	U24232TG2012PTC079555	COMPRIME LABS PRIVATE LIMITED
1950	U45400TG2012PTC079640	MAANAS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1951	U72200TG2012PTC079843	CLAYLAMP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1952	U72200TG2012PTC079901	TJ SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1953	U15400TG2012PTC079967	AXELIA FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
1954	U74900TG2012PTC079978	VAYUPUTHRA GROUP PRIVATE LIMITED
1955	U24232TG2012PTC080006	ELITE PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
1956	U23101AP2012PTC080098	AVENIR ENERGY PRIVATE LIMITED
1957	U45400TG2012PTC080126	SREE SAYI DIVYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1958	U50200AP2012PTC080158	XTRON AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
1959	U51909TG2012PTC080208	VR MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
1960	U74900TG2012PTC080215	INDWELL ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1961	U70102AP2012PTC080257	SWARNANIDHI HOUSING PRIVATE LIMITED
1962	U72200TG2012PTC080299	REVUESOFT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1963	U14102AP2012PTC080307	SWARNANDHRA ROCKS & MINERALS PRIVATE LIMITED
1964	U45209TG2012PTC080312	KIMTEE BUILDERS PRIVATE LIMITED
1965	U74999TG2012PTC080333	SRIVATSA BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED
1966	U72900TG2012PTC080365	INFOTEX IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1967	U72200TG2012PTC080394	SHIFTC SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1968	U72200TG2012PTC080460	NG6 SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1969	U74999TG2012PTC080461	INSIGHT TRENDS AND NOVELTIES PRIVATE LIMITED
1970	U93000TG2012PTC080479	JRP TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED
1971	U72200TG2012PTC080481	DATADOT SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1972	U74999TG2012PTC080547	BALARKA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1973	U31908TG2012PTC080587	LOKESHWARI POWER LINES PRIVATE LIMITED
1974	U51909TG2012PTC080615	TAMARA IMPEX PRIVATE LIMITED
1975	U24120TG2012PTC080617	BLOOM CROP CARE INDIA PRIVATE LIMITED
1976	U40300TG2012PTC080687	PHOENIX POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1977	U15400TG2012PTC080692	PADMANAYAKA FOODS PRIVATE LIMITED
1978	U22190TG2012PTC080694	MAGNATE ADS AND EVENTS PRIVATE LIMITED
1979	U74999TG2012PTC080698	INTERNATIONAL STUDIES ABROAD INDIA PRIVATE LIMITED
1980	U45209TG2012PTC080729	SOLIS INFRACON PRIVATE LIMITED
1981	U01403TG2012PTC080774	DR.SVP LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1982	U67190TG2012PTC080820	SJF HOLDINGS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
1983	U67190TG2012PTC080833	ADNIM STRATEGIC INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1984	U72200TG2012PTC080884	PENCH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1985	U15205TG2012PTC080894	HAZZEL DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1986	U45400TG2012PTC080983	EKAVEZMAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1987	U24232TG2012PTC080985	CIBUS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
1988	U31900TG2012PTC081075	ARTIG EMBEDDED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1989	U74999TG2012PTC081262	BALARKA EXPORT & IMPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
1990	U27310AP2012PTC081364	SRI KANAKAMAHALAKSHMI RESOURCES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1991	U14290TG2012PTC081408	ARISE INFRACON (INDIA) PRIVATE LIMITED
1992	U45209AP2012PTC081419	DEEPA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1993	U45209AP2012PTC081422	JAI TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1994	U45209AP2012PTC081425	VISHWAJANANI VENTURES PRIVATE LIMITED
1995	U45209TG2012PTC081494	SMS INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1996	U72900TG2012PTC081499	E-MERCHANT DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1997	U73100TG2012PTC081511	NORTH AMERICA BIOMEDICAL RESEARCH PRIVATE LIMITED
1998	U70100AP2012PTC081769	KALYANI SHELTERS PRIVATE LIMITED
1999	U16000TG2012PTC081883	INFINITY TOBACCO PRIVATE LIMITED
2000	U24232TG2012PTC081909	MEDKINE BIO PRIVATE LIMITED
2001	U74900TG2012PTC081918	PHL TELESOFT PRIVATE LIMITED
2002	U21020TG2012PTC081931	OASIS PAPERPACK PRIVATE LIMITED
2003	U55101TG2012PTC081971	SLAX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2004	U45209TG2012PTC081976	NARSINGI PRIME SPACES PRIVATE LIMITED
2005	U51909AP2012PTC081990	SPOORTHY IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
2006	U01211TG2012PTC082068	KAUMUDI DAIRY AND AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2007	U14220TG2012PTC082170	SRITEK MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED
2008	U72200TG2012PTC082177	APPULENTO MOBILITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2009	U45209AP2012PTC082202	FLORENT INFRACON PRIVATE LIMITED
2010	U93000TG2012PTC082226	RISING GLOW BEAUTY AND HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
2011	U80302TG2012PTC082229	VESTAUS LIVE TELE SCHOOL PRIVATE LIMITED
2012	U85110TG2012PTC082257	HELLO HOSPITALS PRIVATE LIMITED
2013	U15122TG2012PTC082329	NRI MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2014	U13203TG2012PTC082373	SRI SAI DWARAKAMAI MINING PRIVATE LIMITED
2015	U72200TG2012PTC082378	BERYLSOFT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2016	U24100TG2012PTC082408	PRANU MEDITECH PRIVATE LIMITED
2017	U22100TG2012PTC082464	AHALYA MEDIA PRIVATE LIMITED
2018	U45209TG2012PTC082520	ARMOUR INFRATECH PRIVATE LIMITED
2019	U74999TG2012PTC082537	ADARSH EVENTS AND PROMOS PRIVATE LIMITED
2020	U65992TG2012PTC082582	SHIVADIVYA CHITS PRIVATE LIMITED
2021	U93000TG2012PTC082592	INDIA SEVA E-COMM AND SOL SERVICES PVT LTD
2022	U45209TG2012PTC082595	SVM CIVIL PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
2023	U72300TG2012PTC082667	CANCON SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2024	U72200TG2012PTC082691	ECONSERVE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2025	U74900TG2012PTC082719	CARDBRIGHT PRINTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2026	U74999TG2012PTC082764	VERBATIM STAFFING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2027	U45400TG2012PTC082838	VIZAG SLURRY PIPELINE INFRASTRUCTURE
2028	U28113TG2012PTC082845	NOVA POWERTECH PRIVATE LIMITED
2029	U24233TG2012PTC082874	GYNO MARK PHARMA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2030	U74200TG2012PTC082927	ENVIRO BUILTECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2031	U29253TG2012PTC083057	KVR POWERMECH INDUSTRIAL SERVICES PVT LTD
2032	U45209TG2012PTC083079	NAGMA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2033	U01405TG2012PTC083153	EKTA SUGAR TRADING PRIVATE LIMITED
2034	U26960AP2012PTC083167	SRI VIJAYA SAI MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
2035	U45209TG2012PTC083218	BHAIRAVA POWER & INFRA PRIVATE LIMITED
2036	U72300TG2012PTC083311	WALNA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2037	U93000TG2012PTC083319	GO 2 WEDLOCK (INDIA) PRIVATE LIMITED
2038	U45209TG2012PTC083390	TEJASWARAM ENGINEERS & CONTRACTORS PVT LTD
2039	U45400TG2012PTC083433	BLUE STREAK CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2040	U72200TG2012PTC083455	TRANSQUBE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2041	U15400TG2012PTC083485	DOWN SOUTH DELICACIES PRIVATE LIMITED
2042	U72200TG2012PTC083498	WIREFRAME WEB DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2043	U52322TG2012PTC083534	MADISON CLOTHING PRIVATE LIMITED
2044	U92100TG2012PTC083552	RANDOM THOUGHTS PRIVATE LIMITED
2045	U45209TG2012PTC083565	SAI SANNIDHI INFRA (INDIA) PRIVATE LIMITED
2046	U22200TG2012PTC083572	SRI NAVNIRMAN PRINTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2047	U31900TG2012PTC083648	SRIMAN SENSOR AND ENGINEERING SERVICES PVT LTD
2048	U65924TG2012PTC083656	SMART TRADING SERVICES PRIVATE LIMITED
2049	U22222TG2012PTC083665	ANANYA MEDIA PRIVATE LIMITED
2050	U45400TG2012PTC083726	SUPATHASRI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2051	U64204TG2012PTC083750	KOVIDANAM MADHYAMAM PRIVATE LIMITED
2052	U51909TG2012PTC083839	MPT MINERALS PRIVATE LIMITED
2053	U40108TG2012PTC083928	JEC RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
2054	U18109TG2012PTC083989	JUST4U ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2055	U52390TG2012PTC084000	SPARSH CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2056	U45209TG2012PTC084048	HABITUS INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2057	U72200TG2012PTC084090	ARRGEE INFO LOGIC SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2058	U72200TG2012PTC084147	SUNTIARA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2059	U45200AP2012PTC084165	NITHIN MINING & CIVIL WORKS PRIVATE LIMITED
2060	U63040TG2012PTC084229	SRI GULF ANDHRA TOURS & EVENTS PRIVATE LIMITED
2061	U63090AP2012PTC084280	SAMURAM SHIPPING & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2062	U37100TG2012PTC084285	BHAVYA BHAVANI RUBBERS PRIVATE LIMITED
2063	U92120TG2012PTC084291	MALINENI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2064	U74900TG2012PTC084294	T & I ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2065	U22100TG2012FTC084295	SIRI PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2066	U45209TG2012PTC084329	HIIL INFRATECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
2067	U80904TG2012PTC084334	LEO KIDZ EDUCATION INDIA PRIVATE LIMITED
2068	U85100TG2012PTC084349	NAVEENA HEALTH CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
2069	U45209TG2012PTC084353	TURBOATOM ENGINEERS AND ERECTORS PRIVATE LIMITED
2070	U72900AP2012PTC084358	BILLS N TICKETS TECHNOLOGY SOLUTIONS PVT LTD
2071	U72400TG2012PTC084446	WELDONE TECHNOLOGY CONSULTING SERVICES PVT LTD
2072	U31400TG2012PTC084507	SAI BHAVANI POWERTECH PRIVATE LIMITED
2073	U72200TG2012PTC084549	SUPR INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
2074	U24232TG2012PTC084553	KAD'LAK LIFE SCIENCES INDIA PRIVATE LIMITED
2075	U15122TG2012FTC084583	RAMAKRISHNA FOOD CUISINES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2076	U72200TG2012PTC084592	POTRUS' EDU SERVICES PRIVATE LIMITED
2077	U74999TG2012PTC084607	NAKO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2078	U72300TG2012PTC084660	VIJNANA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
2079	U72900TG2012PTC084724	ZIRCO MOBILE PRIVATE LIMITED
2080	U45200TG2012PTC084743	SVR ENGINEERING & INFRACON PRIVATE LIMITED
2081	U72200TG2012PTC084767	GALLOP SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2082	U93000TG2012PTC084801	CHAMELEON HRMS PRIVATE LIMITED
2083	U72200TG2012PTC084809	ACCENDO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2084	U40108TG2012PTC084903	DAMAN ENERGY PRIVATE LIMITED
2085	U93000TG2012PTC084937	FREELANCER MEDICAL PLANNING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2086	U51909TG2012PTC084978	PAPERCONNECT PRIVATE LIMITED
2087	U74900TG2012PTC085028	ABIDE HR SERVICES PRIVATE LIMITED
2088	U72200AP2012PTC085081	MATTAPARTI IT SERVICES PRIVATE LIMITED
2089	U01407TG2012PTC085097	ETHI AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
2090	U01403AP2012PTC085102	GOOSE GLOBAL AGRI PRIVATE LIMITED
2091	U72900TG2012PTC085114	DL IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2092	U24232AP2012PTC085122	ABHUSHA PHARMA PRIVATE LIMITED
2093	U92120TG2012PTC085140	UNIVERSAL CHURCH MEDIA VISION PRIVATE LIMITED
2094	U72900TG2012PTC085147	SMAPTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2095	U45203TG2013PTC085218	B R METALIKS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2096	U70102TG2013PTC085234	PRIME LIVING INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
2097	U85191TG2013PTC085246	R K AYURVEDIC & PSORIASIS RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED
2098	U10100TG2013PTC085254	KASBRO COALS PRIVATE LIMITED
2099	U72300TG2013PTC085380	INTEGRALMINDS SOFTWARES PRIVATE LIMITED
2100	U73100TG2013PTC085424	THERAXEL DISCOVERIES PRIVATE LIMITED
2101	U72200TG2013PTC085432	ZARLINA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2102	U72200TG2013PTC085468	NICET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2103	U01403AP2013PTC085477	VELURU AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2104	U92120TG2013PTC085522	MANORAMA MEDIA PRIVATE LIMITED
2105	U40108TG2013PTC085527	KLK ENERGY PRIVATE LIMITED
2106	U60200TG2013PTC085574	ORANGE TRUCKERS PRIVATE LIMITED
2107	U72900TG2013PTC085602	SIYONA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2108	U80901TG2013PTC085619	LIVE WIRE EDUCATION PRIVATE LIMITED
2109	U65923AP2013PTC085633	SRI LAKSHMI NANDA CHITS PRIVATE LIMITED
2110	U01119TG2013PTC085646	AGRIMALL CROP CARE PRIVATE LIMITED
2111	U25200TG2013PTC085667	RE-PLANET RECLAIMERS PRIVATE LIMITED
2112	U72200TG2013FTC085673	INNROAD INDIA HOTEL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2113	U72200AP2013PTC085705	CONTRADO IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2114	U65992AP2013PTC085724	SHREYOJANA CHITS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2115	U16000AP2013PTC085740	PATHURI TOBACCOS PRIVATE LIMITED
2116	U85193TG2013PTC085752	SRI VAISHNAVI MEDI CARE INDIA PRIVATE LIMITED
2117	U45209TG2013PTC085762	MEGA PRECAST PRIVATE LIMITED
2118	U23200TG2013PTC085775	NEWZONE PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
2119	U72200TG2013PTC085830	ESPECZ TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2120	U24301TG2013PTC085860	ANVIT LABS PRIVATE LIMITED
2121	U15122TG2013PTC085910	DESI GOURMET PRIVATE LIMITED
2122	U01403TG2013PTC085949	RENOVA SEED SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2123	U74900TG2013PTC085963	WAY4LOANS INDIA PRIVATE LIMITED
2124	U40108TG2013PTC085981	KOUSYAP SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
2125	U92120TG2013PTC086000	MASK PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2126	U74140TG2013PTC086006	VAAYUJA CLEANROOM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2127	U92412TG2013PLC086110	SRI SAI LEELA BRODCASTING LIMITED
2128	U40107AP2013PTC086118	MEDEHAL SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
2129	U51101TG2013PTC086120	NUTAN SEEDS PRIVATE LIMITED
2130	U45203TG2013PTC086154	ACHALAGOLD INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
2131	U93030AP2013PTC086165	NEAS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2132	U92120AP2013PTC086174	KK MEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
2133	U52390TG2013PTC086212	CHINKARA TRADING PRIVATE LIMITED
2134	U74140TG2013PTC086234	GOOD SHEPHERD CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
2135	U74900TG2013PTC086253	LEO BRAND SERVICES PRIVATE LIMITED
2136	U55104TG2013PTC086262	S.K.A.H. HOTELS PRIVATE LIMITED
2137	U35990AP2013PTC086313	JAYA SHAKTHI COMMERCIAL MOTORS (INDIA)LIO BRAND SERVICES PRIVATE LIMITED
2138	U15122TG2013PTC086364	GAJAKESARI FOOD PRIVATE LIMITED
2139	U72200TG2013PTC086390	SPHIRE SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2140	U21098TG2013PTC086423	VEERABHADRA PULP & PAPERS PRIVATE LIMITED
2141	U29253TG2013PTC086458	ELIA AUTOMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2142	U10100TG2013PTC086487	S.K.A.H. MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2143	U51101TG2013PTC086655	YUVIKA MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
2144	U40107AP2013PTC086659	ADITHYA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
2145	U72200TG2013PTC086714	TRAVELAUTO INDIA PRIVATE LIMITED
2146	U74900TG2013PTC086715	SELF CRAFT RETAIL PRIVATE LIMITED
2147	U45209TG2013PTC086730	FIRSTZEN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2148	U93000TG2013PTC086766	NEXT ZEN EDUCATION SOL AND SERVICES PVT LTD
2149	U24232TG2013PTC086814	HERCULES BIOTECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2150	U74130TG2013PTC086831	RESULTMATIC ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2151	U92412TG2013PTC086843	GRAND SLAAM SPORTS PRIVATE LIMITED
2152	U45100TG2013PTC086862	NU CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2153	U74900TG2013PTC086937	ROYCE COSMETIC PRIVATE LIMITED
2154	U55101TG2013PTC086965	NUOVO FOOD CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2155	U24301TG2013PTC086991	ORAIYU HERBAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2156	U05004AP2013PTC087001	PADMASREE FISHERIES PRIVATE LIMITED
2157	U72900AP2013PTC087030	ACHANTA ACEENGINEER INDIA PRIVATE LIMITED
2158	U31401AP2013PTC087108	SSKH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2159	U52100TG2013PTC087113	NICO TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
2160	U31905TG2013PTC087135	ANVIKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2161	U85100TG2013PTC087143	SRIVEN HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED
2162	U40108TG2013PTC087149	KANDULA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
2163	U45400TG2013PTC087168	VRR PROPERTY DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
2164	U31400TG2013PTC087179	RANJAN ELECTRICAL AND REFRIGERATION PRIVATE LIMITED
2165	U72900TG2013PTC087194	SPINE COMPUTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
2166	U72400TG2013PTC087215	KEVINS INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2167	U72200TG2013PTC087320	EKANSH INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2168	U31906TG2013PTC087331	SUNLIFE SOLAR & SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2169	U74140TG2013PTC087345	NELLORE NARAYANA CONSULTING SERVICES PVT LTD
2170	U45209TG2013PTC087361	KARERA VENTURES PRIVATE LIMITED
2171	U45209TG2013PTC087401	VIRINCHI COLONIZERS PRIVATE LIMITED
2172	U72900TG2013FTC087410	HELLO INNOVATION IT PRIVATE LIMITED
2173	U45200TG2013PTC087419	SUBRAHMANYA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2174	U52335TG2013PTC087422	KINGSWAY INTEGRATORS PRIVATE LIMITED
2175	U40107TG2013FTC087450	CARMEL RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
2176	U72200TG2013PTC087453	YAGNA IT ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
2177	U65992TG2013PTC087489	SAPTHAGIRISRINILAYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2178	U72200TG2013PTC087515	NXSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2179	U24134TG2013PTC087516	VANDITA POLYMERS PRIVATE LIMITED
2180	U92100TG2013PTC087543	CHARAN MOVIE MEDIA PRIVATE LIMITED
2181	U24232TG2013PTC087578	VEEJAY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2182	U52100TG2013PTC087589	SSNVV TRADING PRIVATE LIMITED
2183	U74900TG2013PTC087596	SOCIKO COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2184	U31900TG2013PTC087602	GLARE ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
2185	U34100TG2013PTC087624	RAP MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED
2186	U24232TG2013PTC087632	CADINE PHARMA PRIVATE LIMITED
2187	U52300TG2013PTC087646	GNK INTERIOR INFRA PRIVATE LIMITED
2188	U45200TG2013PTC087699	ECO FRIENDLY HOMES BARODA PRIVATE LIMITED
2189	U65992AP2013PTC087705	MAHA DEVI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2190	U45209TG2013PTC087729	ONE WORLD TOWNSHIP BARODA PRIVATE LIMITED
2191	U72200TG2013PTC087732	ISTREAM MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2192	U72200TG2013PTC087775	OCEANIC E-TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2193	U15400TG2013PTC087801	NAHAR FOOD & BEVERAGES INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2194	U45209TG2013PTC087819	LEAFS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
2195	U72900TG2013PTC087845	AMAZE INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
2196	U40300TG2013PTC087852	ILLUMINE SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2197	U52190TG2013PTC087860	HASTHA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
2198	U93000TG2013PTC087924	BICAD MEDIA PRIVATE LIMITED
2199	U72200TG2013PTC087933	INVENSOL SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
2200	U72200TG2013PTC087966	LAASYA SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
2201	U24110TG2013PTC087989	RJHDOVE CROP SCIENCES INDIA PRIVATE LIMITED
2202	U72900TG2013PTC087995	PRASUSHA LOGIC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2203	U74999TG2013PTC088043	HAZELEWOOD INTERIORS PRIVATE LIMITED
2204	U72300TG2013PTC088062	AVYAYA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2205	U01403AP2013PTC088089	AADARANA PAADI AND PANTA PRIVATE LIMITED
2206	U51909TG2013PTC088099	BUDDHAVARAPU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2207	U74900TG2013PTC088110	BRIDGESTONE GRANITES AND MINERALS PVT LTD
2208	U72200TG2013PTC088211	LUMINOVA TECHNO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2209	U72200TG2013PTC088287	SVAASH SOFTRONIX PRIVATE LIMITED
2210	U52390TG2013PTC088319	AMAZING VENDORS INDIA PRIVATE LIMITED
2211	U74900TG2013PTC088371	FREEGO MEDICAL & HEALTH SOLUTIONS PVT LTD
2212	U45209TG2013PLC088400	APOLUX HOUSING INDIA LIMITED
2213	U45400TG2013PTC088417	SUNGRACE HOMES PRIVATE LIMITED
2214	U35301TG2013PTC088457	MUKT AIR PRIVATE LIMITED
2215	U92120TG2013PTC088458	SIRI TERRITORIAL NEWS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2216	U45200TG2013PTC088548	BLUE VILLAS PRIVATE LIMITED
2217	U33119TG2013PTC088584	MEDI EYE CARE HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
2218	U45209TG2013PTC088602	AYBUVAN INFRA PRIVATE LIMITED
2219	U72400TG2013PTC088625	2 PI ENGINEERING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2220	U15331TG2013PTC088627	RATNA AGRO-VET FEEDS INDIA PRIVATE LIMITED
2221	U22120TG2013PTC088655	ASHERS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
2222	U74220TG2013PTC088693	RIGHT DOCTORS HEALTHCARE TECHNOLOGIES PVT LTD
2223	U24232TG2013PTC088707	MAYUKA PHARMA PRIVATE LIMITED
2224	U74200TG2013PTC088708	TWENTY ONE DEGREES PMC PRIVATE LIMITED
2225	U51101TG2013PTC088720	VKR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2226	U72200TG2013PTC088762	ANANTHA BUSINESS CONSULTANCY INDIA PRIVATE LIMITED
2227	U92100TG2013PTC088763	PRAJAVANI BROADCASTING PRIVATE LIMITED
2228	U29241TG2013PTC088764	EXCEL FLUIDPOWER AND AUTOMATION PRIVATE LIMITED
2229	U51909TG2013PTC088775	SREE BHAGYALAXMI COAL AND MINERALS PVT LTD
2230	U31900AP2013PTC088779	SUNRISE SOLAR PANELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2231	U51909TG2013PTC088867	AVNI RETAIL PRIVATE LIMITED
2232	U22120TG2013PTC088948	SEVEN SUMMITS STUDIO PRIVATE LIMITED
2233	U72200TG2013PTC088953	AST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2234	U74900TG2013PTC088963	STERLING ELEVATORS & ESCALATORS PRIVATE LIMITED
2235	U45209AP2013PTC088986	LOKESH EDIFICES PRIVATE LIMITED
2236	U72200TG2013FTC089169	BAHWAN ITON PRIVATE LIMITED
2237	U40108AP2013PTC089241	SRI RAAVI GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
2238	U93000TG2013PTC089277	MICHAEL MAKHAL SYMPHONY ORCHESTRA PRIVATE LIMITED
2239	U74900TG2013PTC089324	SIRI BIOFORMULATIONS PRIVATE LIMITED
2240	U15122AP2013PTC089442	GOVU FOODS PRIVATE LIMITED
2241	U25190TG2013PTC089457	EISHWARRYA PAKEGING PRIVATE LIMITED
2242	U28910TG2013PTC089542	HAAS GRANITES PRIVATE LIMITED
2243	U74900TG2013PTC089568	AMTrex CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
2244	U72200TG2013PTC089597	SMARTTHREAD SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
2245	U74999TG2013PTC089630	CONDOUR MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2246	U72200TG2013PTC089643	EKEEKO PAYMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2247	U92412TG2013PTC089706	TEAMLEAD DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED
2248	U72200TG2013PTC089730	VANQO GLOBALTECH PRIVATE LIMITED
2249	U52399TG2013PTC089733	LABEL FOUR CLOTHING PRIVATE LIMITED
2250	U24232TG2013PTC089766	SRI SIRI THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED
2251	U14107TG2013PTC089767	ORCHARD MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2252	U32107TG2013PTC089778	SWATHI CONNECTRONICS PRIVATE LIMITED
2253	U93000TG2013PTC089779	ENORMOUS SCOPE MEDIA (I) PRIVATE LIMITED
2254	U24232TG2013PTC089780	LACTOKIND DRUGS & FORMULATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2255	U74900TG2013PTC089783	SNEHDIP ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
2256	U45209AP2013PTC089785	SRI LAXMINARASIMHA INFRA PROJECTS PVT LTD
2257	U14200TG2013PTC089789	SHINE INDIA MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2258	U74900TG2013PTC089790	CURB TECHNOLOGIES & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2259	U15490TG2013PTC089793	AHOY FOODS PRIVATE LIMITED
2260	U74120AP2013PTC089797	SARAVANAN INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED
2261	U72200TG2013PTC089798	ACME INFOLOGIC INDIA PRIVATE LIMITED
2262	U27100TG2013PLC089801	BSW ISPAT INDIA LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2263	U29130TG2013PTC089806	PINNACLE PEB & SOLAR PRIVATE LIMITED
2264	U72200TG2013PTC089808	SIROCODE INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
2265	U45209TG2013PTC089809	MAGNICON CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2266	U72200TG2013PTC089814	AKSHITA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2267	U63030TG2013PTC089815	SAIS TRAVELNR PRIVATE LIMITED
2268	U74140TG2013PTC089817	CHINTHALA CONSULTING PRIVATE LIMITED
2269	U72200TG2013PTC089819	SANSTARK SECURE-INTELLEGAL SOLUTIONS PVT LTD
2270	U72200TG2013PTC089823	TARAK BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
2271	U52390TG2013PTC089828	ABHISHEK HOME NEEDS INDIA PRIVATE LIMITED
2272	U72200TG2013FTC089838	ETISAL INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED
2273	U15410TG2013PTC089841	N.D. GLOBAL PRIVATE LIMITED
2274	U14220TG2013PTC089843	RABIYABI MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2275	U24100TG2013PTC089851	SADYA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2276	U72200TG2013PTC089854	IMOR MEDIA PRIVATE LIMITED
2277	U74900TG2013PTC089855	VNR INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2278	U74900TG2013PTC089859	KRIYA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2279	U40108TG2013PTC089862	SYED & SHAFI POWER PRIVATE LIMITED
2280	U45209TG2013PTC089863	ANNAM INFRA INDIA PRIVATE LIMITED
2281	U74900TG2013PTC089865	VAGWI MARKETING PRIVATE LIMITED
2282	U65992TG2013PTC089866	VAGWI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2283	U74900TG2013PTC089872	MARIO TEKSOL PRIVATE LIMITED
2284	U67190TG2013PTC089873	MF CAPITAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
2285	U65100TG2013PTC089875	BACK 2 BASICS FINANCIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
2286	U65992TG2013PTC089885	AKSHITHA LAKSHMI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2287	U72200TG2013PTC089886	CJ SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2288	U45203AP2013PTC089893	GPR CIVIL CONTRACTS PRIVATE LIMITED
2289	U72200TG2013PTC089904	MATHRAY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2290	U51900TG2013PTC089906	S.S. EVOLUTION GLOBAL WEB TECHNOLOGIES PVT LTD
2291	U45200AP2013PTC089907	SAI KRUPA TRADING AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
2292	U74999AP2013PTC089914	NOTACHI ELEKTRONIK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2293	U31900TG2013PTC089915	KEC INDIA INFRA PRIVATE LIMITED
2294	U74900TG2013PTC089917	STEM LABS INDIA PRIVATE LIMITED
2295	U80901TG2013PTC089920	HIA INSTITUTE FOR INTEGRAL TRAINING PRIVATE LIMITED
2296	U92140TG2013PTC089925	VIGOR ENTERTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED
2297	U63030TG2013PTC089929	PRATHAPAGIRI EXPRESS PRIVATE LIMITED
2298	U52599TG2013PTC089930	COMMON ELECTRONICS AND AUTOMATIONS PVT LTD
2299	U45209TG2013PTC089935	DIL RAJU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2300	U74900TG2013PTC089936	TRIGENSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2301	U45209TG2013PTC089939	AYATHAN INFRA PRIVATE LIMITED
2302	U72900TG2013PTC089940	OAAS CLOUD SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
2303	U72200TG2013PTC089941	ACCUBI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2304	U40300TG2013PTC089949	CENTUM ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
2305	U31100TG2013PTC089950	INTELLIMACH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2306	U74900TG2013PTC089955	ALPINIST CORP CONSULTING PRIVATE LIMITED
2307	U74900TG2013PTC089960	RAYUDU PROFESSIONAL DETECTIVE AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2308	U72200AP2013PTC089963	ORANGE NEXTGEN COMMUTECH PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2309	U70100TG2013PTC089968	SURABHI & TAVITIKI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2310	U85190AP2013PTC089969	VARUN MEDICARE PRIVATE LIMITED
2311	U74900TG2013PTC089972	SIGNA SERVICES PRIVATE LIMITED
2312	U85100TG2013PTC089978	INDIA ECOPRENEUR PRIVATE LIMITED
2313	U72200TG2013PTC089982	SKYGEN GLOBAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2314	U70100TG2013PTC089987	LANDMAN REALTORS PRIVATE LIMITED
2315	U40106TG2013PTC089989	SUPER BRIGHT SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
2316	U45400TG2013PTC089991	HASPRO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2317	U15400AP2013PTC089993	BW SPICE PRIVATE LIMITED
2318	U85110AP2013PTC089997	DENTAL MART PRIVATE LIMITED
2319	U74900TG2013PTC089999	ELAN CORPORATION PRIVATE LIMITED
2320	U28113TG2013PTC090009	ZENTO STEEL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2321	U40300AP2013PTC090010	SRI GAYATHREE NATURAL ENERGY PRIVATE LIMITED
2322	U74120TG2013PTC090013	KINGDOM TRAVELS PRIVATE LIMITED
2323	U72200TG2013PTC090017	VAISHNAVI TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
2324	U15400TG2013PTC090018	DOCTORS N DOCTORS HEALTHY FOOD PRODUCTS PVT LTD
2325	U74999TG2013PTC090022	METRO PEST CONTROL SERVICES PRIVATE LIMITED
2326	U40108AP2013PTC090023	SAMVATSARA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
2327	U50200TG2013PTC090032	MAHESHWARI AUTO LINES PRIVATE LIMITED
2328	U72300TG2013PTC090039	VEGASYS IT PRIVATE LIMITED
2329	U74900TG2013PTC090040	JUBILANT INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2330	U65992AP2013PTC090043	LEMALLE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2331	U51909TG2013PTC090044	AADHYA E-COMMERCE INDIA PRIVATE LIMITED
2332	U50200TG2013PLC090047	EKAVEERA HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
2333	U74900TG2013PTC090054	ENERGY PLUS WELLNESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2334	U31900TG2013PTC090057	TRIMEC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2335	U10300AP2013PTC090061	B G N MINERALS PRIVATE LIMITED
2336	U74910TG2013PTC090062	GLP MAN POWER SERVICES PRIVATE LIMITED
2337	U74300TG2013PTC090063	TRIUMPHANT MEDIA MARKETING & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2338	U63090TG2013PTC090068	M M COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
2339	U24232TG2013PTC090069	ZUVEN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2340	U45200TG2013PTC090071	N R R ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
2341	U45207AP2013PLC090075	JAYASRI ENCONPROJECTS LIMITED
2342	U74120TG2013PTC090079	DOTS AND WORDS COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2343	U51103TG2013PTC090081	BHAVAGNA TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2344	U51900TG2013PTC090084	AMEER IMPEX PRIVATE LIMITED
2345	U72200TG2013PTC090092	GNR SOFTTECH PRIVATE LIMITED
2346	U18204TG2013PTC090093	SVR GOLD PRIVATE LIMITED
2347	U45200TG2013PTC090095	SRI SHARVANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2348	U24232TG2013PLC090096	MBS REMEDIES LIMITED
2349	U74999TG2013PTC090097	CHARIGO PROMOTIONS PRIVATE LIMITED
2350	U14200TG2013PTC090101	INNOMIT MINERAL PROJECTS PRIVATE LIMITED
2351	U31900TG2013PTC090104	KEMP CONTRACTING & TRADING PRIVATE LIMITED
2352	U27300AP2013PTC090109	ORNAMENT ARTIFICERS SERVICE PRIVATE LIMITED
2353	U85120TG2013PTC090110	SVR HEALTH CARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2354	U65192AP2013PTC090113	DHEERAJ CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2355	U92120TG2013PTC090117	P RAMBABU ENTERTAINMENT AND MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2356	U74920TG2013PTC090119	CORE EMPOWERMENT PRIVATE LIMITED
2357	U74999TG2013PTC090120	MISORA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2358	U01403TG2013PTC090125	PLURIS AGRI FARMS PRIVATE LIMITED
2359	U45200TG2013PTC090128	LAKSHMI RIDHIMA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2360	U15400TG2013PTC090135	A1 FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
2361	U72200TG2013PTC090138	SHADO IT INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
2362	U93090TG2013PTC090142	MANDUVA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2363	U52100AP2013PTC090145	M.S.R DIGITALS PRIVATE LIMITED
2364	U92412TG2013PTC090146	SUNEYE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2365	U72300TG2013PTC090147	URANIUM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2366	U15400TG2013PTC090150	MANIKCHAND CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED
2367	U72200TG2013PTC090157	ONE WORLD IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2368	U29219TG2013PTC090163	ZYNX TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2369	U14200AP2013PTC090165	SREE PRADA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2370	U45209AP2013PLC090171	P PRAKASAM SOCIAL INFRASTRUCTURES AND DEVELOPMENT LIMITED
2371	U40108TG2013PTC090177	SHIVAMANI RENEWABLES PRIVATE LIMITED
2372	U15143TG2013PTC090179	HAMSA OILS PRIVATE LIMITED
2373	U45209TG2013PTC090180	GORAKSHA CONSTRUCTIONS AND ENERGY PRIVATE LIMITED
2374	U72200TG2013PTC090181	MALIHA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2375	U72200TG2013PTC090182	DEBIAN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2376	U24132TG2013PTC090183	KAMAL PRABHASH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2377	U52590TG2013PTC090184	DESIGNERS EDGE IMPEX PRIVATE LIMITED
2378	U52100TG2013PTC090185	DESIGNERS EDGE INTEX PRIVATE LIMITED
2379	U52300TG2013PTC090186	DESIGNERS EDGE FRANCHISE PRIVATE LIMITED
2380	U15490AP2013PTC090187	OM JJ BRKK DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2381	U74999TG2013PTC090199	MANNAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2382	U72200AP2013PTC090202	RAJGRUPS TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2383	U45209AP2013PTC090203	MALAKONDA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2384	U74140TG2013PTC090204	CLEARSCOOP DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2385	U32300TG2013PTC090205	VIVID MOBISOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2386	U70100TG2013PTC090206	RISE REALTY PRIVATE LIMITED
2387	U52590TG2013PTC090207	LIFEGROW ONLINE MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
2388	U51101TG2013PTC090208	AIM INTEGRITY INFOMATICS PRIVATE LIMITED
2389	U63090AP2013PTC090210	GOODLUCK CALL TAXI PRIVATE LIMITED
2390	U74120TG2013PTC090213	CHERALA CONSULTING PRIVATE LIMITED
2391	U74300TG2013PTC090214	Y R LOGISTICS SERVICES PRIVATE LIMITED
2392	U72200AP2013PTC090219	PIXELBLUR STUDIOS PRIVATE LIMITED
2393	U74900TG2013PTC090222	CLUB 7 HOSPITALITY SERVICES HYDERABAD PRIVATE LIMITED
2394	U66000AP2013PTC090225	AKHILADHAAR INSIGHT MULTI SERVICES PVT LTD
2395	U74900TG2013PTC090226	FOXMEN DETECTIVE AGENCY PRIVATE LIMITED
2396	U72200TG2013PTC090231	MAVERICK CLOUD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2397	U74900TG2013PTC090241	VIKRAM CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
2398	U74900TG2013PTC090242	CREDLY HR PRIVATE LIMITED
2399	U74140TG2013PTC090247	PROACT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2400	U40102TG2013PTC090257	KAMAL SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
2401	U93000TG2013PTC090259	SHUBH SANKALP EVENT ORGANISERS PRIVATE LIMITED
2402	U65923TG2013PTC090260	MAX GLOBAL CHIT FUND INDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2403	U74900AP2013PTC090264	GALAXY GREEN PRODUCT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2404	U72200TG2013PTC090265	PRECISE ITES PRIVATE LIMITED
2405	U67190TG2013PTC090269	MESCLA FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2406	U51101AP2013PTC090274	SRI SAISAPTHAGIRI AGRI TRADERS PRIVATE LIMITED
2407	U72400TG2013PTC090275	KANTH TRENDS PRIVATE LIMITED
2408	U74900TG2013PTC090283	TECHNOART CORPORATE QUALITY SERVICES PVT LTD
2409	U74900AP2013PTC090284	IDEAL ENTREPRENEUR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2410	U24233TG2013PTC090292	NEOTABS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
2411	U92140TG2013PTC090293	KYROS MEDIA PRIVATE LIMITED
2412	U72400TG2013PTC090295	ONE AND THREE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2413	U64200TG2013PTC090300	INFOSCION TELE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2414	U22219TG2013PTC090301	VS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
2415	U74999TG2013PTC090302	MAYOBHU EVENTS PRIVATE LIMITED
2416	U40108AP2013PTC090306	SOLANGY ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2417	U72200AP2013PTC090308	IZONE MEDIA PRIVATE LIMITED
2418	U24232TG2013PTC090310	MY DRUGS PRIVATE LIMITED
2419	U15331TG2013PTC090312	HUDSON FEEDS PRIVATE LIMITED
2420	U72200TG2013FTC090313	CLADOOP INDIA PRIVATE LIMITED
2421	U51220TG2013PTC090314	VAIBHAV KALYAN FOOD AND AGRO AGENCIES & SERVICES PRIVATE LIMITED
2422	U45209TG2013PTC090315	CHIC ESTATES & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2423	U72200TG2013PTC090317	ONECONNECT IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2424	U74120TG2013PTC090320	MICROBE CIRCUIT PRIVATE LIMITED
2425	U01403TG2013PTC090322	DJR AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2426	U15400TG2013PTC090324	VAZMAN FOODS PRIVATE LIMITED
2427	U72200TG2013PTC090326	SMARTSEARCH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2428	U74200TG2013PTC090327	ISOTOPE QUALITECHS PRIVATE LIMITED
2429	U70101AP2013PTC090329	INDOSTAR REALESTATE PRIVATE LIMITED
2430	U72200TG2013PTC090332	I-SMAC TECHNOLOGY SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2431	U72300TG2013PTC090333	ENORMOUS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
2432	U72200TG2013PTC090344	SILVERLINE IT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
2433	U85191TG2013PTC090347	KRIYA HOSPITALS AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
2434	U31908TG2013PTC090350	R SQUARE SYNERGY PRIVATE LIMITED
2435	U92419TG2013PTC090354	MULTITUNE ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
2436	U65992AP2013PTC090355	BUDDAVARAPU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2437	U45206AP2013PTC090356	VIRINCHI TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
2438	U93095TG2013PTC090361	PAVANTEJA TOURS AND TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
2439	U24233TG2013PTC090362	SRIBHAVANI HOMECARE PRIVATE LIMITED
2440	U01403TG2013PTC090364	SAANVI AGRI BIOTECH PRIVATE LIMITED
2441	U29253TG2013PTC090366	MKIS ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
2442	U22210AP2013PTC090369	CHANGING MOVEMENTS MEDIA PRIVATE LIMITED
2443	U72200AP2013PTC090372	ASCERTAIN INFO PRIVATE LIMITED
2444	U24100TG2013PTC090374	TWINS AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2445	U74900TG2013PTC090376	SRI GNAN SERVICES PRIVATE LIMITED
2446	U74120TG2013PTC090380	ACCORD AVENUES AND INTERIORS INDIA PRIVATE LIMITED
2447	U15122TG2013PTC090381	THINKING CUP BEVERAGES PRIVATE LIMITED
2448	U74120TG2013PTC090383	BINDAAS MEDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2449	U51101TG2013PTC090391	EARLY RISE ENERGY SPROUTS PRIVATE LIMITED
2450	U74999TG2013PTC090393	RM HR SERVICES PRIVATE LIMITED
2451	U72400AP2013PTC090397	LAST MILE IT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2452	U65992TG2013PTC090398	REDDY BROTHERS CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2453	U93000TG2013PTC090399	AFSA ONLINE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
2454	U45203AP2013PTC090400	MORAL BUILD INDIA PRIVATE LIMITED
2455	U74300TG2013PTC090402	ARR MEDIA PRIVATE LIMITED
2456	U45200TG2013PTC090403	SAI G V CIVIL & ELECTRICALS INDIA PRIVATE LIMITED
2457	U72200TG2013PTC090405	BLUEHUB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2458	U13200TG2013PLC090407	MADHAVESHWARI DIAMONDS AND MINERALOGY CHEMICALS CORPORATION LIMITED
2459	U01409TG2013PTC090412	HARIKA DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
2460	U40108TG2013PTC090414	VISIONTEXO SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
2461	U72200AP2013PTC090420	GUHAN IT SERVICES PRIVATE LIMITED
2462	U72200TG2013PTC090422	9 CIERTO SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2463	U74120TG2013PTC090423	SRIRAMULA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2464	U72200TG2013PTC090424	SRK INFOSOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2465	U17120TG2013PTC090426	VAZMAN TEXTRENDS PRIVATE LIMITED
2466	U63090TG2013PTC090428	AL-NOOR MADINA HAJ AND UMRAH TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
2467	U63090TG2013PTC090431	SREE YATRA PRIVATE LIMITED
2468	U74999AP2013PTC090434	KKKUMBHALA CONSUMER NEED SERVICES PVT LTD
2469	U74900TG2013PTC090445	P&G MARKETING PRIVATE LIMITED
2470	U72200TG2013PTC090446	RIDGE TECHSTORE PRIVATE LIMITED
2471	U13100TG2013PTC090449	PRIKI MINES METALS AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2472	U74900TG2013PTC090450	RFIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2473	U45205TG2013PTC090451	VIKHYATH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2474	U45208AP2013PTC090457	ABHI AMRUTHA INFRA PRIVATE LIMITED
2475	U72200TG2013PTC090458	KEYLOGIC SOFTWARE LABS PRIVATE LIMITED
2476	U45200AP2013PTC090461	PINAAKINI INFRA PRIVATE LIMITED
2477	U01400AP2013PTC090463	RAMAGIRI TRIBAL FARMER SERVICES PRODUCER COMPANY LIMITED
2478	U45209AP2013PTC090467	KAKATURU INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2479	U80900AP2013PTC090469	CVR-INET INNOVATIONS TRAINING & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2480	U72200TG2013PTC090471	RAGAMANI EBUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2481	U15203AP2013PTC090472	SRI BALA DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2482	U22300AP2013PTC090473	JAMBUL MEDIA PRIVATE LIMITED
2483	U72200TG2013PTC090476	REVERE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2484	U40300AP2013PTC090482	SRI SATYA SURYA ENGINEERING AND TRADING SERVICES PRIVATE LIMITED
2485	U74120TG2013PTC090483	SANNIDHI MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
2486	U45200AP2013PTC090494	ADARSHA MEADOWS PRIVATE LIMITED
2487	U45200TG2013PTC090498	K.V.RAMANA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2488	U74120TG2013PTC090499	SRI VAKULA MARKETING SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
2489	U93000TG2013PTC090502	KVIEW CREATIVE STUDIO PRIVATE LIMITED
2490	U70101AP2013PTC090505	SAI RAM SANKARI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2491	U72200AP2013PTC090506	SUZEVA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2492	U74900AP2013PTC090508	MANLOK ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
2493	U01403TG2013PTC090509	KARSHAKA MITRA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2494	U01403TG2013PTC090510	SRI SAI KRISHNA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
2495	U80901AP2013PTC090511	IDEATION GLOBAL SEMINARS PRIVATE LIMITED
2496	U40105TG2013PTC090513	RUSHI RENEWABLE ENERGIES PRIVATE LIMITED
2497	U74120TG2013PTC090516	IPHARM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2498	U45208TG2013PTC090522	SAI SUMA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2499	U15400TG2013PTC090525	GREENLEAF NATURAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2500	U72200TG2013PTC090529	CAPITIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2501	U45209AP2013PTC090530	RDL GREEN TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2502	U45200TG2013PTC090532	K.S.RAO CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2503	U70200AP2013PTC090534	BERACCA INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED
2504	U45209AP2013PTC090537	ARJUN AVENUES PRIVATE LIMITED
2505	U80301TG2013PTC090550	FAIRFUTURE ENTREPRENEURS PRIVATE LIMITED
2506	U52100AP2013PTC090552	GSTORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
2507	U74140TG2013PTC090556	HURES CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
2508	U70102AP2013PTC090559	ASHTALAKSHMI REALTY PRIVATE LIMITED
2509	U45209TG2013PTC090561	PYR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2510	U45209TG2013PTC090562	BADRINARAYAN INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
2511	U72200TG2013PTC090566	SACKUP IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2512	U40300AP2013PTC090568	PHT POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2513	U01403AP2013PTC090571	NANDAN B V REDDY FARMS PRIVATE LIMITED
2514	U45209AP2013PTC090573	CHELLURI SRIHARI & SRILAKSHMI ENGINEERS & CONTRACTORS PVT LTD
2515	U72200TG2013PTC090575	TECHPRIDE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2516	U85110TG2013PTC090577	HEALTHII CURVESS PRIVATE LIMITED
2517	U74900AP2013PTC090579	LUMEN OFFSHORE & SHIPPING INDIA PRIVATE LIMITED
2518	U45209AP2013PTC090582	GOGINENI TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
2519	U45209TG2013PTC090584	ASJ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2520	U31400TG2013PTC090586	SVR ECO ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2521	U40300AP2013PTC090587	UDAYKIRAN SOLAR POWER GENERATION PLANT PRIVATE LIMITED
2522	U65992AP2013PTC090599	RAVIKRISHNA CHITS PRIVATE LIMITED
2523	U51900TG2013PTC090600	KRSNA KRUPA BUSINESS CORPORATION PRIVATE LIMITED
2524	U72200TG2013PLC090603	MONEY TAG INDIA LIMITED
2525	U70102TG2013PTC090606	BSV INFRA PRIVATE LIMITED
2526	U45200AP2013PTC090614	VIJAYA LAKSHMI INFRA PROJECTS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2527	U01403TG2013PTC090618	SRI DURGA KISAN FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
2528	U01200TG2013PTC090619	SREE BRAMARI AGRO PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
2529	U85100TG2013PTC090623	FIONA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
2530	U45209TG2013PTC090627	GMW INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2531	U85191TG2013PTC090631	DWC GLOBAL PRIVATE LIMITED
2532	U70109AP2013PTC090632	SHRAHITH REAL ESTATE MARKETING PRIVATE LIMITED
2533	U74140TG2013PTC090638	INTEGRATED CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2534	U45209TG2013PTC090639	EXTREME INTERIOR & EXTERIOR SOLUTIONS PVT LTD
2535	U01403TG2013PTC090640	SCINTON AGRI GENETICS PRIVATE LIMITED
2536	U01403TG2013PTC090641	VINTAGE ORGANICS PRIVATE LIMITED
2537	U74300TG2013PTC090643	INSPACE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
2538	U72200TG2013PTC090644	SUKHADA SOFTECH PRIVATE LIMITED
2539	U72400AP2013PTC090645	TECHAWK IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2540	U92490TG2013PTC090646	AMPALA BROADCASTING PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2541	U51900TG2013PTC090651	HONEY NUT E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
2542	U72200TG2013PTC090658	RAYMARK INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2543	U14295AP2013PTC090661	NAVARATNA RESOURCES & ENTERPRISES PVT LTD
2544	U73100TG2013PTC090662	COHORT CLINICAL RESEARCH PRIVATE LIMITED
2545	U72200TG2013PTC090663	ARKENTS IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2546	U72200TG2013PTC090665	BINARYANTS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2547	U45209AP2013PTC090668	JESWAR INFRA PRIVATE LIMITED
2548	U01403TG2013PTC090672	GREEN INDIA GRANULES PRIVATE LIMITED
2549	U40105TG2013PTC090674	RENEN VIDHYUT PRIVATE LIMITED
2550	U40102TG2013PTC090676	RENEN OORJA PRIVATE LIMITED
2551	U40103TG2013PTC090680	GREEN VIDHYUT PRIVATE LIMITED
2552	U72200AP2013PTC090681	RK&P SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2553	U74120TG2013PTC090683	REDBAND CORPORATE CONSULTING PRIVATE LIMITED
2554	U72200AP2013PTC090686	BASECODE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2555	U51909TG2013PTC090691	SKYPX ELECTRONICS & GREEN ENGINEERS PVT LTD
2556	U72200TG2013PTC090692	NISSI WEBTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2557	U74992TG2013PTC090693	SPS HR CONSULTING PRIVATE LIMITED
2558	U45209TG2013PTC090698	AMK INFRACON INDIA PRIVATE LIMITED
2559	U34100TG2013PTC090700	R2 AUTOMOTIVES INDIA PRIVATE LIMITED
2560	U29248TG2013PTC090706	SNEHA RESOURCES PRIVATE LIMITED
2561	U72200TG2013PTC090707	MARUTI TECHNOSOFT INDIA PRIVATE LIMITED
2562	U45400TG2013PTC090709	SWARNA BHOOMI PROMOTERS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2563	U93000TG2013PTC090710	ABAL VISA & IMMIGRATION SOLUTIONS PVT LTD
2564	U72400AP2013PTC090711	INVION CORPORATE SOLUTIONS (I)PRIVATE LIMITED
2565	U74900TG2013PTC090712	KT CARS INDIA PRIVATE LIMITED
2566	U40104AP2013PTC090715	SOLAR TECHNOLOGY ENTERPRISE NETWORK PRIVATE LIMITED
2567	U72200TG2013PTC090718	MIND ON DEMAND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2568	U74900TG2013PTC090721	WIRED DOCUMENT PROCESSING PRIVATE LIMITED
2569	U40300AP2013PTC090725	AEGIS RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
2570	U72400TG2013PTC090727	PIXABYTE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2571	U72400TG2013PTC090728	DABBIGODLA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
2572	U74900TG2013PTC090731	HYDERABAD BRAND PROMOTIONS PRIVATE LIMITED
2573	U74900TG2013PTC090732	YARRAA ONLINE SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2574	U01400AP2013PLC090735	SRI ABHYETHI AGRO FARMS INDIA LIMITED
2575	U70102TG2013PLC090736	FUTURE SPACE LIMITED
2576	U15400TG2013PTC090737	SUBRE FOODS PRIVATE LIMITED
2577	U01119AP2013PTC090738	SWAYAMKRUSHI TRIBAL FARMER SERVICES PRODUCER COMPANY LIMITED
2578	U72200AP2013PTC090739	ANNEX INNOVATIVE ELECTRONIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2579	U74910TG2013PTC090740	LGS HR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2580	U74120TG2013PTC090747	SHINE CLEAN & COLD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2581	U18109AP2013PTC090748	JAYAM SPINNERS PRIVATE LIMITED
2582	U93000AP2013PTC090750	GRK HOMES PRIVATE LIMITED
2583	U65923TG2013PTC090756	SSVL CHITS PRIVATE LIMITED
2584	U65992AP2013PTC090759	GLORYGOLD CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
2585	U74140TG2013PTC090761	RSF EVENTS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
2586	U93020TG2013PTC090766	AK PROTECTION FORCE PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2587	U74900AP2013PTC090768	STARUNIVERSAL GLOBEMARKETING & SERVICES PVT LTD
2588	U72200TG2013PTC090769	MUVVA IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
2589	U74900TG2013PTC090771	RIGHT N WRITE SOLUTIONS AND SERVICES PVT LTD
2590	U01403TG2013PTC090773	VITTLES AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED
2591	U74900TG2013PTC090774	EMD EXPORT&IMPORT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2592	U72200TG2013PTC090776	ARTWHALES MEDIA PRIVATE LIMITED
2593	U74300TG2013FTC090778	AEG OGDEN (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
2594	U24248TG2013PTC090780	ALICE THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED
2595	U72200AP2013PTC090781	HFT NETWORK & SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2596	U63010TG2013PTC090782	MR ALLCABS INDIA PRIVATE LIMITED
2597	U72200AP2013PTC090786	GLOBATEC CONSULTING PRIVATE LIMITED
2598	U72200TG2013PTC090789	VMAC SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2599	U63012AP2013PTC090792	ISIS SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2600	U72200TG2013PTC090793	KMA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
2601	U74900AP2013PTC090795	ECO SOLAR MART PRIVATE LIMITED
2602	U15549AP2013PTC090799	CAMELSTOCK BEVERAGES PRIVATE LIMITED
2603	U45200AP2013PTC090801	ASHTALAKSHMI CONSTRUCTION MATERIALS PVT LTD
2604	U51909AP2013PTC090802	KANAKSREE ENTREPRENEURS PRIVATE LIMITED
2605	U74200TG2013PTC090808	VANDANA ENGICON INDIA PRIVATE LIMITED
2606	U74900TG2013PTC090809	VYUHA DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2607	U01403TG2013PTC090813	TAAYI FARMS PRIVATE LIMITED
2608	U72502TG2013PTC090817	CREOBEEES CORPORATION PRIVATE LIMITED
2609	U24233TG2013PTC090821	DAINTY LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2610	U14200TG2013PTC090826	SRIHARI RAO MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
2611	U51900AP2013PTC090830	GRAPHENEPRO BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2612	U72200TG2013PTC090833	ALIEN IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2613	U74900TG2013PTC090834	PRATHIK HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2614	U45209TG2013PTC090838	SAMSKRRUTAA INFRA PRIVATE LIMITED
2615	U74900AP2013PTC090839	NAV ANIMATIONS PRIVATE LIMITED
2616	U80211TG2013PTC090843	PRABHAS STUDYEEZ E-EDUCATION PRIVATE LIMITED
2617	U92412TG2013PTC090846	G V S SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2618	U63000AP2013PTC090847	GSN SHIPPING AND LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2619	U63040TG2013PTC090853	SIGMA CABS PRIVATE LIMITED
2620	U70100TG2013PTC090854	JOLLYHILLS INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED
2621	U72200TG2013PTC090867	INICEWAY INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
2622	U40106AP2013PTC090871	SRI SAI GANESH SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
2623	U72200TG2013PTC090881	SQUINGS MOBILE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2624	U40107TG2013PTC090882	SAZ ENERGIES PRIVATE LIMITED
2625	U72200TG2013FTC090884	ANAHATA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2626	U92130TG2013PTC090887	TAPATHI MEDIA PRIVATE LIMITED
2627	U72400TG2013PTC090894	SMART CYBER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2628	U65992TG2013PTC090896	AYAZ CHITFUND PRIVATE LIMITED
2629	U51109AP2013PTC090899	BSB BUSINESS CORPORATION PRIVATE LIMITED
2630	U74900AP2013PTC090901	RIGHT WAY CAPITAL PRIVATE LIMITED
2631	U51900AP2013PTC090903	PNP GLOBAL TRADE PRIVATE LIMITED
2632	U52605TG2013PTC090904	TEETARS RETAIL PRIVATE LIMITED
2633	U74900TG2013PTC090906	CAREER BEE CONSULTING PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2634	U01407TG2013PTC090910	VGROW RICH FARMS PRIVATE LIMITED
2635	U74900AP2013PTC090912	SWAN HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2636	U72400TG2013PTC090913	PAULSOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
2637	U51909TG2013PTC090916	LIVEASY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2638	U74120TG2013PTC090919	CUBELAB SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2639	U67190AP2013PTC090925	SSB AGENCIES PRIVATE LIMITED
2640	U01407AP2013PTC090926	TLN AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2641	U92100TG2013PTC090927	REAL CINEMAZ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2642	U74140TG2013PTC090928	PROPUS MANAGEMENT ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
2643	U01403TG2013PTC090935	VENNELA SEEDS PRIVATE LIMITED
2644	U15122AP2013PTC090942	SAI YOGYATHA FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
2645	U40108AP2013PTC090944	SOLTRONIX POWER PRIVATE LIMITED
2646	U22300TG2013PTC090946	ARTSHAstra MEDIA PRIVATE LIMITED
2647	U85110TG2013PTC090947	SUNLIFE HOSPITALS PRIVATE LIMITED
2648	U72400TG2013PTC090948	POINT INFOTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED
2649	U52190AP2013PTC090950	WINJAY TRADING PRIVATE LIMITED
2650	U55204TG2013PTC090953	ANVI RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
2651	U45200TG2013PLC090955	JANAMITHRAS ESTATES LIMITED
2652	U40108TG2013PTC090956	CHAKRIKA POWER PRIVATE LIMITED
2653	U40108AP2013PTC090961	ABHYUNNATI RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
2654	U70100AP2013PTC090964	KANISHKA AGRI FARMS INDIA PRIVATE LIMITED
2655	U63030AP2013PTC090967	SACHIN HOLIDAYS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2656	U45209TG2013PLC090971	HASPRO INFRA PROJECTS INDIA LIMITED
2657	U73200TG2013PTC090972	PRESTO TECHNO & RESEARCH SOLUTIONS PVT LTD
2658	U26960AP2013PTC090976	GREENTREE MICRO MINERALS EXIM PRIVATE LIMITED
2659	U74900TG2013PTC090977	SUNNY SOLAR ENERGIES PRIVATE LIMITED
2660	U74900TG2013PTC090979	RAMAKRISHNA YES MOBILES PRIVATE LIMITED
2661	U72200TG2013PTC090985	VEDICPRO IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2662	U70101TG2013PTC090986	ONSITE BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2663	U01407AP2013PTC090987	SR AUSHADI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2664	U72900TG2013PTC090989	SPEREON SOFTLABS PRIVATE LIMITED
2665	U40108AP2013PTC090991	PROXIIMA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
2666	U45209TG2013PTC090995	PGR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2667	U85191TG2013PTC091002	AYUR BODHI INDIA PRIVATE LIMITED
2668	U72400TG2013PTC091003	AXCEL ERP SOFTECH PRIVATE LIMITED
2669	U15490TG2013PTC091008	METRO REFINERIES (KRISHNAPATNAM) PRIVATE LIMITED
2670	U29253TG2013PTC091016	DYNOVIS ENERGY PRIVATE LIMITED
2671	U80301AP2013PTC091018	EDU CHOICE EDUCATIONAL SOLUTION PRIVATE LIMITED
2672	U74210AP2013PTC091020	MYKOMM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2673	U72400TG2013PTC091023	INTEGRITA IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2674	U72400TG2013PTC091025	IMBYOU INDIA PRIVATE LIMITED
2675	U72200AP2013PTC091029	AMMAJI INFORMATICS PRIVATE LIMITED
2676	U67100AP2013PTC091033	WIND INVESTMENT CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED
2677	U72200AP2013PTC091034	SMSV INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2678	U72900TG2013PTC091035	R K MEDIACHANNEL (TELANGANA) PRIVATE LIMITED
2679	U72200TG2013PTC091036	HUMMINGBIT IT INDIA PRIVATE LIMITED
2680	U74900TG2013PTC091037	HAVILAH CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2681	U85100TG2013PTC091041	PRAGMATIC MEDITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2682	U24232TG2013PLC091042	SUSHRUT PHARMA LIMITED
2683	U10100TG2013PTC091044	SKYSTONE COAL INDIA PRIVATE LIMITED
2684	U63090AP2013PTC091045	SPEEDCABS INDIA PRIVATE LIMITED
2685	U65992AP2013PTC091047	ASHWINIPRIYA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2686	U74900TG2013PTC091049	K 4 MEDIA PRIVATE LIMITED
2687	U01407AP2013PTC091050	SREE NISCHALA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2688	U72400TG2013PTC091053	SAMVRITAH INFO MEDIA PRIVATE LIMITED
2689	U74120TG2013PTC091059	GLOBAL INFY TAX AND BUSINESS SERVICES PVT LTD
2690	U45200AP2013PTC091061	VIJAYASRI BHASKAR INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2691	U72200TG2013PTC091062	GREENORBIT GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS PVT LTD
2692	U74900TG2013PTC091063	GC PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2693	U50102AP2013PTC091066	DAS AUTOMOBILE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2694	U85110TG2013PTC091070	NEELAKANTA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
2695	U21020TG2013PTC091071	MANASA PRINTERS AND PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
2696	U74910AP2013PTC091072	SURAG CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2697	U72200TG2013PTC091078	AI SQUARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2698	U25200TG2013PTC091082	SUVARNA DURGA POLY PACK PRIVATE LIMITED
2699	U18202TG2013PTC091085	MEGHA SPORTS WEAR INDIA PRIVATE LIMITED
2700	U74900TG2013PTC091088	SAMPATHKARI DIGITAL NETWORK PRIVATE LIMITED
2701	U01403TG2013PTC091090	VENKATADRI PALEM FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
2702	U74900TG2013PTC091092	HASINI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
2703	U01403TG2013PTC091095	SRI VENKATESHWARA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
2704	U55101AP2013PTC091097	SRI SAI SATYA LADIES HOSTEL PRIVATE LIMITED
2705	U40107AP2013PTC091098	S R K ECOENERGIES PRIVATE LIMITED
2706	U74140TG2013PTC091102	FRENSCO CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
2707	U51102TG2013PTC091106	A B SIDDHARTH TRADERS PRIVATE LIMITED
2708	U01403AP2013PTC091108	CHANAKYA TEJA DAIRY AND AGRO FARMS PVT LTD
2709	U22219TG2013PTC091109	SRI SAI DATTA ROTO GRAVURES PRIVATE LIMITED
2710	U29253TG2013PTC091111	NEERAV ENGINEERS & WORKS PRIVATE LIMITED
2711	U72200TG2013PTC091116	JASSPER IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2712	U45209TG2013PTC091119	MUEVAL INFRA PRIVATE LIMITED
2713	U72200TG2013PTC091121	MAHANTI IT SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2714	U80301TG2013PTC091122	PAATAM TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
2715	U85100TG2013PTC091124	NEW WAYS HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
2716	U29130TG2013PTC091128	EFTEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2717	U36101TG2013PTC091129	KALPAVRUSKHA ART CREATIONS PRIVATE LIMITED
2718	U93000TG2013PTC091132	SATYAPHANI ASTRO SERVICES PRIVATE LIMITED
2719	U02002TG2013PTC091140	SRI VEDA NATURAL REMEDIES PRIVATE LIMITED
2720	U72200TG2013PTC091143	SAGREE E - COMMERCE INDIA PRIVATE LIMITED
2721	U24119AP2013PTC091144	GREEN LIFE ORGANICS PRIVATE LIMITED
2722	U13209TG2013PTC091146	KALPATARU MINING PRIVATE LIMITED
2723	U64110TG2013PTC091155	FIBER FAST TELECOM PRIVATE LIMITED
2724	U52300TG2013PTC091160	CARRIGAN TRADE PRIVATE LIMITED
2725	U72200TG2013PTC091162	TOTAL PERFORMANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2726	U74900TG2013PTC091167	BRUHATHI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2727	U74999TG2013PTC091168	INDIA FOR DIAL INFO SERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2728	U74900AP2013PTC091171	GO APT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2729	U72200TG2013PTC091172	OPTIMUS TECHNOCOM (INDIA) PRIVATE LIMITED
2730	U51101AP2013PTC091173	SREE VAISHNAVI IMPEX PRIVATE LIMITED
2731	U22222TG2013PTC091174	TROPHY MEDIA PRIVATE LIMITED
2732	U72200TG2013PTC091176	SAPIENTFUSION SOFTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2733	U01403TG2013PTC091177	OM SAI FARMS AND RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
2734	U74140TG2013PTC091179	PINEAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2735	U72200TG2013PTC091182	TEEGA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2736	U15122AP2013PTC091187	SRI JAYALAKSHMI NARAYANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2737	U72200TG2013PTC091188	MOBIVAS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2738	U72200TG2013FTC091189	IYVIS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2739	U74900TG2013PTC091196	YOUNG CHAPS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2740	U74900TG2013PTC091197	SUNEV JEWELS AND GEMS PRIVATE LIMITED
2741	U45209TG2013PTC091198	GEETHIKA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2742	U80301TG2013PTC091205	NEMI INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION PRIVATE LIMITED
2743	U72200TG2013PTC091212	AMK INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
2744	U52100TG2013PTC091218	DUTTALURI MEDICAL PRIVATE LIMITED
2745	U74900TG2013PTC091219	LOREAN INEX PRIVATE LIMITED
2746	U80221TG2013PTC091221	GENIUS GYM PRIVATE LIMITED
2747	U50403TG2013PTC091230	MR BOOK YOUR VEHICLE SERVICE PRIVATE LIMITED
2748	U74900TG2013PTC091231	ORATOR MEDIA PRIVATE LIMITED
2749	U72200TG2013PTC091232	QIKON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2750	U55101TG2013PTC091238	SVR MAYABAZAR RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
2751	U72200TG2013PTC091242	CODEBOOK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2752	U72200TG2013PTC091243	TECSOL MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
2753	U72400TG2013PTC091247	SMARTGEEK INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2754	U72200TG2013PTC091250	MITEL NETWORKS PRIVATE LIMITED
2755	U36101TG2013PTC091255	MAXAGE INTERIO PRIVATE LIMITED
2756	U72200TG2013PTC091256	SPS TECHWIZARDS PRIVATE LIMITED
2757	U74990AP2013PTC091257	AKSHAYA INVESTOR EDUCATION SERVICES PVT LTD
2758	U74900TG2013PTC091261	HORIZON BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2759	U24232TG2013PTC091263	SHAMAZ PHARMACY PRIVATE LIMITED
2760	U40106TG2013PTC091264	OJAI ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2761	U22219AP2013PTC091268	VISAKHA BROADCASTING PRIVATE LIMITED
2762	U72200TG2013PTC091269	ACPM IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2763	U24232TG2013PTC091274	GLIBERT PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2764	U74900TG2013PTC091278	APNICHAI CAFE (I) PRIVATE LIMITED
2765	U74900TG2013PTC091279	SIGMA ELECTROMECHANICAL WORKS PRIVATE LIMITED
2766	U72200TG2013PTC091283	RENAUD SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
2767	U51103TG2013PTC091285	NORTH STAR IRON PRIVATE LIMITED
2768	U45200AP2013PLC091287	HOMELANDS INDIA LIMITED
2769	U72500TG2013PTC091288	PADRONE ELEGANT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2770	U45209AP2013PTC091291	ARAZ INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2771	U70101TG2013PTC091296	GAYATHRI SAI KIRAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2772	U72200TG2013PTC091299	M3 LOGICS PRIVATE LIMITED
2773	U72200AP2013PTC091300	SRI DEVADATTA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2774	U50102TG2013PTC091302	ZENITH INDUSTRIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2775	U40300AP2013PTC091306	POWERTRIX ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2776	U63090AP2013PTC091308	MANIKANTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2777	U40300TG2013PTC091309	M CUBE INDUSTRIAL GASES PRIVATE LIMITED
2778	U52100TG2013PTC091311	AVR MEDI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2779	U37100TG2013PTC091315	TRIAD METALLURGICALS PRIVATE LIMITED
2780	U24232TG2013PTC091316	ABHINAV FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
2781	U67190TG2013PTC091318	SSVM CAPITAL LINKS PRIVATE LIMITED
2782	U51909AP2013PTC091321	GO GREEN SHIPPING PRIVATE LIMITED
2783	U74999AP2013PTC091322	1000 OAKS PRIVATE LIMITED
2784	U70100TG2013PTC091323	SRI ABISHA AVENUES PRIVATE LIMITED
2785	U74140TG2013PTC091325	ORION POLARIS MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2786	U74900TG2013PTC091329	PRATHIDI MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2787	U74900TG2013PTC091332	BROWSE NEED PRIVATE LIMITED
2788	U80212TG2013PTC091333	KEYLABS TRAINING PRIVATE LIMITED
2789	U45209AP2013PTC091336	VASUNDARA GLOBAL INFRA INDIA PRIVATE LIMITED
2790	U92412TG2013PTC091343	READYCUE INFRAMEDIA PRIVATE LIMITED
2791	U72200TG2013PTC091347	QUIRK SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2792	U63040TG2013PTC091357	SREENNVAWS CAB SERVICES PRIVATE LIMITED
2793	U01403TG2013PTC091359	M CUBE AGRICULTURAL AND FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
2794	U93030TG2013PTC091361	CAPACITATE CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
2795	U74900TG2013PTC091364	AAPTI TECHNO SOFT PRIVATE LIMITED
2796	U70101TG2013PTC091367	AKANSHA GREEN FIELDS PRIVATE LIMITED
2797	U74900TG2013PTC091373	NEPLUSULTRA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2798	U92100TG2013PTC091374	GOLDSTAR CINE STUDIOS PRIVATE LIMITED
2799	U74140TG2013PTC091375	SIERRA AVIATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2800	U72200TG2013PTC091378	I.H.I SECURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2801	U40108TG2013PTC091384	SAANIL POWER PRIVATE LIMITED
2802	U24232AP2013PTC091386	HINSBERG LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2803	U74900AP2013PTC091391	NAAVIKARANA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2804	U72200TG2013PTC091392	VATAPATRA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2805	U71290TG2013PTC091393	ABOUTIR EXIM SERVICES PRIVATE LIMITED
2806	U72200TG2013PTC091394	CASR INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2807	U72200TG2013PTC091395	EMIRIAN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2808	U45203TG2013PTC091396	3S VENTURES PRIVATE LIMITED
2809	U01400TG2013PTC091397	ENRICH AGRISCIENCES PRIVATE LIMITED
2810	U10200TG2013PTC091398	SREE CHAKRA IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
2811	U72200TG2013PTC091400	SWIVEL TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2812	U72900TG2013PTC091402	TECH-HUNT IT INNOVATION PRIVATE LIMITED
2813	U01407TG2013PTC091408	BASAVAPURAM FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
2814	U01400TG2013PTC091409	PARANJYOTHI AGRO TECH PRIVATE LIMITED
2815	U70109AP2013PTC091411	PARTHA PROJECTS PRIVATE LIMITED
2816	U51102TG2013PTC091425	HARSHITH SUBMERSIBLE PUMPS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2817	U74910TG2013PTC091426	BILWA FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2818	U85110TG2013PTC091428	RUDRAGANI RAMULU MEMORIAL SAHASRA CARE HOSPITALS PRIVATE LIMITED
2819	U65992TG2013PTC091429	VANAMMA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2820	U65992TG2013PTC091433	THAPASWINI CHIT FUND PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2821	U01407TG2013PTC091437	PRAKRUTHIK AGRIFOODS ERA PRIVATE LIMITED
2822	U74900AP2013PTC091442	CITYURB INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
2823	U80900TG2013PTC091445	ACADEMY OF POSITIVE LIFE SKILLS PRIVATE LIMITED
2824	U45200TG2013PTC091448	VAZRAM CORPORATION PRIVATE LIMITED
2825	U74930TG2013PTC091451	EXEY MANPOWER SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
2826	U45209TG2013PTC091453	METICULOUS ACCESSTECH INFRA SOLUTIONS PVT LTD
2827	U74900TG2013PTC091454	MAHI CONSULTANCY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
2828	U72200TG2013PTC091455	QUONTRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2829	U92100TG2013PTC091456	ME EVENTS & MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2830	U63000TG2013PTC091458	GEOROUTE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2831	U80902TG2013PTC091463	BRANTFORD EDUCATION AND CAREER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2832	U52100TG2013PTC091465	YASHASRI EXIM PRIVATE LIMITED
2833	U52100TG2013PTC091466	SHADOW RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
2834	U74900TG2013PTC091467	SEVEN STARS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2835	U80900TG2013PTC091468	CLAPS WIKIDS EDUCATION PRIVATE LIMITED
2836	U74900TG2013PTC091470	CALCIUM COATINGS & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2837	U45200TG2013PTC091471	STABLE AVENUES AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
2838	U72200TG2013PTC091472	HANOVERIAN SOFTWARE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2839	U63040TG2013PTC091482	7 CABS PRIVATE LIMITED
2840	U74900TG2013PTC091483	SSRM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2841	U72100AP2013PTC091488	INFEGENTEC SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2842	U72900TG2013PTC091494	BRILLIANCE TECHSOLS PRIVATE LIMITED
2843	U72900TG2013PTC091499	KAMALAM ELECTRONICS & INFOSOLUTIONS PVT LTD
2844	U33110TG2013PTC091506	SARTHA SCIENTIFIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2845	U70100TG2013PTC091510	VADDIRAJ INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2846	U51101TG2013PTC091515	VYBRA TRADEX PRIVATE LIMITED
2847	U74900TG2013PTC091518	JR TRADEX INDIA PRIVATE LIMITED
2848	U72900AP2013PTC091523	DSOFT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2849	U32204AP2013PTC091524	SIVA SAMBHAVI DIGITAL ENTERPRISES PVT LTD
2850	U72200TG2013PTC091529	INSTARISE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2851	U60232TG2013PTC091533	VEMU CARRIERS PRIVATE LIMITED
2852	U80301TG2013PTC091538	VEMOLINES EDUCATION PRIVATE LIMITED
2853	U72200TG2013PTC091540	ELECTRONIC SOLUTIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
2854	U01407TG2013PTC091543	ASTMN AGROS PRIVATE LIMITED
2855	U80900TG2013PTC091549	SRIMEDHA ACADEMY PRIVATE LIMITED
2856	U52399TG2013PTC091551	HSK ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2857	U72200TG2013PTC091554	BRIHAS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2858	U45209TG2013PTC091556	JYOTHI ENGINEERING & CONSTRUCTIONS PVT LTD
2859	U74900TG2013PTC091558	TIPS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
2860	U45209TG2013PTC091559	RAO'S INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
2861	U45200TG2013PTC091573	KAMADHENU AVENUES PRIVATE LIMITED
2862	U72900TG2013PTC091574	GEOICON ONLINE VENTURES PRIVATE LIMITED
2863	U45200TG2013PTC091575	SKSPACE CONSTRUCTS PRIVATE LIMITED
2864	U72200TG2013PTC091577	BOSS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2865	U27100AP2013PTC091581	VIRGIN STEELS INDIA PRIVATE LIMITED
2866	U45200TG2013PTC091583	BHARATHI AVENUES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2867	U74900TG2013PTC091589	SHOPINRAIL.COM SERVICES PRIVATE LIMITED
2868	U70101TG2013PTC091590	REDDY REALTORS PRIVATE LIMITED
2869	U52100TG2013PTC091594	SAS RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED
2870	U74999TG2013PTC091595	IDS VENTURES PRIVATE LIMITED
2871	U70109TG2013PTC091596	VIJAY CHANDER REALITIES PRIVATE LIMITED
2872	U55101TG2013PTC091597	ORANGE HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
2873	U72200TG2013PTC091599	IVON NETWORKING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2874	U74900TG2013PTC091601	CHRYSLIS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
2875	U29253TG2013PTC091607	GODAVARI PRECISION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2876	U72200TG2013PTC091611	LUCAS INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2877	U72900TG2013PTC091612	SEQUEL WEBTECH PRIVATE LIMITED
2878	U72100TG2013PTC091617	C3 WEB PRIVATE LIMITED
2879	U72400TG2013PTC091619	OPTICON INDIA INFRA PRIVATE LIMITED
2880	U72300TG2013PTC091621	CONCH INFOTECH PRIVATE LIMITED
2881	U55101AP2013PTC091623	NAVRAS MULTI CUISINE CAFE PRIVATE LIMITED
2882	U72400TG2013PTC091628	BMARS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2883	U14200AP2013PTC091629	FAYAZ-HI-TECH MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2884	U93000TG2013PTC091630	INDIRANATH ERP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2885	U74900TG2013PTC091631	ORIGINAL EVENT LINE PRIVATE LIMITED
2886	U72200TG2013PTC091638	ATHREYASA SOFTWARE CONSULTANCY SYSTEMS PVT LTD
2887	U29268TG2013PTC091639	ETIKALA MADIPELLI ENGINEERING AND MANUFACTURING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2888	U52100TG2013PTC091645	SUFFAH GOLD AND DIAMOND JEWELLERS PVT LTD
2889	U74900TG2013PTC091650	DIGIQUEST POWER CONVERSION PRIVATE LIMITED
2890	U40102TG2013PTC091653	SONTI GAS (LPG) PRIVATE LIMITED
2891	U72200TG2013PTC091655	KOUNDINYA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
2892	U40106TG2013PTC091658	GRISHMA SOLAR TECH PRIVATE LIMITED
2893	U01400TG2013PTC091659	ORANGE FEEDS PRIVATE LIMITED
2894	U01403TG2013PTC091660	SRIGDHA AGRO FARM (INDIA) PRIVATE LIMITED
2895	U74900TG2013PTC091661	SRI SNEHA CARS PRIVATE LIMITED
2896	U65992TG2013PLC091662	CONSISTENT SUCCESSFUL CAPITAL LIMITED
2897	U72200TG2013PTC091663	NAYAGARA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2898	U72200TG2013PTC091664	FINNAVATE IT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2899	U15122TG2013PTC091668	SATHISH FLUIDITY PRIVATE LIMITED
2900	U74900TG2013PTC091669	SIFZZ VISION SECURITY PRIVATE LIMITED
2901	U24100TG2013PTC091671	MENSCHSTAR PHARMACEUTICAL (I) PRIVATE LIMITED
2902	U13209TG2013PTC091672	AMIGO'S ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2903	U72100TG2013PTC091673	MEDIA COOKIES INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2904	U74900TG2013PTC091674	ACTIVE I CONTROLS (INDIA)PRIVATE LIMITED
2905	U72200TG2013PTC091677	KMP IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2906	U22210TG2013PTC091678	SAI LIKHITA PRINTERS PRIVATE LIMITED
2907	U72200TG2013PTC091679	EZYA INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS PVT LTD
2908	U72300TG2013PTC091681	VERITIX GLOBAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2909	U74900TG2013PTC091684	IDOLIZE MANAGEMENT & HR SOLUTIONS PVT LTD
2910	U26960TG2013PTC091688	H.I.S ALLOYS PRIVATE LIMITED
2911	U45209TG2013PTC091690	ENTRIX INFRA (INDIA) PRIVATE LIMITED
2912	U01403TG2013PTC091692	VALUE MARKS TRADERS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2913	U72200TG2013PTC091693	SILVERCLOUD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2914	U74900AP2013PTC091696	BLUE EYE SOFT PRIVATE LIMITED
2915	U14200TG2013PTC091700	BANJARA MINES AND ORES PRIVATE LIMITED
2916	U74900TG2013PTC091705	AMEYA MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2917	U74991AP2013PTC091706	SHIRDI SAI DIGITAL NETWORK PRIVATE LIMITED
2918	U45200TG2013PTC091708	GRL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2919	U63090TG2013PTC091711	UPANNA PACKAGE TOURS PRIVATE LIMITED
2920	U72300TG2013PTC091714	AVANCE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
2921	U55101TG2013PTC091716	VAMSY'S CATERING PRIVATE LIMITED
2922	U72900AP2013PTC091720	TAVASSYSTEMS IT INDIA PRIVATE LIMITED
2923	U36941TG2013PTC091730	SIM2HOME SERVICES PRIVATE LIMITED
2924	U72300TG2013PTC091735	ABU AYESHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2925	U72200TG2013PTC091738	MECHLOGIC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2926	U72200TG2013PTC091739	SHAFAR SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2927	U72200AP2013PTC091741	PAVANI SOFT PRIVATE LIMITED
2928	U72300TG2013PTC091743	PEOPLEAXIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2929	U72200TG2013PTC091744	APNA IT SOFT SOL PRIVATE LIMITED
2930	U74900TG2013PTC091746	BLUESTOUCH HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2931	U72300TG2013PTC091747	JAHANA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2932	U22222TG2013PTC091748	SAKETH TELEFILMS PRIVATE LIMITED
2933	U72200TG2013PTC091752	MINDTRIX TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2934	U80900TG2013PTC091755	PREPHUB EDUCATION PRIVATE LIMITED
2935	U72200TG2013PTC091757	GURUS GLOBAL TECHNOSYS INDIA PRIVATE LIMITED
2936	U05000AP2013PTC091759	P R K RAJU AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
2937	U29307TG2013PTC091761	I-CLASS SOLAR ENERGY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2938	U40102AP2013PTC091770	TIRUMALA ECO ENERGY PRIVATE LIMITED
2939	U72200AP2013PTC091771	YUP SOFT LABS PRIVATE LIMITED
2940	U72200TG2013PTC091772	SANGHAMITRA IT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2941	U45200TG2013PTC091774	JJS FACADE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2942	U74900TG2013PTC091775	TRI-MAX NETWORKS PRIVATE LIMITED
2943	U72200TG2013PTC091776	7 SIERRA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2944	U70100TG2013PTC091787	S.D.ASSOCIATES INFRA AVENUES PRIVATE LIMITED
2945	U72200TG2013PTC091789	KOTRA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2946	U55101AP2013PTC091790	SRI LAKSHMI SRINIVASA HOTELS PRIVATE LIMITED
2947	U14200TG2013PTC091792	SILICATE RESOURCES PRIVATE LIMITED
2948	U74900TG2013PTC091795	AYAKA MEDIA CREATIONS PRIVATE LIMITED
2949	U74900TG2013PTC091796	WESTCLIFF INFO SERV PRIVATE LIMITED
2950	U22222TG2013PTC091797	IHIKA MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2951	U52335TG2013PTC091798	SP ECO SOLAR PROJECTS PRIVATE LIMITED
2952	U74900TG2013PTC091800	BHANOJI FILM CITY PRIVATE LIMITED
2953	U74900TG2013PTC091801	FOTO SAINTS PRIVATE LIMITED
2954	U93000TG2013PTC091804	COUP MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2955	U50102TG2013PTC091807	RAP ECO MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED
2956	U45209TG2013PTC091809	VYBRA INFRACON PRIVATE LIMITED
2957	U45206TG2013PTC091811	EBRAR & MANNAN INFRA INDIA PRIVATE LIMITED
2958	U51909TG2013PTC091812	SERAPHIC FOODS PRIVATE LIMITED
2959	U31109TG2013PTC091813	SUN SOLARPARK PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
2960	U45200TG2013PTC091817	ASCENT ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2961	U01400TG2013PTC091819	SARADA BIOTECH INDIA PRIVATE LIMITED
2962	U74900TG2013PTC091822	VSA IT HR CONSULTING PRIVATE LIMITED
2963	U72200TG2013PTC091823	GEODEFINERS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2964	U74900TG2013PTC091829	EMEME DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2965	U74140TG2013PTC091831	FOGO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
2966	U93000TG2013PTC091832	MANFORCE GUARDING PRIVATE LIMITED
2967	U45200TG2013PTC091833	CYBER CITY CONSTRUCTIONS COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2968	U01211TG2013PTC091834	CRUSTACIAN BIOTECH PRIVATE LIMITED
2969	U85100AP2013PTC091839	ASHTALAKSHMI HOSPITAL PRIVATE LIMITED
2970	U01400TG2013PTC091842	K V N AGRI GOLD PRIVATE LIMITED
2971	U72200TG2013PTC091846	STUDIO GOD PRIVATE LIMITED
2972	U01100TG2013PTC091849	SRI LAXMI NARASIMHA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
2973	U74120TG2013PTC091850	GM PICTURE WORKS PRIVATE LIMITED
2974	U01403TG2013PTC091853	R G R FARMGATE AGRO-FOODS PRIVATE LIMITED
2975	U72900TG2013PTC091854	VAAGDEV TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
2976	U80900AP2013PTC091855	ASHTALAKSHMI SCHOOL PRIVATE LIMITED
2977	U52390AP2013PTC091856	ASHTALAKSHMI CEMENT PRIVATE LIMITED
2978	U52390AP2013PTC091857	ASHTALAKSHMI GOLD PRIVATE LIMITED
2979	U52390AP2013PTC091858	ASHTALAKSHMI JEWELRY PRIVATE LIMITED
2980	U51101TG2013PTC091860	HEALTHY HOOVES INDIA PRIVATE LIMITED
2981	U51900TG2013PTC091862	SRI DHITYA MARKETING PRIVATE LIMITED
2982	U31908TG2013PTC091871	UNIVERSAL MEGA SOLAR PRIVATE LIMITED
2983	U93000AP2013PTC091874	VISAKHA IT PARK PRIVATE LIMITED
2984	U72200TG2013PTC091875	DAKS TECHNO PRIVATE LIMITED
2985	U93000TG2013PTC091876	FRESH HUNT CONSULTING PRIVATE LIMITED
2986	U72200TG2013PTC091878	GRACE SATYA MARG IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2987	U72900AP2013PTC091882	METAQUEUE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2988	U74900TG2013PTC091883	CATALYZER STARTUP ADVISORS PRIVATE LIMITED
2989	U80902TG2013PTC091887	PIE SCIENCE LABS PRIVATE LIMITED
2990	U90000TG2013PTC091892	ENVIROTECH WATER MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2991	U36999TG2013PTC091893	SPEEDPACK PACKAGING MACHINES PRIVATE LIMITED
2992	U20294TG2013PTC091895	KARUNYA TIMBERS PRIVATE LIMITED
2993	U51103TG2013PTC091896	PARAMOUNT FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
2994	U72200TG2013PTC091897	RETINUE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2995	U74900AP2013PTC091898	KAAROLEK IT SERVICES INDIA PRIVATE
2996	U72200TG2013PTC091902	EVER TASK TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2997	U14200AP2013PTC091903	GULZAR HI-TECH MINES AND MINERALS PVT LTD
2998	U74900TG2013PTC091905	ARCADE GAMES PRIVATE LIMITED
2999	U31902TG2013PTC091906	VARASIDDI VINAYAKA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
3000	U55101TG2013PTC091909	MANOJANA RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
3001	U51909TG2013PTC091911	ASOT BRANDS PRIVATE LIMITED
3002	U40108AP2013PTC091915	SURYA PRAKASH SOLAR GOLD POWER PRIVATE LIMITED
3003	U52322AP2013PTC091917	ASHTALAKSHMI SILK PRIVATE LIMITED
3004	U92100TG2013PTC091920	ANIL BHANU CORE DESIGN PRIVATE LIMITED
3005	U40102TG2013PTC091923	OPTIMUS VENTURES PRIVATE LIMITED
3006	U22219TG2013PTC091925	SRAVYA PRINTERS & PUBLISHERS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3007	U62200AP2013PTC091926	PREVI AVIATION PRIVATE LIMITED
3008	U72200TG2013PTC091927	LEGACY GAMING PRIVATE LIMITED
3009	U74900TG2013PTC091929	JHT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3010	U52390AP2013PTC091937	ASHTALAKSHMI LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
3011	U24100TG2013PTC091939	NAGA LAKSHMI CHANDRA SEKHAR BIO TECH PRIVATE LIMITED
3012	U26950TG2013PTC091943	GNR AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3013	U72200TG2013PTC091950	MIGRATE INFONET PRIVATE LIMITED
3014	U65922TG2013PTC091952	ELLURI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
3015	U72200TG2013PTC091953	INDROK E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3016	U72501TG2013PTC091954	YOGAGNA INFO SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3017	U85100TG2013PTC091961	ORKOS HEALTH RECORDS PRIVATE LIMITED
3018	U72200AP2013PTC091962	GREY HOODS TECHNOLOGIES AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
3019	U15400TG2013PTC091969	A N FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3020	U31900TG2013PTC091970	BRIHAT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3021	U01400TG2013PTC091973	VIJAYA MAHALAKSHMI AGROFARMS PRIVATE LIMITED
3022	U74140TG2013PTC091974	NANDA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
3023	U74140TG2013PTC091975	BOLLYWOOD FASHIONS PRIVATE LIMITED
3024	U31401TG2013PTC091977	SS DAYLIGHT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3025	U72200TG2013PTC091982	MIRIAM BROAD BAND SERVICES PRIVATE LIMITED
3026	U74120TG2013PTC091987	VENKATARAMANA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3027	U64201AP2013PTC091992	ICONNECT CELLULAR PRIVATE LIMITED
3028	U01407AP2013PTC091997	TALLUR FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
3029	U80210TG2013PTC091998	VAZMAN EDU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3030	U45400TG2013PTC091999	SILVER STREAK AVENUE PRIVATE LIMITED
3031	U80904TG2013PTC092000	SRIVEN INDUSTRIAL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
3032	U72200TG2013PTC092002	SIVERSE SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3033	U65992TG2013PTC092003	SAVITHA CHITS INDIA PRIVATE LIMITED
3034	U74900TG2013PTC092005	NIMBLE TECHNOCRAT E-SERVICES PRIVATE LIMITED
3035	U70100TG2013PTC092011	MEENAKSHISUNITHA INFRA DEVELOPERS PVT LTD
3036	U45200TG2013PTC092012	BAHUPADA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3037	U14200TG2013PTC092019	JS ROCHES PRIVATE LIMITED
3038	U72200TG2013PTC092020	KRONCH IT RESOURCES PRIVATE LIMITED
3039	U74900TG2013PTC092029	JOVY CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
3040	U80904TG2013PTC092031	SPRINJE CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
3041	U72200TG2013PTC092032	SAI SSR VEDIC SOFTWARE TECHNOLOGIES PVT LTD
3042	U72200TG2013PTC092034	JAAZ MARKETING & INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3043	U24100TG2013PTC092037	SILVERBACK RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED
3044	U72200TG2013PTC092039	UPANISHAD SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
3045	U74900TG2013PTC092040	DEVA FILM DISTRIBUTIONS PRIVATE LIMITED
3046	U72200TG2013PTC092042	SHINEY IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3047	U45400TG2013PTC092047	POTLI INFRA AND MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3048	U73200TG2013PTC092048	HK INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
3049	U45209AP2013PTC092050	SS RAJU TECHNO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3050	U74900TG2013PTC092057	SREE GURU DURGA FOODS PRIVATE LIMITED
3051	U17291TG2014PTC092061	WASHINGTON INTEGRATED TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3052	U45400AP2014PTC092063	SAHAJA ECO GREEN PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3053	U70100TG2014PTC092064	RIZERS DEVELOPERS AND MARKETERS PRIVATE LIMITED
3054	U72200TG2014PTC092071	MICROSHELL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3055	U72200TG2014PTC092072	BHOOMIKA RECON SERVICES PRIVATE LIMITED
3056	U74900TG2014PTC092074	FALCAM CONSULTING PRIVATE LIMITED
3057	U72200TG2014PTC092075	RM NETWORKS PRIVATE LIMITED
3058	U52300TG2014PTC092078	DIGI SMARTSEC AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
3059	U45200TG2014PTC092079	SREE SETHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3060	U80302TG2014PTC092081	JB'S CLOUD TECHNO-LEARNING PRIVATE LIMITED
3061	U24100TG2014PTC092082	AMERO LABS PRIVATE LIMITED
3062	U01400TG2014PTC092083	SRI SITA RAMANJANEYA AGROTECH PRIVATE LIMITED
3063	U14200AP2014PTC092086	HANVI GRANITES PRIVATE LIMITED
3064	U52390AP2014PTC092088	ASHTALAKSHMI STEEL PRIVATE LIMITED
3065	U22130TG2014PTC092090	VERA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3066	U74900AP2014PTC092091	ANSRO FRESH FOODS PRIVATE LIMITED
3067	U63090TG2014PTC092093	VENSAR HOLIDAYS INDIA PRIVATE LIMITED
3068	U72200AP2014PTC092099	DRATI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3069	U72200TG2014PTC092100	PAWAN BUSINESS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3070	U40108AP2014PTC092101	SOURYA ENGINEERING & INFRA PRIVATE LIMITED
3071	U21098TG2014PTC092104	TGK MEDIA & BROADCASTING PRIVATE LIMITED
3072	U65992TG2014PTC092105	POTLI CHIT FUNDS INDIA PRIVATE LIMITED
3073	U72300TG2014PTC092108	BUTTERFLY CREATIVE ARTS PRIVATE LIMITED
3074	U74920TG2014PTC092110	VC FLAMOFF INDIA PRIVATE LIMITED
3075	U85100AP2014PTC092113	BRHAS HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3076	U74900TG2014PTC092117	PLANET DIGITAL MARKETING IT SOLUTIONS PVT LTD
3077	U74900TG2014PTC092118	XEDATA SERVICES PRIVATE LIMITED
3078	U92120TG2014PTC092122	GM VFX PRIVATE LIMITED
3079	U72200TG2014PTC092124	MATTER INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3080	U45209TG2014PTC092125	BRN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
3081	U28133AP2014PTC092129	MJ TMT BARS PRIVATE LIMITED
3082	U51909TG2014PTC092131	GAURANGA VICTORY FLAG MERCANTILE PRIVATE LIMITED
3083	U92120TG2014PTC092138	VICI EVENT & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3084	U72300TG2014PTC092139	AGASTYA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3085	U74900TG2014PTC092140	AURATECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3086	U72200TG2014PTC092141	GO-GETTER BUSINESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3087	U45200TG2014PTC092144	KMR BUILDTECH PRIVATE LIMITED
3088	U72900TG2014PTC092148	ALNI INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3089	U93000TG2014PTC092149	LABBAIK MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3090	U90001AP2014PTC092152	VIGILANT SECURITY & ALLIED SERVICES PVT LTD
3091	U74900TG2014PTC092153	IHRAM TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
3092	U51101AP2014PTC092154	7PAGES ADVERTISING PRIVATE LIMITED
3093	U24100TG2014PTC092156	LAKSHMIBALAJI ENERGY INFRA SERVICES PVT LTD
3094	U74900TG2014PTC092160	EARTHCRUX TRADERS PRIVATE LIMITED
3095	U24296AP2014PTC092161	SANKYOEN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3096	U74900AP2014PTC092162	SATYAVATHI OFFSHORE MARITIME SERVICES PVT LTD
3097	U74990TG2014PTC092170	SUNLAMP SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3098	U36912TG2014PTC092173	VAISHNAVI COMPOSITES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3099	U74120TG2014PTC092175	PRAYUKTI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3100	U01407TG2014PTC092178	SANVITHA AGRI BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3101	U74120TG2014PTC092179	ALCOVE INDIA OUTSOURCE PRIVATE LIMITED
3102	U40106TG2014PTC092180	KEMP GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
3103	U72200AP2014PTC092181	SONASOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3104	U74900TG2014PTC092182	SRIKRUTHI FASHIONS PRIVATE LIMITED
3105	U01400AP2014PTC092185	SREE NYASA AGRO TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3106	U72200TG2014PTC092187	CIYONTEK SERVICES PRIVATE LIMITED
3107	U74900TG2014PTC092194	TABUK PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
3108	U24232TG2014PTC092195	SERENE ORGANICS PRIVATE LIMITED
3109	U24100TG2014PTC092199	SAI DHARANI SHAKAMBARI MARKETING PRIVATE LIMITED
3110	U72300TG2014PTC092203	BRIOSYNERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3111	U72900TG2014PTC092204	AISHWARYA SAI DATTA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3112	U51102TG2014PTC092205	MAMTA MINERALS PRIVATE LIMITED
3113	U72900TG2014PTC092211	WENDYN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3114	U72900AP2014PTC092215	BILLIONMACROS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3115	U72200TG2014PTC092219	SURAJ SMART 3D DESIGNERS & CONSULTANTS PVT LTD
3116	U72300TG2014PTC092221	BLINK RIDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3117	U72300TG2014PTC092224	MAR WEB DEZINE PRIVATE LIMITED
3118	U72300TG2014PTC092227	BENISON BOLT IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3119	U17120AP2014PTC092229	NESTHAM GINNING AND SPINNING MILLS PVT LTD
3120	U22222TG2014PTC092230	CK MEDIA EVENTS & ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
3121	U74120TG2014PTC092231	CKU COMMERCIAL INDIA PRIVATE LIMITED
3122	U22222TG2014PTC092232	SRI RAJA RAJESWARI MOVIE MAKERS PRIVATE LIMITED
3123	U72300TG2014PTC092233	TECHAPPY SOFTSOL PRIVATE LIMITED
3124	U45206TG2014PTC092236	VJR INFRATECH PROJECTS PRIVATE LIMITED
3125	U40106AP2014PTC092239	SARTHAM SOLAR INFRA PRIVATE LIMITED
3126	U72300TG2014PTC092243	IVA CONSULTANCY AND SOFTWARE SOLUTIONS PVT LTD
3127	U67100TG2014PTC092244	SVSC WEALTH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
3128	U24100TG2014PTC092245	SUDHIKSHA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
3129	U45209TG2014PTC092247	SATHAVAHANA INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED
3130	U45200TG2014PTC092250	SHREE RESHMA INFRA PRIVATE LIMITED
3131	U24232TG2014PTC092252	INNOCARE HEALTH PRIVATE LIMITED
3132	U93090TG2014PTC092254	APEIRON TALENT PRIVATE LIMITED
3133	U01400TG2014PTC092256	SRI LAKSHMI VIGNESWARA AGRO FARMS PVT LTD
3134	U45400TG2014PTC092258	EDUPUGANTI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3135	U72200TG2014PTC092262	EDUINDIA INTERACTIVE TECHNOLOGIES PVT LTD
3136	U36912TG2014PTC092265	ADIBATLA PRECISION ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3137	U40107TG2014PTC092266	BANJARA BIOGAS PRIVATE LIMITED
3138	U72400TG2014PTC092267	SMASH WEB MEDIA PRIVATE LIMITED
3139	U72200TG2014PTC092269	DAILYLIFE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3140	U45209TG2014PTC092276	AVB CORPORATION PRIVATE LIMITED
3141	U45200TG2014PTC092277	NYS VILLAS PRIVATE LIMITED
3142	U32200TG2014PTC092278	ROBOTICS INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3143	U70100TG2014PTC092280	BUILDING ESTATES PRIVATE LIMITED
3144	U74992TG2014PTC092284	VR INSURANCE BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
3145	U15122AP2014PTC092287	GLOCAL PRODUCTS & PACKING SERVICES PVT LTD

S.No.	CIN	Company Name
3146	U74900AP2014PTC092288	KAMIT IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
3147	U74120TG2014PTC092290	PROGRESS HOUSEHOLD SERVICES PRIVATE LIMITED
3148	U74920TG2014PTC092296	BRAVE SECURE SOLUTIONS & FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3149	U65923TG2014PTC092299	SANKSHEM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3150	U67200TG2014PTC092301	OPTION TREASURE STRATEGIES PRIVATE LIMITED
3151	U74900TG2014PTC092307	PROCUBE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3152	U74120TG2014PTC092311	KRIDI BUSINESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3153	U72300TG2014PTC092312	SOCIOMOTO MOBILE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
3154	U72300TG2014PTC092313	N VOICE E SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3155	U72400TG2014PTC092315	COALESCE INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3156	U80900TG2014PTC092316	SPECIALITY GURUS EDUCATIONAL ACADEMY PRIVATE LIMITED
3157	U74120TG2014PTC092318	DHANGHAR CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3158	U15122TG2014PTC092320	YERBA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
3159	U67200AP2014PTC092322	LAURION WEALTH ADVISORY PRIVATE LIMITED
3160	U72200TG2014PTC092330	EXYPNOS CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
3161	U74300TG2014PTC092331	ARL DESIGN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3162	U93000TG2014PTC092333	DASHAN INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3163	U93030TG2014PTC092335	JOB N JOY STAFFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3164	U29253AP2014PTC092339	EELITE AGRO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3165	U74910TG2014PTC092340	INDU FACILITY MANPOWER & CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
3166	U15400TG2014PTC092344	SUDHEER'S THIRUMALA FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
3167	U93000TG2014PTC092345	OKAY FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3168	U40106AP2014PTC092346	SPACEAGE SOLAR ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
3169	U72900TG2014PTC092349	RISE 'N' SHINE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
3170	U74900TG2014PTC092351	NOTE ONE SOFTWARE CONSULTING PRIVATE LIMITED
3171	U74900TG2014PTC092353	SEASHELLS FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
3172	U61100TG2014PTC092358	V&V SHIP LINES PRIVATE LIMITED
3173	U72200TG2014PTC092359	BADRISOFT PRIVATE LIMITED
3174	U72200AP2014PTC092361	PINNAMANENI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3175	U45400TG2014PTC092362	VAZEER PROJECTS PRIVATE LIMITED
3176	U01405TG2014PTC092363	MAHAGODHAVARI AGRITEC INDIA PRIVATE LIMITED
3177	U74999AP2014PTC092369	PRUDENTIAL TURBO SERVICES PRIVATE LIMITED
3178	U24100TG2014PTC092370	CHAITRA FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
3179	U74120TG2014PTC092372	GSR TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3180	U93000AP2014PTC092377	PEOPLE PULSE ANALYSIS INDIA PRIVATE LIMITED
3181	U45209AP2014PTC092378	SRI VEGESANA SOMA RAJU CONSTRUCTIONS PVT LTD
3182	U01403TG2014PTC092380	SRI SATYA LAKSHMI AGROFARMS PRIVATE LIMITED
3183	U15139TG2014PTC092386	SNS SOUPAMANIA PRIVATE LIMITED
3184	U63090TG2014PTC092388	TIRUPATI FLEET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3185	U80301TG2014PTC092390	KOTTAM ACADEMY PRIVATE LIMITED
3186	U72200TG2014PTC092402	VAMASYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3187	U93000TG2014PTC092410	ANTHEM SPIRITUAL & HOLISTIC SERVICES PVT LTD
3188	U72100TG2014PTC092414	NEOLABZ IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3189	U45209AP2014PTC092416	VANAMALI HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
3190	U40102AP2014PTC092417	ARRAY POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
3191	U72500TG2014PTC092421	LD'SLGN TECHNOLOGIES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3192	U74930TG2014PTC092424	GARIKIPATI IMPEX PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3193	U40103AP2014PTC092425	RATAKONDA POWER (AP) PRIVATE LIMITED
3194	U10101TG2014PTC092426	BLUEBIRD MINING PRIVATE LIMITED
3195	U70101TG2014PTC092428	ASHRAF KHAN ESTATES PRIVATE LIMITED
3196	U40107AP2014PTC092430	SREE SANTHOSH SUNERGY PRIVATE LIMITED
3197	U74920TG2014PTC092431	SWARNARAKSHA SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3198	U74900TG2014PTC092432	LIKER & TOUCH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3199	U40108AP2014PTC092434	TGPALLI POWER PRIVATE LIMITED
3200	U74900TG2014PTC092437	YELLOW AUTOHONA PRIVATE LIMITED
3201	U40108AP2014PTC092441	MEGATRON ENERGY PRIVATE LIMITED
3202	U45209TG2014PTC092442	MAHANANDI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3203	U15122TG2014PTC092443	SWEETS AND NAMKEENS INDIA CORPORATION PRIVATE LIMITED
3204	U64203AP2014PTC092446	BLUEWEB NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3205	U45209TG2014PTC092447	ICON AVENUE (INDIA) PRIVATE LIMITED
3206	U74900TG2014PTC092448	SAMREEN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3207	U45209TG2014PTC092449	MULUPURI & AMBATI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3208	U45209TG2014PTC092450	FERNHILL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3209	U40101TG2014PTC092452	ANCO ENERGY PRIVATE LIMITED
3210	U72400TG2014PTC092454	MICROITTE TECHNOSOFT INDIA PRIVATE LIMITED
3211	U40102TG2014PTC092455	MAESTRO ENERGY PRIVATE LIMITED
3212	U22130TG2014PTC092456	NEWSPEAK MEDIA PRIVATE LIMITED
3213	U85100TG2014PTC092458	ROYAL SUPREME HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
3214	U93000TG2014PTC092459	ZOS CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3215	U72200TG2014PTC092461	ACUTE INFOSYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
3216	U01403TG2014PTC092462	SRI VISALAKSHMI AGROFARMS PRIVATE LIMITED
3217	U15122TG2014PTC092463	SLUGLINE BEVERAGES PRIVATE LIMITED
3218	U74900TG2014PTC092464	TVR BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED
3219	U01403TG2014PTC092467	MIDORI AGRO TECH PRIVATE LIMITED
3220	U13201TG2014PTC092471	GVS MINING AND TRANSPORT PRIVATE LIMITED
3221	U72200TG2014PTC092474	VORION GLOBAL INFORMATICS PRIVATE LIMITED
3222	U93000TG2014PTC092475	MY NEW LOOK PARLOUR PRIVATE LIMITED
3223	U40300AP2014PTC092476	KAANSA ENERGY PRIVATE LIMITED
3224	U63090TG2014PTC092477	ALIEN HOLIDAY TOURS PRIVATE LIMITED
3225	U45209TG2014PTC092483	VYSHNAV INFRA PRIVATE LIMITED
3226	U51909TG2014PTC092484	XYZ IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
3227	U74900TG2014PTC092487	NAVYA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3228	U72400TG2014PTC092489	SYNCIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3229	U63000TG2014PTC092490	MICROROAD CARRIERS INDIA PRIVATE LIMITED
3230	U45206TG2014PTC092491	CSM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3231	U55101TG2014PTC092494	SHANKARI RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
3232	U72200TG2014PTC092495	P S CORPORATE MODEL INSTITUTE (SOFTWARE) PRIVATE LIMITED
3233	U45209TG2014PTC092499	STEALTH PRIVATE LIMITED
3234	U72200TG2014PTC092504	ARCHONZ BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
3235	U74900TG2014PTC092506	SATHYARUSHI TEXTILES PRIVATE LIMITED
3236	U40106TG2014PTC092509	GLARE SOLAR PRIVATE LIMITED
3237	U45209TG2014PTC092511	SEVEN STARCITY AVENUES PRIVATE LIMITED
3238	U24100TG2014PTC092512	AALOK LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3239	U74120TG2014PTC092513	MAHOGAM MEDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3240	U72200TG2014PTC092523	SIRI DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
3241	U45400TG2014PTC092524	SRIDHATRI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3242	U72200TG2014PTC092526	ENGAGE BDR INDIA PRIVATE LIMITED
3243	U01403AP2014PTC092529	SRI MUKHA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3244	U51109TG2014PTC092531	AJTRAVERSE EXPORT IMPORT IND PRIVATE LIMITED
3245	U72200TG2014PTC092534	ARINNA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3246	U74900AP2014PTC092536	S & S EDATA MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3247	U72200TG2014PTC092538	BODHTREE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3248	U22300TG2014PTC092544	IDIO CANVAS PRIVATE LIMITED
3249	U67190TG2014PTC092548	BMC SECURITIES PRIVATE LIMITED
3250	U92130TG2014PTC092554	SMAAT MEDIA PRIVATE LIMITED
3251	U92412TG2014PTC092555	NANDA TELEVISION NETWORK PRIVATE LIMITED
3252	U28910TG2014PTC092558	I K METALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3253	U72300TG2014PTC092561	SARAL RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED
3254	U63040TG2014PTC092563	LRS TRAVEL AND TOUR SERVICES PRIVATE LIMITED
3255	U92412AP2014PTC092564	MPR BROADCASTING PRIVATE LIMITED
3256	U67190TG2014PTC092569	DINSHRI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3257	U93000TG2014PTC092571	SAPTDARSHI HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
3258	U72200TG2014PTC092572	PRIMA LINEA TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3259	U74900AP2014PTC092574	LEOMART STORES PRIVATE LIMITED
3260	U40102TG2014PTC092576	SUNLITE ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
3261	U45400TG2014PTC092578	SREE SNEANI BUILDCON PRIVATE LIMITED
3262	U63031TG2014PTC092585	SM FREIGHT PRIVATE LIMITED
3263	U73200AP2014PTC092592	EXELON CLINICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3264	U01403AP2014PTC092595	SAI NAVYA GREENFIELDS PRIVATE LIMITED
3265	U74140TG2014PTC092598	DARV BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3266	U72200TG2014PTC092600	ASHRA INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
3267	U72200TG2014PTC092608	DOT2DATA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3268	U40108TG2014PTC092612	BHASVARA ENERGY PRIVATE LIMITED
3269	U74900TG2014PTC092614	RIYA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3270	U29268TG2014PTC092618	LALITHA AIR CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3271	U52311TG2014PTC092622	PHARMA DEAL PRIVATE LIMITED
3272	U74140TG2014PTC092626	VKRM HR SERVICES PRIVATE LIMITED
3273	U72200TG2014PTC092629	DATAZZLE TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
3274	U74900TG2014PTC092632	OMWAY WORLD SERVICES & PROJECTS PRIVATE LIMITED
3275	U74900TG2014PTC092634	KHADRI MINERALS EXIM PRIVATE LIMITED
3276	U31908TG2014PTC092635	SAI BALAJI ELECTRICAL AND ELECTRONICS PVT LTD
3277	U45209AP2014PTC092640	AKSHAYA INFRAPROPERTIES & ENGINEERS PVT LTD
3278	U01200TG2014PTC092643	AKSHAYA FARM TO HOME INDIA PRIVATE LIMITED
3279	U85100TG2014PTC092645	GOLDENLION HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
3280	U45209TG2014PTC092646	HKM INFRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3281	U74900TG2014PTC092651	ANUSHA FIRE SERVICES PRIVATE LIMITED
3282	U74200TG2014PTC092654	S A ENGINEERING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3283	U14102TG2014PTC092659	ARK GRANITE EXPORTS PRIVATE LIMITED
3284	U74900TG2014PTC092662	VEDALIFE CARE MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3285	U74900TG2014PTC092663	HENDEKA MEDIA PRIVATE LIMITED
3286	U01400TG2014PTC092664	NATUREFIELD AGRITECH AND DAIRY PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3287	U24100TG2014PTC092666	ISOMER ORGANICS PRIVATE LIMITED
3288	U01403TG2014PLC092673	YOUNG FARMERS COTTON GINNING AND SPINNING MILLS LIMITED
3289	U15122TG2014PTC092674	J M S FROSTY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3290	U73100TG2014PTC092678	CURATUM CELLSCIENCES PRIVATE LIMITED
3291	U45200AP2014PTC092682	AMEEN PROJECTS PRIVATE LIMITED
3292	U31900TG2014PTC092683	MR SOLAR TECH INDIA PRIVATE LIMITED
3293	U72200TG2014PTC092685	ENLYTN TRAINING AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
3294	U72200TG2014PTC092687	RAMNYS GLOBAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
3295	U85100AP2014PTC092688	SADGURU LIFE CARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3296	U72200TG2014PTC092694	INPUT AGRI TECH PRIVATE LIMITED
3297	U72200TG2014PTC092695	RMR CREATIVE DESIGN & ANIMATIONS PRIVATE LIMITED
3298	U15122TG2014PTC092697	ASHOK PIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3299	U27109TG2014PTC092698	TRANSMEC STEEL PRIVATE LIMITED
3300	U72900TG2014PTC092699	LISAAN EDULINGOTEC PRIVATE LIMITED
3301	U74900TG2014PTC092700	DELTA FACILITIES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3302	U85190TG2014PTC092701	DR.GEETHA SRI HEALTHCARE AND BEAUTY PRIVATE LIMITED
3303	U52399TG2014PTC092703	SAASMAC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3304	U63012AP2014PTC092704	ELIOR TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED
3305	U45209TG2014PTC092705	HARINAKSH INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
3306	U72900TG2014PTC092708	BUTTERFLY DIGITAL PRIVATE LIMITED
3307	U93030TG2014PTC092709	M SHAH INTEGRATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3308	U74200AP2014PTC092710	PAVANI DREDGING AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3309	U72200TG2014PTC092715	VIPARIT EBUSINESS PRIVATE LIMITED
3310	U72200TG2014PTC092723	HDLC INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3311	U51909TG2014PTC092725	FIND SPECS PRIVATE LIMITED
3312	U72200TG2014PTC092726	CLEVEZ INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3313	U74920TG2014PTC092728	LIVE TRACKING & SURVILLIANCE SOLUTIONS PVT LTD
3314	U80211AP2014PTC092734	E MARG EDUTECH INDIA PRIVATE LIMITED
3315	U01407TG2014PTC092739	SRI ANJANEYA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3316	U55101TG2014PTC092741	BING PING FOOD CHAIN PRIVATE LIMITED
3317	U50102TG2014PTC092743	ARIAL AUTO PRIVATE LIMITED
3318	U52100TG2014PTC092755	SANAA ALLOYS & MINERALS PRIVATE LIMITED
3319	U28910TG2014PTC092759	RAAS WIRES AND CABLES PRIVATE LIMITED
3320	U72200TG2014PTC092760	WEBMATRIX IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3321	U70100TG2014PTC092762	VANGARI RAJU HOUSING PRIVATE LIMITED
3322	U74200AP2014PTC092763	LAKTESH BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3323	U74900TG2014PTC092764	STANLEY OIL INDIA PRIVATE LIMITED
3324	U01403TG2014PTC092772	SANTOSHI MATA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3325	U37100TG2014PTC092773	SRILAXMI ECOPRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
3326	U74900AP2014PTC092776	INTRUSION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3327	U14200TG2014PTC092778	SID MINES PRIVATE LIMITED
3328	U05004AP2014PTC092779	C R AQUA TECH INDIA PRIVATE LIMITED
3329	U74900AP2014PTC092786	PASIDI MAYURI INFRAPROJECTS INDIA AND RESORTS PRIVATE LIMITED
3330	U52190TG2014PTC092789	BOTREE ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3331	U74900TG2014PTC092791	VODECA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3332	U74999TG2014PTC092792	I APPLE STORE HYDERABAD PRIVATE LIMITED
3333	U72200TG2014PTC092793	GRINSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3334	U51101TG2014PTC092795	AD LINK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3335	U72200TG2014PTC092801	SKILLSINIT TRAINING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
3336	U51101TG2014PTC092804	3PLEPLAY TRADING PRIVATE LIMITED
3337	U72300TG2014PTC092813	MINDIAN SOFTWARE LABS PRIVATE LIMITED
3338	U17222AP2014PTC092824	SRM COTTON INDIA PRIVATE LIMITED
3339	U45200TG2014PTC092831	KAARTIKEYAA SOLAR PLANT PRIVATE LIMITED
3340	U72900TG2014PTC092837	PRODATA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3341	U74991AP2014PTC092838	ASRK INDUSTRIAL SERVICES & INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
3342	U15510TG2014PTC092839	DIAL A DRINK PRIVATE LIMITED
3343	U51505AP2014PTC092841	EMRIC POWERPAC PRIVATE LIMITED
3344	U40300TG2014PTC092845	KLR SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3345	U26933AP2014PTC092850	MAA ROCKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3346	U45203TG2014PTC092851	SAI SRUJITH INFRACON PRIVATE LIMITED
3347	U45209TG2014PTC092855	BUJII INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3348	U24100AP2014PTC092857	SPY PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
3349	U15400TG2014PTC092858	NANA'S RECIPES PRIVATE LIMITED
3350	U72200TG2014PTC092859	ADVANCED REPORTING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3351	U15400AP2014PTC092863	TITBEE FOODS AND PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3352	U15511TG2014PTC092865	CHARMINAR FARMS & BOTTLINGS PRIVATE LIMITED
3353	U74910TG2014PTC092866	ZONE PATH RECRUITERS PRIVATE LIMITED
3354	U72200TG2014PTC092869	WITLAB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3355	U72200AP2014PTC092872	BUDDIESNATION INDIA PRIVATE LIMITED
3356	U74200TG2014PTC092875	OHS ACADEMY PRIVATE LIMITED
3357	U67190TG2014PTC092876	ZONE PATH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3358	U65992AP2014PTC092881	DIVYAKANTHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3359	U74900TG2014PTC092883	LAVENNS MANPOWER SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3360	U90001TG2014PTC092884	AQUA RECYCLE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3361	U15549TG2014PTC092888	SUSHEES FOOD PRIVATE LIMITED
3362	U72400TG2014PTC092889	24NEEDS E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
3363	U72200TG2014PTC092891	ARTILECT TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3364	U72300TG2014PTC092893	AARAADHYA OVERSEAS AND IT SERVICES PVT LTD
3365	U24232TG2014PTC092900	SUNGURUS PHARMA INDIA PRIVATE LIMITED
3366	U05010TG2014PTC092904	MARINE LIFE SEA FOODS PRIVATE LIMITED
3367	U13209TG2014PTC092905	JRJ MINERALS PRIVATE LIMITED
3368	U93000TG2014PTC092907	R & R DESIGN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3369	U74900TG2014PTC092909	SHRIKAR INFRA TRADING PRIVATE LIMITED
3370	U51101AP2014PTC092917	VASAVIVICTORY PHARMA INDIA PRIVATE LIMITED
3371	U52100TG2014PTC092918	HARSHITH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3372	U74900TG2014PTC092923	MEFA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
3373	U52100TG2014PTC092927	YUKTA RETAIL PRIVATE LIMITED
3374	U74900AP2014PTC092929	AYURSUKHA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
3375	U70102AP2014PTC092936	KAPARTHINI REAL ESTATE AND CONSTRUCTIONS PVT LTD
3376	U25192TG2014PTC092937	SREE VIJAYA KRISHNA CABLES PRIVATE LIMITED
3377	U72200TG2014PTC092941	D & E TECHNOLOGY CONSULTING PRIVATE LIMITED
3378	U74900TG2014PTC092945	YASH FMCG PRIVATE LIMITED
3379	U63010TG2014PTC092949	PAVANPUTRA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3380	U72200TG2014PTC092954	PEREGRINE INNOWAYTECH PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3381	U63090AP2014PTC092955	NARYA SHIPPING & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3382	U45209TG2014PTC092956	VIDHATRI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3383	U74900AP2014PTC092957	DINU EXPORTS PRIVATE LIMITED
3384	U74910TG2014PTC092960	LOTUS CAREER SERVICES PRIVATE LIMITED
3385	U72200TG2014PTC092962	QUERY SCAPE SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3386	U74900TG2014PTC092963	VIGNARAJA ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
3387	U51101TG2014PTC092964	GREEN BURD PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
3388	U74900TG2014PTC092966	THALAMUS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3389	U24100TG2014PTC092967	ZARKHA PRIME INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3390	U65923TG2014PTC092974	SVC CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3391	U74910AP2014PTC092976	JAANMA MANPOWER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3392	U74900TG2014PTC092977	BUSINESSWALA E-BIZ MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3393	U72400TG2014PTC092985	KORIPPELLA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3394	U74910TG2014PTC092989	LAKS TECH STAFFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3395	U45209TG2014PLC092994	RAO'S INFRA RESOURCES LIMITED
3396	U40300TG2014PTC092996	SRAVANTHI RESEARCH & (SOLAR) POWER GENERATION PRIVATE LIMITED
3397	U52399TG2014PTC093001	LICR ON LINE MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3398	U24100TG2014PTC093002	USCHEMICA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
3399	U24100TG2014PTC093003	QUALITEK PHARMA PRIVATE LIMITED
3400	U65992TG2014PTC093004	PRIKI CHITS INDIA PRIVATE LIMITED
3401	U14102TG2014PTC093008	SRINIKI GRANITES PRIVATE LIMITED
3402	U74910TG2014PTC093014	KK HUMAN RESOURCE CONSULTING PRIVATE LIMITED
3403	U74900TG2014PTC093015	SIRI MECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3404	U14200AP2014PTC093020	GRACE STONEX PRIVATE LIMITED
3405	U45200TG2014PTC093023	AIRA INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED
3406	U70200AP2014PTC093031	GLOBAL CLASSIC REALTY PRIVATE LIMITED
3407	U72200TG2014PTC093035	SPRINGMARK IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3408	U72200AP2014PTC093036	LOREM TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3409	U74300TG2014PTC093037	BSP MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED
3410	U74900TG2014PTC093041	HMS BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
3411	U72200TG2014PTC093044	SARAYU INNOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3412	U28910TG2014PTC093046	SUNCAST COMPOSITES PRIVATE LIMITED
3413	U55101TG2014PTC093047	SHRUBS EL CAFE INDIA PRIVATE LIMITED
3414	U85193TG2014PTC093054	PINK N BLUE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
3415	U14200AP2014PTC093058	SUNGLORY OVERSEAS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3416	U45209TG2014PTC093059	MAQO AVENUES & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
3417	U52190TG2014PTC093060	VIJAYAMART SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
3418	U85100TG2014PTC093062	AYURVEDIKA HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
3419	U14200TG2014PTC093064	ABHYUNNATI NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
3420	U85100TG2014PTC093065	NAPSTAR HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
3421	U72200AP2014PTC093066	PRATHI COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3422	U41000TG2014PTC093067	UDAJA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3423	U72200TG2014PTC093070	CODEx SOFT BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3424	U74999TG2014PTC093072	EYESAVERS OPTICIANS PRIVATE LIMITED
3425	U74900AP2014PTC093075	SYNCHRONIZE SKILLS PRIVATE LIMITED
3426	U74900TG2014PTC093076	GRR FACILITIES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3427	U72200TG2014PTC093077	CUBITRONICS INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3428	U45200TG2014PTC093082	BERYL BEAM PROJECTS PRIVATE LIMITED
3429	U72200TG2014PTC093085	FORESTON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3430	U72200TG2014PTC093086	VARIANT INNOVATIVE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3431	U65992AP2014PTC093089	JEEVANTEJA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3432	U40108TG2014PTC093096	SAPHIRE ALTERNATIVE ENERGY PRIVATE LIMITED
3433	U72200TG2014PTC093106	ACUTEMINDS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3434	U92100TG2014PTC093116	VR CINE ARTS AND CREATIONS PRIVATE LIMITED
3435	U72200TG2014PTC093118	GLOBAL E-CONTROLS PRIVATE LIMITED
3436	U51909TG2014PTC093121	XODO GLOBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3437	U93000TG2014PTC093124	SUNNIVA POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3438	U72200TG2014PTC093125	AKILI STRATEGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3439	U72200TG2014PTC093126	EMPIRICLAND SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3440	U72200TG2014PTC093128	KEETECH NEXTGEN SOFTLABS PRIVATE LIMITED
3441	U51909TG2014PTC093129	MULK COMMODITIES PRIVATE LIMITED
3442	U73100AP2014PTC093133	VYMAANAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3443	U74900TG2014PTC093143	COPIOUS PHARMA PRIVATE LIMITED
3444	U74140TG2014PTC093145	ADDH CONSULTING PRIVATE LIMITED
3445	U70109AP2014PTC093147	PREMANJALI ESTATES PRIVATE LIMITED
3446	U63010TG2014PTC093151	HEUREUX VOYAGE TECHNO SERVICES PRIVATE LIMITED
3447	U72400AP2014PTC093154	VIBHA SOFTTECH PRIVATE LIMITED
3448	U65192TG2014PTC093157	SREE VEDHIKA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3449	U72502TG2014PTC093158	SHANKAM CLASSIFIEDS PRIVATE LIMITED
3450	U72200TG2014PTC093165	AMVISTA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3451	U35999AP2014PTC093166	SRI NITHYA ALLOYS INDIA PRIVATE LIMITED
3452	U45209TG2014PTC093169	NISHATH BUILDERS PRIVATE LIMITED
3453	U34200TG2014PTC093171	GRAPE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3454	U74900TG2014PTC093178	MOVIERAINBOW WEB SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3455	U45200TG2014PTC093183	TERRA CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3456	U92412TG2014PTC093184	ALENKEY INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3457	U01407TG2014PTC093185	AVNITA AGRO FARMS AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
3458	U74140TG2014PTC093188	SKILLTECH EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3459	U72200TG2014PTC093191	MCENROS CONSULTING PRIVATE LIMITED
3460	U45209TG2014PTC093197	GEBION ENGINEERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
3461	U24100TG2014PTC093198	ERVIN PHARMA PRIVATE LIMITED
3462	U24230TG2014PTC093201	PADMASRI HEALTH PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3463	U72200TG2014PTC093203	SAGDEG SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3464	U01403AP2014PTC093206	MURARI SEEDS PRIVATE LIMITED
3465	U14102AP2014PTC093207	M M R MINES & GRANITES PRIVATE LIMITED
3466	U01407TG2014PTC093211	THIRD EYE FEED PROCESSES PRIVATE LIMITED
3467	U72400TG2014PTC093214	ADSTREET DIGITAL ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
3468	U72200TG2014PTC093216	LEADWINNER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3469	U45206AP2014PTC093219	ZAZEN HOMES PRIVATE LIMITED
3470	U65910AP2014PTC093220	SREE MADHAVARAYA CHITS PRIVATE LIMITED
3471	U72200TG2014PTC093221	TECHY 9 INFO SOFT SERVICES PRIVATE LIMITED
3472	U72200TG2014PTC093226	WINTEL ENTRANSYS PRIVATE LIMITED
3473	U45208TG2014PTC093227	R S BUILDING PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3474	U45200TG2014PTC093231	LENOX DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3475	U45200AP2014PTC093233	PAVANI VIVENDAS PRIVATE LIMITED
3476	U74900TG2014PTC093234	HIND CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
3477	U80301TG2014PTC093236	PROLIFIC COUNSELORS PRIVATE LIMITED
3478	U52100AP2014PTC093237	AXIOM RETAIL PRIVATE LIMITED
3479	U24232TG2014PTC093241	LARVEN PHARMA PRIVATE LIMITED
3480	U24232TG2014PTC093252	ARRIETTY PHARMA SERVICES PRIVATE LIMITED
3481	U52190TG2014PTC093254	KRISHNA SHASTRULA TRADING PRIVATE LIMITED
3482	U15400TG2014PTC093257	D LITE FRANKIES AND FOODS PRIVATE LIMITED
3483	U74910TG2014PTC093259	SURATI OUTSOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED
3484	U15400TG2014PTC093264	PRIKI FMCG INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3485	U45200AP2014PTC093265	GANASHAKTHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3486	U74900TG2014PTC093272	SRI SKANDA NARAYANI CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3487	U72200TG2014PTC093274	SKY COMPUTING PRIVATE LIMITED
3488	U40105TG2014PTC093275	CMR SOLAR ENERGEEES PRIVATE LIMITED
3489	U85100TG2014PTC093276	SWAPRA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
3490	U45200TG2014PTC093277	EESHWARESU PROJECTS PRIVATE LIMITED
3491	U74900TG2014PTC093279	ECO BARON FUELS PRIVATE LIMITED
3492	U40300TG2014PTC093281	KARTHIKA SOLAR PRIVATE LIMITED
3493	U85191TG2014PTC093286	KARUPARTHY INSTITUTE OF PAIN & SUFFERING PRIVATE LIMITED
3494	U74900AP2014PTC093287	BENQ CATERING & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
3495	U74900AP2014PTC093288	BVRS SECURITY AND MANPOWER OUT SOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED
3496	U14200TG2014PTC093291	MANIKANTA MINERALS AND MINES PRIVATE LIMITED
3497	U51900AP2014PTC093295	DHEERAJ ELEVATORS PRIVATE LIMITED
3498	U52399TG2014PTC093297	WONDER DIVINE SOLUTION PRIVATE LIMITED
3499	U01403TG2014PTC093299	SST FARMS PRIVATE LIMITED
3500	U74900TG2014PTC093305	SYNAPTIC ENGINES PRIVATE LIMITED
3501	U14292TG2014PTC093313	ZONE PATH GRANITES PRIVATE LIMITED
3502	U72200TG2014PTC093319	STUDIO TORQUE DESIGN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3503	U40300TG2014PTC093321	GTOV SOLAR POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3504	U74120AP2014PTC093322	THINK WISE HR SERVICES PRIVATE LIMITED
3505	U52100TG2014PTC093328	G2V TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3506	U25190TG2014PTC093329	POWERMET ENERGY PRIVATE LIMITED
3507	U01820TG2014PTC093330	CSR FOOD TECH PRIVATE LIMITED
3508	U72200TG2014PTC093331	VUESOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3509	U45209AP2014PTC093333	KIWIS HOUSING PRIVATE LIMITED
3510	U70102AP2014PTC093335	PRABHAVATHI SHELTERS PRIVATE LIMITED
3511	U72200TG2014PTC093337	PINTEGRA TECHNO SERVICES PRIVATE LIMITED
3512	U24232TG2014PTC093339	FICUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3513	U74900AP2014PTC093341	LAKSHMI GANAPATHI IMPEX PRIVATE LIMITED
3514	U72200TG2014PTC093343	PRESTON NETWORKS PRIVATE LIMITED
3515	U45209TG2014PTC093344	ABHIRVEY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3516	U01407TG2014PTC093348	KRISHI SEVA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3517	U25190TG2014PTC093349	PARDHA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3518	U74900TG2014PTC093351	TEKSYMPHONY IT SERVICES PRIVATE LIMITED
3519	U01400AP2014PTC093358	UDYOBHAVI FARMS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3520	U40109TG2014PTC093359	SUNSET SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
3521	U72200TG2014PTC093363	VALUE APPLICATIONS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3522	U40106TG2014PTC093365	ARSOL SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
3523	U72200TG2014PTC093367	YAKSHA EMBEDDED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3524	U74110TG2014PTC093373	SKN LAW MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3525	U65910TG2014PTC093376	SKP (INDIA) PRIVATE LIMITED
3526	U22222AP2014PTC093382	PRAJA HITHA PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
3527	U52390TG2014PTC093385	WAY 2 LUCK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3528	U01820TG2014PTC093386	AGRISAKSHI SEEDS PRIVATE LIMITED
3529	U51909TG2014PTC093387	SMART TOYZ PRIVATE LIMITED
3530	U15137TG2014PTC093389	SANDHYA FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
3531	U45200TG2014PTC093390	MOURYA HOMES PRIVATE LIMITED
3532	U85100TG2014PTC093392	DR. LALL'S WELLNESS PRIVATE LIMITED
3533	U15400TG2014PTC093401	SAHASRAA FOODS PRIVATE LIMITED
3534	U70109AP2014PTC093402	DARSINI CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS PVT LTD
3535	U51220TG2014PTC093403	SARADS BEVERAGES PRIVATE LIMITED
3536	U74300TG2014PTC093405	KALA ADS AND ENTERTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED
3537	U45209TG2014PTC093406	SWETHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3538	U10204TG2014PTC093410	TAPASVI MINING (INDIA) PRIVATE LIMITED
3539	U50102TG2014PTC093412	SRESHTH AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
3540	U24232TG2014PTC093413	VAS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3541	U72200AP2014PTC093417	IVY SOFTECH INDIA PRIVATE LIMITED
3542	U51504TG2014PTC093422	ASHLAR MEMBRANE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3543	U63090AP2014PTC093425	COMPETENT STORAGE TANKS PRIVATE LIMITED
3544	U70100TG2014PTC093426	CHECKMARK INFRASTRUCTURE AND POWER PRIVATE LIMITED
3545	U45206AP2014PLC093428	TALASILA INFRA PROJECTS LIMITED
3546	U72400AP2014PTC093430	LEZUNE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3547	U72200TG2014PTC093432	INDUR TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
3548	U45300TG2014PTC093434	SRESHTH INFRACON INDIA PRIVATE LIMITED
3549	U55101AP2014PTC093438	VENU VYAPIN GOURMET PRIVATE LIMITED
3550	U52603AP2014PTC093441	SRI LAKSHMI KALYAN JEWELLERS PRIVATE LIMITED
3551	U72500TG2014PTC093445	ORATORS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3552	U72900TG2014PTC093447	SAMPRATHI COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
3553	U52100TG2014PTC093450	BALARAJU TRADERS PRIVATE LIMITED
3554	U74900TG2014PTC093453	TAATI INTERIORS PRIVATE LIMITED
3555	U74900TG2014PTC093454	GENUPRO VCARE PRIVATE LIMITED
3556	U72300TG2014PTC093455	S4DROID LABS PRIVATE LIMITED
3557	U72200TG2014PTC093457	FUTURE MEDIA PRIVATE LIMITED
3558	U65910TG2014PTC093459	SRI PRANADEEP CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
3559	U45209TG2014PTC093461	VARADA VINAYAKA INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED
3560	U72200TG2014PTC093463	CYBER COMPUTRONICS PRIVATE LIMITED
3561	U74900AP2014PTC093464	LNS IMPEX SERVICES PRIVATE LIMITED
3562	U70200TG2014PTC093465	SLJ AGRI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3563	U72300AP2014PTC093472	NANO OBJS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3564	U74900TG2014PTC093473	APPA MOBILE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3565	U01117TG2014PTC093474	MAHESWAR AGRO BIOTECH PRIVATE LIMITED
3566	U72200TG2014PTC093475	OOMPFIH INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3567	U92330TG2014PTC093479	KSIRA CORPORATE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
3568	U85100TG2014PTC093481	REYA POLYCLINIC & DIAGNOSTIC CENTERS PRIVATE LIMITED
3569	U74900AP2014PTC093489	BHASKARA RAJU HANDWRITING RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
3570	U40104TG2014PTC093492	KAPILA POWERMAC PRIVATE LIMITED
3571	U74900TG2014PTC093493	CREATIVE CLUSTER SERVICES PRIVATE LIMITED
3572	U72200TG2014PTC093497	GISTLOGIC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3573	U25203AP2014PTC093505	GREEN COSTA RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3574	U74910TG2014PTC093506	TALATH MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3575	U45200AP2014PTC093507	SAIGAYATHRI HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
3576	U33110TG2014PTC093509	NM PHARMA PRIVATE LIMITED
3577	U80900TG2014PTC093512	AIM LAW INSTITUTE PRIVATE LIMITED
3578	U72200TG2014PTC093513	TORUS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
3579	U63040TG2014PTC093514	ORANGE VACATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3580	U72400TG2014PTC093515	TELLASOFT PRIVATE LIMITED
3581	U24232TG2014PTC093517	ALOMED FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
3582	U72900TG2014PTC093518	TMR IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3583	U17120TG2014PTC093521	SAMBASIVA GINNING MILLS PRIVATE LIMITED
3584	U63040TG2014PTC093522	SINDOMAS TRAVEL AND TOUR SERVICES PVT LTD
3585	U72200TG2014PTC093523	SKPB SOFT TECH PRIVATE LIMITED
3586	U01403AP2014PTC093524	GOWELL FARMS PRIVATE LIMITED
3587	U74900AP2014PTC093526	SAMRAJYASAI SOLAR FARMS PRIVATE LIMITED
3588	U01403AP2014PTC093527	GENESIS FARMS INDIA PRIVATE LIMITED
3589	U01403AP2014PTC093528	SWARNANDHRA FARMS PRIVATE LIMITED
3590	U55101TG2014PTC093530	SRESHTH HOTELS & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3591	U40102AP2014PTC093532	SIRI GREEN POWER PRIVATE LIMITED
3592	U72200TG2014PTC093534	AMBIT CYBERTECH PRIVATE LIMITED
3593	U51909TG2014PTC093536	LORVEN FRUIT PRIVATE LIMITED
3594	U64200TG2014PTC093538	EAGLEXPRESS MAIL AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3595	U14200TG2014PTC093549	SDV GEO AND INFRA PRIVATE LIMITED
3596	U01407AP2014PTC093552	SUPRASANNA AGRO PRIVATE LIMITED
3597	U33110AP2014PTC093555	BEST MEDIKIT PRIVATE LIMITED
3598	U63090TG2014PTC093559	TOUCH-KAILASH TOURISM PRIVATE LIMITED
3599	U45209TG2014PTC093563	LANDSTONE NIRMAN INFRA PRIVATE LIMITED
3600	U74300TG2014PTC093568	ARJUN IMEX SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3601	U74900TG2014PTC093569	VENTA CRECIMIENTO MARKETING PRIVATE LIMITED
3602	U72200TG2014PTC093570	KAT MEDIA PRIVATE LIMITED
3603	U74900TG2014PTC093571	2M MARKETING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3604	U63030TG2014PTC093572	BINGOTRUCK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3605	U15122AP2014PTC093575	PRABHAKAR RICE MILLS PRIVATE LIMITED
3606	U72400TG2014PTC093576	PRIVY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3607	U15209AP2014PTC093577	SD BIO NUTRI FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3608	U74900TG2014PTC093580	SRI KRISHNA DEVARAYA MEDIA SERVICES PVT LTD
3609	U36912TG2014PTC093581	VIVID DESIGN STUDIO INDIA PRIVATE LIMITED
3610	U74900AP2014PTC093582	VINAYANA E-COMMERCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3611	U74900TG2014PTC093583	GREAT ICON BROADCASTING PRIVATE LIMITED
3612	U65923AP2014PTC093586	KAMALAVARSHINI CHITS INDIA PRIVATE LIMITED
3613	U74120AP2014PTC093588	PAVANI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3614	U72300TG2014PTC093591	DEALSPRIDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3615	U72200TG2014PTC093592	BKR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3616	U72200TG2014PTC093593	VMOLD IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
3617	U72200TG2014PTC093595	KQINGDOM ITES PRIVATE LIMITED
3618	U80301TG2014PTC093597	IAMBIC EDUCATION & HOTELS PRIVATE LIMITED
3619	U72400TG2014PTC093600	TILETI EEMEZE SOFT TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
3620	U01403TG2014PTC093605	RYTHU MITRA FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3621	U45200AP2014PTC093616	SAHITH & PRANEETH INFRATECH PRIVATE LIMITED
3622	U63000TG2014PTC093617	SAIWORLD TRAVELS PRIVATE LIMITED
3623	U93000TG2014PTC093618	FIRSTBRICK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3624	U45200TG2014PTC093619	RAINBOW BUILDING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3625	U72400TG2014PTC093621	GARAPATI SREERAM SOFTWARE SOLUTIONS PVT LTD
3626	U72400TG2014PTC093622	WAZZAT TECHNOLOGY LABS PRIVATE LIMITED
3627	U40103TG2014PTC093624	NEX SOLAR ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3628	U72400TG2014PTC093633	NI - ERP SOFTWARE CONSULTING PRIVATE LIMITED
3629	U37100AP2014PTC093634	RECYCLO CLEAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3630	U22222TG2014PTC093637	BLUE BOND MEDIA CORPORATION PRIVATE LIMITED
3631	U55204TG2014PTC093638	HITTRIP TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
3632	U80904TG2014PTC093640	AARAMBH SCHOOLS PRIVATE LIMITED
3633	U40105TG2014PTC093641	CIRCA SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3634	U80300TG2014PTC093642	VAYUPUTRA EDU CORP PRIVATE LIMITED
3635	U74900TG2014PTC093646	BRAND IMAGE OOH MEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
3636	U74140AP2014PTC093647	TALENTPINE CONSULTANCY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
3637	U65923TG2014PTC093649	DEVARSHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
3638	U63090AP2014PTC093651	LAKSHMI VENKETESHWARA TOURS & TRAVELS PVT LTD
3639	U45200AP2014PTC093654	BHOOMI PUTRA HOUSING INDIA PRIVATE LIMITED
3640	U45200AP2014PTC093655	AALYA BUILDERS PRIVATE LIMITED
3641	U72200AP2014PTC093657	IZEAL INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3642	U72200TG2014PTC093658	UDDESH SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3643	U52100TG2014PTC093666	SMILEION MEDICARE PRIVATE LIMITED
3644	U41000AP2014PTC093670	JENGU WATER PRIVATE LIMITED
3645	U24100TG2014PTC093671	VENDANTAE AUTOMATION AND SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3646	U45205AP2014PTC093672	KATTA CONSTRUCTIONS AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3647	U93000TG2014PTC093673	ANJANLAKSHMI CORPORATION PRIVATE LIMITED
3648	U74120AP2014PTC093675	BR TRADEMART PRIVATE LIMITED
3649	U45200TG2014PTC093677	7 HILLS CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3650	U17120TG2014PTC093679	MAHASAI TEXTILES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3651	U72200TG2014PTC093681	LORGAN TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
3652	U45200AP2014PTC093684	TALASILA CIVIL & STRUCTURAL PRIVATE LIMITED
3653	U72200TG2014PTC093685	VISLAB IT SERVICES PRIVATE LIMITED
3654	U72200AP2014PTC093687	YB ANALYTICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3655	U51909AP2014PTC093688	NESTHAM IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
3656	U74900TG2014PTC093691	CLIFTON HR SERVICES PRIVATE LIMITED
3657	U74900AP2014PTC093693	IBRA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
3658	U52399TG2014PTC093697	TEAM INDIA FAST MOVING GOODS PRIVATE LIMITED
3659	U74900AP2014PTC093699	VAISHMITA POLYMERS PRIVATE LIMITED
3660	U72200TG2014PTC093700	SWETHA IT SERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3661	U51397AP2014PTC093702	PRV PHARMA PRIVATE LIMITED
3662	U40103AP2014PTC093704	PADMARKA ECO ENERGIES PRIVATE LIMITED
3663	U63090TG2014PTC093711	DIVINE TRAVEL REWARDS PRIVATE LIMITED
3664	U24232TG2014PTC093713	TRIVIA PHARMACEUTICAL INDIA PRIVATE LIMITED
3665	U22120AP2014PTC093714	SAMARA SANKHAM MEDIAS PRIVATE LIMITED
3666	U63090TG2014PTC093715	GREENCAMINO RIDESHARE INDIA PRIVATE LIMITED
3667	U72400TG2014PTC093719	GSB INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3668	U72200TG2014PTC093722	KAPOW IDEAS MARKETING PRIVATE LIMITED
3669	U74900TG2014PTC093723	SHUBHAM RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
3670	U80904TG2014PTC093726	INTEGRATED INSTITUTE OF MERCHANT NAVY PRIVATE LIMITED
3671	U72400TG2014PTC093727	MAS IT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
3672	U52599TG2014PTC093728	METRO HOME DELIVERY INDIA PRIVATE LIMITED
3673	U73100TG2014PTC093729	BADEPAA SUPER MARKET PRIVATE LIMITED
3674	U36912AP2014PTC093730	KUNDANIKA GOLD JEWELS PRIVATE LIMITED
3675	U31908TG2014PTC093734	VOLTRON SOLAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3676	U92412AP2014PTC093735	ALANANNA CREATIONS PRIVATE LIMITED
3677	U74900TG2014PTC093736	BOLLYHOLLY MEDIA PRIVATE LIMITED
3678	U55203TG2014PTC093738	SRS NUTRITION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3679	U70102AP2014PTC093740	SHREEM HOMES PRIVATE LIMITED
3680	U14220TG2014PTC093742	KVC MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
3681	U72200TG2014PTC093743	F8 SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3682	U45200TG2014PTC093745	GRACE'S NEED INNFRM PRIVATE LIMITED
3683	U14200TG2014PTC093747	ARK ROCKS EXPORTS PRIVATE LIMITED
3684	U15122AP2014PTC093748	CHEVURU INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3685	U22222TG2014PTC093750	BHASKAR OFFSET PRINTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3686	U72200TG2014PTC093751	MDM INFORMATIX PRIVATE LIMITED
3687	U51109TG2014PTC093753	SAIKRUPA SPICE COMMODITIES PRIVATE LIMITED
3688	U40106AP2014PTC093754	KURRUS SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
3689	U51495TG2014PTC093755	NIRUPAM POLYMERS PRIVATE LIMITED
3690	U14200TG2014PTC093760	NIKUNJ ROCKS PRIVATE LIMITED
3691	U60231TG2014PTC093761	BAMEL ROADWAYS PRIVATE LIMITED
3692	U85191TG2014PTC093762	HYDERABAD SLIMMING X PRESS PRIVATE LIMITED
3693	U72200TG2014PTC093763	CARBON SOFT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3694	U65992AP2014PTC093767	SUBBOJI CHITS PRIVATE LIMITED
3695	U45200TG2014PTC093769	THE BLUEOAK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3696	U72200TG2014PTC093771	CITANUM SOFT PRIVATE LIMITED
3697	U72200TG2014PTC093776	CAPCON NOVIGO IT SERVICES PRIVATE LIMITED
3698	U40102TG2014PTC093782	SOLIS ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3699	U72400TG2014PTC093785	TECHNOGEMS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3700	U74910TG2014PTC093787	RECCON STAFFING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3701	U74900TG2014PTC093790	MANA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3702	U45203TG2014PTC093799	SWASTHALAM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3703	U72400AP2014PTC093800	SHREEMAYI EDUTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
3704	U01403AP2014PTC093804	AVM DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3705	U80302TG2014PTC093811	DNB MEDICAL COLLEGE PRIVATE LIMITED
3706	U85100TG2014PTC093812	DNB DEVA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
3707	U72200AP2014PTC093813	SUNITHA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3708	U72200TG2014PTC093815	MILLION IT PIXELS PRIVATE LIMITED
3709	U72200TG2014PTC093816	VIDCUN IT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3710	U85100TG2014PTC093823	NOWCURE PHARMA PRIVATE LIMITED
3711	U72200TG2014PTC093827	NETSOFTXPERTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3712	U52310TG2014PTC093831	EVOLUTION REHAB CARE PRIVATE LIMITED
3713	U74920TG2014PTC093834	WARIER PROTECTION GUARD PRIVATE LIMITED
3714	U52341AP2014PTC093835	H&C SUPPLIERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
3715	U72400TG2014PTC093838	DEALT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3716	U13209AP2014PTC093839	RSN EXIM PRIVATE LIMITED
3717	U72400TG2014PTC093842	AMIGOSCUBE IT PRIVATE LIMITED
3718	U15122TG2014PTC093843	LEPIDUS FOODS PRIVATE LIMITED
3719	U72400TG2014PTC093848	NCYCLO DECISION SCIENCES PRIVATE LIMITED
3720	U74910TG2014PTC093851	SRZ PLACEMENT AND ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3721	U72200TG2014PTC093854	VEDVIK SOFTWARE R & D LABS PRIVATE LIMITED
3722	U72200AP2014PTC093855	ROCKOWL INTERACTIVE PRIVATE LIMITED
3723	U24233TG2014PTC093858	PRIYA GREEN BIOTECH PRIVATE LIMITED
3724	U14200TG2014PTC093859	MINERAL ON GROUND PRIVATE LIMITED
3725	U45209TG2014PTC093861	DHATHRIKA BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
3726	U40108TG2014PTC093862	BPR PROJECTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
3727	U80301TG2014PTC093864	KOOLSTUDENT INDIA PRIVATE LIMITED
3728	U25203AP2014PTC093865	SHREEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3729	U37100AP2014PTC093866	SKYWARD REPROCESS PRIVATE LIMITED
3730	U72400TG2014PTC093869	MANKENA AND SHADAGONDA TECHLOGICS PVT LTD
3731	U52390TG2014PTC093874	EBOX AUTOMATED RETAIL PRIVATE LIMITED
3732	U29119TG2014PTC093880	MUKTAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3733	U92490TG2014PTC093881	RIPPLES EVENTS & ENTERTAINMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
3734	U45200AP2014PTC093882	GREEN OCEAN INFRA PRIVATE LIMITED
3735	U92412TG2014PTC093885	SIVASAGAR CINE STUDIOS PRIVATE LIMITED
3736	U72400TG2014PTC093887	SCG SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3737	U72400TG2014PTC093888	RULEFREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3738	U52100TG2014PTC093891	PACHARI SUPER MARKETS PRIVATE LIMITED
3739	U15122TG2014PTC093892	NFC FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
3740	U25209AP2014PTC093895	SHREEM PLAS-PACK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3741	U40107TG2014PTC093900	VRS POWER PRIVATE LIMITED
3742	U74900AP2014PTC093901	AEGIS PRAGATHI PRODUCER COMPANY LIMITED
3743	U72900TG2014PTC093902	JBB BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3744	U74120TG2014PTC093908	MOTHERLAND MEDIA PRIVATE LIMITED
3745	U80904TG2014PTC093910	INSTITUTE OF FINE TUNING AND CONSULTING (I) PRIVATE LIMITED
3746	U26960AP2014PTC093911	VR SPECIALTY MINERALS PRIVATE LIMITED
3747	U74140TG2014PTC093918	CONFYSOL PRIVATE LIMITED
3748	U72200TG2014PTC093919	AUTOSPINZ PRIVATE LIMITED
3749	U74900TG2014PTC093921	SAM BROADBAND PRIVATE LIMITED
3750	U01407TG2014PTC093926	MAALITHA HYBRID SEEDS PRIVATE LIMITED
3751	U55101TG2014PTC093928	SHANMUKHA FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED
3752	U26999AP2014PTC093930	AISHWARYA ECO INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED
3753	U01403TG2014PTC093932	SRI KANAKA DURGA KISAN FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3754	U93030TG2014PTC093935	ASV EUROPA SECURITY PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3755	U24211TG2014PTC093937	LASHRITA BIO TECH PRIVATE LIMITED
3756	U45209TG2014PTC093939	VR ELEMENTS TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
3757	U74900TG2014PTC093945	MITTA BALU INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3758	U93000TG2014PLC093947	VAARADHI MEDIA HOUSE LIMITED
3759	U51909TG2014PTC093951	AROHAH CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED
3760	U01407TG2014PTC093954	MAHA RYTHU RESOURCES AND UDYANS PRIVATE LIMITED
3761	U33110AP2014PTC093957	BARKER LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3762	U72200AP2014PTC093962	OM AGRONOMIC TECHNOLOGY SOLUTIONS (OATS) PRIVATE LIMITED
3763	U45209TG2014PTC093963	EXCELLENT EDIFICE PRIVATE LIMITED
3764	U25209TG2014PTC093966	CAPX PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3765	U45209TG2014PTC093967	SWAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3766	U74140AP2014PTC093979	WARBLESYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3767	U72200TG2014PTC093982	KUDUMULA'S INFO PRIVATE LIMITED
3768	U74900TG2014PTC093984	TELANGANA HOMELAND RESOURCES DEVELOPING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3769	U93000TG2014PTC093985	TOPSTAR FACILITY MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
3770	U14211TG2014PTC093986	MAHA MINERALS AND MINING PRIVATE LIMITED
3771	U74900TG2014PTC093988	TAHIYAH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3772	U29242TG2014PTC093991	SRI SAI CONVEYORS PRIVATE LIMITED
3773	U52399TG2014PTC093993	MAHALAKSHMIJAISH IMPEX PRIVATE LIMITED
3774	U45203AP2014PTC093997	CLARION BUILDCON INDIA PRIVATE LIMITED
3775	U92412TG2014PTC093998	RAJARAM FILM AND TELEVISION ACADEMY PRIVATE LIMITED
3776	U45207AP2014PTC093999	RAJAMPET INFRACON PRIVATE LIMITED
3777	U52100TG2014PTC094000	RYTSHOP ECOMMERCE PRIVATE LIMITED
3778	U01403AP2014PTC094002	SRINIVASULU REDDY FEEDS AND PRODUCTS PVT LTD
3779	U52100TG2014PTC094004	VARENYA BUSINESS SOLUTION PRIVATE LIMITED
3780	U01403TG2014PTC094006	SRI VISHNU BIO FUELS PRIVATE LIMITED
3781	U74999TG2014PTC094008	BROADWAY ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
3782	U51101AP2014PTC094010	KARB KWELN PRIVATE LIMITED
3783	U74900TG2014PTC094014	FIRST LEAF AGRI BUSINESS PRIVATE LIMITED
3784	U33110AP2014PTC094021	RAGA LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3785	U40106TG2014PTC094024	MAHA SURABHI MEDIA PRIVATE LIMITED
3786	U74120TG2014PTC094026	SEEK CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
3787	U72200TG2014PTC094029	ELYSIUM IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3788	U74999AP2014PTC094034	KRIPI CHEMICALS AND SOLVENTS PRIVATE LIMITED
3789	U74120TG2014PTC094036	SSL POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3790	U55101TG2014PTC094037	ELITE HOUSEKEEPING SERVICESES PRIVATE LIMITED
3791	U74120TG2014PTC094039	CARZOL AUTO SERVICES PRIVATE LIMITED
3792	U34200AP2014PTC094041	SRI RAJABABU AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
3793	U40102AP2014PTC094042	PRORITA SOLAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3794	U74900AP2014PTC094045	NEXUS-RIHBS BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED
3795	U72200TG2014PTC094050	MARVEL CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3796	U45400AP2014PTC094053	GURU SAI DATTA STRUCTURAL ENGINEERS PVT LTD
3797	U72200TG2014PTC094056	MAHIMANWITA INFORMATION TECHNOLOGIES PVT LTD
3798	U37200TG2014PTC094062	RAJKOS SWM PRIVATE LIMITED
3799	U74900TG2014PTC094063	HANSA SECURITY AND FACILITY SERVICES PVT LTD
3800	U45200TG2014PTC094071	VEEKSHITH TECH PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3801	U70100AP2014PTC094074	SRIVARI INFRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3802	U74900TG2014PTC094080	BMAM IMPEX PRIVATE LIMITED
3803	U74140TG2014PTC094081	INNOVATIVE MINDS ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
3804	U74140TG2014PTC094083	ACHYUTHA CREATIONS PRIVATE LIMITED
3805	U74200TG2014PTC094084	YTK OFFCOMMTECH PRIVATE LIMITED
3806	U74120TG2014PTC094085	VEDIC CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
3807	U65190AP2014PTC094088	KOLLEBOYINA MALLIKARJUNA RAO CHIT FUNDS PVT LTD
3808	U22222AP2014PTC094089	KMR PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3809	U74900TG2014PTC094091	SS NEUTRIMAX PRIVATE LIMITED
3810	U72200AP2014PTC094103	DIAL 4 ZILLA INFORMATION SERVICES PVT LTD
3811	U72200AP2014PTC094105	ROWEL SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3812	U72200TG2014PTC094106	CLOUD RICEFW TECH PRIVATE LIMITED
3813	U45200TG2014PTC094107	POLSTAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
3814	U51101TG2014PTC094113	SHREYAS EXIM TRADING PRIVATE LIMITED
3815	U45200AP2014PTC094117	REVATHI HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
3816	U72200TG2014PTC094118	WEBOTEC INTERACTIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3817	U40102TG2014PTC094120	VCRL - PVK GENERATIONS PRIVATE LIMITED
3818	U74900AP2014PTC094122	EXPLORATION GEOLOGICAL SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3819	U74120TG2014PTC094123	SAFECO PROPERTIES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3820	U74900AP2014PTC094134	CHE HATKE ONLINE FACILITATORS PRIVATE LIMITED
3821	U51101TG2014PTC094136	VIHANA PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
3822	U74900TG2014PTC094137	BVP BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3823	U92412TG2014PTC094138	BOUNCE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3824	U74900TG2014PTC094139	ALTRA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3825	U74900TG2014PTC094141	CREATIVEMAX CHITS PRIVATE LIMITED
3826	U51101TG2014PTC094143	COMMLOCUS EXIM PRIVATE LIMITED
3827	U74900TG2014PTC094144	SCORPIO STEM CELL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3828	U72200AP2014PTC094148	SATTWICA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3829	U40102TG2014PTC094149	JAGAT KANTI ENERGY PRIVATE LIMITED
3830	U72200TG2014PTC094152	ESKALLANT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3831	U17120TG2014PTC094155	R5 APPARELS PRIVATE LIMITED
3832	U29253TG2014PTC094157	UNIQUE DAIRYTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3833	U72200AP2014PTC094158	CAGEY TECH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3834	U74900TG2014PTC094168	VIDURA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
3835	U70102AP2014PTC094170	SRI KHADRI LAKSHMI NARASIMHA FARMS & ESTATES PRIVATE LIMITED
3836	U31908TG2014PTC094171	PROTEAS SOLAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3837	U72300AP2014PTC094174	COTE SOFT WARE INDIA PRIVATE LIMITED
3838	U74120TG2014PTC094177	ONE FORCE DIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED
3839	U33111TG2014PTC094180	PARAGON AQUATECH PRIVATE LIMITED
3840	U72200TG2014PTC094183	DELTECHNO SOFT PRIVATE LIMITED
3841	U52206AP2014PTC094188	VODALIFE WATER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3842	U72200TG2014PTC094190	VSYMANTIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3843	U01403TG2014PTC094193	REDDY'S POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
3844	U72300TG2014PTC094195	BA PRAGNYA CONSULTING PRIVATE LIMITED
3845	U45200TG2014PTC094197	MIDHUNA VANAM PRIVATE LIMITED
3846	U70102TG2014PTC094198	SOUBHAGYA PAVITHRA BHOOMI TOWNSHIPS PVT LTD
3847	U18204AP2014PTC094200	JK T.SHIRTS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3848	U74200TG2014PTC094202	LAKSHSARA WELLNESS PRIVATE LIMITED
3849	U45209AP2014PTC094206	VENKATA VIJAYA SAI INFRA PRIVATE LIMITED
3850	U64100TG2014PTC094208	STREFA INNOVATIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
3851	U15122TG2014PTC094214	IAGRI FOODS PRIVATE LIMITED
3852	U74120TG2014PTC094215	IMES INDIA PRIVATE LIMITED
3853	U51101AP2014PTC094220	RAPIDSPEED TRADING PRIVATE LIMITED
3854	U52100TG2014PTC094222	TAWAKKAL POWER SOLUTIONS AND AUTO PARTS PVT LTD
3855	U74120TG2014OPC094223	OCTOPUS GEO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3856	U24100TG2014PTC094226	MSA LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3857	U22222TG2014PTC094227	CHEBROLU ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3858	U22222TG2014PTC094229	CSB ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3859	U22222TG2014PTC094230	VENDITHERA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3860	U74900TG2014PTC094232	LAKSHSARA ORIGIN PRIVATE LIMITED
3861	U72400TG2014PTC094234	GAGSAMICO ECOMMERCE PRIVATE LIMITED
3862	U24232TG2014PTC094235	MITKAN PHARMA CATALYST PRIVATE LIMITED
3863	U74900TG2014PTC094238	NABHI TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
3864	U72400TG2014PTC094240	OFFICIUM SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3865	U45206TG2014PTC094243	AJWA ELEVATORS INDIA PRIVATE LIMITED
3866	U72200TG2014PTC094247	VSTEP INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
3867	U01403TG2014PTC094256	RUI AGRI FARMS PRIVATE LIMITED
3868	U51909TG2014PTC094259	CRYSTALARC IMPEX PRIVATE LIMITED
3869	U74920AP2014PTC094260	INDIAN SECURITY FORCE SERVICES PRIVATE LIMITED
3870	U74900AP2014PTC094264	CHITRA SVITA IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
3871	U10100TG2014PTC094267	A J MINING INDIA PRIVATE LIMITED
3872	U72200TG2014PTC094270	TSR IQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3873	U92412TG2014PTC094271	MOURYA PROMOTIONS PRIVATE LIMITED
3874	U74900TG2014PTC094502	KRISH DIRECT 2 HOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3875	U64100TG2014PTC094504	FIBER FAST NETWORKS PRIVATE LIMITED
3876	U24233AP2014PTC094508	APEX HYGINE PRODUCTS(INDIA) PRIVATE LIMITED
3877	U70109AP2014PTC094512	INKOR VENTURES (I) PRIVATE LIMITED
3878	U74900AP2014PTC094516	AAHVANAM FOODS AND EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3879	U72200TG2014PTC094517	PNP FASTTRACK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3880	U85100AP2014PTC094518	DILIGENS HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3881	U72900AP2014OPC094521	DATTAMSHA TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3882	U45209TG2014PTC094524	PVM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3883	U45209AP2014PTC094525	RAJADHANI NAVA NIRMAN INDIA PRIVATE LIMITED
3884	U40102TG2014PTC094527	APPANNACHARYA SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
3885	U72900AP2014PTC094528	GAMERS HALT PRIVATE LIMITED
3886	U65992AP2014PTC094532	LAKSHYA SAHANA CHITS PRIVATE LIMITED
3887	U74140TG2014PTC094541	VAYNTURE POOLE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3888	U01403TG2014PTC094542	PRRASANNA HERBALS INDIA PRIVATE LIMITED
3889	U72200AP2014PTC094542	SUCCESSCUBES SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3890	U70102AP2014PTC094543	ADVANCED MYTHOLOGY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3891	U15122AP2014PTC094544	CHEETAH BREWERIES (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
3892	U01407TG2014PTC094545	SWARNA FARMS & FEEDS INDIA PRIVATE LIMITED
3893	U45209TG2014PTC094546	DWARAKA INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED
3894	U72200TG2014PTC094548	ROLLING EGGS INDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3895	U45209TG2014PTC094549	ACME EARTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3896	U22219AP2014PTC094556	RAAVI SMART PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3897	U72200TG2014PTC094557	I-ICON CORELOGIC PRIVATE LIMITED
3898	U65992AP2014PTC094560	GANATHA CHITS PRIVATE LIMITED
3899	U72400TG2014PTC094560	OPUS TECHNOLOGY SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3900	U51109TG2014PTC094563	
3901	U01407TG2014PTC094564	SHREYAS FEEDS & FARMS PRIVATE LIMITED
3902	U85195TG2014PTC094565	MEDIMARG WELLNESS PRIVATE LIMITED
3903	U72500TG2014PTC094567	ACE WORKSPACE PRIVATE LIMITED
3904	U72900AP2014PTC094567	LENDI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
3905	U72900AP2014PTC094570	UPAADHI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3906	U31900TG2014PTC094575	NVR POWER AIDS PRIVATE LIMITED
3907	U74300AP2014PTC094577	AMR ADVERTISING PRIVATE LIMITED
3908	U72400TG2014PTC094578	LAKSHSARA CREATIONS PRIVATE LIMITED
3909	U31900TG2014PTC094579	KAUMUDI ELECTRICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3910	U55204TG2014PTC094579	GALLINA'S FOODS PRIVATE LIMITED
3911	U24232TG2014PTC094581	BIOASTUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
3912	U72200TG2014PTC094584	ABTERMINAL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3913	U45200AP2014PTC094586	THIRUMALA INFRAENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
3914	U72200AP2014PTC094589	RONIT INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3915	U72200AP2014PTC094591	UNIK MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED
3916	U74900TG2014PTC094592	SAPTA HR SERVICES PRIVATE LIMITED
3917	U74910TG2014PTC094594	SIDDHAU JOBS INDIA PRIVATE LIMITED
3918	U74900TG2014PTC094595	JJ GREENS & SPORTS PRIVATE LIMITED
3919	U70200AP2014PTC094596	PEDRICK PROPERTIES INDIA PRIVATE LIMITED
3920	U01403TG2014PTC094597	TADUR FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3921	U92100TG2014PTC094598	MANJEERA MEDIA HOUSE PRIVATE LIMITED
3922	U01403TG2014PTC094599	KESHAMPET FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
3923	U51909TG2014PTC094606	PRP ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3924	U51101AP2014PTC094609	AKSHAYA AGRIEXPORT TRADERS PRIVATE LIMITED
3925	U74900AP2014PTC094611	GOPI KIRAN EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
3926	U51900AP2014PTC094614	DREAMCARE CONSUMER PRODUCTS MARKETING PRIVATE LIMITED
3927	U72900TG2014PTC094615	SSI BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3928	U74900TG2014PTC094616	ADVERTICA CONCEPTS PRIVATE LIMITED
3929	U45200AP2014PTC094617	B N V BUILDING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3930	U72200TG2014PTC094620	PARK INFORMATION SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
3931	U51909AP2014PTC094622	ORANGE RETAIL SALES PRIVATE LIMITED
3932	U72200TG2014PTC094623	RADICANT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3933	U74900AP2014PTC094624	BVANTAGE GLOBAL SMARTSOURCING PRIVATE LIMITED
3934	U74900AP2014PTC094625	BISRA CONSUMER CARE PRIVATE LIMITED
3935	U33111TG2014PTC094626	MATTOX BIOTECH PRIVATE LIMITED
3936	U72200TG2014PTC094630	VENTUREWISE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3937	U65992TG2014PTC094632	RISHIDUBEY CHITS PRIVATE LIMITED
3938	U24233AP2014PTC094633	S-KILARUZ BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED
3939	U63010TG2014PTC094633	SUJANAPRIYA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3940	U74900TG2014PTC094635	SREE SREE CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
3941	U72200TG2014PTC094636	DELIVING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3942	U74200TG2014PTC094639	INCLUTUS ENGINEERING AND SERVICES PVT LTD
3943	U72200TG2014PTC094640	SREENIKA SOFT TECH PRIVATE LIMITED
3944	U74900AP2014PTC094641	SARANAM GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3945	U80301TG2014PTC094641	MOORALE MENTORS PRIVATE LIMITED
3946	U72200TG2014PTC094643	PRIVANO TECH VENTURES PRIVATE LIMITED
3947	U72200TG2014PTC094644	RAIS TECHNO SOFT PRIVATE LIMITED
3948	U15122TG2014PTC094646	COLUMBUS HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3949	U45209TG2014PTC094649	PARVATHIDEVI SUPER STRUCTURES PRIVATE LIMITED
3950	U74140AP2014PTC094651	SWEETY BIOLOGICALS INDIA PRIVATE LIMITED
3951	U15122TG2014PTC094652	COFFEECOLA BEVERAGES INDIA PRIVATE LIMITED
3952	U80901AP2014PTC094655	INFINITE LIFE SKILLS PRIVATE LIMITED
3953	U24233TG2014PTC094656	EMERGENT LABORATORIES PRIVATE LIMITED
3954	U45200TG2014PTC094658	VICTORIAN PROJECTS PRIVATE LIMITED
3955	U45209AP2014PTC094659	AXISONE MARINE & OFFSHORE INDIA PRIVATE LIMITED
3956	U74900AP2014PTC094660	PPL BROADCASTING PRIVATE LIMITED
3957	U40106TG2014PTC094662	TGP SOLAR & INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
3958	U72200AP2014PTC094663	SAMDUDE INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
3959	U45400AP2014PTC094666	SRI SAI VISHANTH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3960	U72200AP2014PTC094667	RAMA TECHNO-FUNCTIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3961	U29268TG2014PTC094669	BMH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3962	U74900AP2014PTC094669	BREEZE HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3963	U21098AP2014PTC094671	MNP PAPER PRODUCT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3964	U74900TG2014PTC094671	NO.1 ROAD RUNNERS PRIVATE LIMITED
3965	U72900TG2014OPC094672	ARCJUN SYSTEMS PRIVATE LIMITED (OPC)
3966	U60200TG2014PTC094674	SIMCAB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3967	U74992AP2014PTC094675	NCR HOLDINGS PRIVATE LIMITED
3968	U72200AP2014PTC094678	WESTERNOCEAN CONSULTING PRIVATE LIMITED
3969	U65924TG2014PTC094679	MAREDDI FORTUNES PRIVATE LIMITED
3970	U74140AP2014PTC094679	KIRPAL BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3971	U01403AP2014PTC094681	KONASEEMA SEEDS PRIVATE LIMITED
3972	U24100TG2014PTC094681	TMI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
3973	U40107AP2014PTC094682	GREENGLOBE POWER & ENERGY SOLUTIONS PVT LTD
3974	U72900TG2014PTC094682	CERIUM ANIMATION PRIVATE LIMITED
3975	U74900AP2014PTC094683	JADE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3976	U01400TG2014PTC094684	BHUSEVA FOODS PRIVATE LIMITED
3977	U74900AP2014PTC094685	SDK BEVERAGES PRIVATE LIMITED
3978	U45209TG2014PTC094685	INFRAMAX HOUSING (INDIA) PRIVATE LIMITED
3979	U63090AP2014PTC094691	CITY FREIGHTS PRIVATE LIMITED
3980	U85100AP2014PTC094692	AVEKSHA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
3981	U74210TG2014PTC094693	LORVEN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3982	U72200TG2014PTC094694	ALIZA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3983	U72200TG2014PTC094696	CHAT PRO PRIVATE LIMITED
3984	U74140TG2014PTC094698	TRIYOKARE PHARMA PRIVATE LIMITED
3985	U72200AP2014PTC094699	LENOSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3986	U31908AP2014PTC094700	SRI MANOGNA POWER AND ENERGY SOLUTIONS PVT LTD
3987	U40104TG2014PTC094702	STRING POWER INNOVATIVES PRIVATE LIMITED
3988	U01407AP2014PTC094704	GARAPATI GREEN FIELDS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
3989	U74900TG2014PTC094707	RAPHA EXIM PRIVATE LIMITED
3990	U45209AP2014PTC094710	VIJAY KIRAN PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3991	U15495AP2014PTC094711	SHRINIDHI NUT PROCESSING PRIVATE LIMITED
3992	U72200TG2014PTC094711	SLJ CONSULTANT SERVICES(IT&HR) PRIVATE LIMITED
3993	U55101TG2014PTC094713	SVTP ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3994	U52399TG2014PTC094715	RAISE INDIA SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED
3995	U74900AP2014PTC094715	PEGA BROADCASTING PRIVATE LIMITED
3996	U80212AP2014PTC094717	REYNOLDS INTERNATIONAL INSTITUTIONS PVT LTD
3997	U14293TG2014PTC094719	RATNAVEER MINING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3998	U14220TG2014PTC094720	PROVENTURE MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
3999	U40103TG2014PTC094722	PAMAR SOLAR POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
4000	U52390TG2014PTC094723	ABHISHEK RETAIL ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
4001	U74900AP2014PTC094724	EQUIPY HUMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED
4002	U27310AP2014PTC094725	MORPHOSIS STEELS PRIVATE LIMITED
4003	U24232TG2014PTC094726	BLR BIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4004	U74900TG2014PTC094727	LEARNALL EDUPEDIA PRIVATE LIMITED
4005	U72200TG2014PTC094729	SHRI UDAYBHAN SINGH SIKARWAR SOFTWARE PRIVATE LIMITED
4006	U72200TG2014PTC094730	FORBIDDEN CYBER INDIA PRIVATE LIMITED
4007	U15510AP2014PTC094732	AQUA REFRESH PRIVATE LIMITED
4008	U63040TG2014PTC094732	RISING HOLIDAY SERVICE ENTREPRENEURS PVT LTD
4009	U50102TG2014PTC094733	AVR HEAVY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
4010	U32209AP2014PTC094737	GRAMEENA DIGITAL CABLE T V NETWORK PRIVATE LIMITED
4011	U74900TG2014PTC094737	10DIAL.COM PRIVATE LIMITED
4012	U74900TG2014PTC094739	HEALTH FLY PRIVATE LIMITED
4013	U74140TG2014PTC094741	Y & D MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
4014	U72200AP2014PTC094742	BLUJAY SOFT PRIVATE LIMITED
4015	U55204AP2014PTC094748	MANDATI MAHIDHAR HOTELS PRIVATE LIMITED
4016	U72400TG2014PTC094749	AMIGOS ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
4017	U51103AP2014PTC094751	MEETHU EXPORTS AND IMPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
4018	U74200TG2014PTC094751	PAIVA ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4019	U80300TG2014PTC094753	IMAGINELIFE EDU PRIVATE LIMITED
4020	U74900TG2014PTC094755	DAEMON CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
4021	U74900TG2014PTC094757	18 REELS ENTERTAINMENT AND MEDIA PRIVATE LIMITED
4022	U72900TG2014PTC094759	99 TRAININGS PRIVATE LIMITED
4023	U74120AP2014PTC094760	AADILAKSHMI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
4024	U74140TG2014PTC094760	GLOBALLIANCE BUSINESS NETWORK & EDUCATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4025	U29268AP2014PTC094761	SUJASHA NAVACHAR TECHNOLOGIES AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
4026	U74300TG2014PTC094764	GLOBAL IMAGINATION PRIVATE LIMITED
4027	U72200AP2014PTC094768	MICROENLIVEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4028	U45200AP2014PTC094769	ARTISTRY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
4029	U72200TG2014PTC094769	ENTERPRISE SOLUTIONS360 PRIVATE LIMITED
4030	U15122TG2014PTC094771	KISS FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
4031	U72200TG2014OPC094772	EBEE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
4032	U72200TG2014PTC094773	CATON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4033	U72200TG2014PTC094774	ISHANI SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4034	U74900TG2014PTC094775	KALYAN'S BIG CAR CAFFE PRIVATE LIMITED
4035	U67100TG2014PTC094777	CHERISH CAPITAL PRIVATE LIMITED
4036	U72100TG2014PTC094779	SNIGDA SYSTEMS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4037	U45209AP2014PTC094780	MAK ABODES PRIVATE LIMITED
4038	U63030TG2014PTC094782	LAWA BUSINESS NEEDS PRIVATE LIMITED
4039	U72300AP2014PTC094782	RIGHT SPOT SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
4040	U40106AP2014PTC094785	MATHI SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
4041	U74900TG2014PTC094786	VINIMAI BROADCASTING PRIVATE LIMITED
4042	U67190TG2014PTC094791	JAI PRAJWAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
4043	U45200AP2014PTC094794	SRIVARI AVENUES (INDIA) PRIVATE LIMITED
4044	U74999TG2014PTC094796	AVADH PROTECTION AND FACILITY SERVICES PVT LTD
4045	U45200AP2014PTC094796	K V S N RAJU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
4046	U40102TG2014PTC094799	BLR ENERGY PRIVATE LIMITED
4047	U01403TG2014PTC094802	PRAVESREE AGRITECH FARMS PRIVATE LIMITED
4048	U13202AP2014PTC094802	ULLIKALLU DOLAMITE MINE PRIVATE LIMITED
4049	U72900TG2014PTC094803	ROBAND SONICS PRIVATE LIMITED
4050	U55101TG2014PTC094804	RISING SUN CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
4051	U15122AP2014PTC094811	JANMABOOMI FOODS IMPORTS & EXPORTS PVT LTD
4052	U72300TG2014PTC094816	NK BUSINESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
4053	U01403AP2014PTC094817	ACE DRIP IRRIGATION PRIVATE LIMITED
4054	U10300AP2014PTC094819	WARRUN PETRO CHEM INDIA PRIVATE LIMITED
4055	U72200TG2014PTC094819	SCHARF SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4056	U72200TG2014PTC094822	GREET IN TIME ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
4057	U40300TG2014PTC094823	UJWALA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
4058	U45200AP2014PTC094823	PRANAVITA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
4059	U55101AP2014PTC094825	INDIAN CONVENTION CENTER PRIVATE LIMITED
4060	U35100TG2014PTC094826	ACE MODULAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4061	U22200TG2014PTC094829	POSITIVEWAVE MEDIA PRIVATE LIMITED
4062	U72200AP2014PTC094829	KSK ONLINE TECH PRIVATE LIMITED
4063	U65910TG2014PTC094830	BILVANI CHITS INDIA PRIVATE LIMITED
4064	U72200TG2014PTC094834	ZIFY TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4065	U72200TG2014PTC094835	LACIS LABS PRIVATE LIMITED
4066	U74999TG2014PTC094836	IBRAM GLOBAL FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
4067	U72200TG2014PTC094837	BLR INFO PRIVATE LIMITED
4068	U72300AP2014PTC094838	SLP MICROSYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
4069	U74900TG2014PTC094841	PRIKI HR SERVICES PRIVATE LIMITED
4070	U72200TG2014PTC094843	ASSETS WATCH PRIVATE LIMITED
4071	U45200AP2014PTC094844	LCC INFRATECH PRIVATE LIMITED
4072	U72200TG2014PTC094846	KOTAS TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4073	U24211AP2014PTC094848	LILAC BIOTECH PRIVATE LIMITED
4074	U72300TG2014OPC094848	FORSCHER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4075	U72200TG2014PTC094852	PAYHAWKS MOBILE LABS PRIVATE LIMITED
4076	U65923TG2014PTC094856	ASMITHA CHITS PRIVATE LIMITED
4077	U74900AP2014PTC094857	SRIKANTH BROADCASTING PRIVATE LIMITED
4078	U45200TG2014PTC094859	BHAGAVATHI AVENUE INFRA PRIVATE LIMITED
4079	U74900TG2014PTC094863	GMSR MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
4080	U23203AP2014PTC094864	INDU PYROLYSIS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4081	U72200TG2014PTC094864	BANSAL ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
4082	U70102TG2014PTC094865	SIRI CHANDANAA INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
4083	U72200TG2014PTC094868	SOFTPIE IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
4084	U85195AP2014PTC094868	BMC HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
4085	U15400TG2014PTC094872	BUTTERNUT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4086	U70102AP2014PTC094876	KUMUDA VENTURES (INDIA) PRIVATE LIMITED
4087	U74900AP2014PTC094877	VARTULAN INFO & MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
4088	U72900AP2014PTC094879	AVR ANIMATIONS PRIVATE LIMITED
4089	U72900AP2014PTC094881	I CAREER CRAFT IT SERVICES AND BUSINESS PVT LTD
4090	U72900TG2014PTC094882	AMOEBA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4091	U93000TG2014PTC094884	VIVID HR SERVICES PRIVATE LIMITED
4092	U74900TG2014PTC094885	REALTYSHIELD SERVICES PRIVATE LIMITED
4093	U15490TG2014PTC094886	SUN AGRO OIL REFINERIES PRIVATE LIMITED
4094	U72200AP2014PTC094886	AKTIS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4095	U74999AP2014PTC094887	INTEGRIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4096	U01403AP2014OPC094888	ARIMILLI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
4097	U74991TG2014PTC094888	VOORA WEB TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
4098	U72200TG2014PTC094889	SRI VISHNUPRIYA SOFTWARE SOLUTIONS PVT LTD
4099	U74900AP2014PTC094891	SRI SURYA WORKFORCE AND OUTSOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED
4100	U74140TG2014PTC094892	NISHA PROPERTY MANAGEMENT AND MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
4101	U74991TG2014PTC094895	TRISHNA HR SERVICES PRIVATE LIMITED
4102	U14220AP2014PTC094900	KAMADHENU STONES AND MARBLES PRIVATE LIMITED
4103	U72200TG2014PTC094900	PRAISE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4104	U22120AP2014OPC094903	ADHYAYANA PUBLISHING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4105	U72200TG2014PTC094904	ADITYA NIPUNA TECH SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
4106	U51909AP2014PTC094908	KONASEEMA TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
4107	U51900TG2014PTC094912	DIMPLESRI TRADERS PRIVATE LIMITED
4108	U74900AP2014PTC094916	LENIMENTUS CONSULTING PRIVATE LIMITED
4109	U37100AP2014PTC094917	ECO RESTATE PRIVATE LIMITED
4110	U40102TG2014PTC094918	ANKAM SOLAR ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4111	U74900AP2014PTC094921	RELIABLE TRANSFORMER SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
4112	U72200TG2014PTC094922	SARAYODHA SOFTECH INDIA PRIVATE LIMITED
4113	U72200TG2014PTC094926	AIRTRANS SDA PRIVATE LIMITED
4114	U15100AP2014OPC094927	QUANTUM AUTOMOTIVE TRADERS PRIVATE LIMITED
4115	U72200TG2014PTC094933	ACCESS IIT LEARNING PRIVATE LIMITED
4116	U74991AP2014PTC094933	ONE47 ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
4117	U74991AP2014PTC094934	GREENCAPITAL INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
4118	U51109AP2014PTC094935	SOORYA BLUES PRIVATE LIMITED
4119	U45200AP2014PLC094936	GOLDEN TREE TECHNO PARKS LIMITED
4120	U45200AP2014PTC094937	SATYA BALAJI ENGINEERING & CIVIL WORKS PVT LTD
4121	U72200TG2014PTC094937	V LINKS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4122	U72200AP2014PTC094938	CBG TRAINING PRIVATE LIMITED
4123	U72200TG2014PTC094942	LV PRINCIPLE SOFTTECH INDIA PRIVATE LIMITED
4124	U32109TG2014OPC094945	AERONET CABLE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
4125	U45200AP2014PTC094945	SREE LALITHAMBIKA INFRA PRIVATE LIMITED
4126	U74300TG2014PTC094946	FUTUREBRAINS PUBLICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4127	U63013TG2014PTC094948	LE LEMON LOGISTICS PRIVATE LIMITED
4128	U74900TG2014PTC094950	DZINECASA MEDIA PRIVATE LIMITED
4129	U52599TG2014PTC094952	A2Z GREEN GOODS PRIVATE LIMITED
4130	U55209AP2014PTC094955	KEERTHI INN PRIVATE LIMITED
4131	U74140AP2014PTC094956	STASYA ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
4132	U70102AP2014PTC094957	DWARAKA HOUSING PRIVATE LIMITED
4133	U72200TG2014PTC094957	GSVK SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4134	U52100AP2014PTC094958	SGK RETAIL ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
4135	U72200TG2014PTC094959	CHANDSA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4136	U72500TG2014PTC094960	KUBER BPO & MANAGED SERVICES PRIVATE LIMITED
4137	U74900TG2014PTC094961	KALINGA FACILITY SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
4138	U45208TG2014PTC094963	ZOOM FOUR INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4139	U72200AP2014PTC094964	PIXTARD TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4140	U25200AP2014PTC094968	HUE PROFILES PRIVATE LIMITED
4141	U74900AP2014PTC094969	BINARY INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4142	U65992AP2014PTC094970	FUTURE NEEDS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
4143	U24297TG2014PTC094971	SHAO-NAB CHEM (INDIA) PRIVATE LIMITED
4144	U72200AP2014PTC094971	RNDS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4145	U72200AP2014OPC094973	KRYPTTECH SOLUTIONS OPC PRIVATE LIMITED
4146	U17120AP2014PTC094974	SRI KANDULA VENKATESWARA REDDY COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
4147	U72200TG2014PTC094975	SONIT SOFTWARE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
4148	U32100TG2014PTC094977	AXTEL INDIA PRIVATE LIMITED
4149	U29253TG2014PTC094980	BLR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4150	U40300AP2014PTC094983	SRI MAHATRU SOLAR PRIVATE LIMITED
4151	U17291TG2014PTC094984	ANUPRIYA TEXTILE PRIVATE LIMITED
4152	U74140TG2014PTC094991	SYNERGY MOBILELINK INDIA PRIVATE LIMITED
4153	U17291AP2014PTC094993	LYDIA FASHION DESIGNERS PRIVATE LIMITED
4154	U85110TG2014PTC094993	SAI HARSHINI LIFECARE PRIVATE LIMITED
4155	U40102AP2014PTC094996	ARKAJA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
4156	U72200TG2014PTC094996	AXIOLOGICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4157	U45200TG2014PTC094997	MUKKAPATI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
4158	U74900AP2014PTC094997	DIAL ANDHRA SERVICES PRIVATE LIMITED
4159	U15410AP2014PTC094998	PALEM FOODS PRIVATE LIMITED
4160	U74900TG2014PTC094998	ASR DIGITALS PRIVATE LIMITED
4161	U74900TG2014PTC095000	V2V ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4162	U72100AP2014PTC095000	BHUVIA SOFTTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4163	U51101AP2014PTC095001	LION HEARTS EXIM PRIVATE LIMITED
4164	U74900TG2014PTC095001	VEERA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
4165	U74999AP2014PTC095002	VLIVE WIRE ADVISORS PRIVATE LIMITED
4166	U72400TG2014PTC095003	AKSHAYA GLOBAL INFORMATICS PRIVATE LIMITED
4167	U40108TG2014PTC095004	POSANPALLY POWER PRIVATE LIMITED
4168	U74900AP2014PTC095004	PIXEL LIGHTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4169	U72200TG2014PTC095006	APPMOTIVES IT SERVICES PRIVATE LIMITED
4170	U14200AP2014PTC095007	BONZER MINING PROJECTS PRIVATE LIMITED
4171	U74900TG2014PTC095008	SHREE GAYATREE TURBO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4172	U45400TG2014PTC095009	GACHIBOWLI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
4173	U74900TG2014PTC095011	IMAGESPEAK ADVERTISEMENTS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4174	U74140TG2014PTC095012	GENARCH CONSULTANCY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
4175	U80301AP2014PTC095016	KEI EDUCATION PRIVATE LIMITED
4176	U50100AP2014PTC095019	SRS MOTORS PRIVATE LIMITED
4177	U15137AP2014PTC095026	ARRIGO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4178	U72900TG2014PTC095030	IMEILLEUR WEBTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4179	U51900AP2014PTC095033	PALICHERLLA EXIM PRIVATE LIMITED
4180	U64110AP2014PTC095034	DVR DIGITAL COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
4181	U72300TG2014PTC095034	MADASU M2C SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4182	U74999AP2014OPC095035	SKYLINE CRANE ERECTORS PRIVATE LIMITED
4183	U72200AP2014PTC095037	DHANALAKSHMI DIGITAL SOFTWARE SYSTEMS PVT LTD
4184	U72400TG2014PTC095037	LIGHTBUG BPO PRIVATE LIMITED
4185	U74991TG2014PTC095038	DESCON PCS PRIVATE LIMITED
4186	U05000AP2014PTC095039	INDIGAE BIOTECH PRIVATE LIMITED
4187	U72900TG2014PTC095039	NAIPUNYA TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4188	U15400AP2014PTC095042	SHADANANA EMU PROCESSORS PRIVATE LIMITED
4189	U65923AP2014PTC095043	N S RAJ CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
4190	U45400TG2014PTC095044	CASTLE INFRAENGINEERS PRIVATE LIMITED
4191	U72200AP2014PTC095044	SARADHI TRANSFORCE PRIVATE LIMITED
4192	U72200TG2014PTC095045	TRILINGA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
4193	U51909AP2014PTC095046	CAYENAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED
4194	U72900TG2014PTC095049	RYBER TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
4195	U74120AP2014PTC095049	FLIPSIDE ADVERTISING PRIVATE LIMITED
4196	U74900AP2014PTC095054	YUVAN EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
4197	U72900TG2014PTC095056	VORTON TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4198	U01405AP2014PTC095060	ZEBEDEE EMU PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4199	U51101AP2014PTC095061	GENIAL CORPORATE INDIA PRIVATE LIMITED
4200	U74900TG2014PTC095063	CSS TECHNOPRENEURS PRIVATE LIMITED
4201	U74991AP2014PTC095065	RAVINS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4202	U93000TG2014PTC095068	YAHWEH MAN POWER SERVICES PRIVATE LIMITED
4203	U74900AP2014PTC095070	SHOW WIREZ MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
4204	U01403AP2014PTC095071	GUNTUR FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
4205	U74900TG2014PTC095071	CRESCENTO IT SERVICES PRIVATE LIMITED
4206	U72200TG2014PTC095072	PDP BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4207	U40300AP2014PTC095078	EARTH TO ENERGY POWER TECHNOLOGIES PVT LTD
4208	U72200AP2014PTC095079	ZRUSTI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4209	U74900AP2014PTC095082	APPLE CIVIL & INTERIORS PRIVATE LIMITED
4210	U15410AP2014PTC095083	VEGRO FOODS PRIVATE LIMITED
4211	U72200TG2014PTC095083	TRIO INFORMATICS INDIA PRIVATE LIMITED
4212	U15510TG2014PTC095088	SHOTZ BEVERAGES INDIA PRIVATE LIMITED
4213	U24232TG2014PTC095090	ALTIMA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
4214	U72200AP2014PTC095091	SODHANA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4215	U74900TG2014PTC095094	QUERENCIA EDU PRIVATE LIMITED
4216	U74900AP2014PTC095102	CONOK SERVICES PRIVATE LIMITED
4217	U45209AP2014PTC095103	DURALITE BRICKS PRIVATE LIMITED
4218	U52300TG2014PTC095104	ISHTA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
4219	U70100AP2014PTC095104	ANIL BABU BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
4220	U40102AP2014PTC095105	JS SOLAR POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4221	U80301TG2014PTC095107	MATHMAN EDUTECH PRIVATE LIMITED
4222	U72200AP2014PTC095108	CORPUS IT PRIVATE LIMITED
4223	U70102AP2014PTC095110	GEETESH HOUSING PRIVATE LIMITED
4224	U45200AP2014PTC095113	ASVA INFRATECH PRIVATE LIMITED
4225	U10300TG2014PTC095114	K V MINERALTECH PRIVATE LIMITED
4226	U85190AP2014OPC095115	GYM ZONE BETTER VALUE FITNESS PRIVATE LIMITED
4227	U74900TG2014PTC095116	TELANGANA SECURITY AND UTILITY SERVICES PVT LTD
4228	U01403AP2014OPC095118	SIRIJA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4229	U65992AP2014PTC095119	SRI LAKSHMI KALYAN CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
4230	U74900TG2014PTC095125	PATRI FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4231	U51909TG2014PTC095129	U & C BUSINESS CORPORATION PRIVATE LIMITED
4232	U22219AP2014PTC095130	DUTHALA PRINTERS PRIVATE LIMITED
4233	U63040TG2014PTC095132	MY OWN TRAVEL INDIA PRIVATE LIMITED
4234	U80901AP2014PTC095132	PORTENT CAREER SERVICES PRIVATE LIMITED
4235	U72200AP2014PTC095134	TAKE TWO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4236	U24233AP2014PTC095135	NIMISH PHARMA PRIVATE LIMITED
4237	U74140AP2014PTC095137	LEGEND INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
4238	U40101AP2014PTC095138	INFER SOLAR POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4239	U14220TG2014PTC095139	UNNATI METAMIN PRIVATE LIMITED
4240	U74900TG2014PTC095140	YUTE MEDIA LABS PRIVATE LIMITED
4241	U52390AP2014PTC095141	EKADANTHA SUPER BAZAAR PRIVATE LIMITED
4242	U70101TG2014PTC095144	ROYALINDIA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
4243	U70100AP2014PTC095145	ARCHONZ GLOBAL INFRATECH PRIVATE LIMITED
4244	U51909AP2014PTC095148	RAYS TRADE MART INDIA PRIVATE LIMITED
4245	U45400AP2014PTC095149	MANI SAI BUILDERS PRIVATE LIMITED
4246	U72200AP2014PTC095150	ANAGHADATTA IT CONSULTING SERVICES PVT LTD
4247	U24211TG2014PTC095153	KYAMA BIO CHEM PRIVATE LIMITED
4248	U74120AP2014PTC095154	FLITTERBLOOM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
4249	U51909AP2014OPC095157	LOYAL COMMODITIES PRIVATE LIMITED (OPC)
4250	U72900TG2014PTC095157	PENIEL GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4251	U72200AP2014PTC095158	G & P FINIT INFORMATIONS SERVICES PVT LTD
4252	U72200TG2014PTC095158	QUALERT SYSTECH PRIVATE LIMITED
4253	U45201AP2014PTC095160	YAH COURTS INFRA TECH PRIVATE LIMITED
4254	U72200TG2014PTC095160	ESCENDATA SOFTWARE LABS INDIA PRIVATE LIMITED
4255	U72200TG2014PTC095161	V V SOFTECH PRIVATE LIMITED
4256	U74200AP2014PTC095162	AKN REDDY VALUATORS PRIVATE LIMITED
4257	U40108TG2014PTC095164	VIRITAS ENERGY PRIVATE LIMITED
4258	U40105AP2014PTC095165	SRI DHANALAKSHMI SOLAR POWER SYSTEMS PVT LTD
4259	U74900AP2014PTC095169	SAI HEALING ARTS PRIVATE LIMITED
4260	U24232TG2014PTC095172	DBS SCIENTIFIC PRIVATE LIMITED
4261	U24232AP2014PTC095173	YELLOW PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
4262	U72200TG2014PTC095175	VIDOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4263	U01403TG2014PTC095176	MAHANANDI SEEDS PRIVATE LIMITED
4264	U55101AP2014PTC095177	GUNTUPALLI RESORTS PRIVATE LIMITED
4265	U72200AP2014PTC095178	EVEREST SMART DATA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4266	U72200TG2014PTC095181	PRAVIDARIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4267	U72200AP2014PTC095184	SMACVY SOFTWARE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4268	U72200TG2014PTC095184	CLINCH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
4269	U74900AP2014PTC095185	BERILLY AGRO INDIA PRIVATE LIMITED
4270	U74200TG2014PTC095185	SREE LANA ENGINEERS & VALUERS PRIVATE LIMITED
4271	U15400TG2014PTC095186	BESIM CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4272	U40200TG2014PTC095187	C & N INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
4273	U70100TG2014PTC095188	RADHAKRISHNA HOUSING (I) PRIVATE LIMITED
4274	U40108TG2014PTC095189	MAXWELL NATURAL ENERGIES PRIVATE LIMITED
4275	U29300TG2014PTC095192	DOVER LIFTS PRIVATE LIMITED
4276	U72200AP2014PTC095193	ZENETIC SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4277	U92190TG2014PTC095193	AAPKA TELEVISION PRIVATE LIMITED
4278	U65923TG2014PTC095196	REYKIN HOLDINGS PRIVATE LIMITED
4279	U51900TG2014PTC095200	5 ELEMENTS MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
4280	U72900TG2014PTC095204	ASUTOSA INFORMATICS PRIVATE LIMITED
4281	U74999TG2014PTC095211	VICTUS ORGANICS PRIVATE LIMITED
4282	U70100TG2014PTC095213	SAHITHI REALTORS PRIVATE LIMITED
4283	U19121TG2014PTC095214	R S K INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
4284	U24100TG2014PTC095215	PELCOAT FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
4285	U72900TG2014PTC095217	STYLESYOU IT SERVICES PRIVATE LIMITED
4286	U31400TG2014PTC095219	HAIFA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4287	U72200TG2014PTC095232	NARVI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4288	U40108TG2014PTC095235	AARES POWERGEN & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
4289	U52190TG2014PTC095236	AARES COMTRADE & IMPEX PRIVATE LIMITED
4290	U74900TG2014PTC095237	CHISHTI MALANGEE INDIA PRIVATE LIMITED
4291	U40108TG2014PTC095240	BLUE SAGE ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4292	U74900TG2014PTC095254	OARS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
4293	U67190TG2014PTC095259	NIHAL WEALTH CREATORS PRIVATE LIMITED
4294	U72200TG2014PTC095261	LEMON IT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4295	U72900TG2014PTC095263	JAASS E-COMMERCE INDIA PRIVATE LIMITED
4296	U45200TG2014PTC095264	AKSHAYAZEN GLOBAL INFRATECH PRIVATE LIMITED
4297	U72200TG2014PTC095265	REDCHIP INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
4298	U74900TG2014PTC095274	AS TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
4299	U72200TG2014PTC095275	FRUITION IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4300	U74200TG2014PTC095276	PULINATT NAVYYA AIRTECH PRIVATE LIMITED
4301	U72200TG2014PTC095277	ESREKHAA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4302	U52399TG2014PTC095279	DILEEPARUN IMPEX PRIVATE LIMITED
4303	U60230TG2014PTC095280	SRITHYA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
4304	U72200TG2014OPC095281	TECHSYS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4305	U72200TG2014PTC095284	AKSHARA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4306	U74140TG2014PTC095285	AVISO OVERSEAS CONSULTING PRIVATE LIMITED
4307	U74900TG2014PTC095289	RED MAMMOTH STUDIOS PRIVATE LIMITED
4308	U45200TG2014PTC095293	NAVATHA INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
4309	U50401TG2014PTC095298	SRI KAKATIYA MOTORS PRIVATE LIMITED
4310	U74900TG2014PTC095302	TELANGANA CHANNEL 5 DIGITAL SERVICES PVT LTD
4311	U72200TG2014PLC095304	SAI BHAVANA INFORMATION TECHNOLOGY INDIA LIMITED
4312	U01403TG2014PTC095307	SAHASRA REDSANDALWOOD FARMS PRIVATE LIMITED
4313	U72200TG2014PTC095308	SMAC IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4314	U74300TG2014PTC095313	ADCOM COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4315	U24100TG2014PTC095319	NEOFINE CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
4316	U74900TG2014PTC095322	GREEN BELL MULTIVENTURES PRIVATE LIMITED
4317	U74900TG2014PTC095323	SPECTRUM RISK ADVISORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
4318	U31908TG2014PTC095324	AKELLA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4319	U72200TG2014PTC095328	GLUON SCIENCES PRIVATE LIMITED
4320	U63000TG2014PTC095334	PRIKI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
4321	U45400TG2014PTC095340	VURAM INFRA PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
4322	U45200TG2014PTC095341	SVS AVENUES PRIVATE LIMITED
4323	U74140TG2014PTC095342	PALETTE BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED
4324	U50200TG2014PTC095347	VR REAL BUY DEALINGS PRIVATE LIMITED
4325	U74900TG2014PTC095353	ONE WORLD E-WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
4326	U72200TG2014PTC095356	YELLOWBEE SOFTWARE CONSULTING PRIVATE LIMITED
4327	U74900TG2014PTC095358	LRS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
4328	U74999TG2014PTC095367	ZITI COMFORT FOODS PRIVATE LIMITED
4329	U74900TG2014PTC095372	KONA IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
4330	U74900TG2014PTC095373	VELOX ROYAL SERVICES PRIVATE LIMITED
4331	U01200TG2014PTC095377	SAMANVI AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4332	U72200TG2014PTC095379	COOS IT SERVICES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4333	U74900TG2014PTC095381	GSM EMPIRE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
4334	U72200TG2014PTC095387	ACTIOUS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4335	U15400TG2014PTC095389	KRISHNA FRESH & TASTY FOODS PRIVATE LIMITED
4336	U15490TG2014PTC095391	AMBATI FOODS AND BAKERS PRIVATE LIMITED
4337	U72300TG2014PTC095394	PROVENTUS SOFTWARES PRIVATE LIMITED
4338	U65992TG2014PTC095398	SRI ADI BALAJI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
4339	U72200TG2014PTC095401	DWARAKA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4340	U74900TG2014PTC095402	ZEPHYR FINMAN SERVICES PRIVATE LIMITED
4341	U74900TG2014PTC095405	CAREERCANNON HR CONSULTING PRIVATE LIMITED
4342	U72200TG2014PTC095406	ALIENS INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4343	U67100TG2014PTC095407	SREE RAKSHA CHITS (HYD) PRIVATE LIMITED
4344	U50102TG2014PTC095412	TIRUMALA MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED
4345	U74900TG2014PTC095414	SINGAPORE RESORTS & HOSPITALITY SERVICES PVT LTD
4346	U74900TG2014PTC095421	RETAILMAX CONCEPTS PRIVATE LIMITED
4347	U01400TG2014PTC095422	SOHARAB AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
4348	U32300TG2014PTC095429	QCOM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
4349	U72200TG2014OPC095430	PNR IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
4350	U22219TG2014PTC095436	SEVEN KREATIONS ADS MEDIA PRIVATE LIMITED
4351	U36101TG2014PTC095438	MALVIYA FURNITARTS SERVICES PRIVATE LIMITED
4352	U74900TG2014PTC095439	MOHANARAAGA EVENTS & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
4353	U74900TG2014PTC095442	PRO MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
4354	U80902TG2014PTC095444	CHAKRAVARTHY EDUCON PRIVATE LIMITED
4355	U72200TG2014PTC095446	LIAISON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4356	U85195TG2014PTC095451	PRAKRUTHI WELLNESS PRODUCTS MARKETING PRIVATE LIMITED
4357	U74900TG2014PTC095454	SRI VIDYA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4358	U74140TG2014PTC095457	NPS SERVICES PRIVATE LIMITED
4359	U72200TG2014PTC095458	PANOPTICON SOFTWARE PRIVATE LIMITED
4360	U45200TG2014PTC095460	SRI VIJAYA CHAITANYA INFRA PRIVATE LIMITED
4361	U72200TG2014PTC095470	XZYLE INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN	Company Name
4362	U51900TG2014PTC095475	LIVING PROOF EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
4363	U74900TG2014PTC095478	TAMKEEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4364	U74900TG2014PTC095480	SVC ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
4365	U72200TG2014PTC095481	LOGZERO IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

RAMESH CHANDRA MISHRA
Registrar Of Companies
Hyderabad
Andhra Pradesh and Telangana

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंगो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI
DHAR DUBEY

Digitally signed by
BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2018.11.24
12:27:32 +05'30'